

# राज्य सभा

सदस्यों के जीवन-वृत्त  
1952—1990



सत्यमेव जयते

राज्य सभा सचिवालय  
नई दिल्ली  
1991

---

महामाचल, राजु सभा द्वारा प्रकाशित तथा भारत सरकार मुद्रणालय, फोटोलिथो एकक, मलुदु रोड, नई दिल्ली में फोटोटाइपमेंट कलुा गया और प्रबन्धक, भारत सरकार फोटोलिथो प्रेस, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित ।

मई, 1952 में राज्य सभा के अस्तित्व में आने के बाद, राज्य सभा के सदस्यों के संक्षिप्त जीवन वृत्त का यह ग्रन्थ उस समय प्रकाशित किया जा रहा है जबकि राज्य सभा अपने पाचवे दशक में प्रवेश करने वाली है।

राज्य सभा की यह विशेषता है कि यह सभा निरन्तर बनी रहती है—उसे कभी भंग नहीं किया जाता बल्कि निर्धारित अवधि के बाद इसमें आंशिक रूप से नये सदस्य आते रहते हैं। इस प्रकार हमारी ससदीय लोकतंत्र पद्धति के इस महत्वपूर्ण निकाय में निरन्तरता अतर्निहित है।

डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डा० जाकिर हुसैन, श्री वराहगिरि वेकट गिरि, श्री गोपाल स्वरूप पाठक, श्री बासप्पा दानप्पा जत्ती, श्री मोहम्मद हिदायतुल्लाह, श्री रामास्वामी वेकटरामन् जैसे मेरे पूर्ववर्ती महानुभावों ने राज्य सभा की कार्यवाही का मार्गदर्शन किया तथा परिपाटियों और परंपराओं को स्थापित करने में सहायता की। उन्हीं के द्वारा विकसित प्रक्रियाओं से आज राज्य सभा का कार्य संचालन होता है।

महान प्रतिभा सपन्न जन राज्य सभा के सदस्य रहे हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता की उपलब्धियों को सम्पुष्ट तथा उनका सुविस्तार करने में अमूल्य योगदान दिया है। उनके नामों तथा उनके कार्यों का संक्षिप्त उल्लेख मात्र भी एक अभिनन्दन ग्रन्थ का स्वरूप ग्रहण कर लेता है।

राज्य सभा के सभापति और सदस्य मिलकर प्रतिभा का एक समुच्चय बन जाते हैं जो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और एक अच्छे विश्व के निर्माण के प्रति समर्पित हैं।

इस पुस्तक में ऐतिहासिक तथा इस सतत प्रयास में रत सभी सदस्यों के जीवन-वृत्त दिये गये हैं।

मुझे प्रसन्नता है कि राज्य सभा सचिवालय ने बड़े परिश्रम से 1952 से लेकर 1990 तक के राज्य सभा के सभी सदस्यों के जीवन-वृत्तों सबधी ब्यौरे को एक सुविधाजनक पुस्तक के रूप में संकलित किया है। अभिलेख तथा सदर्थ हेतु उपयोगी यह ग्रन्थ हमारी प्रशंसा तथा सराहना का पात्र है।

नई दिल्ली

30 अप्रैल, 1991

शकर दयाल शर्मा

(शकर दयाल शर्मा)

भारत के उपराष्ट्रपति  
और राज्य सभा के  
सभापति

## प्रस्तावना

भारत का संविधान लागू होने के पश्चात् 3 अप्रैल, 1952 को "काउंसिल ऑफ स्टेट्स" का गठन किया गया, जिसे अब राज्य सभा कहा जाता है। इसकी पहली बैठक 13 मई, 1952 को हुई थी। तब इसमें 216 सदस्य थे जिनमें से 12 नाम-निर्देशित थे। पहली बैठक में प्रमुख रूप से संविधान के उपबंधों के अनुसार चुने गये सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान किया गया था। उस प्रथम सत्र के पहले दिन तथा उसके बाद के दिनों में जिन सदस्यों ने शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान किया था उनमें श्री एन० गोपालस्वामी अयंगर, श्रीमती वॉयलेट आल्वा, डा० वी० आर० अम्बेडकर, श्री आर० आर० दिवाकर, श्री बाल गंगाधर खेर, डा० वी० पट्टाभि सीतारमैया, प्रो० एन० जी० रंगा, डा० हृदय नाथ कुजूरु, श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्री भूपेश गुप्त, श्री अलादी कृष्णस्वामी, प्रो० मत्येन्द्रनाथ बोस, श्री जे० एम० कुमारप्पा, डा० कालीदास नाग, श्री काकासाहेब कालेलकर, श्री मैथिलीशरण गुप्त, श्री पृथ्वीराज कपूर, डा० राधा कुमुद मुखर्जी, श्रीमती रूक्मिणी देवी अरुण्डेल, आचार्य नरेन्द्र देव, डा० ए० रामास्वामी मुदलियार जैसे विख्यात महानुभाव थे। निस्संदेह यह महान व्यक्तियों का समुच्चय है। इसके बाद से राज्य सभा देश में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से आये अनेक विशिष्ट सदस्यों द्वारा सुशोभित होती रही है।

इन श्रेष्ठ सदस्यों के अलावा अनेक लघु प्रतिष्ठित व्यक्ति राज्य सभा के सभापति हुये जिन्होंने इस सभा को गरिमा प्रदान की। महान दार्शनिक डा० एस० राधाकृष्णन, राज्य सभा के प्रथम सभापति थे। उनके बाद विख्यात शिक्षाविद् डा० जाकिर हुसेन, महान श्रमिक नेता श्री वी० वी० गिरि, विधिवेत्ता श्री गोपाल स्वरूप पाठक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता श्री वी० डी० जत्ती, भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री एम० हिदायतुल्लाह तथा योग्य एवं अनुभवी प्रशासक तथा वर्तमान में राष्ट्रपति श्री आर० चंकरामन् ने इस पद को सुशोभित किया। इस समय डा० शंकर दयाल शर्मा इस पद पर आसीन हैं जो प्रख्यात विद्वान हैं और विधायक के रूप में उनका लम्बा अनुभव है।

राज्य सभा एक स्थायी निकाय है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। तथापि हर दो वर्ष के बाद इसके एक तिहाई सदस्य निवृत्त हो जाते हैं तथा उनके स्थान पर उतने ही नये सदस्य आ जाते हैं। हर दो वर्ष बाद राज्य सभा सचिवालय "सदस्य-परिचय" पुस्तक का प्रकाशन करता रहा है जिसमें राज्य सभा के सदस्यों से मिली जानकारी के आधार पर उनका जीवन-वृत्त दिया जाता है। "सदस्य-परिचय" पुस्तक का बीसवा सस्करण अगस्त, 1990 में प्रकाशित किया गया। 1952 से 1990 तक लगभग 1400 व्यक्ति राज्य सभा के सदस्य रहे हैं।

राज्य सभा के माननीय सभापति डा० शंकर दयाल शर्मा ने सुझाव दिया था कि हमें 1952 से लेकर अब तक के सभी सदस्यों का संक्षिप्त जीवन-परिचय देते हुए समेकित रूप में एक विशेष ग्रंथ प्रकाशित करना चाहिए। राज्य सभा की सामान्य प्रयोजन समिति ने 7 मार्च, 1989 को हुई अपनी बैठक में इस सुझाव को अपनी स्वीकृति दी। अतः यह ग्रंथ प्रकाशित किया जा रहा है।

इस ग्रंथ में जिन जीवन-वृत्तों को शामिल किया गया है वे प्रमुख रूप से राज्य सभा द्वारा प्रकाशित "सदस्य-परिचय" पुस्तक के द्विवार्षिक संस्करणों में प्रकाशित जानकारी पर आधारित हैं



तथा दिसम्बर, 1990 की स्थिति के अनुसार हैं। इस ग्रथ का सकलन करते समय सदस्यों के ससदीय, विधायी और साहित्यिक जीवन, उनकी शैक्षणिक योग्यताओं तथा रुचि के क्षेत्र में अन्य उपलब्धियों पर बल दिया गया है। जिन सदस्यों का जीवन-वृत्त उनकी सदस्यता की अल्पावधि के कारण उपलब्ध नहीं है अथवा जिन्होंने सगत “सदस्य-परिचय” पुस्तक में शामिल किये जाने हेतु आवश्यक जानकारी नहीं दी थी उनके केवल नाम और राज्य सभा की सदस्यता की अवधि ही दी गई है। उनके सबंध में अन्य किसी विवरण का उल्लेख नहीं किया जा सका है। राज्य सभा की अद्यतन सगत “सदस्य-परिचय” पुस्तक में दी गई जानकारी के अनुसार सदस्यों के दलों और राज्यों को दर्शाया गया है जिनका उन्होंने राज्य सभा में प्रतिनिधित्व किया। इस ग्रथ में सदस्यों की राज्य सभा की सदस्यता समाप्त होने के बाद उनकी जीवन-वृत्ति में हुए परिवर्तनों जैसे, किसी राज्य का राज्यपाल, लोक सभा या राज्य विधान सभा का सदस्य और राज्य स्तर पर मंत्री आदि होने का उल्लेख नहीं किया गया है। किन्तु जो सदस्य अपनी राज्य सभा की सदस्यता समाप्त होने के बाद भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री या लोक सभा के अध्यक्ष पद तक पहुँचे हैं या जिन्होंने भारत रत्न जैसे सम्मान प्राप्त किये हैं उनके जीवन वृत्त में इन बातों का उल्लेख कर दिया गया है। स्थानाभाव के कारण सदस्यों द्वारा लिखी गई पुस्तकों का सामान्य रूप से उल्लेख किया गया है और केवल इतना ही बताया गया है कि उन्होंने “कुछ पुस्तकें”, “अनेक पुस्तकें” या “बड़ी संख्या में पुस्तकें” लिखी हैं। राज्य सभा के वर्तमान सदस्यों के नामों को तारांकित(\*) किया गया है। इस ग्रथ का सकलन करते समय दिवगत सदस्यों के मामले में सचिवालय में प्राप्त जानकारी के आधार पर सभा में उन्हे दी गई श्रद्धाजलि की तारीख और केवल कुछ मामलों में उनके निधन की तारीख दी गई है।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि इस ग्रथ के प्रकाशन का उद्देश्य राज्य सभा के निवृत्त और वर्तमान सदस्यों के जीवन-वृत्त सबंधी आवश्यक न्यूनतम विवरण देना है तथा किसी भी सदस्य से सबंधित विस्तृत जानकारी के लिये राज्य सभा की उस सबद्ध “सदस्य-परिचय” पुस्तक को देखा जा सकता है जो उस सदस्य की समयावधि के दौरान प्रकाशित हुई है।

भारत के उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के माननीय सभापति डा० शंकर दयाल शर्मा ने ही हमें इस कार्य को संपन्न करने की प्रेरणा दी। इस प्रयास में उनके मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिये हम उनके आभारी हैं।

राज्य सभा के गठन से लेकर अब तक सभा के सभी सदस्यों के जीवन-वृत्तों सबंधी विवरण को एक ग्रथ के रूप में प्रकाशित किये जाने का यह प्रथम प्रयास है। पूरी सावधानी बरतने के बावजूद इस बात की संभावना है कि अनजाने में कुछ त्रुटियाँ रह गई हों। यदि इन त्रुटियों को हमारे ध्यान में लाया जाये तो सचिवालय इसके लिये आभारी होगा और अगले संस्करण में इन्हे ठीक कर दिया जायेगा। ग्रथ में सुधार के सुझावों का हम स्वागत करेंगे।

सुदर्शन अग्रवाल,  
महासचिव।

## विषय-सूची

|                             | पृष्ठ   |
|-----------------------------|---------|
| 1 प्राकथन                   | i       |
| 2 प्रस्तावना                | iii-iv  |
| 3 संकेत सूची                | vii     |
| 4 सभापतियों के जीवन-वृत्त   | 1—4     |
| 5 उपसभापतियों के जीवन-वृत्त | 7—8     |
| 6 महासचिवों के जीवन-वृत्त   | 11      |
| 7 सदस्यों के जीवन-वृत्त     | 15—252  |
| वर्णानुक्रम सूची            | 255—293 |

## सकेत सूची

अ० भा० अ० द्र० मु० क०  
 अ० भा० का० स०  
 ए० आई० टी० यू० सी०  
 ए० आई० मी० मी० (आई)  
 जे० डी०/ज० द०  
 डी० एम० के० }  
 द्र० मु० क० }  
 प्र० सो० पा० }  
 पी० एस० पी० }  
 भा० लो० द० }  
 वी० एल० डी० }  
 भा० ज० पा०  
 भा० सा० द० }  
 सी० पी० आई० }  
 सी० पी० आई० (एम०) }  
 भा० सा० द० (मा०) }

अखिल भारतीय अन्ना द्रविड मुनेत्र कण्णम  
 अखिल भारतीय काग्रेस समिति  
 ऑल इडिया ट्रेड यूनियन काग्रेस  
 ऑल इडिया काग्रेस कमेटी (आई)  
 जनता दल  
 द्रविड मुनेत्र कण्णम  
 प्रजा सोशलिस्ट पार्टी  
 भारतीय लोक दल  
 भारतीय जनता पार्टी  
 भारतीय साम्यवादी दल  
 भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी)

---

---

सभापतियों  
के  
जीवन-वृत्त

---

---

गिरि, श्री बराहगिरि वेकट . वैरिस्टर-एट-लॉ, डी० लिट्० (सम्मानार्थ) (बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और आन्ध्र विश्वविद्यालय), एलएल० डी० (सम्मानार्थ) (आगरा विश्वविद्यालय), श्री जोगिह पन्तुलु के आत्मज, जन्म 10 अगस्त, 1894, विवाह श्रीमती सरस्वती बाई गिरि से, 4 पुत्र और 7 पुत्रिया, सदस्य, (1) केन्द्रीय विधान सभा, 1934—37 और (2) मद्रास विधान सभा, 1937—39 और 1946-47, मद्रास सरकार में श्रम, उद्योग, सहयोग और वाणिज्य विभागों के मंत्री, 1937—39 और 1946-47, सीलोन में भारत के उच्चायुक्त, 1947—51, सदस्य, लोक सभा, 1952—57, केन्द्रीय श्रम मंत्री, 1952—54, राज्यपाल, (1) उत्तर प्रदेश, 1957—60, (2) केरल, 1960—65 और (3) मैसूर, 1965—67, भारत के उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के पदेन सभापति, 13-5-1967 से 3-5-1969, कार्यवाहक राष्ट्रपति, 3-5-1969 से 19-7-1969, भारत के राष्ट्रपति, 24-8-1969 से 23-8-1974, 'भारत-रत्न' से सम्मानित, 1975, दिवगत । श्रद्धाजलि—24-6-1980 ।

पाठक, श्री गोपाल स्वरूप . एम० ए०, एलएल० बी०, पंडित कृष्ण स्वरूप पाठक के आत्मज, जन्म 26 फरवरी, 1896, विवाह श्रीमती प्रकाशवती से, 3 पुत्र और 3 पुत्रिया, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय—1945-46, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1960 से 2-4-1964 और 3-4-1966 से 13-5-1967, केन्द्रीय विधि मंत्री, 1966-67, मैसूर राज्य के राज्यपाल, 13-5-1967 से 31-8-1969, कुलाधिपति, (1) मैसूर विश्वविद्यालय, (2) बगलौर विश्वविद्यालय और (3) कर्णाटक विश्वविद्यालय, भारत के उपराष्ट्रपति तथा राज्य सभा के पदेन सभापति, 31-8-1969 से 30-8-1974, दिवगत । श्रद्धाजलि—4-10-1982 ।

जत्ती, श्री बासप्पा दानप्पा . बी० ए०, एलएल० बी०, श्री दानप्पा जत्ती के आत्मज, जन्म 10 जनवरी, 1912, विवाह श्रीमती सगम्मा बी० जत्ती से, 3 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, पूर्ववर्ती जामखण्डी रियासत के विधान मंडल, तीन वर्षों तक जामखण्डी राज्य के मुख्यमंत्री रहे, सदस्य, पूर्ववर्ती बम्बई विधान सभा, बम्बई राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के ससदीय सचिव रहे और स्वास्थ्य और श्रम विभाग के मंत्री रहे, सदस्य, पूर्ववर्ती मैसूर राज्य विधान सभा, 1956 और 1967, मैसूर राज्य सरकार के वित्त और खाद्य मंत्री तथा मुख्यमंत्री, 1958—66, अध्यक्ष, भूमि सुधार समिति, मैसूर राज्य, उपराज्यपाल, पांडिचेरी, 1968—72, राज्यपाल, उड़ीसा, 1972—74, भारत के उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के पदेन सभापति, 31-8-1974 से 30-8-1979, कार्यवाहक राष्ट्रपति, 12-2-1977 से 24-7-1977 ।

स्थायी पता 224, वेलारी रोड, बगलौर (कर्णाटक) ।

हिदायतुल्लाह, श्री मोहम्मद एम० ए०, बैरिस्टर-एट-लॉ, एलएल० डी० (सम्मानार्थ) (फिलिपाइन्स विश्वविद्यालय), डी० लिट० (सम्मानार्थ) (भोपाल तथा काकतिया विश्वविद्यालय), एडवोकेट जनरल, मध्य प्रान्त, वरार, 1943—46, अवर न्यायाधीश, 1946—54 तथा मुख्य न्यायाधिपति, नागपुर उच्च न्यायालय, 1954—56, मुख्य न्यायाधिपति, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, 1956—58, अवर न्यायाधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय, 1958—68, भारत के मुख्य न्यायाधिपति, 1968—70, अध्यक्ष, (1) भारतीय विधि संस्थान, 1968—70, (2) अन्तर्राष्ट्रीय विधि सघ (भारतीय शाखा), 1968—70, (3) इंडियन सोसायटी ऑफ इटरनेशनल लॉ, 1968—70 और (4) इंडियन रैड क्रॉस सोसायटी, 1982, लेखक, (1) डेमोक्रेसी इन इण्डिया एण्ड जुडिशियल प्रोसेस, (2) द साउथ वेस्ट अफ्रीका केस, (3) जुडिशियल मेथड्स, (4) ए जजेज मिसलेनी, (5) यू० एस० ए० एण्ड इण्डिया, (6) ए जजेज मिसलेनी (सेकिंड सीरीज), (7) द फिफथ एण्ड सिक्सथ शेड्यूल्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इण्डिया, (8) माई ओन बोसवेल (आत्मकथा) तथा (9) सम्पादक, मुल्लाज मोहम्मडन लॉ एण्ड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आफ इण्डिया, सम्मान, (1) आर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, 1946, (2) आर्डर ऑफ यूगोस्लाव फ्लैग विद सैश, 1970, (3) मेडेलियन एण्ड प्लेक ऑफ मैरिट फिलकोसा, मनीला, 1970 तथा (4) नाइट ऑफ मार्क ट्वेन, 1971, 31-8-1979 से 30-8-1984 तक भारत के उपराष्ट्रपति तथा राज्य सभा के पदेन सभापति, 20-7-1969 से 23-8-1969 तथा 6-10-1982 से 31-10-1982 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे।

स्थायी पता - ए-10, रॉकसाइड रोड, 112, बलकेश्वर, मुम्बई (महाराष्ट्र)।

वेंकटरामन्, श्री आर० एम० ए०, वी० एल०, विधि वारिधि (सम्मानार्थ) (मद्रास, नागार्जुन और बर्दवान विश्वविद्यालय), सामाजिक विज्ञान में वाचस्पति (रूडकी विश्वविद्यालय), श्री के० रामास्वामी अय्यर के आत्मज, जन्म 4 दिसम्बर, 1910, विवाह श्रीमती जानकी वेंकटरामन् से, तीन पुत्रिया, सदस्य, (1) अन्तरिम ससद, 1950—52 और (2) लोक सभा, 1952—57, 1977—79 और 1980—84, वित्त और रक्षा मंत्रालयो में केन्द्रीय मंत्री, 1980—84, अध्यक्ष, लोक लेखा समिति, लोक सभा, सदस्य, मद्रास विधान परिषद्, 1957—62 और 1962—67, मद्रास सरकार में उद्योग, श्रम, सहकारिता, ऊर्जा और परिवहन मंत्रालयो में मंत्री, 1957—67, सभा के नेता, मद्रास विधान परिषद्, 1957—67, सदस्य, योजना आयोग, 1967—71, सदस्य, संयुक्त राष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण, 1955—79 और उसके अध्यक्ष, 1968—79, चेयरमैन और अध्यक्ष, (1) अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिये जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार की जूरी, (2) शान्ति निरस्त्रीकरण और विकास के लिये इंदिरा गांधी पुरस्कार की जूरी, (3) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् और (4) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, सम्मानित, (1) स्वतंत्रता सग्राम में भाग लेने के लिये ताम्र पत्र, (2) श्री के० कामराज की समाजवादी देशो की यात्रा के सबंध में यात्रा वृत्त लिखने के लिये सोवियत पुरस्कार, (3) संयुक्त राष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में विशिष्ट सेवा के लिये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा स्मारिका और (4) कांची कामकोटि पीठ के परमपावन शंकराचार्य द्वारा 'सत सेवा रत्न', भारत के उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के पदेन सभापति, 31-8-1984 से 24-7-1987, भारत के राष्ट्रपति, 25-7-1987 से अद्यपर्यन्त।

पता राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।

शर्मा, डा० शंकर दयाल • एम० ए०, एलएल० एम०, पीएच० डी० (कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय), लोक प्रशासन में डिप्लोमा (लन्दन), बॉर-एट-लॉ, (लिकन्स इन), फैलो, हॉरवर्ड लॉ स्कूल, ज्यूरिक विश्वविद्यालय और पेरिस विश्वविद्यालय, डाक्टरेट आफ लॉ (सम्मानार्थ) विक्रम, भोपाल, आगरा, श्री वेंकटेश्वर, तिरुपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय और मारीशिस, पण्डित खुशीलाल शर्मा वैद्य शास्त्री के आत्मज, जन्म 19 अगस्त, 1918, विवाह श्रीमती विमला शर्मा से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, भोपाल विधान सभा, 1952—56, पूर्ववर्ती भोपाल राज्य के मुख्य मंत्री, 1952—56, सदस्य, मध्य प्रदेश विधान सभा, 1956—71, मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार, 1956—67, सदस्य, लोक सभा, 1971—77 और 1980—84, केन्द्रीय सचार मंत्री, 1974—77, राज्यपाल, (1) आन्ध्र प्रदेश, 1984-85, (2) पंजाब, 1985-86 और (3) महाराष्ट्र, 1986-87, चेरमैन, (1) अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अभिनिर्णायक मण्डल, (2) शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इन्दिरा गांधी-पुरस्कार के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अभिनिर्णायक मण्डल, (3) डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन् शताब्दी समारोहों की राष्ट्रीय समिति और (4) श्री के० एम० मुन्शी शताब्दी समारोहों की राष्ट्रीय समिति, समाज सेवा के लिए चक्रवर्ती स्वर्ण पदक से सम्मानित, लेखक, (1) कांग्रेस एप्रोच टू इन्टरनेशनल अफेयर्स, (2) स्टडीज इन इण्डो-सोवियत को-ऑपरेशन, (3) रूल ऑफ लॉ एण्ड रोल ऑफ पुलिस, (4) रीडिंग्स इन इण्डो-सोवियत फ्रेंडशिप एण्ड को-ऑपरेशन, (5) जवाहरलाल नेहरू द मेकर ऑफ माडर्न कॉमनवैल्य, (6) जवाहरलाल नेहरू-सिलेक्टड स्पीचिज और (7) एमिनेन्ट इंडियन्स, भारत के उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के पदेन सभापति, 3-9-1987 से अद्यपर्यन्त।

पता • उपराष्ट्रपति निवास, 6, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली।

---

---

उपसभापतियों  
के  
जीवन-वृत्त

---

---



**\*\*राव, श्री एस० वी० कृष्णामूर्ति . वी० एससी०, एलएल० वी०, कांग्रेस (मैसूर अव कर्णाटक), श्री एस० वदिराजा चार के आत्मज, जन्म 15 नवम्बर, 1902, विवाह श्रीमती श्यामल बाई से, 1 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) मैसूर प्रतिनिधि सभा, 1945—49 और (2) सविधान सभा, 1947—50, अन्त कालीन समद मे सभापति पैनल के सदस्य, 1950—52, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956 और 3-4-1956 से 1-3-1962, राज्य सभा के उपसभापति, 31-5-1952 से 1-3-1962, दिवगत। श्रद्धाजलि—18-11-1968।**

**\*\*आल्वा, श्रीमती वायलेट एम० ए०, एलएल० वी०, कांग्रेस (मैसूर अव कर्णाटक), जन्म 24 अप्रैल, 1908, विवाह श्री जोआचिम आल्वा से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1) तत्कालीन बम्बई विधान परिषद, 1947—52 और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1960, 3-4-1960 से 2-4-1966 और 3-4-1966 से 20-11-1969, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1953-54, केन्द्रीय गृह उपमन्त्री, 1957—62, राज्य सभा की उपसभापति, 1962—66 और 1966—69, दिवगत। श्रद्धाजलि—20-11-1969।**

**\*\*खोबरागडे, श्री भाऊराव देवाजी . वी० ए०, वैरिस्टर-एट-लॉ, आर० पी० आई० (खोबरागडे) (महाराष्ट्र), श्री देवाजी खोबरागडे के आत्मज, जन्म 25 सितम्बर, 1925, विवाह श्रीमती इन्दुमती से, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1958 से 2-4-1964, 3-4-1966 से 2-4-1972 और 3-4-1978 से 2-4-1984, राज्य सभा के उपसभापति, 17 दिसम्बर, 1969 से 1 अप्रैल, 1972, दिवगत। श्रद्धाजलि—23-4-1984।**

**\*\*मुराहरि, श्री गोडे . निर्दलीय (उत्तर प्रदेश), श्री जी० गगराजू के आत्मज, जन्म 20 मई, 1926, अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1962 से 2-4-1968, 3-4-1968 से 2-4-1974 और 3-4-1974 से 20-3-1977, राज्य सभा के उपसभापति, 13-4-1972 से 2-4-1974 और 26-4-1974 से 20-3-1977, दिवगत। श्रद्धाजलि—6-8-1982।**

**\*\*मिर्धा, श्री रामनिवास . एम० ए० (राजनीति शास्त्र), एलएल० वी०, कांग्रेस (आई) (राजस्थान), श्री बलदेव राम मिर्धा के आत्मज, जन्म 24 अगस्त, 1924, विवाह श्रीमती इन्दिरा मिर्धा से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राजस्थान विधान सभा, 1954—57, मंत्री, राजस्थान सरकार, 1954—57, अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा, 1957—67, सदस्य, राज्य सभा, 4-5-1967 से 2-4-1968, 3-4-1968 से 2-4-1974, 3-4-1974 से 2-4-1980 और 5-7-1980 से 29-12-1984, गृह, रक्षा, आपूर्ति और पुनर्वास, सिचाई और विदेश मन्त्रालयों में केन्द्रीय राज्य मंत्री, 1970—77 और 1983-84, राज्य सभा के उपसभापति, मार्च, 1977 से अप्रैल, 1980।**

**स्थायी पता गाव कुचेण, जिला नागौर (राजस्थान)।**

**\*\*यादव, श्री श्याम लाल . एम० ए०, एलएल० वी०, कांग्रेस (आई) (उत्तर प्रदेश), श्री बालकृष्ण के आत्मज, जन्म 12 सितम्बर, 1927, विवाह श्रीमती जानकी देवी से, 5 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1957—62 और 1967-68, मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, अप्रैल, 1967 से फरवरी, 1968, सदस्य, राज्य सभा, 30-3-1970 से 2-4-1976, 3-4-1976 से 2-4-1982 और 3-4-1982 से 29-12-1984, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1977—79, राज्य सभा के उपसभापति, जुलाई, 1980 से दिसम्बर, 1984।**

**स्थायी पता सी-27/137-6, रामपुरी, जगतगज, वाणसी (उत्तर प्रदेश)।**

**\*\*जेकब श्री एम० एम० . एम० ए०, एलएल० बी०, आयकर कानून में डिप्लोमा और सामाजिक विज्ञान में प्रमाणपत्र, कांग्रेस (आई) (केरल), श्री मैथ्यू के आत्मज, जन्म 9 अगस्त, 1928, विवाह श्रीमती अचम्मा से, 4 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 2-7-1982 से 1-7-1988 और 2-7-1988 से अद्यपर्यन्त, जल ससाधन मंत्रालय और ससदीय कार्य मंत्रालय में केन्द्रीय राज्य मंत्री, अक्टूबर, 1986 से नवम्बर, 1989, राज्य सभा के उपसभापति, 22-2-1986 से 21-10-1986।**

**स्थायी पता : आई-1, जवाहर नगर, त्रिवेन्द्रम (केरल)।**

**\*\*पाटील, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह : एम० ए०, एलएल० बी०, कांग्रेस (आई) (महाराष्ट्र), श्री नारायणराव की आत्मजा, जन्म 19 दिसम्बर, 1934, विवाह श्री देवीसिंह रामसिंह शोखावत से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, महाराष्ट्र विधान सभा, 1962—85, उपमन्त्री/मन्त्री, महाराष्ट्र सरकार, 1967-68 और 1982—85, विपक्ष की नेता, महाराष्ट्र विधान सभा, जुलाई, 1979 से फरवरी, 1980, सदस्य, राज्य सभा, 5-7-1985 से 2-4-1990, राज्य सभा की उपसभापति, 18-11-1986 से 5-11-1988।**

**स्थायी पता : 84, राजुल-बी अपार्टमेन्ट्स, 9, हार्कनेस रोड, मालाबार हिल, बम्बई (महाराष्ट्र)।**

**\*\*हेपतुल्ला, डा० (श्रीमती) नजमा . एम० एससी० (प्राणि विज्ञान), पीएच० डी० (हृदय संरचना), कांग्रेस (आई) (महाराष्ट्र), श्री सैयद यूसुफ अली की आत्मजा, जन्म 13 अप्रैल, 1940, विवाह श्री अकबर हेपतुल्ला से, 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 5-7-1980 से 4-7-1986 और 5-7-1986 से अद्यपर्यन्त, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1982—84, राज्य सभा की उपसभापति, जनवरी, 1985 से जनवरी, 1986 और नवम्बर, 1988 से अद्यपर्यन्त।**

**स्थायी पता . हेपतुल्ला पार्क, 2, हसनाबाद रोड, सान्ता क्रुज (पश्चिमी), बम्बई-400054 (महाराष्ट्र)।**

**\*\*कृपया सदस्य का जीवन-वृत्त भी देखें।**

---

---

महासचिवों  
के  
जीवन-वृत्त

---

---

मुकर्जी, श्री एस० एन० एम० ए०, बी० एल०, श्री सुरेन्द्र नाथ मुकर्जी के आत्मज, जन्म 2 मई, 1898, विवाह श्रीमती अशोका मुकर्जी से, एक पुत्र, प्रमुख प्रारूपकार, भारत सरकार, स्वतन्त्र भारत के सविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए भारत की सविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार, सचिव, राज्य सभा, 13-5-1952 से 8-10-1963, पद्म भूषण से सम्मानित, 1962, दिवगत। श्रद्धाजलि—18-11-1963।

वनर्जी, श्री बी० एन०. बी० एससी० (कलकत्ता), एलएल० बी० (कलकत्ता), एलएल० एम० (लंदन), बार-एट-लॉ, श्री यू० एन० वनर्जी के आत्मज, जन्म 8 जनवरी, 1916, विवाह श्रीमती तूलिका वनर्जी से, 2 पुत्रिया, सदस्य, बंगाल न्यायिक सेवा, 1942—50, सहायक सालिसिटर, विधि मंत्रालय, भारत सरकार, 1950—52, लन्दन में भारत के उच्चायुक्त के विधिक सलाहकार, 1953—55, उपसचिव, विधि मंत्रालय, 1956, उपसचिव/सयुक्त सचिव, राज्य सभा सचिवालय, 15-5-1956 से 8-10-1963, सचिव/महासचिव, राज्य सभा, 9-10-1963 से 31-3-1976, नाम-निर्देशित सदस्य, राज्य सभा, 1976—82।

स्थायी पता 22/1/1/3, मनोहरपुकर रोड, कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)।

भालेराव, श्री एस० एस० एम० ए०, एलएल० एम०, श्री शामराज भालेराव के आत्मज, जन्म 3 अप्रैल, 1921, विवाह श्रीमती श्रीदेवी भालेराव से, 2 पुत्र, हैदराबाद की पूर्वकालिक विधान सभा के सहायक सचिव, सचिव, महाराष्ट्र विधान सभा, उपसचिव/सयुक्त सचिव/अपर सचिव, राज्य सभा सचिवालय, 4-11-1958 से 31-3-1976, महासचिव, राज्य सभा, 1-4-1976 से 30-4-1981।

स्थायी पता राजवन्त, 797/3, भडारकर इन्स्टीट्यूशन रोड, पुणे (महाराष्ट्र)।

अग्रवाल, श्री सुदर्शन बी० ए०, एलएल० बी०, श्री मुनि लाल अग्रवाल के आत्मज, जन्म 19 जून, 1931, विवाह श्रीमती उषा अग्रवाल से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, 1956 में पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) में सम्मिलित हुए और (1) सिविल न्यायाधीश, (2) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, (3) पुनर्वास विभाग में निपटान आयुक्त, (4) श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी और (5) जिला तथा सत्र न्यायाधीश के पदों पर कार्य किया, निदेशक, रोटरि इंटरनेशनल, एशिया जोन-2, 1987-89, उप सचिव/अपर सचिव, राज्य सभा सचिवालय, 2-11-1971 से 30-4-1981, महासचिव, राज्य सभा, 1-5-1981 से अद्यपर्यन्त।

पता ए बी-9, पडारा रोड, नई दिल्ली।

---

---

सदस्यों  
के  
जीवन-वृत्त

---

---

अंतुले, श्री ए० आर० : बी० ए० (ऑनर्स), बार-एट-लॉ, कांग्रेस (आई) (महाराष्ट्र), श्री हाफिज अब्दुल गफूर के आत्मज, जन्म 9 फरवरी, 1929, विवाह श्रीमती नरगिस अंतुले से, 1 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, महाराष्ट्र विधान सभा, 1962—76, महाराष्ट्र राज्य विधान मंडल की विभिन्न समितियों के अध्यक्ष, 1962—69, मंत्री, महाराष्ट्र सरकार, 1969—76, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1976 से 3-7-1980, महासचिव, (1) महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी, 1963—69 और (2) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, 1976-77, तीन पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता : ग्राम अम्बेट, जिला कोलाबा (महाराष्ट्र)।

अंबालगन, श्री पी० : एस० एस० एल० सी०, अखिल भारतीय अन्ना द्रविड मुनेत्र कर्णम (तमिलनाडु), श्री पौत्रैया सरवै के आत्मज, जन्म 2 जून, 1941, विवाह श्रीमती पूमेल से, 3 पुत्र, सदस्य, (1) लोक सभा, 1977—79 और (2) राज्य सभा, 28-7-1980 से 2-4-1984।

स्थायी पता : न० 3, ओल्ड पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, मानामदुरै (तमिलनाडु)।

असारी, श्री मुहम्मद अमीन • आलिम और फाजिल, कांग्रेस (आई) (उत्तर प्रदेश), श्री हाजी अमाउल्लाह के आत्मज, जन्म 27 फरवरी, 1934, विवाह श्रीमती बदरुनीसा से, 3 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1980—85, मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, 1980—85, महासचिव, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (आई), 1979—81, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1988 से 14-7-1990, दिवंगत। श्रद्धाजलि—7-8-1990।

अकर्ते, श्री जगन्नाथ सीतारामजी • बी० ए०, एलएल० बी०, कांग्रेस (आई) (महाराष्ट्र), श्री सीताराम अकर्ते के आत्मज, जन्म 14 सितम्बर, 1906, विवाह श्रीमती शान्ताबाई अकर्ते से, 6 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, (1) महाराष्ट्र विधान परिषद्, 1962—68 और (2) राज्य सभा, 5-7-1980 से 4-7-1986।

स्थायी पता 6/4, शास्त्री नगर, अमरावती कैम्प, जिला अमरावती (महाराष्ट्र)।

अख्तर हुसैन, श्री . एम० ए०, एलएल० बी०, कांग्रेस (उत्तर प्रदेश), श्री सरफराज हुसैन के आत्मज, जन्म 28 नवम्बर, 1900, विवाह श्रीमती सल्मा से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान परिषद्, 1937—52, उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधान परिषद्, 1949—52, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956 और 3-4-1956 से 2-4-1962, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1953-54, दिवंगत। श्रद्धाजलि—27-7-1987।

अग्रवाल, श्री अमर नाथ : कांग्रेस (उत्तर प्रदेश), राय राधारमण के आत्मज, जन्म . 27 सितम्बर, 1904, विवाह श्रीमती स्नेहलता अग्रवाल से, 1 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) उत्तर प्रदेश विधान परिषद्, 1936—52 और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954 और 3-4-1954 से 2-4-1960, दिवंगत। श्रद्धाजलि—20-4-1981।

अग्रवाल, श्री जगन्नाथ प्रसाद · कांग्रेस (उत्तर प्रदेश), श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल के आत्मज, जन्म मार्च, 1902, विवाह श्रीमती पार्वती देवी से, 1 पुत्री, सदस्य, (1) उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1937—52 और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1958 और 3-4-1958 से 2-4-1964, दिवंगत। श्रद्धाजलि—27-12-1990।

अग्रवाल, श्री बेनी प्रसाद · कांग्रेस (पश्चिमी बंगाल), श्री राम कुमार डालमिया के आत्मज, जन्म 1898, विवाह श्रीमती जयादेवी से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1958।

स्थायी पता · 87, सदरन एवेन्यू, कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)।

अग्रवाल, श्री राम गोपाल वी० ए०, कांग्रेस (बिहार), लाला हरप्रसाद के आत्मज, जन्म 15 सितम्बर, 1914, विवाह श्रीमती सरला देवी अग्रवाल से, 6 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956 और 3-4-1956 से 2-4-1962, दिवंगत। श्रद्धाजलि—13-11-1972।

\*अग्रवाल, श्री राम दास इटर्मीडिएट, हिन्दी विशारद, भारतीय जनता पार्टी (राजस्थान), श्री रामेश्वर दास अग्रवाल के आत्मज, जन्म 17 मार्च, 1937, विवाह श्रीमती मानवती अग्रवाल से, 3 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1990 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता . श्री राम भवन, एन० एच० 5, भद्रक (उड़ीसा)।

\*अग्रवाल, श्री लक्खी राम . मिडिल, भारतीय जनता पार्टी (मध्य प्रदेश), श्री मशाराम अग्रवाल के आत्मज, जन्म 13 फरवरी, 1932, विवाह श्रीमती मरवन देवी से, 5 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1990 से अद्यपर्यन्त, अध्यक्ष/महासचिव, भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश।

स्थायी पता . डाकघर खरसिया, जिला रायगढ़ (मध्य प्रदेश)।

अग्निभोज, श्री रामेश्वर उमराव वी० ए०, एलएल० वी०, कांग्रेस (मध्य प्रदेश), श्री उमराव अग्निभोज के आत्मज, जन्म 23 मई, 1911, विवाह श्रीमती गुलाब बाई अग्निभोज से, 1 पुत्र तथा 4 पुत्रिया, सदस्य, पूर्व काल में सेन्ट्रल प्रोविसेस तथा बरार विधान सभा, 1937—40, मंत्री, (1) सेन्ट्रल प्रोविसेस तथा बरार सरकार, 1938 और (2) मध्य प्रदेश, 1946—52, सदस्य, राज्य सभा, 10-11-1952 से 2-4-1958, दिवंगत। श्रद्धाजलि—17-3-1987।

अजमल खान, श्री एम० एम० ए० (अरबी), एलएल० वी०, (नाम-निर्देशित), श्री मोहम्मद इस्माइल खान के आत्मज, जन्म 12 फरवरी, 1897, विवाह श्रीमती ताहिरा बेगम से, 3 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 31-3-1964 से 2-4-1966 और 3-4-1966 से 18-10-1969, अनेक पुस्तकों के लेखक तथा अनुवादक, दिवंगत। श्रद्धाजलि—17-11-1969।

अटवाल, श्री सुरजीत सिंह · कांग्रेस (पंजाब), सरदार बूटा सिंह के आत्मज, जन्म 12 जनवरी, 1921, विवाह श्रीमती दलजीत कौर से, 3 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1962 से 2-4-1968।

स्थायी पता एच-35, ग्रीन पार्क एक्स्टेशन, नई दिल्ली।

अनंत राम, पंडित . वी० ए०, एन० सी० (जम्मू और कश्मीर), पंडित केसर मल के आत्मज, जन्म 4 सितम्बर, 1879, विवाह श्रीमती देवकी देवी से, 3 पुत्र तथा 1 पुत्री, गवर्नर, कश्मीर और जम्मू प्रांत, 1924—28, राजस्व मंत्री, जम्मू और कश्मीर सरकार, 1935-36 और 1944—47, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954, दिवगत। श्रद्धाजलि—22-11-1963।

अनवर, श्री एन० एम० वी० ए० (आनर्स), एम० ए०, बी० एड०, कांग्रेस (मद्रास, अब तमिलनाडु), श्री एन० अब्दुल बहाव साहिब के आत्मज, जन्म 29 अक्टूबर, 1915, विवाह श्रीमती मेरिट मेहमूदा बेगम से, 1 पुत्र तथा 6 पुत्रिया, सदस्य, (1) मद्रास विधान सभा, 1946—52 और (2) राज्य सभा, 3-4-1960 से 2-4-1966, दिवगत। श्रद्धाजलि—10-5-1972।

अनूप सिंह, डा० एम० ए०, पीएच० डी० (हार्वर्ड-अमरीका), कांग्रेस (पंजाब), श्री जय सिंह के आत्मज, जन्म 5 मार्च, 1903, विवाह श्रीमती इकवाल कौल से, 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954, 3-4-1954 से 2-4-1960, 3-4-1962 से 22-11-1962 और 3-4-1964 से 28-1-1969, अध्यक्ष, पंजाब लोक सेवा आयोग, 1960, "नेहरू—राइजिंग स्टार ऑफ इंडिया" के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—17-2-1969।

अन्जेया, श्री टी० मैट्रिक, कांग्रेस (आई) (आंध्र प्रदेश), श्री टी० चावैया के आत्मज, जन्म 1929, विवाह श्रीमती मणिअम्मा से, 1 पुत्र तथा 4 पुत्रिया, सदस्य, आंध्र प्रदेश विधान सभा, 1957—78, मंत्री, आंध्र प्रदेश सरकार, 1972-73 और 1974—77, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1978 से 19-2-1981, केन्द्रीय श्रम राज्य मंत्री, जून से अक्टूबर, 1980, दिवगत। श्रद्धाजलि—4-11-1986।

अन्तनी, डा० बिहारीलाल नारानजी . वी० ए०, डी० लिट्० (कैम्ब्रिज), बार-एट-लॉ, स्वतंत्र पार्टी (गुजरात), श्री नारानजी माधव जी अन्तनी के आत्मज, जन्म 22 जून, 1892, विवाह श्रीमती सुभद्रागोरी से, 4 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1966 से 16-9-1971, मंत्री, नवानगर स्टेट और दीवान, जवाहर स्टेट, दिवगत। श्रद्धाजलि—15-11-1971।

\*अन्तोनि, श्री ए० के० वी० ए०, वी० एल०, कांग्रेस (आई) (केरल), श्री कुरियन के आत्मज, जन्म 28 दिसम्बर, 1940, विवाह श्रीमती एलिजाबेथ से, 1 पुत्र, सदस्य, केरल विधान सभा, 1970 से 1979, केरल के मुख्य मंत्री, 1977-78, सदस्य, राज्य सभा, 22-4-1985 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता · अरकापरम्बिल, शेरताल्ली (केरल)।



अन्नादुरई, श्री सी० एन० . एम० ए०, डी० एम० के० (मद्रास, अब तमिलनाडु), श्री नटराजन के आत्मज, जन्म 1910, विवाह श्रीमती रानी से, 4 पुत्र, सदस्य, (1) मद्रास विधान सभा और (2) राज्य सभा, 3-4-1962 से 25-2-1967, तमिल में अनेक पुस्तकों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाञ्जलि—17-2-1969।

अन्सारी, श्री अब्दुल कयूम : कांग्रेस (बिहार), श्री एम० अब्दुल हक के आत्मज, जन्म 1 जुलाई, 1905, विवाह श्रीमती आम्मा वेगम से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, बिहार विधान सभा, 1946—52, 1952—57, 1962—67 और 1967-68, मंत्री, बिहार सरकार, 1946—52, 1955—57 और 1962—67, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1970 से 19-3-1972, दिवगत। श्रद्धाञ्जलि—19-2-1973।

अन्सारी, श्री फरीदुल हक . वार-एट-लॉ, पी० एस० पी० (उत्तर प्रदेश), श्री निजामुल हक के आत्मज, जन्म 1895, विवाह श्रीमती शफी-उन्नीसा से, 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1958 से 2-4-1964 और 3-4-1964 से 4-4-1966, दिवगत। श्रद्धाञ्जलि—5-4-1966।

अन्सारी, श्री हयातुल्ला : मौलाना, फाजिल-अदव, बी० ए०, अल्कीफयात-उल-फिक्रिया (डाक्टर आफ फिलासाफी) (मोरक्को), कांग्रेस (आई) (नाम-निर्देशित), फिरगी महल के मौलवी वहीदुल्लाह साहिब के आत्मज, जन्म 1 मई, 1912, विवाह वेगम सुल्तान हयात से, 2 पुत्र, सदस्य, (1) उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1952—66 और (2) राज्य सभा, 3-4-1966 से 2-4-1972 (निर्वाचित) और 27-9-1982 से 26-9-1988 (नाम-निर्देशित), साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित, 1970, उपन्यासों, लघु कहानियों आदि के लेखक।

स्थायी पता : बी-2 / 4, रीवर बैंक कालोनी, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।

अप्पन, श्री जी० ए० : बी० ए०, डिप्लोमा एस० एस० ए०, डिप्लोमा इन्टीट्यूट एम० एस० एम० (लदन), ए० एम० आई० ई० एक्स० पी० (लदन), डिप्लोमा एस० एस० डब्ल्यू०, एल० टी० आई० (मेनचेस्टर), बी० एससी० (टेक०), डी० कॉम० (बैंकिंग), डी० कॉम० (व्यापार प्रबंध), डी० कॉम० (कम्पनी सचिव कार्य), बी० कॉम० (आनर्स), एफ० एस० ए० ए० और एफ० सी० आई० (लदन), डी० एम० के० (तमिलनाडु), श्री एस० ज्ञानप्पीरागसम के आत्मज, जन्म 15 जुलाई, 1913, विवाह श्रीमती कौशलया से, 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1968 से 2-4-1974।

स्थायी पता : एलानडाईकुलम डाकघर, श्रीविल्लीपुट्टुर तालुक, जिला रामनाड, मद्रास (तमिलनाडु)।

अप्पाराव, श्री एम० आर० . कांग्रेस (आई) (आन्ध्र प्रदेश), सदस्य, राज्य सभा, 20-3-1981 से 2-4-1982।  
[अन्य व्यौर उपलब्ध नहीं हैं।]

स्थायी पता . चयूर गार्डन्स, नुजिविडु (डाकघर), जिला कृष्णा (आन्ध्र प्रदेश)।

अबु अन्नहाम, श्री . बी० एससी०, (नाम-निर्देशित), श्री अतूपुराथु एम० मैथ्यू के आत्मज, जन्म 11 जून, 1924, विवाह श्रीमती सरोजिनी से, 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1972 से 2-4-1978, व्यंग्य चित्रों के विश्व सकलन का संपादन तथा अपने व्यंग्य चित्रों के संग्रह का प्रकाशन किया।

स्थायी पता : मावेलिकारा (केरल)।

अब्दुल खादर, श्री एम० एस० बी० एससी०, ड० मु० क० (तमिलनाडु), हाजी एम० एम० एस० हमीद मरीकाया के आत्मज, जन्म 27 मई, 1931, विवाह श्रीमती ई० जरीना बेगम से, 2 पुत्र तथा 4 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1972 से 2-4-1978।

स्थायी पता . 48, तुलासिगा नैकर स्ट्रीट, पुदुचेट, मद्रास (तमिलनाडु)।

अब्दुल रहीम, श्री कांग्रेस (मद्रास, अब तमिलनाडु), काजी अब्दुल करीम के आत्मज, जन्म 7 जून, 1902, विवाह श्रीमती बीबीजान से, 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1958 से 2-4-1962, तमिल में चार पुस्तकों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाञ्जलि—14-11-1977।

अब्दुल लतीफ, श्री कांग्रेस (त्रिपुरा), मौलवी मोहम्मद मुसिम मियाँ के आत्मज, जन्म 1912, विवाह बेगम जेबुनिसा खानम से, 3 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1956 से 2-4-1962, दिवगत। श्रद्धाञ्जलि—2-1-1991।

अब्दुल शकूर, मौलाना : आलिम फाजिल, कांग्रेस (राजस्थान), मुन्शी शुजात अली के आत्मज, जन्म 4 फरवरी, 1920, विवाह श्रीमती साहेब खानम से, 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954, 3-4-1956 से 2-4-1962 और 3-4-1962 से 2-4-1968, दिवगत। श्रद्धाञ्जलि—19-12-1969।

अब्दुल समद, श्री ए० के० ए० . एम० ए० (इस्लाम का इतिहास और संस्कृति), मुस्लिम लीग (तमिलनाडु), अल्लामा ए० के० अब्दुल हमीद बकावी के आत्मज, जन्म 4 अक्टूबर, 1926, विवाह श्रीमती नरगिस बानु से, 3 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1964 से 2-4-1970 और 3-4-1970 से 2-4-1976, पवित्र कुरान के तमिल अनुवाद तथा तमिल की अनेक साहित्यिक पुस्तकों के प्रकाशक।

स्थायी पता . 321, फर्स्ट एवेन्यू, इन्दिरा नगर, मद्रास (तमिलनाडु)।

अन्नाहम, श्री पी० : कांग्रेस (पांडिचेरी), श्री पुन्नुस्वामी के आत्मज, जन्म 21 अप्रैल, 1917, विवाह श्रीमती मारी लुइजे से, 4 पुत्र तथा 6 पुत्रिया, सदस्य, (1) पांडिचेरी विधान सभा, 1959—63 और (2) राज्य सभा, 7-8-1963 से 6-8-1969, दिवगत। श्रद्धाञ्जलि—9-6-1980।

अमत, श्री देवानन्द : कांग्रेस (उड़ीसा), सदस्य, राज्य सभा, 6-3-1973 से 2-4-1974। [अन्य व्यौरें उपलब्ध नहीं हैं।]

स्थायी पता . ग्राम-वालानी, डाकघर लालटिकाय, जिला सुन्दरगढ (उड़ीसा)।

अमरजीत कौर, श्रीमती एफ० ए० (इन्टरमीडिएट आर्ट्स), कांग्रेस (आई) (पंजाब), कर्नल रघवीर सिंह की आत्मजा, जन्म 13 सितम्बर 1939, विवाह कवर दिविन्द्र सिंह से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1976 से 2-4-1982 और 3-4-1982 से 2-4-1988, सयुक्त सचिव, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी।

स्थायी पता ओल्ड मोतीबाग एनेक्सी, पटियाला (पंजाब)।

\*अमीन, श्री मोहम्मद . भा० सा० द० (मार्क्सवादी) (पश्चिमी बंगाल), श्री अब्दुल हक के आत्मज, जन्म 15 अप्रैल, 1928, विवाह श्रीमती मेमूम नेसा से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, पश्चिमी बंगाल विधान सभा, तीन-बार, मंत्री, पश्चिमी बंगाल सरकार, 1970 और 1977—82, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1988 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता . 151, महाराजा नद कुमार रोड, (नार्थ) आलम बाजार, कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)।

अमृत कौर, राजकुमारी . शिक्षा इंग्लैंड में, कांग्रेस (पंजाब), कपूरथला के राजा सर हरनाम सिंह की आत्मजा, जन्म 2 फरवरी, 1889, सदस्य, लोक सभा, 1952—57, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री, 1947—57, संचार मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार, 1951-52, सदस्य, राज्य सभा, 20-4-1957 से 2-4-1958 और 3-4-1958 से 6-2-1964, 16 वर्ष तक महात्मा गांधी की सचिव, अध्यक्ष, (1) विश्व स्वास्थ्य सभा, 1950 और (2) अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सम्मेलन, नई दिल्ली, 1957, सस्थापक सदस्य तथा अध्यक्ष, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का प्रबंध निकाय, दिवगत। श्रद्धाजलि—10-2-1964।

\*अमृता प्रीतम, श्रीमती . डी० लिट्० (विश्व भारती, दिल्ली, जवलपुर और पंजाब विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई मानद उपाधि), (नाम-निर्देशित), सरदार करतार सिंह हितकारी की आत्मजा, जन्म 31 अगस्त, 1919, विवाहित, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 12-5-1986 से अद्यपर्यन्त, (1) साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1956, (2) 'पद्म श्री', 1969 और (3) भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, 1982 तथा विभिन्न अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में सम्मानित, उपन्यास, लघु कथाओं, कविताओं तथा अन्य गद्य रचनाओं सहित अनेक पुस्तकों की लेखिका।

स्थायी पता के-25, हाँज खास, नई दिल्ली।

अमोलख चन्द, श्री . बी० ए०, एलएल० बी०, कांग्रेस (उत्तर प्रदेश), श्री शिखर चन्द के आत्मज, जन्म 11 जनवरी, 1907, विवाह श्रीमती माजन कुमारी से, 5 पुत्र, सदस्य, (1) अत कालीन ससद्, 1951-52 और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954 और 3-4-1954 से 2-4-1960, दिवगत। श्रद्धाजलि—18-11-1963।

\*अम्बेडकर, श्री प्रकाश यशवत वी० ए०, एलएल० वी०, (नाम-निर्देशित), श्री यशवत भीमराव अम्बेडकर क आत्मज, जन्म 10 मई 1954, अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 18-9-1990 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता - 129, राजगृह हिन्दु कालोनी, दादर, मुम्बई (महाराष्ट्र)।

अम्बेडकर, डा० वी० आर० • एम० ए० पीएच० डी०, डी० एससी०, चार-एट-लॉ, अनुसूचित जाति महासभ (कम्बई अथ महाराष्ट्र), जन्म 1893, विवाह श्रीमती मविता अम्बेडकर से, सदस्य, सविधान सभा और अध्यक्ष सविधान प्रारूपण समिति, केन्द्रीय कानून मंत्री, 1947—52, सदस्य, राज्य सभा 3-4-1952 से 2-4-1956 और 3-4-1956 से 6-12-1956, कई पुस्तकों के लेखक, 1990 में "भारत रत्न" की उपाधि से सम्मानित, दिवगत। श्रद्धाजलि—6-12-1956।

अम्मना राजा, श्रीमती सी० • वी० ए०, एल० टी०, कांग्रेस (आन्ध्र प्रदेश), श्री गन्धम वीरया नायडू की आत्मजा, जन्म 2 जून, 1909, विवाह श्री सी० जनार्दन राव से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, तत्कालीन मद्रास विधान सभा, 1937—39 और 1946—52, उपाध्यक्ष, मद्रास विधान सभा, 1946—52, सदस्य, (1) आन्ध्र प्रदेश विधान सभा, 1955—62 और (2) राज्य सभा, 3-4-1962 से 2-4-1968।

स्थायी पता . 3-6-733, हिमायत नगर, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)।

अम्मु स्वामीनाथन, श्रीमती . कांग्रेस (मद्रास, अथ तमिलनाडु), श्री पी० गोविन्द मेनन की आत्मजा, जन्म 22 अप्रैल, 1894, विवाह डा० एस० स्वामीनाथन से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) केन्द्रीय विधान सभा, 1945, (2) सविधान सभा, (3) अतकालीन ससद् और (4) राज्य सभा, 9-11-1957 से 2-4-1960 दिवगत। श्रद्धाजलि—17-7-1978।

अय्यर, श्री अलादी कृष्णास्वामी : वी० ए०, वी० एल०, डी० सी० एल० (दिल्ली), (नाम-निर्देशित), श्री अलादी एकान्त शास्त्री के आत्मज, विवाह श्रीमती ए० वेकालक्ष्मम्मा से, 3 पुत्र तथा 4 पुत्रिया, सदस्य, (1) सविधान सभा और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 3-10-1953, दिवगत। श्रद्धाजलि—23-11-1953।

अय्यर, श्री एन० रामाकृष्णा . एम० ए०, वी० एल०, निर्दलीय (तमिलनाडु), श्री आर० नामानुन्दरम अय्यर के आत्मज, जन्म 25 सितम्बर, 1905, विवाह श्रीमती सुन्दरा वली से, 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) मद्रास विधान सभा, 1952—57 और (2) राज्य सभा 22-4-1957 से 2-4-1960, 3-4-1960 से 2-4-1966 और 3-4-1966 से 2-4-1972, सचिव, तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस कमेटी, 1952, दिवगत। श्रद्धाजलि—6-3-1986।

अरुण सिंह, श्री · बी० ए० (आनर्स), एम० ए० (कैन्टव), काग्रेस (आई) (उत्तर प्रदेश), कपूरथला के श्री महाराज कुमार करमजीत सिंह के आत्मज, जन्म 29 अगस्त, 1944, विवाह श्रीमती नीना सिंह से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1984 से 17-8-1988, प्रधान मंत्री के ससदीय सचिव, नवम्बर, 1984 से सितम्बर, 1985, केन्द्रीय राज्य मंत्री, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, नवम्बर, 1985 से जुलाई, 1987।

स्थायी पता : सेंट हेलेन्स कॉटेज, मसूरी (उत्तर प्रदेश)।

अरुण्डेल, श्रीमती रुक्मिणी देवी . (नाम-निर्देशित), श्री ए० नीलकान्त शास्त्री की आत्मजा, जन्म 29 फरवरी, 1904, विवाह डा० जार्ज एस० अरुण्डेल से, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956 और 3-4-1956 से 2-4-1962, 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित, दिवंगत। श्रद्धाजलि—25-2-1986।

अरोडा, श्री अर्जुन : बी० ए०, काग्रेस (उत्तर प्रदेश), श्री नारायण प्रसाद अरोडा के आत्मज, जन्म 5 अक्टूबर, 1912, विवाह श्रीमती राज अरोडा से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 1-8-1960 से 2-4-1966 और 3-4-1966 से 2-4-1972, दिवंगत। श्रद्धाजलि—16-2-1981।

\*अरोडा, सरदार जगजीत सिंह · बी० ए०, अकाली दल (पंजाब), सरदार दीवान सिंह के आत्मज, जन्म 13 फरवरी, 1917, विवाह श्रीमती भगवत जे० सिंह से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल आफिसर कमांडिंग इन-चीफ, ईस्टर्न कमांड (सेवा निवृत्त), सदस्य, राज्य सभा, 5-7-1986 से अद्यपर्यन्त, (1) परम विशिष्ट सेवा मैडल, 1971 और (2) पद्म भूषण, 1972 से सम्मानित।

स्थायी पता · ए-55, न्यू फ्रेड्स कालोनी, नई दिल्ली।

अलादी अरुण उर्फ वी० अरुणाचलम, श्री एम० ए०, वी० एल०, अ० भा० अ० द्र० मु० क० (आई) (तमिलनाडु), श्री वी० वैद्यलिंगम के आत्मज, जन्म 9 जुलाई, 1933, विवाह श्रीमती एस० कमला से, 5 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, तमिलनाडु विधान सभा, 1967—76, अध्यक्ष, तमिलनाडु विधान सभा की सरकारी उपक्रमों सबंधी समिति, सदस्य, (1) लोक सभा, 1977—79 और (2) राज्य सभा, 25-7-1983 से 24-7-1989, अध्यक्ष, सरकारी आश्वासनों सबंधी समिति, राज्य सभा, 1986—88, दो पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता · अलादीपट्टी, नेल्लूर पोस्ट, जिला तिरुनेलवेलि (तमिलनाडु)।

अली, श्री सरदार अमजद वी० ए०, एलएल० वी०, काग्रेस (पश्चिमी बंगाल), सरदार बाबर अली के आत्मज, जन्म 1 नवम्बर, 1939, विवाह बेगम फरीदा अमजद से, 2 पुत्र, सदस्य, (1) लोक सभा, 1967—70 और (2) राज्य सभा, 3-4-1972 से 2-4-1978।

स्थायी पता : 59-बी, पाम एवेन्यू, कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)।

अली, श्री सेयद रहमत मुशी फाजिल (फारसी तथा अरबी में स्नातक), काग्रस (आई) (आन्ध्र प्रदेश), श्री सेयद अहमद के आत्मज, जन्म 23 नवम्बर, 1931, विवाह श्रीमती फातिमा रहमत अली से, 3 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, आंध्र प्रदेश विधान सभा, 1972, उपाध्यक्ष, आंध्र प्रदेश विधान सभा 1974, अध्यक्ष, (1) आंध्र प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति, 1974—78 और (2) आंध्र प्रदेश विधान सभा की याचिका समिति, 1974—78, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1980 से 2-4-1986, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1983-84 और 1984-85, उर्दू की दो पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता मकान नं० 12-2-44, मुगद नगर, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)।

\*अश्विनी कुमार, श्री . वी० एसमी० (ओद्योगिक रसायन) भारतीय जनता पार्टी (बिहार), श्री शान्ति स्वरूप जलोटा के आत्मज, जन्म 18 नवम्बर, 1928, अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 7-7-1980 से 6-7-1986 और 7-7-1986 से अद्यपर्यन्त, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1984-85, सगठन सचिव, बिहार प्रदेश भारतीय जनसंघ, 1965—70, महासचिव, (1) बिहार प्रदेश जनता पार्टी, 1977—80 और (2) बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, 1980, सचिव, भारतीय जनता पार्टी, 1986।

स्थायी पता 27, दुर्गापुरी, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।

अस्थाना, श्री के० वी० वी० एससी०, एलएल० वी०, जनता पार्टी (उत्तर प्रदेश), डा० नारायण प्रमाद अस्थाना के आत्मज, जन्म 9 मई, 1915, विवाह श्रीमती सुरेश किशोरी से, 3 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 14-7-1977 से 2-4-1980, मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, 1974—77।

स्थायी पता 23, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)।

अस्थाना, श्री लीला धर . वी० ए०, एलएल० वी०, कांग्रेस (उत्तर प्रदेश), श्री महेश्वरी प्रसाद के आत्मज, जन्म सितम्बर, 1902, विवाह श्रीमती चन्द्रावती से, सदस्य, (1) उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1947—52 और 1952—57, (2) लोक सभा, 1960—62 और (3) राज्य सभा, 3-4-1962 से 2-4-1968, दिवगत। श्रद्धाजलि—27-7-1987।

अहमद, श्री अनसारुद्दीन वी० ए०, कांग्रेस (पश्चिमी बंगाल), चौधरी पसार मोहम्मद साहिब के आत्मज, जन्म 1885, विवाह बंगम सालादुन नेसा खान से, मंत्री, कृषि बिहार स्टेट, 1947, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1958 से 2-4-1964, दिवगत। श्रद्धाजलि—9-9-1964।

\*अहमद, डा० अबरार . एम० काम०, पीएच० डी०, कांग्रेस (आई) (राजस्थान), श्री मोहम्मद इसहाक क आत्मज, जन्म 10 जुलाई, 1956, विवाह श्रीमती यासमीन खान से, 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1988 से अद्यपर्यन्त, "टेक्सट बुक ऑफ इन्कम टैक्स" के लेखक।

स्थायी पता . "तावरेज" मजिल, निकट सरकारी कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, सवाई-माधोपुर (राजस्थान)।

\*अहमद, डा० जैड० ए० वी० ए० (आनर्स), वी० एससी०, पीएच० डी० (अर्थशास्त्र) (लंदन), भारतीय साम्यवादी दल (उत्तर प्रदेश), श्री जियाउद्दीन अहमद के आत्मज, जन्म 29 अक्टूबर, 1908, विवाह श्रीमती हाजरा वेगम से, 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1958 से 19-3-1962, 3-4-1966 से 2-4-1972, 3-4-1972 से 2-4-1978 और 23-8-1990 से अद्यपर्यन्त, अध्यक्ष, राज्य सभा की सरकारी आश्वासनो सम्बन्धी समिति, 1976—78, सचिव, उत्तर प्रदेश समिति, साम्यवादी दल, 1951—56।

स्थायी पता जी-2, पार्क रोड कालोनी, विधायक निवास न० 6, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।

अहमद, श्री फखरुद्दीन अली वार-एट-लॉ, काग्रेस (असम), कर्नल जेड० ए० अहमद के आत्मज, जन्म 13 मई, 1905, विवाह वेगम आबिदा अहमद से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, असम विधान सभा, 1935, 1957—62 और 1962—66, मंत्री, असम सरकार, 1938-39 और 1957—66, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1954 से 25-3-1957 और 3-4-1966 से 25-2-1967, भारत के राष्ट्रपति, 24-8-1974 से 11-2-1977, दिवगत। श्रद्धाजलि—28-2-1977।

अहमद अली, मिर्जा . निर्दलीय (दिल्ली), डा० मोहम्मद अली के आत्मज, जन्म 9 फरवरी, 1907, विवाह, (1) रफ़ीक जहान वेगम और (2) रशीद जहान वेगम से, 10 पुत्र तथा 5 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 17-9-1958 से 2-4-1964, दिवगत। श्रद्धाजलि—18-11-1968।

अहमद हुसैन, काजी काग्रेस (बिहार), काजी सेयद लतीफ हुसैन के आत्मज, जन्म 1889, विवाह वीवी चाँद से, सदस्य, (1) बिहार विधान परिषद, 1923—28 और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1958 और 3-4-1958 से 29-7-1961, दिवगत। श्रद्धाजलि—14-8-1961।

\*अहलुवालिया, श्री सुरेन्द्रजीत सिंह वी० एससी०, एलएल० वी०, काग्रेस (आई) (बिहार), श्री सरदार सिंह अहलुवालिया के आत्मज, जन्म 4 जुलाई, 1951, विवाह श्रीमती मोनिका बनर्जी से, 3 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 7-7-1986 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता "प्रकाश निवास", बोरिंग केनाल रोड, पटना (बिहार)।

आग्रे, श्री एस० सी० . जन सघ (मध्य प्रदेश), कर्नल सरदार चद्रोजी राव आग्रे के आत्मज, जन्म 25 मार्च, 1920, विवाह श्रीमती राज राजेश्वरी देवी से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1970 से 2-4-1976।

स्थायी पता सिधिया विला, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली।

आग्रे, सरदार चद्रोजी सम्भाजी राव . हिन्दू महासभा (मध्य भारत, अब मध्य प्रदेश), श्रीमत् सरदार सम्भाजी राव आग्रे के आत्मज, विवाहित, 3 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954, तीन पुस्तकों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—20-2-1978।

\*आजमी, मौलाना ओबैदुल्ला खान आलिम, जे० डी० (उत्तर प्रदेश), श्री हफीज गुलाम रसूल खान के आत्मज, जन्म 11 मार्च, 1949, विवाह श्रीमती सईदा रजिया ओवद से, 3 पुत्र तथा 5 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1990 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता गाव तथा डाकघर खालिसपुर, जिला आजमगढ (उत्तर प्रदेश)।

\*आजाद, श्री गुलाम नबी एम० एससी० (प्राणिविज्ञान), कांग्रेस (आई) (महाराष्ट्र), श्री रहमतुल्ला भट्ट के आत्मज, जन्म 10 मई, 1948, विवाह श्रीमती शमीम देव आजाद से, 1 पुत्र, सदस्य, लोक सभा, 1980—84 और 1984—89, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य, सूचना और प्रसारण, ससर्वाय कार्य, गृह तथा खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभागों के केन्द्रीय उपमन्त्री/राज्य मंत्री, 1982—87, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1990 से अद्यपर्यन्त, महासचिव, ए० आई० सी० सी० (आई)।

स्थायी पता . न० 56, गूजर नगर, जम्मू (जम्मू और कश्मीर)।

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण विधि स्नातक, भारतीय जनता पार्टी (मध्य प्रदेश), श्री किशिनचन्द डी० आडवाणी के आत्मज, जन्म 8 नवम्बर, 1927, विवाह श्रीमती कमला आडवाणी से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, दिल्ली महानगर परिषद, 1966—70, चेयरमैन, महानगर परिषद, दिल्ली, 1967—70, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1970 से 2-4-1976, 3-4-1976 से 2-4-1982, 3-4-1982 से 2-4-1988 और 3-4-1988 से 27-11-1989, केन्द्रीय सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री और राज्य सभा में सभा के नेता, मार्च, 1977 से जुलाई, 1979, राज्य सभा में विपक्ष के नेता, जनवरी-अप्रैल, 1980, अध्यक्ष, (1) दिल्ली प्रदेश जनसघ, 1970—72, (2) अखिल भारतीय जनसघ, 1973 से 1976 और (3) भारतीय जनता पार्टी, मई, 1986 से अद्यपर्यन्त, महामंत्री, (1) जनता पार्टी, 1977 और (2) भारतीय जनता पार्टी, 1980।

स्थायी पता तेली की बजरिया, नया बाजार, लश्कर, ग्वालियर (मध्य प्रदेश)।

आडिवरेकर, श्रीमती सुशीला शकर बी० ए०, कांग्रेस (आई) (महाराष्ट्र), श्री मनसुखलाल देसाई की आत्मजा, जन्म 20 जून, 1923, विवाह श्री शकर आडिवरेकर से, सदस्य, राज्य सभा, 18-9-1971 से 2-4-1972, 3-4-1972 से 2-4-1978 और 3-4-1978 से 2-4-1984, गुजराती उपन्यासों तथा लघु कथाओं की लेखिका।

स्थायी पता 8, मस्कटी कोर्ट, महर्षि कर्वे रोड, मुम्बई (महाराष्ट्र)।

आदित्येन्द्र, श्री . बी० एससी०, कांग्रेस (राजस्थान), श्री शकर लाल के आत्मज, जन्म जून, 1907, विवाह श्रीमती अनार देवी से, 2 पुत्र तथा 4 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1954 से 2-4-1960, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य कांग्रेस।

स्थायी पता . दुर्लभ निवास, जयपुर (राजस्थान)।



आदिशेषैया, डा० माल्कोम सत्यनाथन् एम० ए०, पीएच० डी० (लन्दन स्कूल ऑफ इकानोमिक्स और केंब्रिज), (नाम-निर्देशित), श्री चारणसी पॉल आदिशेषैया के आत्मज, जन्म 18 अप्रैल, 1910, विवाह श्रीमती एलिजाबेथ आदिशेषैया से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 14-4-1978 से 13-4-1984, विभिन्न विषयों पर अनेक पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता • मद्रास इस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, 79, सेकेंड मेन रोड, गांधी नगर, अडयार, मद्रास (तमिलनाडु)।

आवदी, श्री हाशिम रजा इलाहावादी • जूनियर केंब्रिज, कांग्रेस (आई) (उत्तर प्रदेश), श्री इशरत हुसैन आवदी के आत्मज, जन्म 18 फरवरी, 1929, विवाह श्रीमती गोहर आवदी से, 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) उत्तर प्रदेश विधान परिषद, 1976 से 1982 और (2) राज्य सभा, 3-4-1982 से 2-4-1988, "उत्तम बलिदान" के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—13-10-1989।

279735

आविद अली, श्री कांग्रेस (महाराष्ट्र), श्री जफरभाई के आत्मज, जन्म 1899, विवाह श्रीमती जरीनाबाई से, 3 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, (1) तत्कालीन बम्बई विधान परिषद, 1947—52 और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954, 3-4-1954 से 2-4-1958, 3-4-1958 से 2-4-1964 और 3-4-1964 से 2-4-1970, केन्द्रीय श्रम उप-मंत्री, 1952—62, महासचिव, बम्बई प्रदेश कांग्रेस कमेटी, 1929—34, उपाध्यक्ष, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, "मजदूर-से-मिनिस्टर" के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—23-7-1973।

आविद, श्री कासिम अली • ओरिएण्टल प्रेजुएट, कांग्रेस (आन्ध्र प्रदेश), हकीम करीम उद्दीन के आत्मज, जन्म 20 जुलाई, 1927, विवाह श्रीमती अमीना खातून से, 3 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1972 से 9-4-1978।

स्थायी पता • 22-1-956, सुल्तानपुरा, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)।

आनन्द चन्द, श्री • कांग्रेस (बिहार), राजा विजय चन्द के आत्मज, जन्म 26 जनवरी, 1913, विवाह रानी उमावती से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) सविधान सभा, 1948, (2) लोक सभा, 1952—57 और (3) राज्य सभा, 3-4-1958 से 2-4-1964 तथा 3-4-1964 से 2-4-1970, "दिलासपुर—पास्ट, प्रेजेन्ट एण्ड फ्यूचर" पुस्तक के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—15-11-1983।

आनन्द, श्री जगजीत सिंह • वी० ए०, भा० सा० द० (पंजाब), सरदार मेहताव सिंह के आत्मज, जन्म 28 दिसम्बर, 1921, विवाह श्रीमती उर्मिला आनन्द से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1974 से 2-4-1980, अनेक पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता • 230, माडल टाउन, जालन्धर (पंजाब)।

आनन्द शर्मा, श्री . वी० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस (आई) (हिमाचल प्रदेश), श्री पी० ए० शर्मा के आत्मज, जन्म 5 जनवरी, 1953, विवाह श्रीमती जेनोविया शर्मा से, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1984 से 9-4-1990, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1988-89।

स्थायी पता . आइवी लॉज, शिमला (हिमाचल प्रदेश)।

आनन्दम्, श्री एम० वी० ए०, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट, काग्रेस (आन्ध्र प्रदेश), श्री एम० वेक्टरगैया के आत्मज, जन्म 13 मई, 1919, विवाह श्रीमती एम० सीता लक्ष्मी से, 5 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद्, 1958—69, उपसभापति, आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद्, 1964—69, अध्यक्ष, आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद् की विशेषाधिकार समिति, 1964—69, सदस्य, राज्य सभा, 11-3-1969 से 2-4-1974 और 3-4-1974 से 2-4-1980, 'ला एण्ड प्रेक्टिस आफ सेल्स टैक्स इन आंध्र प्रदेश' पुस्तक के लेखक।

स्थायी पता 10-2-96, थर्ड मेन रोड, मरोडपल्ली, सिकन्दराबाद (आन्ध्र प्रदेश)।

आनन्दन्, श्री टी० वी० . काग्रेस (ओ) (तमिलनाडु), श्री टी० वडिवेलु के आत्मज, जन्म 6 अगस्त, 1904, विवाह श्रीमती औधी लक्ष्मी से, 4 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1964 से 2-4-1970 तथा 3-4-1970 से 2-4-1976।

स्थायी पता 55, मेन रोड, पेराम्बूर, मद्रास (तमिलनाडु)।

\*आमला, श्री तीरथ राम वी० ए०, काग्रेस (आई) (जम्मू और कश्मीर), श्री ठाकुर दास आमला के आत्मज, जन्म 15 अप्रैल, 1914, विवाह श्रीमती सत्या देवी से, 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 4-5-1967 से 2-4-1970, 3-4-1970 से 2-4-1976, 3-4-1976 से 2-4-1982 और 12-12-1985 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता विजय निवास, सोनावर वाग, श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर)।

आयगर, श्री एन० गोपालस्वामी वी० ए०, वी० एल०, काग्रेस (मद्रास, अब तमिलनाडु), श्री नरसिंह आयगर के आत्मज, जन्म 31 मार्च, 1882, विवाह श्रीमती कोमलमाल से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, प्रधान मंत्री, जम्मू और कश्मीर राज्य, 1937—43, सदस्य, (1) केन्द्रीय विधान सभा, 1927, (2) काउंसिल ऑफ स्टेट्स, 1943—47, (3) सविधान सभा और (4) राज्य सभा, 3-4-1952 से 10-2-1953, केन्द्रीय मंत्री, परिवहन, रेल तथा रक्षा मंत्रालय, 1947—52, राज्य सभा के नेता, 1952-53, दिवंगत। श्रद्धाजलि—11-2-1953।

आरिफ, श्री मोहम्मद उस्मान . एम० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस(आई) (राजस्थान), हाजी मोहम्मद अब्दुल्ला वेदिल के आत्मज, विवाह श्रीमती भूरी वेगम से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1970 से 2-4-1976, 3-4-1976 से 2-4-1982 और 3-4-1982 से 31-3-1985, अध्यक्ष, आवास समिति, राज्य सभा, 1976—78, निर्माण तथा आवास, कृषि तथा नागरिक आपूर्ति मंत्रालयो मे उपमन्त्री, 1980—84, उपाध्यक्ष, राजस्थान प्रदेश काग्रेस कमेटी (आई), अनेक उर्दू-पुस्तको के लेखक।

स्थायी पता . आरिफ मजिल, बीकानेर (राजस्थान)।

आर्य, श्री कुम्भा राम : मेट्रिक, निर्दलीय (राजस्थान), श्री भैराराम चौधरी के आत्मज, जन्म मई, 1914, विवाह श्रीमती भूदेवी से, 2 पुत्र तथा 5 पुत्रिया, सदस्य, राजस्थान विधान सभा, 1952—57, मंत्री, राजस्थान सरकार, 1951, 1954-55 और 1964—66, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1960 से 26-10-1964 और 3-4-1968 से 2-4-1974।

स्थायी पता . दुर्गापुर, जयपुर (राजस्थान)।

आल्वा, डा० के० नागप्पा . एम० बी० बी० एस०, काग्रेस (ओ) (मैसूर, अब कर्णाटक), श्री के० देवाल्वा के आत्मज, जन्म 1908, विवाह श्रीमती कल्याणी से, 3 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, मैसूर विधान सभा, 1957—62 और 1962—67, मंत्री, मैसूर सरकार, 1962—67, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1970 से 2-4-1976।

स्थायी पता 517, राजामहल विलास एक्सटेशन, सदाशिवनगर, बगलौर (कर्णाटक)।

आल्वा, श्री जोकीम . बी० ए०, एलएल० बी०, (नाम-निर्देशित), अन्ना और पियादादे साल्वाडोर आल्वा के आत्मज, जन्म 21 जनवरी, 1907, विवाह श्रीमती वायलेट हेरी से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, (1) अत कालीन ससद, (2) लोक सभा, 1952—57, 1957—62 और 1962—67 और (3) राज्य सभा, 3-4-1968 से 2-4-1974, दिवगत। श्रद्धाजलि—9-7-1979।

\*आल्वा, श्रीमती मारग्रेट . बी० ए०, बी० एल०, काग्रेस (आई) (कर्णाटक), श्री पी० ए० नाजरेथ की आत्मजा, जन्म 14 अप्रैल, 1942, विवाह श्री निरजन आल्वा से, 3 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1974 से 2-4-1980, 3-4-1980 से 2-4-1986 तथा 3-4-1986 से अद्यपर्यन्त, उप-सभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1983—85, केन्द्रीय राज्य मन्त्री, (1) ससदीय कार्य और (2) युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभाग, दिसम्बर, 1984 से नवम्बर, 1989, अध्यक्ष, सभा पटल पर रखे गये पत्रो सबधी समिति, 1990-91, महामन्त्री, कर्णाटक प्रदेश काग्रेस कमेटी, 1978—80, सयुक्त सचिव, अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी, 1975—77।

स्थायी पता . 2, चारे रोड, बगलौर (कर्णाटक)।

आल्वा, श्रीमती वायलेट एम० ए०, एलएल० बी०, कांग्रेस (मंसूर, अब कर्णाटक), जन्म 24 अप्रैल, 1908, विवाह श्री जोकीम आल्वा से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, (1) तत्कालीन वम्बई विधान परिषद्, 1947—52 और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1960, 3-4-1960 से 2-4-1966 तथा 3-4-1966 से 20-11-1969, उप-सभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1953-54, केन्द्रीय उपमन्त्री, गृह मन्त्रालय, 1957—62, उप-सभापति, राज्य सभा, 1962—66 और 1966—69, अध्यक्ष, राज्य सभा की विशेषाधिकार समिति, 1962—1966 और 1966—1969, दिवगत। श्रद्धाजलि—20-11-1969।

\*आलिया, कुमारी . एम० ए०, पीएच० डी०, कांग्रेस (आई) (उत्तर प्रदेश), डा० महवूव हुसैन की आत्मजा, जन्म 15 दिसम्बर, 1953, अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 11-10-1989 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता : अबू सराय, शहादत गज, सिविल लाइन्स, फैजाबाद (उत्तर प्रदेश)।

आवरगावकर, श्री आर० डी० जगताप मैट्रिक, कांग्रेस (महाराष्ट्र), श्री ध्यानोवा जगताप के आत्मज, जन्म 3 अगस्त, 1929, विवाह श्रीमती पचवटीबाई से, 2 पुत्र, सदस्य, (1) तत्कालीन हैदराबाद विधान सभा, 1952—57, (2) महाराष्ट्र विधान परिषद्, 1964—70 और (3) राज्य सभा, 3-4-1974 से 2-4-1980।

स्थायी पता कल्पतरु वगलो, जिला भीर (महाराष्ट्र)।

इटालिया, श्री दिनशा डी० कांग्रेस (हैदराबाद, अब आन्ध्र प्रदेश), श्री दादाभाई ई० इटालिया के आत्मज, जन्म 10 मार्च, 1882, विवाह श्रीमती वैमई पी० देवर से, 1 पुत्र तथा 6 पुत्रिया, सदस्य, (1) हैदराबाद विधान सभा और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956, दिवगत। श्रद्धाजलि—7-9-1964।

इनायत उल्लाह, ख्वाजा कांग्रेस (बिहार), ख्वाजा अब्दुल सुधान के आत्मज, जन्म अक्टूबर, 1899, विवाह श्रीमती गुलाम फातमा से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) अत कालीन ससद्, 1950 और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954।

स्थायी पता करीमगज, गया (बिहार)।

इन्द्र विद्यावाचस्पति, श्री : साहित्यवाचस्पति, एम० आर० ए० एस०, कांग्रेस (उत्तर प्रदेश), महात्मा मुशी राम के आत्मज, जन्म 8 नवम्बर, 1889, विवाह श्रीमती चन्द्रावती से, सदस्य, (1) अत कालीन ससद्, 1950-51 और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1958, उपकुलपति, गुरुकुल विश्वविद्यालय, कागडी, अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी, 1935-36, अनेक पुस्तको के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—24-8-1960।

**इब्राहीम, श्री वी० . वी० ए०. वी० एल०, काग्रेस (आई) (कर्णाटक), श्री हाजी वी० जकरिया के आत्मज, जन्म 2 जनवरी, 1946, विवाह श्रीमती जोहरा इब्राहीम से, 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 25-3-1980 से 9-4-1984।**  
**स्थायी पता . कुलशेकर, मंगलौर (कर्णाटक)।**

**इब्राहीम, हफीज मोहम्मद :** वी० ए०, एलएल० वी०, काग्रेस (उत्तर प्रदेश), हफीज नजमुलहुदा के आत्मज, जन्म 1889, विवाह वेगम अजमत-उल-निशा से, 3 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान परिषद्, 1926, मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, 1937 और 1946—58, सदस्य, राज्य सभा, 18-8-1958 से 2-4-1962 और 3-4-1962 से 4-5-1964, केन्द्रीय सिचाई और विद्युत मंत्री, 1958, सभा के नेता, राज्य सभा, फरवरी, 1961 से अगस्त, 1963, दिवगत। श्रद्धाजलि—12-2-1968।

**इमाम, श्रीमती अजीजा :** सीनियर केम्ब्रिज, काग्रेस (यू) (विहार), डा० वली अहमद की आत्मजा, जन्म . 20 फरवरी, 1924, विवाह श्री सैयद नकी इमाम से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 20-3-1973 से 2-4-1976 और 3-4-1976 से 2-4-1982।

**स्थायी पता . 41, मदाकिनी एन्क्लेव, ग्रेटर कैलाश पार्ट—2, नई दिल्ली।**

**इमाम, श्री जाफर वी० ए०, वी० एल०, काग्रेस (विहार), सैयद अलय इमाम के आत्मज, जन्म 1903, विवाहित, 2 पुत्र तथा 4 पुत्रिया, सदस्य, (1) बिहार विधान सभा, 1946, (2) सविधान सभा और (3) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956।**

**स्थायी पता . कुतुबुद्दीन लेन, दरजीतोला, पटना (विहार)।**

**इम्ती, श्री टी० अलीबा वी० ए० (आनर्स), नागा नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी (नागालैण्ड), श्री इम्ती लेपडेन के आत्मज, जन्म 27 सितम्बर, 1919, विवाह श्रीमती सी० असागला इम्लौंग से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1980 से 2-4-1986, अध्यक्ष, (1) नागा राष्ट्रीय परिषद, 1946 और (2) नागा नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी।**

**स्थायी पता : फर्न रिज, हास्पीटल रोड, मोकोकचुग (नागालैण्ड)।**

**इम्बिचिबावा, श्री ई० के० : साम्यवादी पार्टी (मद्रास, अब तमिलनाडु), श्री अब्दुल्ला के आत्मज, जन्म जून, 1917, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954।**

**स्थायी पता : पोन्नानी, साऊथ मालाबार (केरल)।**

**इशाक, श्री मुहम्मद :** काग्रेस (पश्चिमी बंगाल), डा० मुहम्मद इब्राहिम के आत्मज, जन्म 1 जनवरी, 1903, विवाह वेगम जमीला खातून से, 3 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) पश्चिम बंगाल विधान सभा, 1952—61 और (2) राज्य सभा, 29-12-1961 से 2-4-1964 और 3-4-1964 से 2-4-1970, दिवगत। श्रद्धाजलि—30-4-1981।

इस्माइल साहेब, जनाव एम० मुहम्मद एम० एल० (मद्रास, अब तमिलनाडु) मोलवी के० टी मियाखान रोधर के आत्मज, जन्म 5 जून 1896 विवाह जनाबा जमाल हमीदाबाई से, 1 पुत्र, मदस्य मद्रास विधान सभा विपक्ष के नेता, मद्रास विधान सभा, 1946—52, अध्यक्ष लोक लेखा समिति, मद्रास विधान सभा, मदस्य (1) सविधान सभा, 1948—50 आर (2) राज्य सभा 3-4-1952 म 2-4-1958, अध्यक्ष, मुस्लिम लीग, 1948, उपाध्यक्ष, अनुमन हिमायत-ए-इस्लाम, दिवगत। श्रद्धाजति—5-4-1972।

इस्माइल, श्रीमती फातिमा मट्रिक, सीनियर केंब्रिज प्री-मेडिकल (वियना विश्वविद्यालय), (नाम-निर्दिष्ट), हाजी यूमुफ सोवानी की आत्मजा जन्म 4 फरवरी, 1903, विवाह श्री मोहम्मद हाशम इस्माइल से, 1 पुत्र तथा 4 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 14-4-1978 से 13-4-1984, 1958 म पद्मश्री से विभूषित, दिवगत। श्रद्धाजति—6-11-1987।

इस्लाम, श्री बहरूल एम० ए०, एलएल० बी०, काग्रस (आई) (असम), श्री तमगौर अली क आत्मज, जन्म 1 मार्च 1918, विवाह बगम सालेहा इस्लाम से, 2 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, मदस्य, राज्य सभा, 3-4-1962 से 2-4-1968, 3-4-1968 से 20-1-1972 और 15-6-1983 से 14-6-1989, न्यायाधीश, अगम आर नागालड उच्च न्यायालय, 1972, मुख्य न्यायाधीश, गुवाहाटी उच्च न्यायालय 1978—80, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, 1980 से 1983।

स्थायी पता डा० बी० के० काकाती रोड, रेहावाडी, गुवाहाटी (असम)।

उन्दू, श्री गुलाम नबी एम० ए०, एलएल० बी०, काग्रस (जम्मू आर कश्मीर), हाजी मोनाजू उन्दू के आत्मज, जन्म 27 मार्च, 1931, विवाह श्रीमती इवला बेगम से, 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 11-11-1966 से 10-11-1972।

स्थायी पता सोपोर, जिला वागमुला (जम्मू आर कश्मीर)।

उपाध्याय, श्री शिवदत्त काग्रस (मध्य प्रदेश), पंडित जीवानन्द उपाध्याय के आत्मज, जन्म 14 मई, 1899, विवाह श्रीमती लीलावती से 3 पुत्र तथा 4 पुत्रिया, सदस्य, (1) लोक सभा, 1952—67 आर (2) राज्य सभा, 31-3-1967 से 2-4-1970, दिवगत। श्रद्धाजति—23-4-1984।

\*उपेन्द्र, श्री पर्वतनेनि : एम० ए० (अग्रजी साहित्य), पत्रकारिता आर लोक प्रशासन म डिप्लोमा, तेलुगु देशम (आन्ध्र प्रदेश), श्री पी० दशरथरमेया के आत्मज, जन्म 14 जुलाई, 1936, विवाह श्रीमती पी० वसुन्धरा से 3 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1984 से 9-4-1990 आर 10-4-1990 से अद्यपर्यन्त, दिग्गज, 1989 से नवम्बर, 1990 तक केन्द्र के सूचना आर प्रसारण मंत्री तथा मसदीय कार्य मंत्री, महासचिव, तेलुगु देशम, 1983—85।

स्थायी पता 6-1-121, पद्माराव नगर, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)।

उमैर, श्री मोहम्मद काग्रेस (बिहार), शाह अशफाक हुसैन के आत्मज, जन्म 1903, विवाह बीवी मसूदा से, सदस्य, बिहार विधान परिषद्, 1939—51, ससदीय मन्त्रि और सभा के नेता, बिहार विधान परिषद्, 1946—51, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1956 से 2-4-1962, दिवगत। श्रद्धाजलि—20-2-1978।

एजलीना टिगा, श्रीमती झारखड पार्टी (बिहार), श्री जूनस टिगा की आत्मजा, जन्म 3 अगस्त, 1909, विवाह श्री जार्ज टिगा से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954।

स्थायी पता नयाटोली, डाकघर राची (बिहार)।

एजाज रसूल, वेगम काग्रेस (उत्तर प्रदेश), नवाब सर जुल्फिकार अली खान की आत्मजा, जन्म 2 अप्रैल, 1909, विवाह नवाब सेयद एजाज रसूल से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान परिषद्, 1937—52, उपसभापति, उत्तर प्रदेश विधान परिषद्, 1937—40, विपक्ष की नेता, उत्तर प्रदेश विधान परिषद्, 1950—52, सदस्य, (1) सविधान सभा और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956।

स्थायी पता 1 माल एवेन्यू, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।

ओकारनाथ, श्री एल० कॉम०, हिन्दी ऑनर्स, काग्रेस (दिल्ली), श्री वशेशर नाथ के आत्मज, जन्म 6 नवम्बर, 1904, अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 16-4-1955 और 24-11-1956 से 2-4-1960, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश काग्रेस कमेटी, दिवगत। श्रद्धाजलि—23-3-1971।

ओझा, श्री घनश्यामभाई वी० ए०, एलएल० वी०, जनता पार्टी (गुजरात), श्री छोटालाल के आत्मज, जन्म 25 अक्टूबर, 1911, विवाह श्रीमती रामलक्ष्मी से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, सोराष्ट्र विधान सभा, 1948—56, मंत्री, सोराष्ट्र सरकार, 1950—56, सदस्य, (1) बवई विधान सभा, 1956-57 और (2) लोक सभा, 1957—67 तथा 1971-72, औद्योगिक विकास के केन्द्रीय राज्य मंत्री, 1971-72, सदस्य, गुजरात विधान सभा, 1972—74, मुख्य मंत्री, गुजरात, 1972-73, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1978 से 9-4-1984।

स्थायी पता 2, चन्द्र दर्शन फ्लैट्स, दिनेश हॉल के निकट, नवरगपुर, अहमदाबाद (गुजरात)।

ओवराय, श्री मोहन सिंह इण्टरमीडिएट भा० क्ला० द (उत्तर प्रदेश), श्री अन्तर मित्र ओवराय के आत्मज, जन्म 15 अगस्त, 1900, विवाह श्रीमती ईशरा देवी से, 2 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य (1) राज्य सभा 3-4-1962 से 4-3-1968 और 3-4-1972 से 2-4-1978 और (2) लोक सभा अप्रैल 1968 से दिसम्बर 1970।

स्थायी पता ओवराय ग्रैंड होटल, क्लकना (पश्चिमी बंगाल)।

ओबदुल्लाह साहिब, श्री वी० एम० : कांग्रेस (तत्कालीन मद्रास वर्तमान तमिलनाडु), श्री मदरास ब्रादरशाह मन्दिरे के आत्मज, जन्म 2 मई, 1905, विवाह श्रीमती जेवुत्रिमा वेगम से, 2 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) आन्ध्र प्रदेश, 1951-52 और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956 और 3-4-1956 से 21-2-1958, अनेक वर्षों तक तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस समिती के उपाध्यक्ष/अध्यक्ष रहे, दिवंगत। श्रद्धाञ्जलि—24-2-1958।

कपूर, श्री एच० एल० (नाम-निर्देशित), सदस्य, राज्य सभा, 3-1-1985 से 14-11-1985, भारतीय वायुसेना में एअर वाइस मार्शल के पद से सेवानिवृत्त तथा पी० वी० एम० एम० और ए० वी० एम० एम० में सम्मानित। [अन्य विवरण उपलब्ध नहीं है]

स्थायी पता डी-71, डिफेंस कालोनी, हरिद्वार रोड, देहरादून (उत्तर प्रदेश)।

कपूर, श्री गिरिराज किशोर "प्रभाकर", एम० एससी०, एम० डी० (होम्यो०), स्वर्ण पदक विजिता जन सच (मध्य प्रदेश), वायु नवल किशोर कपूर के आत्मज, जन्म 12 सितम्बर, 1913 सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1964 से 29-8-1965, अध्यक्ष, जन सच, मध्य प्रदेश, दिवंगत। श्रद्धाञ्जलि—30-8-1965।

कपूर, श्री जसपत राय एम० ए०, एलएल० बी० कांग्रेस (उत्तर प्रदेश), श्री गुलाम मिर् कपूर के आत्मज, जन्म 1806, विवाह श्रीमती पार्वती देवी से, सदस्य, (1) मन्दिरे सभा, 1946—50, (2) अन्ध्याची समद, 1950—52 और (3) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956 और 3-4-1956 से 2-4-1962, अध्यक्ष, याचिका समिति राज्य सभा, 1954—57, बीमा कानून के मन्त्र में एक पुस्तक लिखी, दिवंगत। श्रद्धाञ्जलि—24-4-1984।

कपूर, श्री पृथ्वीराज वी० ए०, (नाम निर्देशित), दीवान बशेशर नाथ कपूर के आत्मज, जन्म 3 नवम्बर, 1906, विवाह श्रीमती रमा देवी से, 3 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य राज्य सभा 3-4-1952 से 2-4-1954 और 3-4-1954 से 2-4-1960, कई नाटकों के लेखक और निर्माता, दिवंगत। श्रद्धाञ्जलि—30-5-1972।

कपूर, श्री यशपाल वी० ए०, कांग्रेस (उत्तर प्रदेश), श्री लाजपत राय कपूर के आत्मज, जन्म - 5 जुलाई 1920, विवाह श्रीमती कलाश रानी से, 3 पुत्र तथा 2 पुत्रिया सदस्य राज्य सभा, 3-4-1972 से 2-4-1978।

स्थायी पता 970, कचहरी रोड राय बरौली (उत्तर प्रदेश)।



कवीर, श्री हुमायूँ एम० ए० (कलकत्ता), एम० ए० (ऑक्सफोर्ड), डी० एल० एच० (मानद), कांग्रेस (पश्चिमी बंगाल), श्री कवीरुद्दीन अहमद के आत्मज, जन्म 22 फरवरी, 1906, विवाह श्रीमती शाक्ति कबीर से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, (1) बंगाल विधान परिषद्, 1937—47 और (2) राज्य सभा, 3-4-1956 से 2-3-1962, भारत सरकार के शैक्षिक सलाहकार और सचिव, 1952—56, केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् में मंत्री/राज्य मंत्री, परिवहन और संचार तथा वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय, 1957—62, बंगाली और अंग्रेजी की अनेक पुस्तकों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—19-8-1969।

कमलनाथन, श्री एम० डी० एम० के० (तमिलनाडु), श्री के० एम० राव के आत्मज, जन्म 10 अप्रैल, 1931, विवाह श्रीमती के० शकुन्तला से, 1 पुत्र और 2 पुत्रियाँ, सदस्य, मद्रास विधान सभा, 1962—67, मद्रास विधान सभा के सभापति पैनल के सदस्य, 1963-64, सदस्य, (1) लोक सभा, 1967—70 और (2) राज्य सभा, 29-7-1971 से 2-4-1972 और 3-4-1972 से 2-4-1978।

स्थायी पता . डाकघर अचूर, जिला धर्मपुरी (तमिलनाडु)।

कमलास्वामी, श्री टी० वी० वी० ए०, कांग्रेस (मद्रास अब तमिलनाडु), श्री टी० एस० विश्वन्त पिल्लै के आत्मज, जन्म 21 जनवरी, 1911, विवाह श्रीमती टी० के० सरवनै वाडिवु अम्माल से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954 और 3-4-1954 से 2-4-1960।

स्थायी पता : "ईसाइ आगम" न० 2-सी, भगवन्तम गुप्ता स्ट्रीट, त्यागरायानगर, मद्रास (तमिलनाडु)।

करतार सिंह, श्री एम०ए०, एलएल० वी०, कांग्रेस (पटियाला और पूर्वी पंजाब के राज्य सच, अब पंजाब), सरदार सुन्दर सिंह के आत्मज, जन्म 26 फरवरी, 1905, विवाह श्रीमती देविन्दर कौर से, 4 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-10-1953, दिवगत। श्रद्धाजलि—23-11-1953।

करमारकर, श्री डी० पी० एम०ए०, एलएल० वी०, कांग्रेस (मैसूर अब कर्णाटक), श्री परशुराम करमारकर के आत्मज, जन्म 20 जुलाई, 1902, विवाह श्रीमती शातावाई से, 2 पुत्र तथा 3 पुत्रियाँ, सदस्य, (1) केन्द्रीय विधान सभा, 1945—47, (2) अत कालीन ससद, 1951-52 और (3) लोक सभा, 1952—57 और 1957—62, केन्द्रीय राज्य मंत्री, वाणिज्य, व्यापार तथा स्वास्थ्य विभागों में मंत्री, 1950—62, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1962 से 2-4-1968, अध्यक्ष, आवास समिति, राज्य सभा, 1964—66, अध्यक्ष, कर्णाटक प्रदेश कांग्रेस समिति, 1940, कन्नड और अंग्रेजी में पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता धारवाड (कर्णाटक)।

करयालर, श्री एस० चट्टनाथ एम०ए०, बी०एल०, काग्रेस (मद्रास अब तमिलनाडु), श्री एस० सुब्रह्मण्यम करयालर के आत्मज, जन्म 15 अक्टूबर, 1896, विवाह श्रीमती शानमुगम अम्माल से, 2 पुत्रिया, सदस्य, ट्रावनकोर विधान मडल, 1931—47, उपाध्यक्ष, ट्रावनकोर विधान मडल, 1937—47, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1958 और 3-4-1958 से 2-4-1964, दिवगत। श्रद्धाजलि—13-11-1972।

करीमुद्दीन, काजी सैयद एम०ए०, एलएल० बी०, काग्रेस (बम्बई अब महाराष्ट्र), काजी सैयद नसीरुद्दीन के आत्मज, जन्म 19 जुलाई, 1899, विवाह श्रीमती कादिर-उन-निसा बेगम से, 3 पुत्र तथा 5 पुत्रिया, सदस्य, (1) सविधान सभा, 1947—50, (2) मध्य प्रदेश विधान सभा, 1947—52 और (3) राज्य सभा, 3-4-1954 से 2-4-1958, दिवगत। श्रद्धाजलि—14-11-1977।

करुम्बया, श्री कोल्लिमदा सी० काग्रेस (अजमेर और कुर्ग), श्री कोल्लिमदा करिआपा के आत्मज, जन्म 20 अगस्त, 1884, विवाहित, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, (1) कुर्ग विधान परिषद, 1927—30 और (2) राज्य सभा, 3-4-1954 से 2-4-1956, दिवगत। श्रद्धाजलि—30-3-1961।

\*कलमाडी, श्री सुरेश राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के स्नातक, काग्रेस (आई) (महाराष्ट्र), डा० के० शामराव के आत्मज, जन्म 1 मई, 1944, विवाह श्रीमती मीरा से, 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1982 से 2-4-1988 तथा 3-4-1988 से अद्यपर्यन्त, भारतीय वायु सेना से फ्लाइट लैफ्टिनेन्ट के रूप में सेवानिवृत्त हुए।

स्थायी पता कलमाडी हाउस, 42/8, डा० केतकर रोड, एगनदावने, पुणे (महाराष्ट्र)।

\*कलवला, श्री प्रभाकर राव बी० एससी०, तेलुगु देशम (आन्ध्र प्रदेश), श्री नरहरी राव के आत्मज, जन्म 20 अगस्त, 1938, विवाह श्रीमती अरुणा देवी से, 1 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1986 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता गाव-मोठकुर, वाया भोनगिरी, जिला नालगौडा (आन्ध्र प्रदेश)।

कलानिया, श्री इब्राहिम काग्रेस (आई) (गुजरात), श्री कासमभाई के आत्मज, जन्म 3 फरवरी, 1928, विवाह श्रीमती रहमतबाई से, 3 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1972 से 9-4-1978 और 10-4-1978 से 9-4-1984, महासचिव/उपाध्यक्ष, गुजरात प्रदेश काग्रेस कमेटी, 1975—81, दिवगत। श्रद्धाजलि—27-7-1987।

कल्याण चद, श्री काग्रेस (उत्तर प्रदेश), श्री मौलाना राम के आत्मज, जन्म 13 अगस्त, 1915, विवाह श्रीमती जमुना देवी से, सदस्य, (1) उत्तर प्रदेश विधान परिषद, 1964—70 और (2) राज्य सभा, 3-4-1970 से 2-4-1976।

स्थायी पता : 33, आई आई बाजार, इलाहाबाद छावनी, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)।

कल्याणसुन्दरम्, श्री एम० : एस०एल०सी०, सी०पी०आई० (तमिलनाडु), श्री सी० मीनाक्षीसुन्दरम् के आत्मज, जन्म 20 अक्टूबर, 1909, विवाह श्रीमती के० लोगम्बल से, सदस्य, (1) तमिलनाडु विधान सभा, 1952—67, (2) लोक सभा, 1971—79 और (3) राज्य सभा, 30-6-1980 से 29-6-1986, दिवगत। श्रद्धाजलि—27-7-1988।

कल्याणसुंदरम, श्री कांची • द्र०मु०क० (तमिलनाडु), श्री कदिर वेलु के आत्मज, जन्म 26 अगस्त, 1909, विवाह श्रीमती वल्लिअम्माल से, सदस्य, राज्य सभा, 23-9-1969 से 2-4-1970 तथा 3-4-1970 से 2-4-1976, दिवगत। श्रद्धाजलि—3-5-1982।

काकती, श्री रॉबिन : मेट्रिक, जनता पार्टी (असम), श्री जोगेन्द्र नाथ काकती के आत्मज, जन्म 9 सितम्बर, 1909, अविवाहित, सदस्य, (1) असम विधान सभा, 1952—57, (2) राज्य सभा, 3-4-1962 से 2-4-1968 और 10-4-1978 से 9-4-1984 और (3) लोक सभा, 1971—77, महासचिव/अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर सघ कांग्रेस, असम, 1947—52 तथा 1960—65, महासचिव, असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी, 1954—59 और 1968—71, कुछ सामाजिक उपन्यासों के लेखक।

स्थायी पता : अम्बारी, गुवाहाटी (असम)।

काकोडकर, श्री पुरुषोत्तम : शास्त्री, (नाम-निर्देशित) कांग्रेस (आई), श्री केशव विश्वनाथ काकोडकर के आत्मज, जन्म 18 मई, 1913, विवाह श्रीमती कमला से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, (1) लोक सभा, 1971—77 और (2) राज्य सभा, 3-1-1985 से 2-1-1991, अध्यक्ष, गोवा, दमण और दीव प्रदेश कांग्रेस कमेटी, 1963—72 और 1978—80।

स्थायी पता • 12, भगनलाल सदन, स्वामी विवेकानंद रोड, पंजिम (गोवा)।

काकिल्या, श्री वी० वी० वी० ए०, साम्यवादी दल (तत्कालीन मद्रास वर्तमान तमिलनाडु), श्री वेविजे विष्णु काकिल्या के आत्मज, जन्म 9 अप्रैल, 1919, अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954।

स्थायी पता • साम्यवादी दल कार्यालय, मैदान रोड, मंगलौर (कर्णाटक)।

काठजू, श्री पी० एन० : एम० एससी०, कांग्रेस (राजस्थान), श्री विशेश्वर नाथ काठजू के आत्मज, जन्म 26 अगस्त, 1901, विवाह श्रीमती स्वरूप से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1962 से 2-4-1968, दिवगत। श्रद्धाजलि—21-2-1991।

क्राणे, डा० पी० वी० एम० ए० (अंग्रेजी और संस्कृत), एलएल० एम०, डी० लिट्०, (नाम-निर्देशित), श्री वामन वापूजी क्राणे के आत्मज, जन्म 7 मई, 1880, विवाह श्रीमती गंगा से, 2 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 16-11-1953 से 2-4-1958 और 3-4-1958 से 11-9-1959, 'भारत रत्न' से सम्मानित, 1963, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र (4 खण्ड) तथा अन्य पुस्तकों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—8-5-1972।

कादरशाह, श्री एम० वी० ए०, अ० भा० अ० ड० मु० क० (II) (तमिलनाडु), श्री के० मोहम्मद के आत्मज, जन्म 6 अक्टूबर, 1935, विवाह श्रीमती लैला से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1974 से 2-4-1980 और 25-7-1983 से 24-7-1989।

स्थायी पता 53, वी० एम० आर० पट्टी, डिण्डीगुल (तमिलनाडु)।

कामता सिंह, श्री : वी० ए०, स्वतंत्र पार्टी (बिहार), श्री सहदेव सिंह के आत्मज, जन्म 1916, विवाह श्रीमती इन्दुमति देवी से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1958 से 2-4-1964।

स्थायी पता : गाव और डाकघर परसावाद, जिला हजारीबाग (बिहार)।

कामेश्वर सिंह, श्री : (बिहार), सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1974 से 2-4-1980। [अन्य विवरण उपलब्ध नहीं हैं।]

स्थायी पता . शकरपुरा, डाकघर शकरपुरा, वेगूसराय, मुंगेर (बिहार)।

कामेश्वर सिंह, श्री के० सी० आई० ई०, डी० लिट्०, एलएल० डी०, निर्दलीय (बिहार), महाराजाधिराज सर रामेश्वर सिंह के आत्मज, जन्म 28 नवम्बर, 1907, विवाहित, सदस्य, (1) काउंसिल आफ स्टेट्स, 1933—46, (2) सविधान सभा, 1947—50, (3) अस्थायी ससद, 1950-51 और (4) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1958 और 3-4-1960 से 1-10-1962, दिवगत। श्रद्धाजलि—8-11-1962।

काम्बले, प्रो० नरेन्द्र मारुतराव . वी० एससी०, एलएल० वी०, कांग्रेस (आई) (महाराष्ट्र), श्री काम्बले मारुतराव सिद्धेश्वर के आत्मज, जन्म 24 अक्टूबर, 1925, विवाह श्रीमती इन्दुमति नरेन्द्र काम्बले से, 3 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, महाराष्ट्र विधान परिषद, 1982—84, मन्त्री, महाराष्ट्र सरकार, जुलाई, 1982 से अगस्त, 1983, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1974 से 2-4-1980, 4-8-1980 से 2-4-1982 और 3-4-1984 से 9-8-1988, अध्यक्ष, अधीनस्थ विधान सवधी समिति, राज्य सभा, 1986-87, अध्यक्ष/महासचिव, बम्बई प्रदेश रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया, अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी (आई), 1983—85, 'इनफेरियर विलेज सर्वेन्ट्स' नामक पुस्तक के लेखक।

स्थायी पता . सी-4, आजादनगर, वडाला, बम्बई (महाराष्ट्र)।

कार, श्री गुलाम रसूल . (नाम-निर्देशित) कांग्रेस (आई), श्री ख० हबीबुल्ला कार के आत्मज, जन्म 19 जून, 1921, विवाह श्रीमती हाबला कार से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) जम्मू और कश्मीर विधान सभा, 1951 और (2) जम्मू और कश्मीर विधान सभा, 1957, मंत्री, जम्मू और कश्मीर सरकार, 1965—71 और 1972—75, सदस्य, राज्य सभा, 9-5-1984 से 28-12-1987, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जम्मू और कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (आई)।

स्थायी पता . टाऊन हाल, सोपोर, जिला बारामूला (जम्मू और कश्मीर)।

\*कार, श्री नारायण : बी० एससी०, सी० पी० आई० (एम) (त्रिपुरा), श्री अटल बिहारी कार के आत्मज, जन्म 1 अप्रैल, 1949, अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1986 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता गाव और डाकघर देहदार, दक्षिणी त्रिपुरा (त्रिपुरा)।

\*कालदाते, डा० बापू डी० ए० एस० एफ० (बवई), जनता दल (महाराष्ट्र), श्री राम राव के आत्मज, जन्म 1 दिसम्बर, 1929, विवाह श्रीमती (डा०) सुधा कालदाते से, 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) महाराष्ट्र विधान सभा, 1967—72 और (2) लोक सभा, 1977—79, अध्यक्ष, लोक सभा की लोक उपक्रम समिति, 1979, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1984 से 2-4-1990 तथा 3-4-1990 से अद्यपर्यन्त, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1986—88, अध्यक्ष, (1) राज्य सभा की सभा पटल पर रखे गये पत्रो सबधी समिति, 1988—90 और (2) आवास समिति, राज्य सभा, 1990-91, प्रेजीडेन्ट, (1) सयुक्त समाजवादी दल, महाराष्ट्र और (2) समाजवादी दल, महाराष्ट्र, 1967—71, महासचिव, जनता पार्टी, 1980—86।

स्थायी पता 6, सनमित्रा कालोनी, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)।

\*कालिता, श्री भुवनेश्वर एम० ए०, एलएल० बी०, कांग्रेस (आई) (असम), श्री कृष्ण कात कालिता के आत्मज, जन्म 1 अप्रैल, 1951, विवाह श्रीमती रवितिका कालिता से, 2 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1984 से 9-4-1990 तथा 10-4-1990 से अद्यपर्यन्त, सयुक्त सचिव, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (आई)।

स्थायी पता ग्राम पुबसितारा, डाकघर रागिया, जिला कामरूप (असम)।

कालेलकर, श्री काकासाहेब बी० ए०, (नाम-निर्देशित), श्री बालकृष्ण जीवाजी के आत्मज, जन्म 1 दिसम्बर, 1885, विवाह श्रीमती लक्ष्मीबाई से, 2 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1958 और 3-4-1958 से 2-4-1964, भारत सरकार के पिछडा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, 1953—55, गुजराती, हिन्दी तथा अग्रेजी की अनेक पुस्तको के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—24-8-1981।

कासलीवाल, श्री नेमि चन्द्र : एम० ए०, एलएल० बी०, कांग्रेस (राजस्थान), श्री एम० प्यारेलाल कासलीवाल के आत्मज, जन्म 23 मार्च, 1909, विवाह श्रीमती तारा देवी से, सदस्य, (1) जयपुर विधान परिषद्, 1946—49, (2) लोक सभा, 1952—61 और (3) राज्य सभा, 7-4-1962 से 2-4-1964, दिवगत। श्रद्धाजलि—24-4-1978।

कान्मि, सैयद मीर : एम ए., पलकल चौं, काप्रेम (जम्मू और कश्मीर), श्री मीर मोहम्मद शाह के आत्मज, जन्म 16 जनवरी, 1919, विवाह श्रीमती मरियम बेगम से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रियां सदस्य (1) जम्मू और कश्मीर विधान सभा और (2) जम्मू और कश्मीर विधान सभा, 1951—75, राजस्व मंत्री के मुख्य सहायक सचिव, 1953—57, मंत्री, 1961—63 और मुख्य मंत्री 1972—75, जम्मू और कश्मीर सरकार सदस्य, राज्य सभा, 29-7-1975 से 10-11-1978 केन्द्र में विना विभाग के तथा नार्गाक पूर्ति और महकारिता मंत्री, 1976-77।  
 स्थायी पता वरजल्ला, श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर)।

कान्मि, श्री मुस्तफा जिन एम. ए., भा. मा. दल (मा.) (पश्चिमी बंगाल), श्री मोहम्मद कान्मि के आत्मज, जन्म 6 मई, 1941; विवाह श्रीमती नूरजहाँ मुस्तफा से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, (1) पश्चिमी बंगाल विधान सभा, 1977—82 और (2) राज्य सभा, 3-4-1984 से 2-4-1990, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1987-88।  
 स्थायी पता ग्राम और हान्धर—नेगलपुर जिला—उत्तर, 24 परगना (पश्चिमी बंगाल)।

किदवई, श्रीमती अनीस काप्रेम (उत्तर प्रदेश), श्री विलायत अली किदवई "यन्वूक" की आत्मजा, जन्म 1906, विवाह श्री राफी अहमद किदवई से, 1 पुत्र और 2 पुत्रियां, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1956 से 2-4-1962 और 3-4-1962 से 2-4-1968, दिवंगत। श्रद्धार्जलि—19-7-1982।

किदवई, डा. मोहम्मद हाशिम बी. ए. (आनर्म्), एम. ए. (राजनीति शास्त्र), पीएच. डी., काप्रेम (आई) (उत्तर प्रदेश), श्री एम. अब्दुल मजीद के आत्मज, जन्म 31 मार्च, 1921, विवाह श्रीमती जुहरा खातून से, 2 पुत्र तथा 3 पुत्रियां, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1984 से 2-4-1990, उर्दू और अंग्रेजी में अनेक पुस्तकों के लेखक।  
 स्थायी पता : एच आई. जी. नम्बर 1, ए. डी. ए. फ्लेदम, सर सयद नगर, अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)।

किदवई, बेगम सदिक्का . काप्रेम (दिल्ली), श्री अनवर-उर्रहमान किदवई की आत्मजा, जन्म 25 मार्च, 1914, विवाह श्री राफीक-उर्रहमान किदवई से, 3 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 24-11-1956 से 2-4-1958 और 3-3-1958 से 3-6-1958, दिवंगत। श्रद्धार्जलि—18-8-1958।

\*किरुट्टिनन्, श्री पशुमपोन त. एम. ए. (अर्थशास्त्र), ड. मु. क. (तमिलनाडु), श्री थडवनम् के आत्मज, जन्म 18 मई, 1937, विवाह श्रीमती परमा किरुट्टिनन् से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1) लोक सभा, 1967—76 और (2) राज्य सभा, 15-3-1980 से 2-4-1990 और 3-4-1990 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता : कौन्तुकुम नेडल, सञ्जयार-पट्टनम डाकघर, वाया राजागनचिरम, पशुमपोन तैवर, जिला तिरुमगान (तमिलनाडु)।

किशन चन्द, श्री . एम० ए० (कॅटेबरी), प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (आन्ध्र प्रदेश), श्री राय रतन चन्द के आत्मज, जन्म 26 फरवरी, 1899, विवाह श्रीमती राम दुलारी देवी से, 3 पुत्र तथा 4 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1958।

स्थायी पता ए/10/161, हैदरगुडा, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)।

किशोरी राम, श्री विशारद, कांग्रेस (बिहार), श्री मोदी राम के आत्मज, जन्म 11 जनवरी, 1921, विवाह श्रीमती सूरजमणि देवी से, 3 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956 और 3-4-1956 से 2-4-1962।

स्थायी पता . बागेश्वरी रोड, डाकघर और जिला गया (बिहार)।

कुजरू, डा० हृदय नाथ . एलएल० डी० (इलाहाबाद), डी० लिट्० (अलीगढ़), डी० एल० (ब० हि० वि०) (सम्मानार्थ), बी० ए०, बी० एससी०, निर्दलीय (उत्तर प्रदेश), पण्डित अजुध्या नाथ के आत्मज, जन्म 1 अक्टूबर, 1887, सदस्य, (1) उत्तर प्रदेश विधान परिषद्, 1921—23, (2) केन्द्रीय विधान सभा, 1927—30 और (3) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956 और 3-4-1956 से 2-4-1962, दिवगत। श्रद्धाजलि—24-4-1978।

\*कुजाचेन, श्री पी० के० : भा० सा० द० (मार्क्सवादी) (केरल), श्री कुजिरा के आत्मज, जन्म 28 अक्टूबर, 1925, विवाह श्रीमती वी० के० भासुरा देवी से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1) केरल विधान सभा, 1954—69 और (2) राज्य सभा, 22-4-1973 से 21-4-1979 और 22-8-1988 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता पोस डेन, थिडामेल, चेंगन्नूर (केरल)।

\*कुत्तिरवट्टम, श्री थामस वी० काम०, केरल कांग्रेस (केरल), श्री थामस वर्गीज के आत्मज, जन्म 1 जून, 1945, विवाह श्रीमती लिजी थामस से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 22-4-1985 से अद्यपर्यन्त, महासचिव, केरल कांग्रेस, 1976, अध्यक्ष, केरल कांग्रेस, 1987।

स्थायी पता कुत्तिरवट्टु हाउस, कालीसेरी, डाकघर चेंगन्नूर (केरल)।

कुन्हम्बू, श्री ए० वी० . साम्यवादी दल (केरल), श्री रमन नायर के आत्मज, जन्म अप्रैल, 1907, विवाह श्रीमती के० देवायनी से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 29-4-1957 से 2-4-1958, दिवगत। श्रद्धाजलि—11-6-1980।

कुमारन, श्री एस० . भा० सा० द० (केरल), श्री किट्टाचन के आत्मज, जन्म 25 फरवरी, 1923, विवाह श्रीमती सान्ताम्बिका देवी से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) केरल विधान सभा, 1960—64 और (2) राज्य सभा, 3-4-1970 से 2-4-1976 तथा 3-4-1976 से 2-4-1982।

स्थायी पता . सन्तोपम, फोर्ट, त्रिवेन्द्रम (केरल)।

कुमारन, श्री पी० के० . साम्यवादी दल (आन्ध्र प्रदेश), श्री पी० के० गोपालन के आत्मज, जन्म 12 जून, 1921, अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1962 से 2-4-1968।

स्थायी पता . कडूर हाउस, पुन्नोल, डाकघर तेल्लिचेरी (केरल)।

कुमारप्पा, डा० जगदीसन मोहनदास वी० ए० (ओहियो), एम० ए० (हरवर्ड), एस० टी० वी० (बोस्टन), एम० ए०, पीएच० डी० (कोलम्बिया), (नाम-निर्देशित), श्री एस० डी० कॉर्नेलिस के आत्मज, जन्म 16 अप्रैल, 1886, विवाह श्रीमती रत्नम अप्पासामी से, 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954, कुछ पुस्तकों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—18-11-1957।

कुम्भारे, श्री एन० एच० . वी० ए०, एलएल० वी०, रिपब्लिकन पार्टी (महाराष्ट्र), श्री हरिभाऊ कुम्भारे के आत्मज, जन्म 23 मार्च, 1923, विवाह श्रीमती नालिनी से, 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1972 से 2-4-1978, महासचिव, रिपब्लिकन पार्टी आफ इण्डिया, दिवगत। श्रद्धाजलि—15-10-1982।

कुरियन, डा० के० मैथ्यू एम० ए०, पीएच० डी०, भा० सा० द० (मार्क्सवादी) (केरल), श्री के० जे० कुरियन के आत्मज, जन्म 30 मई, 1931, विवाह श्रीमती मौली मैथ्यू से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1970 से 2-4-1976, मलयालम में पुस्तकों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—6-11-1987।

कुरील, श्री प्यारे लाल उर्फ प्यारे लाल तालिय उन्नावी एम० ए०, एलएल० वी०, कांग्रेस (आई) (उत्तर प्रदेश), सूवेदार मेजर, आनरेरी कैप्टन मनवा राम (सी आई एस ओ) के आत्मज, जन्म 27 दिसम्बर, 1916, विवाह श्रीमती कृष्ण कुमारी से, 1 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) केन्द्रीय विधान सभा, 1942—46, (2) लोक सभा, 1952—57, (3) उत्तर प्रदेश विधान परिषद्, 1967 और (4) राज्य सभा, 3-4-1960 से 2-4-1966, 3-4-1974 से 2-4-1980 और 5-7-1980 से 27-12-1984, उर्दू और अंग्रेजी में पुस्तकों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—17-1-1985।



कुरूप, श्री जी० सकरा • पण्डित परीक्षा (कोचीन), मद्रास विश्वविद्यालय की विद्वान परीक्षा उत्तीर्ण की, (नाम-निर्देशित), श्री एन० सकरा चारियार के आत्मज, जन्म 3 जून, 1901, विवाह श्रीमती पी० सुभद्रा अम्मा से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 2-4-1968 से 2-4-1972, (1) साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1963, (2) भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, 1965, (3) सोवियत लैण्ड नेहरू पुरस्कार, 1967 और (4) पद्म भूषण, 1968 से सम्मानित, मलयालम में अनेक पुस्तकों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—20-2-1978।

कुरैशी, श्री मोहम्मद शफी एम० ए०, एलएल० बी०, कांग्रेस (जम्मू और कश्मीर), हाजी मोहम्मद अमीन कुरैशी के आत्मज, जन्म 24 नवम्बर, 1929, विवाह श्रीमती फातिमा से, 2 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 1-5-1965 से 23-1-1967, केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री।

स्थायी पता . वादशाह चौक, श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर)।

कुरें, श्री दयालदास : एम० ए०, कांग्रेस (मध्य प्रदेश), श्री मिट्टा राम कुरें के आत्मज, जन्म 15 सितम्बर, 1923, विवाह श्रीमती प्रीत कुमारी से, 2 पुत्र और 4 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1958 से 2-4-1964 और 3-4-1964 से 2-4-1970।

स्थायी पता • ग्राम छिरौठी, डाकघर बैगाक्या, तहसील मुगेली, जिला विलासपुर (मध्य प्रदेश)।

\*कुलकर्णी, श्री अरविन्द गणेश : बी० एससी० (रसायन शास्त्र), कांग्रेस (आई) (महाराष्ट्र), श्री गणेश के आत्मज, जन्म 1 मार्च, 1917, विवाह श्रीमती मालती ए० कुलकर्णी से, 4 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 19-4-1967 से 2-4-1970, 3-4-1970 से 2-4-1976, 3-4-1978 से 2-4-1984 और 5-7-1986 से अद्यपर्यन्त, उप-सभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1978—82।

स्थायी पता . 41, शिवाजी नगर, सागली (महाराष्ट्र)।

कुलकर्णी, श्री गजानन रामराव . बी० ए०, एलएल० बी०, कांग्रेस (महाराष्ट्र), श्री गमराव यशवत कुलकर्णी के आत्मज, जन्म 22 जून, 1905, विवाह श्रीमती सुशीला कुलकर्णी से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1956 से 2-4-1962, महासचिव, विदर्भ प्रदेश कांग्रेस कमेटी, 1941—53।

स्थायी पता "जीवन छाया", राइफल रेंज, अकोला (महाराष्ट्र)।

कुलकर्णी, श्री बिदेश तुकाराम • बी० ए०, कांग्रेस (महाराष्ट्र), श्री तुकाराम के आत्मज, जन्म 15 जुलाई, 1909, विवाह श्रीमती शान्ताबाई से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) बम्बई विधान परिषद्, 1949—56 और (2) राज्य सभा, 5-7-1962 से 2-4-1968 और 3-4-1968 से 2-4-1974, दिवगत। श्रद्धाजलि—28-11-1988।

कुलकर्णी, श्रीमती सुमित्रा जी० एम० ए०, एलएल० बी०, कांग्रेस (गुजरात), श्री रामदास मोहनदास गांधी की आत्मजा, जन्म 5 अक्टूबर, 1929, विवाह श्री गजानन रघुनाथ कुलकर्णी से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1972 से 9-4-1978 ।

स्थायी पता 11, स्टर्लिंग पार्क, अहमदाबाद (गुजरात) ।

कुशनूर, श्री वीरशेट्टी मोगलप्पा विधि स्नातक, कांग्रेस (आई) (कर्णाटक), श्री मोगलप्पा के आत्मज, जन्म 1 अप्रैल, 1927, विवाह श्रीमती रत्नाबाई कुशनूर से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, कर्णाटक विधान मण्डल, मंत्री, कर्णाटक सरकार, 1978, सहकारिता मंत्री, 1979-80, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1982 से 2-4-1988 ।

स्थायी पता सी० आर० एस० रोड, बीदर (कर्णाटक) ।

कुशवाहा, श्री राम नरेश बी० ए० (साहित्य रत्न), लोकदल (उत्तर प्रदेश), श्री वेनीमाधव कुशवाहा के आत्मज, जन्म 30 अप्रैल, 1929, विवाह श्रीमती समरजी से, 1 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) लोक सभा, 1977—79 और (2) राज्य सभा, 3-4-1982 से 2-4-1988, अध्यक्ष, लोक दल, उत्तर प्रदेश, महासचिव, सयुक्त समाजवादी दल और समाजवादी दल, उत्तर प्रदेश, 1967—72, सचिव, लोक दल, उत्तर प्रदेश, 1980, हिन्दी पुस्तकों के लेखक ।

स्थायी पता ग्राम और डाकघर लार, जिला देवरिया (उत्तर प्रदेश) ।

कृपलानी, श्री कृष्णा बी० ए०, बार-एट-लॉ, (नाम-निर्देशित), श्री रामचन्द्र बी० कृपलानी के आत्मज, जन्म 29 सितम्बर, 1907, विवाह श्रीमती नन्दिता से, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1974 से 2-4-1980, टैगोर, गांधीजी तथा भारतीय साहित्य पर अनेकों पुस्तकों के लेखक, 'पद्मभूषण' से सम्मानित ।

स्थायी पता "मलन्या", 'शान्ति निकेतन' (पश्चिमी बंगाल) ।

कृष्ण कान्त, श्री एम० एससी० (टेक०), निर्दलीय (हरियाणा), लाला अचिन्त राम के आत्मज, जन्म 28 फरवरी, 1927, विवाह श्रीमती सुमन से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 29-11-1966 से 2-4-1972 और 10-4-1972 से 20-3-1977, अध्यक्ष, (1) जल-प्रदूषण निवारण विधेयक सवधी सयुक्त समिति और (2) रेलवे आरक्षण और बुकिंग सवधी समिति ।

स्थायी पता 1245, बाजार खजाचियान, हिसार (हरियाणा) ।

कृष्ण चन्द्र, श्री बी० एससी०, कांग्रेस (उत्तर प्रदेश), लाला श्रीराम के आत्मज, जन्म मार्च, 1895, विवाह श्रीमती शान्ति देवी से, 1 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1937—52, (2) लोक सभा, 1952—62 और (3) राज्य सभा, 19-4-1962 से 2-4-1964, दिवंगत । श्रद्धाजलि—8-5-1969 ।

कृष्णन, श्री ई० आर० . ए० आई० ए० डी० एम० के० (तमिलनाडु), श्री ई० राजगोपाल के आत्मज, जन्म 21 अप्रैल, 1922, विवाह श्रीमती मरुवती से, 3 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1) तमिलनाडु विधान सभा, 1967—71, (2) लोक सभा, 1971—77 और (3) राज्य सभा, 18-7-1977 से 2-4-1980।

स्थायी पता : 25, अन्ना नगर, सेलम (तमिलनाडु)।

कृष्णन, श्री एन० के० : एम० ए०, भारतीय साम्यवादी दल (केरल), श्री एम० डी० नारायण अय्यर के आत्मज, जन्म 12 अप्रैल, 1913, विवाह श्रीमती पार्वती कृष्णन से, 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 10-11-1970 से 2-4-1974।

स्थायी पता . हाऊस न० 428-ए, कूरकचेरी, नेडुपुझा, त्रिचुर (केरल)।

\*कृष्णन, श्री जी० वार्डे वी० ए०, वी० एल०, भारत-विद्या ओर समाज कल्याण म डिप्लोमा, काग्रेम (आई) (कर्णाटक), श्री जी० एच० नारायणय्या के आत्मज, जन्म 4 अक्टूबर, 1929, विवाह श्रीमती लक्ष्मी सरोज कृष्णन से, 3 पुत्र और 6 पुत्रिया, सदस्य, लोक सभा, 1967—84; अध्यक्ष, कॉफी बोर्ड, 1988-89, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1990 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता . (1) कोलाग, कर्णाटक और (2) 26, 13वा क्रॉस, 6ठा कवि रोड, विजय नगर, बगलौर (कर्णाटक)।

कृष्णन, श्री यू० आर० . वी० ए०, वी० एल०, ए० आई० ए० डी० एम० के० (तमिलनाडु), श्री वी० स्यप्पा गुडर के आत्मज, जन्म 1 अप्रैल, 1944, अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 25-7-1977 से 24-7-1983।

स्थायी पता . उरुमडमपलयम, ज्ञानमविकई मिल्स, डाकघर कोयम्बटूर (तमिलनाडु)।

कृष्णमाचारी, श्री वी० टी० . वी० ए०, वी० एल०, (नाम-निर्देशित), श्री बेंगल थिन्वेकटाचारियर के आत्मज, जन्म 8 फरवरी, 1881, विवाह श्रीमती रगम्मल से, 3 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 9-6-1961 से 13-2-1964, दिवान, बडौदा राज्य, 1927—44, प्रधान मंत्री, पूर्व जयपुर राज्य, 1946—49, अध्यक्ष, (1) मंत्रियों की समिति, चेम्बर ऑफ प्रिन्सेम, 1941—44, (2) भारतीय राज्य वित्तीय जाच समिति, 1948-49 और (3) भारतीय राजकोषीय आयोग, 1949, उपाध्यक्ष, सविधान सभा, 1947—50, उपाध्यक्ष, योजना आयोग, 1953—60, कुछ पुस्तकों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—14-2-1964।

कृष्ण मोहन, श्री वी० वी० कॉम०, वी० एल०, काग्रेम (आई) (आंध्र प्रदेश), श्री वी० एन० शाम्शी के आत्मज, जन्म 30 अक्टूबर, 1936, विवाह श्रीमती मरुवती से, 3 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) आंध्र प्रदेश विधान परिषद, 1972—74 और (2) राज्य सभा, 3-4-1980 से 2-4-1986।

स्थायी पता . आमलापुरम (आंध्र प्रदेश)।

कृष्णा, श्री एम० आर० काग्रेस (आई) (आन्ध्र प्रदेश), श्री वी० एम० रंगास्वामी के आत्मज, जन्म 1924, विवाह श्रीमती सरस्वती चाई से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, लोक सभा, 1952—57, 1957—62, 1962—67 और 1967—70, रक्षा, औद्योगिक विकास और आन्तरिक व्यापार विभागों के केन्द्रीय उपमन्त्री, 1967—71, सदस्य, राज्य सभा, 19-7-1972 से 2-4-1976 आर 3-4-1976 से 2-4-1982।

स्थायी पता गाधी स्मारक स्कूल के निकट अलवल (बोलारम), सिकन्दराबाद (आंध्र प्रदेश)।

कृष्णा कुमारी, श्रीमती काग्रेस (मध्य प्रदेश), ठाकुर रविकरण सिंहा की आत्मजा, जन्म 6 मार्च, 1908, विवाह श्री यादवेन्द्र सिंह से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1954 से 2-4-1960, दिवंगत। श्रद्धाजलि—8-8-1962।

कृष्णास्वामी, श्री के० ए० एम० ए० (अर्थशास्त्र), वी० एल०, अन्ना द्रमुक (तमिलनाडु), श्री अरुणाचलम के आत्मज, जन्म 24 मार्च, 1932, विवाह श्रीमती एस० एम० पुनितारती से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1972 से 2-4-1978।

स्थायी पता 'तेन्नागम', 143, लायड्स गेट, मद्रास (तमिलनाडु)।

\*केनिया, कुमारी चन्द्रिका प्रेमजी वी० ए०, एलएल० वी०, एलएल० एम०, डी० वी० एम०, शिव सेना (महाराष्ट्र), श्री प्रेमजी मूलजी कनिया की आत्मजा, जन्म 13 जनवरी, 1951, अविवाहित, सदस्य, महाराष्ट्र विधान सभा, अध्यक्ष, अधीनस्थ विधान सवर्धा समिति, महाराष्ट्र विधान सभा, 1985-86, महाराष्ट्र सरकार में राज्य मंत्री रही, 1986—88, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1990 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता - वी-14, ओसियन गाल्ड सोसाइटी, टिवन टावर्स लेन, प्रभादेवी, बम्बई (महाराष्ट्र)।

केम्पाराज, श्री वी० टी० वी० ए०, वी० एल० काग्रस (मेसूर अब कर्णाटक), श्री थमैय्या के आत्मज, जन्म 3 मार्च 1921 विवाह श्रामती रगम्मा से 5 पुत्र आर 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) मेसूर विधान सभा, 1952—57 और (2) राज्य सभा 3-4-1968 से 2-4-1974 दिवंगत। श्रद्धाजलि—22-2-1983।

केशवानन्द, स्वामी काग्रस (राजस्थान), स्वामी खुमालदास के आत्मज, जन्म 1883, अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा 3-4-1952 से 2-4-1958 और 3-4-1958 से 2-4-1964 राजस्थान पर हिन्दी में एक पुस्तक के लेखक, दिवंगत। श्रद्धाजलि—13-11-1972।

\*केसरी, श्री सीताराम कांग्रेस (आई) (बिहार), श्री बलकान शाह के आत्मज, जन्म नवम्बर, 1919, विवाह श्रीमती केशर देवी से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) लोक सभा 1967—71 और (2) राज्य सभा, 2-7-1971 से 2-4-1974 3-4-1974 से 2-4-1980, 7-7-1980 से 6-7-1986 और 3-4-1988 से अद्यपर्यन्त, ससदीय कार्य और नोबहन तथा परिवहन मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री, 1980—83 और 1985-86, बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति के आयोजक सचिव/अध्यक्ष, 1964—67 और 1973—77।

स्थायी पता दीनापुर कण्ट, पटना (बिहार)।

कमल, श्री अरविन्दक्षण (केरल), सदस्य, राज्य सभा, 17-4-1967 से 2-4-1968। [अन्य विवरण उपलब्ध नहीं है।]

स्थायी पता कचहरी डाकघर, त्रिचूर जिला (केरल)।

\*केलाशपति, श्रीमती • इटरमीडिएट, कांग्रेस (आई) (उत्तर प्रदेश), श्री छत्री दास चौधरी की आत्मजा, जन्म 19 दिसम्बर, 1943, विवाह श्री राम दुलार से, सदस्य, (1) उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1974—77, (2) लोक सभा, 1980—84 और (3) राज्य सभा, 28-1-1985 से 2-4-1988 तथा 3-4-1988 से अद्यपर्यन्त, महासचिव, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (आई), 1985—88, सयुक्त सचिव, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी।

स्थायी पता • रानीगज, केलाश भवन, सुभाष मार्ग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।

\*कोटैया, श्री प्रागदा एस० एस० एल० मी०, कांग्रेस (आई) (आंध्र प्रदेश), श्री वीरभद्रु प्रागदा के आत्मज, जन्म 26 जुलाई, 1915, विवाह श्रीमती इन्दिरा देवी से, 1 पुत्र और 6 पुत्रिया, सदस्य, (1) मद्रास राज्य विधान सभा, 1952, (2) आंध्र राज्य विधान सभा 1955, (3) आंध्र प्रदेश विधान परिषद् 1974—80 और (4) राज्य सभा, 10-4-1990 से अद्यपर्यन्त, हथकरघा उद्योग की समस्याओं पर पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता • निडुब्रोलु (डाकघर), गुट्टर जिला (आंध्र प्रदेश)।

कोठारी, प्रो० शान्ति लाल एम० ए० (राजनीति विज्ञान) (कॉलिफोर्निया), एम० एससी० (अर्थशास्त्र) (लन्दन), कांग्रेस (राजस्थान), श्री टेकचन्द कोठारी के आत्मज, जन्म 3 अक्टूबर, 1924, विवाह श्रीमती विमला टी० सिधी से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1964 से 2-4-1970, विदेश-नीति संबंधी अनेक अनुसंधान पत्रों और पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता शान्ति कुज, 56, आनन्द रोड, मलाड, बम्बई (महाराष्ट्र)।

कोया, श्री पलत कुन्ही कांग्रेस (केरल), श्री मोहम्मद कोया के आत्मज, जन्म 12 अगस्त, 1911, विवाह श्रीमती जेनाबाई से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1962 से 2-4-1968। दिवगत। श्रद्धाजलि—23-7-1973।

\*कांया, श्री वी० वी० अब्दुल्ला मुस्लिम लीग (केरल) हाजी एम० वी० अय्यकर के आत्मज, जन्म 20 दिसम्बर 1914, विवाह श्रीमती के० कुन्दाचुम्मा से 4 पुत्र आर 1 पुत्री, सदस्य राज्य सभा 15-4-1967 से 14-4-1973, 3-4-1974 से 2-4-1980, 3-4-1980 से 2-4-1986 आर 3-4-1986 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता 11/129, करियादान विला, कनवट रोड, कालीकट (केरल)।

\*कोरे, श्री प्रभाकर वी० वी० कॉम०, काग्रम (आई) (कर्णाटक), श्री वसव प्रभु क आत्मज, जन्म 1 अगस्त, 1947, विवाह श्रीमती आशा से, 1 पुत्र आर 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1990 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता शारदा निवास, 142, मंगलवारपेट तिलकवाडी, बलगाव (कर्णाटक)।

कोल्लूर, श्री एम० एल० . काग्रस (आई) (कर्णाटक), श्री लिंगप्पा काल्लूर क आत्मज, विवाह श्रीमती गरुम्मा से 2 पुत्र आर 1 पुत्री, सदस्य, (1) हेदरावाद असेम्बली, 1952 (2) मसूर असेम्बली, 1957 आर (3) राज्य सभा, 3-4-1968 से 2-4-1974, 3-4-1974 से 2-4-1980 आर 10-4-1984 से 9-4-1990, अध्यक्ष, हेदरावाद प्रदेश काग्रस कमटी, 1954, उपाध्यक्ष, मसूर प्रदेश काग्रस कमटी ।

स्थायी पता यादगिरि जिला गुलवर्गा (कर्णाटक)।

कोल, श्री एम० एन० एम० ए० (केम्ब्रिज विश्वविद्यालय), चार-एट-लॉ, रायल इकोनोमिस्ट्स सोसाइटी क फला, (नाम-निर्देशित), श्री मनमोहन नाथ काल के आत्मज, जन्म 16 मितम्बर, 1901, विवाह श्रीमती सुखराज काल से, सचिव, (1) सविधान सभा, 1947—50, (2) अत कालीन ससद, 1950—52 आर (3) लोक सभा, 1952—64, सदस्य, राज्य सभा, 30-3-1966 से 2-4-1970 आर 3-4-1970 से 2-4-1972, समद की प्रक्रिया तथा कार्य सचालन विषयक नियम पुस्तिका आर अन्य पुस्तकों क लेखक, दिवगत। श्रद्धांजलि—17-1-1985।

कौल, श्रीमती कृष्णा एम० ए० (दर्शन शास्त्र), एम० ए० (हिन्दी), एल० टी०, काग्रस (आई) (उत्तर प्रदेश), न्यायमूर्ति किरान लाल कौल की आत्मजा, जन्म 20 नवम्बर, 1921, विवाह श्री पी० एन० कौल से 1 पुत्र आर 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1982 से 2-4-1988।

स्थायी पता तपोवन, ए-11, सर्वोदय नगर, कानपुर (उत्तर प्रदेश)।

काल, श्री चाल कृष्णा वी० ए० तक अध्ययन किया काग्रम (ओ) (गजन्थान), श्री इकबाल कृष्ण काल के आत्मज जन्म 18 जून 1903, विवाह श्रीमती विष्णुमाया काल से 2 पुत्र आर 2 पुत्रिया सदस्य, अजमेर विधान सभा 1952—57 पूर्व अजमेर राज्य से मंत्री, 1952—56, सदस्य, राजस्थान विधान सभा, 1962—67 मन्त्र गजन्थान सफर, 1962—67, सदस्य राज्य सभा, 4-10-1968 से 2-4-1974 दिवगत। श्रद्धांजलि—24-4-1974।

कोशल, श्री जगन्नाथ वी० ए०, एलएल० वी०, कांग्रेस (पजाब), लाला ताराचन्द के आत्मज, जन्म 23 अप्रैल, 1915, विवाह श्रीमती काता काशल उर्फ शारदा काशल से, 2 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1958 आर 3-4-1958 से 2-4-1964।

स्थायी पता मकान न० 4, सेक्टर न० 9 (सी), चण्डीगढ़।

कौशिक, श्री एम० पी० एम० एससी० (रसायन विज्ञान), कांग्रेस (आई) (हरियाणा), प० सुतह प्रकाश काशिक के आत्मज, जन्म 1 जनवरी 1924, विवाह श्रीमती अन्नपूर्णा कौशिक से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1984 से 21-5-1987, दिवगत। श्रद्धाजलि—27-7-1987।

खडेलवाल, श्री प्यारेलाल इन्टरमीडिएट, भारतीय जनता पार्टी (मध्य प्रदेश), श्री राधाकृष्ण जी खडेलवाल के आत्मज, जन्म 6 अप्रैल, 1929, अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 30-6-1980 से 29-6-1986, महासचिव, मध्य प्रदेश, (1) जनता पार्टी, 1977—79 आर (2) भारतीय जनता पार्टी।

स्थायी पता द्वारा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, मुखर्जी चोक भोपाल (मध्य प्रदेश)।

खन्ना, श्री मेहर चन्द कांग्रेस (पश्चिमी बंगाल), श्री कर्म चन्द खन्ना के आत्मज, जन्म 1 जून, 1897, विवाह श्रीमती राम प्यारी खन्ना से, 2 पुत्र और 3 पुत्रिया, पूर्वोत्तर सामान्त प्रान्त (अब पाकिस्तान में) में मंत्री, 1947, सदस्य, राज्य सभा, 13-5-1955 से 14-12-1956 तथा 15-12-1956 से 26-2-1962, केन्द्रीय मंत्री, पुनर्वास आर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में, 1954—62, दिवगत। श्रद्धाजलि—27-7-1970।

खाडेकर, श्री रमेश चन्द्र शंकर राव एम० ए०, एलएल० वी०, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (मध्य प्रदेश), श्री शंकर राव धादापन्त खाडेकर के आत्मज, जन्म 20 जनवरी, 1916, विवाह श्रीमती सुशीला में, सदस्य, राज्य सभा 3-4-1962 से 2-4-1968।

स्थायी पता : गणेश कालोनी, नया बाजार, लखर, ग्वालियर (मध्य प्रदेश)।

\*खातून, कुमारी सईदा एम० ए० (भूगोल) स्वर्णचन्द्र विजेता एलएल० वी०, वी० एड०, कांग्रेस (आई) (मध्य प्रदेश), श्री मुक़ीम अहमद खान की आत्मजा, जन्म 15 जनवरी 1944, अविवाहित, सदस्य राज्य सभा, 30-6-1986 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता • वार्ड न० 7, बालघाट (मध्य प्रदेश)।

खान, श्री अकबर अली . ची० ए०, एलएल- बा- (आन्ध्र) (लदन) बार-एट-लॉ, कांग्रेस (आन्ध्र प्रदेश), श्री महदुद अली खान के आत्मज, जन्म 17 नवम्बर 1899, विवाह श्रीमती करमतउनिसा वेगम से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य राज्य सभा 3-4-1954 से 2-4-1960, 3-4-1960 से 2-4-1966 और 3-4-1966 से 2-4-1972, 1965 में पद्म-भूषण से सम्मानित।

स्थायी पता न्यान हाऊस सैफावाट हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)।

खान, श्री अब्दुर रज्जाक ची० ए० साम्यवादी दल (पश्चिमी-बंगाल), श्री अहमद खान के आत्मज, जन्म 14 अगस्त 1900 विवाह श्रीमती वशीरा खानुम से, 3 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1954 से 2-4-1960, दिवगत। श्रद्धाञ्जलि—21-3-1984।

खान, श्री अहमद सईद . कांग्रेस (उत्तर प्रदेश), श्री अब्दुल अली खान के आत्मज, जन्म 11 जनवरी, 1889, विवाह श्रीमती फातिमा से, 4 पुत्र और 4 पुत्रिया, मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, 1923—25, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, जून-अगस्त, 1928 और अप्रैल-नवम्बर, 1933, मुख्य मंत्री, अन्तरिम सरकार, संयुक्त प्रान्त, अप्रैल-जुलाई, 1937, प्रधान मंत्री, हैदराबाद, जून-अक्टूबर, 1947, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954 और 3-4-1954 से 2-4-1960, दिवगत। श्रद्धाञ्जलि—18-2-1982।

खान, श्रीमती उषी वेरिस्टर-एट-लॉ, कांग्रेस (यू) (राजस्थान), श्री कुन्दन लाल दत्त की आत्मजा, जन्म 24 दिसम्बर, 1935, विवाह श्री बरकतुल्लाह खान से, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1976 से 2-4-1982।

स्थायी पता 385, सिविल लाइन्स, जयपुर (राजस्थान)।

खान, श्री एफ० एम० सोनियर कैम्ब्रिज, निर्दलीय (कर्णाटक), श्री यूसुफ अली खान के आत्मज, जन्म 11 जुलाई, 1938, विवाह श्रीमती नसरिन सुलताना से, 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) दो वर्षों के लिये कर्णाटक विधान सभा और (2) राज्य सभा, 3-4-1976 से 2-4-1982 और 3-4-1982 से 2-4-1988।

स्थायी पता न० 2, क्लाइव-लण्ड रोड, फ्रेजर टाऊन, बंगलौर (कर्णाटक)।

खान, श्री खुर्शीद आलम . एम० ए०, कांग्रेस (आई) (उत्तर प्रदेश), श्री जान आलम खान के आत्मज, जन्म 5 फरवरी, 1919, विवाह श्रीमती सईदा खुर्शीद से, 1 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 16-4-1974 से 15-4-1980 और 5-7-1980 से 6-12-1984, वाणिज्य, पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में केन्द्रीय राज्य मंत्री, 1980—84।

स्थायी पता गाव पितारा, डाकघर-कायमगज, जिला-फर्रुखाबाद (उत्तर प्रदेश)।



खान, श्री गयूर अली • हाई स्कूल, जनता दल (उत्तर प्रदेश), श्री महम्मद लियाकत अली खान के आत्मज, जन्म 7 अक्टूबर, 1909, विवाह श्रीमती नोशाभा वेगम से, सदस्य, (1) उत्तर प्रदेश विधान सभा 1957—62, (2) लोक सभा, 1962—70 और (3) राज्य सभा, 3-4-1976 से 8-1-1980, दिवंगत। श्रद्धाजलि—24-4-1989।

खान, श्री पीर मोहम्मद नशनल काँग्रेस (जम्मू आर कश्मीर), श्री सिरदर गोस मोहम्मद खान के आत्मज, जन्म 1892, विवाह श्रीमती बिसमिल्लाह वेगम से, 3 पुत्र आर 2 पुत्रिया, मर्ला, जम्मू आर कश्मीर सरकार, 1948—51, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1958 आर 3-4-1958 से 2-4-1964।

स्थायी पता . जम्मू तवी, मोहल्ला उस्ताद साहिब (जम्मू आर कश्मीर)।

खान, श्री बरकतुल्लाह . वी० ए०, एलएल० वी०, कांग्रेस (राजस्थान), श्री रहमतुल्लाह खान के आत्मज, जन्म 25 अगस्त, 1920, अविवाहित, विशेष मंत्री आर कार्यवाहक प्रधान मंत्री, जोधपुर राज्य, दिसम्बर 1948, सदस्य, (1) राजस्थान विधान सभा और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954 आर 3-4-1954 से 21-3-1957, दिवंगत। श्रद्धाजलि—12-11-1973।

खान, श्री मकसूद अली वी० ए०, कांग्रेस (आई) (कर्णाटक), श्री मजहर अली खान के आत्मज, जन्म 18 जनवरी, 1925, विवाह श्रीमती वशीरुन्निसा वेगम से, 7 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, मसूर विधान सभा, 1957—67, उप-मंत्री, मसूर सरकार, 1962—67, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1972 से 9-4-1978 आर 10-4-1978 से 9-4-1984।

स्थायी पता : 49, अस्पताल रोड, बगलार (कर्णाटक)।

खान, प्रो० रशीदुद्दीन एम० ए०, पीएच० डी०, (नाम-निदेशित), श्री गुलाम अकबर खान (अकबर यार जग) के आत्मज, जन्म 11 सितम्बर, 1924, विवाह श्रीमती लीला नारायण राव से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1970 से 2-4-1976 आर 3-4-1976 से 2-4-1982, सामाजिक-आर्थिक समस्याओं आर सस्कृति पर अनेक लेख तथा अध्ययन-पत्रों के लेखक।

स्थायी पता जे०-10, ग्रैन पार्क नई दिल्ली।

खान, श्रीमती श्याम कुमारी : एम० ए०, एलएल० वी०, कांग्रेस (उत्तर प्रदेश), श्री शामलाल नेहरू की आत्मजा, जन्म 20 अक्टूबर, 1904, विवाह श्री अब्दुल जमील खान से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 11-12-1963 से 2-4-1968, दिवंगत। श्रद्धाजलि—9-6-1980।

खान, श्री समीउल्लाहः बी० ए०, एलएल० बी०, कांग्रेस (मध्य प्रदेश), श्री मोहम्मद अमीर खान के आत्मज, जन्म 19 सितम्बर, 1889, विवाह श्रीमती इरसुन्निसा बेगम से, 5 पुत्र और 1 पुत्री, मदन्य, (1) केंद्रीय विधान सभा, 1924—26 और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954, दिवगत, 13-10-1967।

\*खापर्डे, कुमारी सरोज बी० ए०, कांग्रेस (आई) (महाराष्ट्र), श्री पुरुषोत्तम एस० खापर्डे की आत्मजा, जन्म 15 अगस्त, 1941, अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1972 से 2-4-1974, 3-4-1976 से 2-4-1982, 3-4-1982 से 2-4-1988 और 3-4-1988 से अद्यपर्यन्त, केंद्रीय राज्य मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और वस्त्र मंत्रालय, 1986—89, अध्यक्ष, राज्य सभा की आवास समिति, 1982—84।

स्थायी पता: गाँधीकुटी, डा० अम्बेडकर रोड, नागपुर (महाराष्ट्र)।

खुशवंत सिंह, श्री. बी० ए०, एलएल० बी० (लंदन), बैरिस्टर-एट-लॉ, (नाम-निर्देशित), श्री सोभा सिंह के आत्मज, जन्म 2 फरवरी, 1915, विवाह श्रीमती कवल खुशवंत सिंह से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1980 से 2-4-1986, लघु कहानियों तथा उपन्यासों आदि और सिख पथ पर अनेक पुस्तकों के लेखक, पद्म भूषण से सम्मानित, 1974।

स्थायी पता . 49-ई०, सुजान सिंह पार्क, नई दिल्ली।

खेर, श्री बाल गंगाधर. बी० ए०, एलएल० बी०, कांग्रेस (बम्बई, अब महाराष्ट्र), श्री गंगाधर शंकर खेर के आत्मज, जन्म 24 अगस्त, 1888, विवाह श्रीमती द्वारका निगुडकर से, 5 पुत्र, सदस्य, बम्बई विधान सभा, 1937—52, प्रधान/मुख्य मंत्री, बम्बई राज्य, 1937—39 और 1946—52, सदस्य, (1) सविधान सभा और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 14-7-1952, उपाध्यक्ष, बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस समिति, दिवगत। श्रद्धाजलि—18-3-1957।

खैतान, श्री रघुनाथ प्रसाद. कांग्रेस (बिहार), श्री किशनचन्द खैतान के आत्मज, जन्म 18 अक्टूबर, 1910, विवाह श्रीमती मणि देवी खैतान से, 3 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1966 से 2-4-1972, दिवगत। श्रद्धाजलि—13-4-1987।

खोबरगडे, श्री भाऊराव देवजी. बी० ए०, बैरिस्टर-एट-लॉ, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (खोबरगडे) (महाराष्ट्र), श्री देवाजी खोबरगडे के आत्मज, जन्म 25 सितम्बर, 1925, विवाह श्रीमती इन्दुमती से, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1958 से 2-4-1964, 3-4-1966 से 2-4-1972 और 3-4-1978 से 2-4-1984, उपसभापति, राज्य सभा, 17 दिसम्बर, 1969 से 1 अप्रैल, 1972, अध्यक्ष, राज्य सभा की विशेषाधिकार समिति, 1970—72, महासचिव, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, अक्टूबर, 1957 से अक्टूबर, 1970, मस्थापक अध्यक्ष, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (खोबरगडे), अक्टूबर, 1970, दिवगत। श्रद्धाजलि—23-4-1984।

खोसला, डा० अजुध्या नाथ. बी० ए० (आनर्स) बी० ई०, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (मानद), (रेनम्वेलेवर पॉलिटेक्निक इन्स्टीट्यूट, सयुक्त्त राज्य अमरीका), नाम-निर्देशित, श्री रत्ता राम खोसला के आत्मज, जन्म 11 दिसम्बर, 1892, विवाह श्रीमती सुरशीला वर्ता खामला से, 1 पुत्र आर 6 पुत्रिया, मद्रस्य, राज्य सभा, 3-4-1958 से 4-10-1959, तकनीकी सम्बन्धी अनेक पुस्तकों के लेखक, पद्म भूषण में सम्मानित, 1954, दिवगत। श्रद्धाजलि—23-7-1984।

\*गज सिंह, श्री एम० ए० (इटन आर आक्मफोर्ड), निर्दलीय (राजस्थान), श्री हनवत्त मिह के आत्मज, जन्म 13 जनवरी, 1948, विवाह श्रीमती राजकुमारी हेमलता राजे से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, तिनीदाद आर टोबेगो में भारत के उच्चायुक्त, मद्रस्य, राज्य सभा 26-3-1990 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता: (1) उमद भवन पलेस, जांधपुर (राजस्थान) ओर (2) 138, सुन्दर नगर, नई दिल्ली।

\*गणेशान, श्री मिसा आर० . एम० ए०, बी० एल०, ड० मु० क० (तमिलनाडु), श्री एन० एम० रमैय्या के आत्मज, जन्म 5 सितम्बर, 1940, विवाह श्रीमती जी० कारपगम्बागाल से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, मद्रस्य, (1) तमिलनाडु विधान परिषद्, 1984—86 और (2) राज्य सभा, 3-4-1990 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता . 19, वेल्लाला स्ट्रीट, पूएसवालट्टम, मद्रास (तमिलनाडु)।

गणेशान, श्री एल०: बी० ए०, बी० एल०, ड० मु० क० (तमिलनाडु), श्री लोगानाथन के आत्मज, जन्म 4 अप्रैल, 1934, विवाह श्रीमती कमला से, 2 पुत्र आर 1 पुत्री, मद्रस्य, (1) तमिलनाडु विधान सभा, 1967—75 और (2) राज्य सभा, 30-6-1980 से 10-4-1986, 'क्रुसेड अगेस्ट हिन्दी इम्पीरियलिज्म' के लेखक।

स्थायी पता . कन्नाथगुडी कीलायुर, ओर्थानाड तालुक, जिला तन्जावूर (तमिलनाडु)।

गणेशान, श्री बी० सी० . काग्रेम (आई) (नाम-निर्देशित), श्री चिन्नय्या पिल्लै के आत्मज, जन्म 1 अक्टूबर, 1928, विवाह श्रीमती कमला से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, मद्रस्य, राज्य सभा, 18-2-1982 से 2-4-1986, (1) पद्मश्री और (2) पद्म भूषण में सम्मानित, 1984।

स्थायी पता : 16 बोग रोड, टी-नगर, मद्रास (तमिलनाडु)।

गणेश्वर कुसुम, श्री . मट्टिक, ई टी, काग्रम (आई) (उडीसा), श्री मावाधर कुसुम के आत्मज, जन्म 21 मार्च, 1934, विवाह श्रीमती जमदा कुसुम से 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, मद्रस्य, राज्य सभा, 3-4-1984 से 2-4-1990।

स्थायी पता . गाव जामनालया, डारुण भाम्मा, जिना मृन्दगट (उडीसा)।

Handwritten text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of handwritten text, appearing as a list or series of notes.

Third block of handwritten text, continuing the list or notes.

Fourth block of handwritten text, possibly a separate section or entry.

Fifth block of handwritten text, showing more detailed notes or calculations.

Sixth block of handwritten text at the bottom of the page, possibly a conclusion or final notes.

गालिव, शेख : एम० एम० एल० सी०, कांग्रेस (आन्ध्र प्रदेश), श्री चिंगी शा के आत्मज, जन्म 15 जुलाई, 1904, विवाह श्रीमती इमाम बीबी से, 3 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) अन्त कालीन ममद, 1950—52 और (2) राज्य सभा, 3-4-1954 से 12-7-1958।

स्थायी पता . सागडोंगुटा, गुट्टर (आन्ध्र प्रदेश)।

गिल, श्री रघवीर सिंह . वी० ए०, कांग्रेस (पंजाब), श्री निरजन सिंह गिल के आत्मज, जन्म 31 मई, 1928, विवाह श्रीमती हरदयाल कौर से, 2 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1976 से 9-5-1980।

स्थायी पता गाव एव डाकघर लण्डरा, तहसील खरड, जिला रोपड (पंजाब)।

गिलवर्ट, श्री एलवर्ट क्रोजियर : कांग्रेस (उत्तर प्रदेश), श्री टी० सी० गिलवर्ट के आत्मज, जन्म 16 अक्टूबर, 1908, विवाह श्रीमती मेव्रेता गिलवर्ट से, 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 10-11-1960 से 2-4-1964 तथा 3-4-1964 से 2-4-1970, दिवंगत। श्रद्धाजति—27-12-1990।

गिल्डर, डा० मनचेरशा धुनजीभाई दोरावजी वी० ए०, एल० एम० एण्ड एम०, एम० डी० (लन्दन), एफ० आर० सी० एम० (इंग्लैंड), कांग्रेस (बम्बई अब महाराष्ट्र), श्री डी० डी० गिल्डर के आत्मज, जन्म 5 नवम्बर, 1882, विवाह श्रीमती हीराबाई से, 1 पुत्री, सदस्य, बम्बई विधान सभा, 1927—52, मंत्री, बम्बई सरकार, 1937—39 और 1945—52, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956 तथा 3-4-1956 से 2-4-1960, चिकित्सा सचची पुस्तकों के लेखक, दिवंगत। श्रद्धाजति—22-5-1979।

गुजराल, श्री इन्द्र कुमार . एम० ए० (अर्थशास्त्र), वी० कॉम०, कांग्रेस (पंजाब), श्री अवतार नारायण गुजराल के आत्मज, जन्म 4 दिसम्बर, 1919, विवाह श्रीमती गीला गुजराल से, 2 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1964 से 2-4-1970 तथा 3-4-1970 से 2-4-1976, समदीय कार्य, संचार, सूचना और प्रसारण, निर्माण और आवास तथा शहरी विकास और योजना मंत्रालयों के केंद्रीय राज्य मंत्री।

स्थायी पता . जी-13, मंगरानी बाग, नई दिल्ली।

गुप्त, श्री आर० सी० : वी० ए०, एलएन० बी०, कांग्रेस (झारखण्ड), लक्ष्मी श्रीराम के आत्मज, जन्म . मार्च, 1893, विवाह, 4 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1) झारखण्ड विधान परिषद्, 1937—52, (2) मणिगन सभा, 1946—50, (3) अन्त कालीन ममद, 1950—52 और (4) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954 तथा 3-4-1954 से 2-4-1960, सम्मति और अभिप्राय निर्णयों के मध्य में दोनों ओरों के लेखक, दिवंगत। श्रद्धाजति—22-12-1978।

गुप्त, श्री गुम्देव. काप्रेस (आई) (मध्य प्रदेश), लाला मन्लाल के आत्मज, जन्म 1920, विवाह श्रीमती सोमवती देवी गुप्त से, 4 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1960 से 2-4-1966 और 3-4-1976 से 2-4-1982, अध्यक्ष, मध्य प्रदेश काप्रेस कमेटी।

स्थायी पता. वेकट रोड, रीवा (मध्य प्रदेश)।

गुप्त, श्री बालकृष्ण वी० ए० (ऑनर्स), वी० एससी० (ऑनर्स) (अर्थशास्त्र) (लन्दन), सोशलिस्ट पार्टी लोहियावादी (बिहार), श्री शम्भुदयाल गुप्त के आत्मज, जन्म 5 मार्च, 1910, विवाह श्रीमती नारायणी देवी से, 1 पुत्र तथा 4 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1968 से 10-9-1972, दिवगत। श्रद्धाजलि—13-11-1972।

गुप्त, श्री भूपेश वी० ए०, एलएल० वी० (लन्दन), बार-एट-लॉ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (पश्चिमी बंगाल), श्री महेश चन्द्र गुप्त के आत्मज, जन्म अक्टूबर, 1914, अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1958, 3-4-1958 से 2-4-1964, 3-4-1964 से 2-4-1970, 3-4-1970 से 2-4-1976 तथा 3-4-1976 से 6-8-1981, सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद, अग्नेजी और बंगला भाषाओं में अनेक पुस्तकों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—17-8-1981।

गुप्त, श्री मैथिली शरण डी० लिट्० (मानद), साहित्य वाचस्पति, (नाम-निर्देशित), सेठ रामचरण के आत्मज, जन्म 3 अगस्त, 1886, विवाह श्रीमती सरयू देवी से, 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1958 तथा 3-4-1958 से 2-4-1964, पद्म विभूषण से सम्मानित, 1954, अनेक कविताओं और उपन्यासों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—14-12-1964।

गुप्त, श्री राम गोपाल स्वतंत्र पार्टी (उत्तर प्रदेश), लाला रामचरण गुप्त के आत्मज, जन्म 21 जुलाई, 1920, विवाह श्रीमती केसर देवी से, 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1960 से 2-4-1966।

स्थायी पता 84/22, फजल गज, कानपुर (उत्तर प्रदेश)।

गुप्त, श्री राम लखन प्रसाद. एम० ए०, वी० एल०, भारतीय जनता पार्टी (बिहार), श्री तनुक लाल शाह के आत्मज, जन्म 1926, विवाह श्रीमती सरला गुप्त से, 4 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) बिहार विधान परिषद, 1970—76 तथा 1977-78 और (2) राज्य सभा, 10-4-1978 से 9-4-1984, अध्यक्ष, बिहार राज्य जनसंघ, 1973—75, उपाध्यक्ष, (1) बिहार जनता पार्टी, 1977—80 और (2) बिहार भारतीय जनता पार्टी, 1980-81, दिवगत। श्रद्धाजलि—30-1-1985।

गुप्त, श्री श्याम लाल इटर कामर्स, काप्रेस (सगठन) (बिहार), श्री निरञ्जन लाल के आत्मज, जन्म 8 नवम्बर, 1912, विवाह श्रीमती राजरानी से, 2 पुत्र तथा 5 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1972 से 9-4-1978, पद्मश्री से सम्मानित, 1969, दिवगत। श्रद्धाजलि—20-12-1989।

गुप्ता, श्री विश्व वन्सु वी० एमसी०, कांग्रेस (आई) (दिल्ली), लाला देश वन्सु गुप्ता के आत्मज, जन्म 10 अक्टूबर, 1927, विवाह डा० (श्रीमती) विल्ला गुप्ता से, सदस्य, (1) अन्तरिम महानगर परिषद, दिल्ली, 1966 आर (2) राज्य सभा, 3-4-1984 से 2-4-1990, उपाध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी (आई), 1984।

स्थायी पता: 5, टालम्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110001।

गुप्ते, श्री भालचन्द्र महेश्वर: एम० ए०, एलएल० वी०, कांग्रेस (मैसूर, अब कर्णाटक), श्री महेश्वर रामचन्द्र गुप्ते के आत्मज, जन्म 17 फरवरी, 1895, विवाह श्रीमती सरस्वती गुप्ते से, 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, मसदीय सचिव, बवाई सरकार, 1937—39, सदस्य, (1) सविधान सभा, 1946—50 और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1958, मराठी भाषा में भारतीय सविधान के संवध में एक पुस्तक के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—13-3-1972।

\*गुफरान आजम, श्री. एम० ए०, पीएच० डी०, कांग्रेस (आई) (मध्य प्रदेश), श्री एस० एम० आजम के आत्मज, जन्म 1 जुलाई, 1943, विवाह श्रीमती विनीता आजम से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, (1) लोक सभा, 1980—85 और (2) राज्य सभा, 16-6-1989 से अद्यपर्यन्त, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव/उपाध्यक्ष।

स्थायी पता. 48, निशात कालोनी, टी० टी० नगर, भोपाल (मध्य प्रदेश)।

गुरुग, श्री टी० एस० • मेट्रिक, सी० पी० आई० (एम०) (पश्चिमी बंगाल), स्वर्गीय आनरेरी कैप्टेन वी० वी० गुरुग (ओ० वी० आई०) के आत्मज, जन्म 29 अक्टूबर, 1923, विवाह श्रीमती इसाबेला एडवर्ड गुरुग से, सदस्य, राज्य सभा, 14-3-1986 से 13-1-1989, दिवगत। श्रद्धाजलि—21-2-1989।

\*गुरुपदस्वामी, श्री एम० एस०. एलएल० वी०, जनता दल (उत्तर प्रदेश), श्री शिवलिंग देवान् के आत्मज, जन्म 7 अगस्त, 1922, विवाह श्रीमती राजश्री से, 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) लोक सभा, 1952—57 और (2) राज्य सभा, 3-4-1960 से 2-4-1966, 3-4-1966 से 2-4-1972, 10-4-1984 से 9-4-1990 और 10-4-1990 से अद्यपर्यन्त, केन्द्रीय राज्य मंत्री, (1) परमाणु ऊर्जा विभाग, मार्च, 1967 से जून, 1967 और (2) खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास और महकारिता मंत्रालय, जून, 1967 से अक्टूबर, 1969, राज्य सभा में विपक्ष के नेता, 1971, पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा सभा के नेता, दिसम्बर, 1989 से नवम्बर, 1990, अध्यक्ष, मैसूर राज्य प्रजा समाजवादी पार्टी, 1957—61, कुठ पुस्तको के लेखक।

स्थायी पता: 285/22, रामानुज रोड, मैसूर (कर्णाटक)।

गुरुमूर्ति, श्री वी० वी० इटर, कांग्रेस (हरद्वारा अथवा आन्ध्र प्रदेश), श्री वी० वीरनैया के आत्मज, जन्म 31 जुलाई, 1916, विवाह श्रीमती ईश्वरम्मा से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 15-2-1954 से 2-4-1956।

स्थायी पता: 240, खडोजी बाजार, मिन्द्ररावाड (आन्ध्र प्रदेश)।

गुरुस्वामी, श्री एस०: वी० ए०, (मद्रास अब तमिलनाडु), श्री जी० सुब्रह्मस्वामी अय्यर के आत्मज, जन्म 28 सितम्बर, 1904, विवाहित, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, (1) केन्द्रीय विधान सभा, 1946-47 और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954, दिवगत। श्रद्धाजलि—3-9-1963।

गुलशेर अहमद, श्री. वी० ए०, एलएल० वी०, बार-एट-लॉ, कांग्रेस (विध्य प्रदेश, अब मध्य प्रदेश), शेख वजीर अहमद के आत्मज, जन्म 3 अगस्त, 1921, विवाह श्रीमती चोतूल फातिमा से, 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956।

स्थायी पता: रेवा (मध्य प्रदेश)।

गुहा, डा० (श्रीमती) फूलरेणु० एम० ए०, डी० लिट्० (पेरिस), कांग्रेस (पश्चिमी बंगाल), श्री सुन्दर नाथ दत्त की आत्मजा, जन्म 13 अगस्त, 1911, विवाह डा० वीरेश चन्द्र गुहा से, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1964 से 2-4-1970, समाज कल्याण विभाग की केन्द्रीय राज्य मंत्री, 1967।

स्थायी पता 55/5, पूर्ण दास रोड, कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)।

गोगोई, श्री तिलोक० वी० ए०, कांग्रेस (आई) (असम), श्री खगेश्वर गोगोई के आत्मज, जन्म 10 अप्रैल, 1923, विवाह श्रीमती दिव्यलता गोगोई से, 2 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) असम विधान सभा, 1962—72 और (2) राज्य सभा, 20-7-1977 से 2-4-1980, उपाध्यक्ष, असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी, 1972, दिवगत। श्रद्धाजलि—23-7-1985।

गोपाल, श्री बलाडि गणपति. कांग्रेस (बिहार), श्री वी० एस० गणपति अय्यर के आत्मज, जन्म 20 दिसम्बर, 1917, विवाह श्रीमती लक्ष्मी से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956।

स्थायी पता. नारायण कृपा, प्लाट सख्या—1, आई० सी० रोड, जमशेदपुर (बिहार)।

गोपालकृष्ण, श्री आर० कांग्रेस (मद्रास अब तमिलनाडु), श्री रामस्वामी के आत्मज, जन्म. 15 अगस्त, 1922, विवाह श्रीमती सरस्वती गोपालकृष्णन से, 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 12-3-1960 से 2-4-1964।

स्थायी पता देवनगुडी, डाकघर—वाकुर (बंगला) लालपट, तालुक विदम्बम्म, जिला दक्षिण अरकाट (तमिलनाडु)।

\*गोपालन, श्री आर० टी० वी० पी० ई०, ए० आई० ए० डी० एम० के० (II) (तमिलनाडु), श्री आर० थिमिया गौडर के आत्मज, जन्म 16 अगस्त, 1943, विवाह श्रीमती जी० पगाजम से, 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) तमिलनाडु विधान सभा, 1980—84 और (?) राज्य सभा, 30-6-1986 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता 28, अमरावती इल्लम अल्मारतु स्ट्रीट, कम्बम, जिला मदुरै (तमिलनाडु)।



गोपालन, श्री के० वी० ए०, जनता पार्टी (जी) (केरल), श्री चेंकुट्टी के आत्मज, जन्म 25 दिसम्बर, 1919, विवाह श्रीमती शारदा से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) मद्रास विधान परिषद और (2) राज्य सभा, 2-7-1982 से 1-7-1988, अध्यक्ष, जनता पार्टी (जी), महासचिव, (1) केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के (तीन बार) और (2) कांग्रेस (ओ०) राज्य समिति, 1969।

स्थायी पता चक्कोराथुकुलम, कालीकट (केरल)।

\*गोपालसामी, श्री वी० एम० ए० (अर्थशास्त्र), वी० एल०, ड्र० मु० क० (तमिलनाडु), श्री टी० ए० जी० वैयापुरी नायकर के आत्मज, जन्म 22 मई, 1944, विवाह श्रीमती जी० रेणुगादेवी से, 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1978 से 2-4-1984, 3-4-1984 से 2-4-1990 आर 3-4-1990 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता. कल्लिगपट्टी (डाकघर), तिरुवेनादम (वरास्ता) सकरन्कोडल (तालुक), जिला तिरुनलवेली (तमिलनाडु)।

गोपाल सिंह, डा० एम० ए०, पीएच० डी०, जे० डी० (लन्दन), (नाम-निर्देशित), सरदार आत्मा सिंह के आत्मज, जन्म 29 नवम्बर, 1917, विवाह श्रीमती इन्द्रजीत कोर से, 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1962 से 2-4-1968, लेखक—सिख धर्म ग्रंथ का चार खण्डों में मुक्त छंद में सवमें पहला किया गया अंग्रेजी अनुवाद, "लाइफ ऑफ गुरु नानक" "लाइफ ऑफ गुरु गोविन्द सिंह", "इंग्लिश-पंजाबी डिक्शनरी", दिवगत। श्रद्धाजलि—8-8-1990।

गोयल, श्री जे० पी० एम० ए०, एलएल० वी०, लोक दल (उत्तर प्रदेश), श्री हरद्वारी लाल के आत्मज, जन्म 21 दिसम्बर, 1926, विवाह श्रीमती मिथलेश कुमारी गोयल से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1982 से 2-4-1988, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1984-85, कोषाध्यक्ष, लोक दल।

स्थायी पता. वी-116, नीति वाग, नई दिल्ली।

गोरे, श्री नारायण गणेश वी० ए०, एलएल० वी०, सोशलिस्ट पार्टी (महाराष्ट्र), श्री गणेश गोविन्द गोरे के आत्मज, जन्म 15 जून, 1907, विवाह श्रीमती सुमति से, 1 पुत्री, सदस्य, (1) लोक सभा, 1957—62 और (2) राज्य सभा, 3-4-1970 से 2-4-1976, सयुक्त सचिव, सोशलिस्ट पार्टी, 1948, महासचिव, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, 1953—54।

स्थायी पता सदाशिव पेट, पुणे (महाराष्ट्र)।

गोलन्दाज मोहम्मदहुसन, श्री इन्टरमीडिएट, कांग्रेस (आई) (गुजरात), श्री अब्दुल समद के आत्मज, जन्म 23 सितम्बर, 1913, विवाह श्रीमती सकीना बेगम से, 1 पुत्र तथा 4 पुत्रिया, सदस्य, (1) वम्बई विधान सभा, 1952—57, (2) वम्बई और गुजरात विधान सभा, 1957—62, (3) गुजरात विधान सभा, 1967—71 और (4) राज्य सभा, 3-4-1976 से 2-4-1982।

स्थायी पता 1/98, ए-6, गोलन्दाज स्ट्रीट, नानपुरा, सुरत (गुजरात)।

\*वर्तमान सदस्य।

\*गोस्वामी, श्री दिनेश एम० ए० (अर्थशास्त्र), एलएल० बी०, असम गण परिषद् (असम), श्री रजनी कात गोस्वामी के आत्मज, जन्म 27 मई 1935, विवाह श्रीमती विभा गोस्वामी से, 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, लोक सभा, 1971 से 1977 और 1985 से 1989, सदस्य, लोक सभा के सभापतियों की तालिका, 1974-75, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1978 से 9-4-1984 और 10-4-1990 से अद्यपर्यन्त, उपसभाध्यक्ष राज्य सभा, 1979—82, केन्द्रीय इस्पात और खान मंत्री तथा त्रिधि और न्याय मंत्री, दिसम्बर, 1989 से नवम्बर, 1990।

स्थायी पता भारालुमुख, गुवाहाटी (असम)।

\*गोस्वामी, श्री रामनारायण मेट्रिक, कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्सवादी) (पश्चिमी बंगाल), श्री पुलिन बिहारी गोस्वामी के आत्मज, जन्म 5 अप्रैल, 1935, विवाह श्रीमती लतिका गोस्वामी से, 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, पश्चिमी बंगाल विधान सभा, 1977—86, पश्चिमी बंगाल सरकार के मंत्री, 1982—86, सदस्य, राज्य सभा, 22-10-1986 से, 9-7-1987 और 10-7-1987 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता ग्राम और डाकघर भेटा, जिला वर्दवान (पश्चिमी बंगाल)।

गोस्वामी, श्री विश्व वी० ए०, जनता (असम), श्री जामिनी कात गोस्वामी के आत्मज, जन्म दिसम्बर, 1921, अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा 3-4-1980 से 2-4-1986, महासचिव, (1) प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, असम, 1955—71, (2) सोशलिस्ट पार्टी, असम, 1973—76 और (3) जनता पार्टी, असम, 1977—79, दिवगत। श्रद्धाञ्जलि—3-3-1987।

गोस्वामी, श्री श्रीमन् प्रफुल्ल निर्दलीय (असम), पंडित प्रताप चन्द्र गोस्वामी के आत्मज, जन्म 2 फरवरी, 1911, विवाह श्रीमती ऊपा गोस्वामी से, 4 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) असम विधान सभा, 1952—57 और 1957—62 और (2) राज्य सभा, 4-5-1967 से 2-4-1972 और 3-4-1974 से 2-4-1980, महासचिव, असम कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, 1938—44, कई वर्षों तक असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सगठन सचिव/सचिव/महासचिव/अध्यक्ष रहे, असमी भाषा में पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता नलवाडी सतरा, डाकघर नलवाडी, कामरूप, जिला (असम)।

गोड, डा० राज बहादुर एम० वी० वी० एस०, कम्युनिस्ट पार्टी (आन्ध्र प्रदेश), श्री महबूब राय गोड के आत्मज, जन्म 21 जुलाई, 1920, विवाह श्रीमती ब्रजयानी गोड से, 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956 और 3-4-1956 से 2-4-1962, सचिव, ए० आई० टी० यू० सी०, 1957।

स्थायी पता 1-8-1 / 60, सूर्यनगर, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)।

गौडा, श्री के० एस० मल्ले: बी० एससी०, निर्दलीय (कर्णाटक), श्री के० सिद्धे गौडा के आत्मज, जन्म 25 नवम्बर, 1916, विवाह श्रीमती लक्ष्मी देवी से, 1 पुत्र तथा 4 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1970 से 2-4-1976 तथा 3-4-1976 से 2-4-1982, कर्णाटक साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित, 1974, भारतीय प्रशासनिक सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, ग्रामीण भारत सबधी पुस्तको के लेखक।

स्थायी पता. 6, के० आर० रोड, वासवनगुडी, बगलौर (कर्णाटक)।

गौडा, श्री के० जी० थिम्मे: बी० एससी०, बी० एल०, जनता दल (कर्णाटक), श्री जी० वेक्टरामन गौडा के आत्मज, जन्म 1915, विवाह श्रीमती गगाम्मा से, 3 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, (1) कर्णाटक विधान सभा, (2) कर्णाटक विधान परिषद् और (3) राज्य सभा, 10-4-1984 से 9-4-1990।

स्थायी पता: कनकपुर, जिला बगलौर (कर्णाटक)।

गौडा, श्री डी० बी० चन्द्रे: बी० एससी०, एलएल० बी०, जनता दल (कर्णाटक), श्री डी० ए० वाइरे गौडा के आत्मज, जन्म 26 अगस्त, 1936, विवाह श्रीमती बी० एस० पूर्णा से, 4 पुत्रिया, सदस्य, (1) लोक सभा, 1971—77 और 1977—79 और (2) कर्णाटक विधान परिषद, 1978—82, मंत्री, कर्णाटक सरकार, 1979-80, कर्णाटक विधान परिषद में विपक्ष के नेता, 1980-81, सदस्य, कर्णाटक विधान सभा, 1983—85, अध्यक्ष, कर्णाटक विधान सभा, 1983—85, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1986 से 14-12-1989, अध्यक्ष, कर्णाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (यू), 1979।

स्थायी पता: डाराडा हल्ली मुडिगेरे, जिला - चिकमगलूर (कर्णाटक)।

गौडा, श्री यू० के० लक्ष्मण: बी० एससी०, निर्दलीय (कर्णाटक), श्री यू० कलासे गौडा के आत्मज, जन्म 15 दिसबर, 1919, विवाह श्रीमती लक्ष्मी देवी से, 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1968 से 2-4-1974 तथा 3-4-1974 से 2-4-1980।

स्थायी पता. उरविनाएवान एस्टेट, जवलि डाकखाना (कर्णाटक)।

\*गौतम, श्री आनन्द प्रकाश: एम० ए० (हिन्दी), एलएल० बी०, निर्दलीय (उत्तर प्रदेश), श्री नये लाल के आत्मज, जन्म 12 नवम्बर, 1941, विवाह श्रीमती माया से, 4 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 28-1-1985 से 4-7-1986 और 3-4-1988 से अद्यपर्यंत।

स्थायी पता. 532, सी/189, मेहदी टोला, अलीगज, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।

गौतम, श्री मोहन लाल वी० ए० (आनर्स), काग्रेस (ओ०) (उत्तर प्रदेश), पंडित चित्तमल के आत्मज, जन्म 5 अगस्त, 1902, विवाह श्रीमती द्रौपदी देवी से, 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1937, 1952, 1957 और 1967, मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, 1952—54 और 1956—60, सदस्य, (1) सविधान सभा, 1947 और (2) राज्य सभा, 14-8-1969 से 2-4-1972, सचिव/अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, प्रदेश कांग्रेस समिति, 1936, 1963—64 और 1969, महासचिव, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, 1950-51, दिवगत। श्रद्धाजलि—4-8-1977।

\*गौतम, श्री सद्य प्रिय. वी० एससी०, एलएल० वी०, सिद्धान्त भास्कर, भारतीय जनता पार्टी (उत्तर प्रदेश), चौधरी छेदा लाल के आत्मज, जन्म 31 जनवरी, 1931, विवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1990 से अद्यपर्यन्त, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश।

स्थायी पता तुलसी मार्केट, काला आम, बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश)।

घोष, श्री अरविंद आई० एससी०, भा० सा० द० (मार्क्सवादी) (पश्चिमी बंगाल), श्री गिरेन्द्र एन० घोष के आत्मज, जन्म जनवरी, 1925, विवाह श्रीमती अमीना घोष से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 10-7-1981 से 8-11-1984, दिवगत। श्रद्धाजलि—17-1-1985।

\*घोष, श्री दीपेन. वी० काम, सी० पी० आई० (एम०) (पश्चिमी बंगाल), श्री शचीन्द्र भूषण घोष के आत्मज, जन्म 1 फरवरी, 1932, विवाह श्रीमती रीना घोष से, 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1981 से 9-7-1987 तथा 10-7-1987 से अद्यपर्यन्त, कामगारों तथा आर्थिक मामलों से संबंधित समस्याओं के संवध में अनेक लेखों के लेखक।

स्थायी पता ब्लॉक-बी, फ्लैट नं० 3, सी० आई० टी० स्कीम-II, 15, बेङ्गलूर रोड, कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)।

घोष, प्रिंसिपल देव प्रसाद एम० ए०, वी० एल०, जनसघ (पश्चिमी बंगाल), श्री क्षेत्रनाथ घोष के आत्मज, जन्म 15 मार्च, 1894, विवाह श्रीमती शोभारानी घोष से, 6 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954, कुछ पुस्तकों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—23-7-1985।

घोष, श्री नीरेन. वी० ए०, सी० पी० आई० (एम०) (पश्चिमी बंगाल), डा० मन्मथ नाथ घोष के आत्मज, जन्म अप्रैल, 1915, अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1962 से 2-4-1968 तथा 10-7-1969 से 9-7-1975।

स्थायी पता: 53, लोअर सर्कुलर रोड, कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)।

घोष, श्री बिमल कुमार वी० ए० (आनर्स अर्थशास्त्र), वी० एससी० (अर्थशास्त्र) (लंदन), जर्मन में लेंग्वेज सर्टिफिकेट (बर्लिन विश्वविद्यालय), किसान मजदूर प्रजा पार्टी (पश्चिमी बंगाल), श्री एस० सी० घोष के आत्मज, जन्म नवम्बर, 1906, सदस्य, (1) बंगाल/पश्चिमी बंगाल विधान सभा, 1946—52 और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 21-3-1957, दिवगत। श्रद्धाजलि—14-8-1961।

**घोष, श्री शंकर :** एम० ए० (अर्थशास्त्र), पीएच० डी० (लन्दन), बैरिस्टर-एट-लॉ, कांग्रेस (अर्स) (पश्चिमी बंगाल), श्री पकज घोष के आत्मज, जन्म अक्टूबर, 1925, विवाह श्रीमती सविता घोष से, 2 पुत्रिया, सदस्य, पश्चिमी बंगाल विधान सभा, 1971, मंत्री, पश्चिमी बंगाल सरकार, 1972—76, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1976 से 2-4-1982, केन्द्रीय योजना राज्य मंत्री, अप्रैल, 1976 से मार्च, 1977, अनेक पुस्तको के लेखक।

**स्थायी पता :** 2-एफ, केमक स्ट्रीट, कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)।

**घोष, श्री शान्तिमय :** इन्टरमीडिएट (विज्ञान), सी० पी० आई० (एम०) (पश्चिमी बंगाल), श्री जामिनी कात घोष के आत्मज, जन्म 14 मार्च, 1914, विवाह श्रीमती मोनी घोष से, सदस्य, राज्य सभा, 18-9-1984 से 31-10-1986, दिवगत। श्रद्धाजलि—4-11-1986।

279735

**घोष, श्री सुधीर :** एम० ए० (कैम्ब्रिज), कांग्रेस (पश्चिमी बंगाल), श्री अविनाश चद्र घोष के आत्मज, जन्म 27 फरवरी, 1916, विवाह श्रीमती शान्ति घोष से, 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1960 से 2-4-1966, जन सम्पर्क अधिकारी, भारतीय उच्चायोग, लन्दन, 1947, सामुदायिक विकास के सवध में सयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ, ब्राजील, 1953-54; दिवगत। श्रद्धाजलि—18-3-1967।

**घोष, श्री सुरेन्द्र मोहन :** कांग्रेस (पश्चिमी बंगाल), श्री कामिनी मोहन घोष के आत्मज, जन्म 22 अप्रैल, 1893, अविवाहित, सदस्य, (1) सविधान सभा, 1946—50 और (2) अत कालीन ससद, 1950—52, अध्यक्ष, ससदीय आवास समिति, 1950—52, सदस्य, (1) लोक सभा, 1952—56 और (2) राज्य सभा, 13-12-1956 से 2-4-1962 और 3-4-1962 से 2-4-1968, अध्यक्ष, बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, 1939—50, दिवगत। श्रद्धाजलि—3-11-1976।

**चक्रधर, श्री ए० :** (आन्ध्र प्रदेश), सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1958 से 2-4-1964। [अन्य ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं]

**स्थायी पता :** नेलापाडू, डाकघर वरीपालेम, तालुका तेनाली, जिला गुटूर (आंध्र प्रदेश)।

**चक्रवर्ती, श्री अमर प्रसाद :** एम० ए०, एलएल० बी०, फारवर्ड ब्लाक (पश्चिमी बंगाल), श्री उपेन्द्र लाल के आत्मज, जन्म दिसम्बर, 1921, विवाह श्रीमती वकुलरानी चक्रवर्ती से, 3 पुत्र, सदस्य, पश्चिमी बंगाल विधान परिषद्, 1962—68, मंत्री, पश्चिमी बंगाल सरकार, 1967, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1978 से 2-4-1984 और 3-4-1984 से 27-10-1985, सचिव, फारवर्ड ब्लाक, राज्य और केन्द्रीय सगठन, दिवगत। श्रद्धाजलि—18-11-1985।

चक्रवर्ती, डा० रजत कुमार वी० एससी०, वी० एम० ई० (आनर्स), एम० एस०, पीएच० डी०, एम० आई० ई०, कांग्रेस (पश्चिमी बंगाल), श्री एच० के० चक्रवर्ती के आत्मज, जन्म 1 जुलाई, 1925, विवाह श्रीमती रत्ना चक्रवर्ती से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1972 से 2-4-1978।

स्थायी पता 112/1, सन्तोपपुर एवेन्यू, पहली मजिल, कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)।

\*चक्रवर्ती, श्रीमती विजया : एम० ए० (अर्थशास्त्र), असम गण परिषद् (असम), श्री वेद कांत ठाकुर की आत्मजा, जन्म 7 अक्टूबर, 1940, विवाह श्री जितेन चक्रवर्ती से, 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1986 से अद्यपर्यन्त, असमिया में कुछ पुस्तकों की लेखिका।

स्थायी पता शांतिपुर, वार्ड नं० 3, डाकघर मंगलदई, दरांग (असम)।

चटर्जी, श्री अरुण प्रकाश एम० ए०, एलएल० बी०, भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) (पश्चिमी बंगाल), श्री दुर्गादास चटर्जी के आत्मज, जन्म 10 अप्रैल, 1921, विवाह श्रीमती रमा चटर्जी से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1966 से 2-4-1972।

स्थायी पता जी० एफ० 345, सेक्टर-1, विधान नगर, कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)।

चटर्जी, प्रो० (श्रीमती) असीमा डी० एससी०, एम० एससी०, पी० आर० एस०, (नाम-निर्देशित), डा० आई० एन० मुखर्जी की आत्मजा, जन्म 23 सितम्बर, 1917, विवाह प्रो० वी० चटर्जी से, 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 18-2-1982 से 13-4-1984 तथा 9-5-1984 से 8-5-1990, (1) श्री शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, 1961 और (2) पद्म भूषण, 1975 में पुरस्कृत, अनेक वैज्ञानिक शोध पत्रों की रचयिता।

स्थायी पता 108, मानिकतला मेन रोड, ब्लॉक 1, फ्लैट नं० 3, कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)।

चटर्जी, श्री जोगेश चन्द्र कांग्रेस (उत्तर प्रदेश), श्री विपिन चन्द्र चटर्जी के आत्मज, जन्म 1895, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1956 से 2-4-1960, 3-4-1960 से 2-4-1966 और 3-4-1966 से 28-4-1969, सचिव, आल इंडिया आर० एस० पी०, 1940—53, उपाध्यक्ष, (1) आल इंडिया युनाइटेड ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस, 1949—53 और (2) युनाइटेड सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, 1949, दिवगत। श्रद्धांजलि—28-4-1969।

चटर्जी, श्री निर्मल एम० ए०, भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) (पश्चिमी बंगाल), श्री खगेन्द्र नाथ चटर्जी के आत्मज, जन्म 1 मार्च, 1925, विवाह श्रीमती मीरासेन गुप्ता से, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1982 से 2-4-1988।

स्थायी पता. 51, रवीन्द्र पल्ली, जयनगर, कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)।

चटर्जी, श्री प्रणव . एम० ए०, एलएल० बी०, जनता पार्टी (बिहार), श्री सनत कुमार चटर्जी के आत्मज, जन्म 15 जुलाई, 1929, विवाह श्रीमती महाश्वेता चटर्जी से, सदस्य, (1) चौथी बिहार विधान सभा, (2) बिहार विधान परिषद, 1977-78 और (3) राज्य सभा, 10-4-1978 से 2-6-1979, अध्यक्ष, बिहार सयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, 1967-68, दिवंगत। श्रद्धाजलि—9-7-1979।

चट्टोपाध्याय, प्रो० डी० पी० : एम० ए०, एलएल० बी०, डी० फिल०, पीएच० डी० (लन्दन), काग्रेस (आई) (पश्चिमी बंगाल), श्री पार्श्वनाथ चट्टोपाध्याय के आत्मज, जन्म 5 नवम्बर, 1933, विवाह श्रीमती शेफाली वासु से, 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 10-7-1969 से 9-7-1975 और 10-7-1975 से 9-7-1981, केन्द्रीय स्वास्थ्य और योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री, 1971—73, वाणिज्य मंत्री, फरवरी, 1973 से मार्च, 1977, कई पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता: 25, पार्क मैन्शन, कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)।

चतुर्जी मास्टर, श्री के० . प्राथमिक विद्यालय शिक्षक प्रशिक्षण, भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) (केरल), श्री रामिकुट्टी के आत्मज, जन्म 1921, विवाह, (1) श्रीमती कल्याणी और (2) श्रीमती पी० के० शारदा से, 4 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) केरल विधान सभा, (3 बार) और (2) राज्य सभा, 22-4-1979 से 21-4-1985, दिवंगत। श्रद्धाजलि—10-8-1990।

चतुर्वेदी, श्री बनारसी दास: काग्रेस (मध्य प्रदेश), पंडित गणेशीलाल चतुर्वेदी के आत्मज, जन्म 24 दिसम्बर, 1892, विवाह श्रीमती हरी देवी से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1958 और 3-4-1958 से 2-4-1964, कुछ पुस्तकों के लेखक, दिवंगत। श्रद्धाजलि—3-5-1985।

\*चतुर्वेदी, श्री भुवनेश . एम० ए० (अर्थशास्त्र), एलएल० बी०, काग्रेस (आई) (राजस्थान), श्री राजा रामजी चतुर्वेदी के आत्मज, जन्म 2 मई, 1928, अविवाहित, सदस्य, (1) राजस्थान विधान सभा, 1972—77 और (2) राज्य सभा, 3-4-1982 से 2-4-1988 और 3-4-1988 से अद्यपर्यन्त, अध्यक्ष, मानसिक स्वास्थ्य विधेयक, 1981 सवधो सयुक्त ससदीय समिति, सचिव, राजस्थान प्रदेश काग्रेस (आई) कमेटी, 1979—81।

स्थायी पता: 'भारत स्मृति' भीमगज मंडी, कोटा (राजस्थान)।

चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती : साहित्य रत्न, विद्या विशारद, काग्रेस (मध्य प्रदेश), श्री नाथूराम खत की आत्मजा, जन्म 6 दिसम्बर, 1924, विवाह श्री वावूराम चतुर्वेदी से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्या, (1) मध्य प्रदेश विधान सभा, 1957—62 और (2) राज्य सभा, 3-4-1966 से 2-4-1972 और 10-4-1972 से 9-4-1978, उपाध्यक्षा, मध्य प्रदेश काग्रेस कमेटी।

स्थायी पता: टोडिया भवन, छतरपुर (मध्य प्रदेश)।

\*चनपुरिया, श्री शिवप्रसाद. भारतीय जनता पार्टी (मध्य प्रदेश), पण्डित छोटे लाल चनपुरिया के आत्मज, जन्म 1 मार्च, 1917, विवाह श्रीमती ताराबाई से, 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री, 1980, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1990 से अद्यपर्यन्त, अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश, 1985, अनेक नाटकों के लेखक।

स्थायी पता : गाव और डाकघर बाघराजी, जबलपुर (मध्य प्रदेश)।

चन्द्रशेखर, श्री: एम० ए० (राजनीति शास्त्र), निर्दलीय (उत्तर प्रदेश), श्री सदानन्द सिंह के आत्मज, जन्म 1 जुलाई, 1927, विवाहित, 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1962 से 2-4-1968, 3-4-1968 से 2-4-1974 और 3-4-1974 से 22-3-1977, सचिव, राजा सोशलिस्ट पार्टी, उत्तर प्रदेश, भारत के प्रधान मंत्री, 10 नवम्बर, 1990 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता : बलिया (उत्तर प्रदेश)।

चन्द्रशेखर, डा० एस्० एम० ए०, एम० लिट्, एम० एससी०, पीएच० डी० (न्यूयार्क), एफ० एस० एस० (लन्दन), डी० लिट् (मानद), कांग्रेस (मद्रास, अब तमिलनाडु), श्री श्रीपति सारागपाणि के आत्मज, जन्म 22 नवम्बर, 1918, विवाह श्रीमती एन डाउनज से, 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1964 से 2-4-1970, केन्द्रीय स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और शहरी विकास राज्य मंत्री, 1967, अनेक पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता. 74, II मेन रोड, गान्धी नगर, मद्रास (तमिलनाडु)।

चन्द्रशेखर, श्रीमती मरगतम्. बी० एससी०, एल० टी०, एच० एण्ड एस० एस० (लन्दन), (1) स्वतन्त्र पत्रकारिता (लन्दन), (2) गृह विज्ञान (लन्दन) और (3) डाइटिटिक्स कोर्स (लन्दन) में डिप्लोमा प्राप्त किया, लन्दन में डिग्री पाठ्यक्रम में सांस्थानिक प्रबन्ध एवं प्रशासन में विशेषज्ञता प्राप्त की, कांग्रेस (आई), (नाम-निर्देशित), श्री विद्वान कलायुर मुनिस्वामी पिल्लै की आत्मजा, जन्म 11 नवम्बर, 1917, विवाह श्री आर० चन्द्रशेखर से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, लोक सभा, 1952—57 और 1962—67, केन्द्रीय उपमन्त्री, (1) स्वास्थ्य, 1952—57, (2) गृह, 1962—64 और (3) समाज कल्याण, 1964—67, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1970 से 2-4-1976, 3-4-1976 से 2-4-1982 और 27-9-1982 से 29-12-1984, महासचिव, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, 1972।

स्थायी पता . 79, सैन्थम हाई रोड, मद्रास (तमिलनाडु)।

चन्द्रशेखरन, श्री के० . बी० ए०, बी० एल०, सोशलिस्ट पार्टी (केरल), श्री के० राम वर्मा के आत्मज, जन्म 22 सितम्बर, 1921, अविवाहित, सदस्य, केरल विधान सभा, 1957—59 तथा 1960—64, मंत्री, केरल सरकार, 1960—63, सदस्य, राज्य सभा, 17-4-1967 से 2-4-1970 और 3-4-1970 से 2-4-1976, अध्यक्ष, केरल संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, 1963—66 और 1967, अध्यक्ष, इंडियन सोशलिस्ट पार्टी।

स्थायी पता : एर्णाकुलम, कोचीन (केरल)।



चेगलवरायन, श्री टी० बी० ए०, एलएल० बी०, कांग्रेस (ओ०) (तमिलनाडु), जन्म 13 अगस्त, 1908, विवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 9-8-1963 से 2-4-1966 तथा 3-4-1966 से 2-4-1972, सचिव, तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस कमेटी।

स्थायी पता : 4-ए, हाल रोड, किलपॉक, मद्रास (तमिलनाडु)।

चेटिया, श्री पूर्णानन्द बी० ए०, कांग्रेस (असम), श्री रमाकात चेटिया के आत्मज, जन्म 22 फरवरी, 1907, विवाह श्रीमती अन्नदावाला से, 3 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, असम विधान सभा, 1946, 1952 तथा 1957, मुख्य मंत्री असम, के ससदीय सचिव, 1946, मंत्री, असम सरकार, 1951 और 1952—57, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1964 से 2-4-1970।

स्थायी पता : त्रिपुरा कैसल रोड, डाकघर शिलग (मेघालय)।

चेट्टियार, श्री टी० एस० अविनाशीलिंगम. बी० ए०, बी० एल०, कांग्रेस (मद्रास अब तमिलनाडु), श्री के० सुब्रमण्य चेट्टियार के आत्मज, जन्म 5 मई, 1903, सदस्य, (1) केन्द्रीय विधान सभा, 1935—45 और (2) मद्रास विधान सभा, 1946, मंत्री, मद्रास सरकार, 1946—49, सदस्य, (1) लोक सभा, 1952—57 और (2) राज्य सभा, 3-4-1958 से 2-4-1964।

स्थायी पता : श्री रामकृष्ण मिशन विद्यालय, कोयम्बटूर (तमिलनाडु)।

चोरडिया, श्री विमल कुमार मन्नालालजी. बी० काम०, एलएल० बी०, जनसघ (मध्य प्रदेश), श्री मन्नालाल जी चोरडिया के आत्मज, जन्म 15 अक्टूबर, 1924, विवाह श्रीमती लीला बाई से, 3 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) मध्य भारत विधान सभा, 1952—57, (2) मध्य प्रदेश विधान सभा, 1957—62 और (3) राज्य सभा, 3-4-1962 से 2-4-1968, उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश जनसघ।

स्थायी पता : डाकघर भानपुर, जिला मन्दासौर (मध्य प्रदेश)।

चौटाला, श्री ओम प्रकाश. दसवी कक्षा तक अध्ययन किया, जनता दल (हरियाणा), चौधरी देवी लाल के आत्मज, जन्म 1 जनवरी, 1935, विवाह श्रीमती स्नेह लता से, 2 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) हरियाणा विधान सभा, 1970 से 1973 और (2) राज्य सभा, 14-8-1987 से 9-4-1990, हरियाणा के मुख्य मंत्री, दिसंबर, 1989 से मई, 1990, जनता पार्टी के महासचिव, 1977—80।

स्थायी पता : तेजाखेडा फार्म हाउस, तेजाखेडा, डाकघर चौटाला, तहसील डववाली, जिला सिरसा (हरियाणा)।

चौधरी, श्री ए० एस०: एम० ए०, कांग्रेस (आई०) (आन्ध्र प्रदेश), श्री ए० वापीनीडु के आत्मज, जन्म 21 जुलाई, 1930, विवाह श्रीमती ए० रत्नावली चौधरी से, 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1972 से 9-4-1978 तथा 3-4-1980 से 2-4-1986।

स्थायी पता: मकान नं० 8-2-325/1, रोड नं० 7, बजार हिल्स, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)।

चौधरी, श्री एन० पी० वी० कॉम०, एलएल० वी०, कांग्रेस (मध्य प्रदेश), श्री जुराखन प्रसाद चौधरी के आत्मज, जन्म 16 जुलाई, 1925, विवाह श्रीमती रामप्यारी चाई से, 5 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) मध्य प्रदेश विधान सभा, 1962—67 और (2) राज्य सभा, 3-4-1968 से 2-4-1974 तथा 3-4-1974 से 2-4-1980।

स्थायी पता: भारतीपुर रोड, जबलपुर (मध्य प्रदेश)।

चौधरी, श्री गनेशी लाल० एम० ए०, एलएल० वी०, कांग्रेस (सगठन) (उत्तर प्रदेश), श्री मूल चन्द्र चौधरी के आत्मज, जन्म 5 अगस्त, 1921, विवाह श्रीमती शांतादेवी से, 2 पुत्र तथा 4 पुत्रिया, सदस्य, (1) लोक सभा, 1952—57, और (2) उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1957—62 और 1962—67, सप्तदीय सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, 1960—63, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1968 से 2-4-1974, दिवगत। श्रद्धाजलि—2-12-1981।

चौधरी, डा० चन्द्रमणिलाल० कांग्रेस (विहार), श्री बाबू नान्हूलाल चौधरी के आत्मज, जन्म 25 जनवरी, 1915, विवाह श्रीमती कमला कुमारी देवी से, 4 पुत्र तथा 5 पुत्रिया, सदस्य, (1) विहार विधान सभा, 1952—57, (2) लोक सभा, 1957—62 और 1962—67 और (3) राज्य सभा, 3-4-1974 से 8-2-1979, दिवगत। श्रद्धाजलि—19-2-1979।

\*चौधरी, श्री त्रिदिबः एम० ए० (अर्थशास्त्र), क्रांतिकारी समाजवादी दल (पश्चिमी बंगाल), श्री गणेश गोविन्द के आत्मज, जन्म 13 दिसम्बर, 1911, अविवाहित, सदस्य, (1) लोक सभा, 1952—84 और (2) राज्य सभा, 10-7-1987 से अद्यपर्यन्त, अनेक पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता: 37, रिपन स्ट्रीट (मुजफ्फर अहमद सरणी), कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)

चौधरी, श्री नूपति रजन० वी० ए०, कांग्रेस (असम), श्री नरेन्द्र चन्द्र चौधरी के आत्मज, जन्म 18 मई, 1937, विवाह श्रीमती लोपामुद्रा से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1972 से 9-4-1978।

स्थायी पता: रामकृष्ण मिशन रोड, डाकघर-करीमगंज (असम)।

चौधरी, श्री महेन्द्र मोहन वी० ए०, एलएल० वी०, कांग्रेस (असम), श्री डाडीराम चौधरी के आत्मज, जन्म 12 अप्रैल, 1908, विवाह श्रीमती सुखलता चौधरी से, 2 पुत्र तथा 4 पुत्रिया, सदस्य, असम विधान सभा, 1946—56 और 1958—72, ससदीय सचिव, असम सरकार, 1947—50, मंत्री, असम सरकार, 1950—55 और 1967—70, अध्यक्ष, असम विधान सभा, 1959—67, मुख्य मंत्री, असम, 1970—72, सदस्य, राज्य सभा, 1-12-1956 से 9-4-1958 और 19-6-1972 से 2-4-1974, महासचिव, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, 1956—58, अध्यक्ष, असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी, असमिया पुस्तको के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—18-2-1983।

\*चौधरी, श्रीमती रेणुका . एम० ए० (औद्योगिक मनोविज्ञान), विपणन प्रबन्ध, जन सम्पर्क और विज्ञापन मे डिप्लोमा, तेलुगु देशम (आन्ध्र प्रदेश), एयर कोमोडोर के ए० ए० राव की आत्मजा, जन्म 13 अगस्त, 1954, विवाह श्री श्रीधर चौधरी से, 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1986 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता : मोन रेपोज, 8-2-269/3, रोड स० 2, वन्जारा हिल्स, हैदराबाद। (आन्ध्र प्रदेश)।

चौरसिया, श्री शिव दयालसिंह : बी० एससी०, एलएल० वी०, जनता पार्टी (उत्तर प्रदेश), श्री प्राग राम चौरसिया के आत्मज, जन्म 13 मार्च, 1903, विवाह श्रीमती रामप्यारी से, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1974 से 2-4-1980।

स्थायी पता 13, ए० पी० सेन रोड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।

चौहान, श्री नवाब सिंह . कांग्रेस (उत्तर प्रदेश), ठाकुर बलवत सिंह के आत्मज, जन्म 16 दिसम्बर, 1909, विवाह श्रीमती हरीप्यारी देवी से, 3 पुत्र, सदस्य, (1) उत्तर प्रदेश विधान सभा और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1958 तथा 3-4-1958 से 21-6-1963, दिवगत। श्रद्धाजलि—20-4-1981।

छागला, श्री एम० सी० . वी० ए० (ऑक्सफोर्ड), वॉर-एट-लॉ, एलएल० डी० (मानद), निर्दलीय (महाराष्ट्र), श्री करीम के आत्मज, जन्म 30 सितम्बर, 1900, विवाह श्रीमती मेहरून्निसा धारसी जीवराज से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 2-3-1964 से 2-4-1966 और 3-4-1966 से 2-4-1972, केंद्रीय मंत्री, (1) शिक्षा, नवम्बर, 1963 से नवम्बर, 1966 और (2) विदेश, नवम्बर, 1966 से सितम्बर, 1967, सभा के नेता, राज्य सभा, 1964—66 और 1966-67, अवर न्यायाधीश, बर्बई उच्च न्यायालय, 1941—47, मुख्य न्यायाधीश, बर्बई उच्च न्यायालय, 1947—58, कुलपति, बर्बई विश्वविद्यालय, 1947, राज्यपाल, बर्बई, अक्तूबर से दिसम्बर, 1956, तदर्थ न्यायाधीश, हेग स्थित अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, 1957—60, भारत के राजदूत, (1) अमरीका, मेक्सिको तथा क्यूबा, 1958—61 और (2) आयरलैंड, 1962-63, इंग्लैण्ड मे भारत के उच्चायुक्त, अनेक पुस्तको के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—16-2-1981।

छेत्री, श्री कृष्ण बहादुर . वी० ए० तथा हिन्दी में कोविद, कांग्रेस (पश्चिमी बंगाल), श्री डी० वी० छेत्री के आत्मज, जन्म 15 अक्तूबर, 1935, विवाह श्रीमती भीम कुमारी छेत्री से, 2 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1972 से 22-3-1977।

स्थायी पता : दिलाराम, डाकघर तुग, जिला दार्जिलिंग (पश्चिमी बंगाल)।

छेत्री, श्रीमती माया देवी कांग्रेस (पश्चिमी बंगाल), श्री कुल वहादुर छेत्री की आत्मजा, जन्म - मार्च, 1921, विवाह श्री डी० बी० छेत्री से, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1958 और 3-4-1958 से 2-4-1964, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1959, नेपाली भाषा में पुस्तको की लेखिका।

स्थायी पता छेत्री भवन, डाकघर कुर्सियाग, जिला दार्जिलिंग (पश्चिमी बंगाल)।

जकारिया, डा० रफीक एम० ए०, पीएच० डी० (लदन), बैरिस्टर-एट-लॉ, कांग्रेस (आई) (महाराष्ट्र), श्री बालूमिया जकारिया के आत्मज, जन्म 5 अप्रैल, 1920, विवाह श्रीमती फातिमा से, 3 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, (1) महाराष्ट्र विधान परिषद, 1960—62 और (2) महाराष्ट्र विधान सभा, 1962—78, उपमंत्री/मंत्री, महाराष्ट्र सरकार, 1962—77, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1978 से 2-4-1984, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83, कुछ पुस्तको के लेखक।

स्थायी पता 3, सीलैण्ड, 41, कुफे पैरेड, मुम्बई (महाराष्ट्र)।

जगत नारायण, श्री बी० ए०, भारतीय क्रांति दल (हरियाणा), श्री लक्ष्मीदास चोपड़ा के आत्मज, जन्म 31 मई, 1899, विवाह श्रीमती शोति देवी से, 2 पुत्र तथा 8 पुत्रिया, सदस्य, पंजाब विधान सभा, 1952—62, पंजाब सरकार में मंत्री, 1952—56, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1964 से 2-4-1970, महासचिव, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी, 1951—54, दिवगत। श्रद्धाञ्जलि—10-9-1981।

जगदीर सिंह, श्री बी० ए०, एलएल० बी०, जनता पार्टी (उत्तर प्रदेश), कुवर होशियार सिंह के आत्मज, जन्म अक्तूबर, 1922, विवाह श्रीमती सरोज बाला से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1957—67 और 1969—74 और (2) राज्य सभा, 3-4-1974 से 2-4-1980, केन्द्रीय राज्य मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, 1977-78।

स्थायी पता ग्राम तथा डाकघर भटोना, जिला बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश)।

\*जगमोहन, श्री. एम० ए०, (नाम-निर्देशित), श्री अमीर चन्द के आत्मज, जन्म 25 सितम्बर, 1927, विवाह श्रीमती उमा जगमोहन से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल, 1980-81 और 1982-84, जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल, 1984-90, सदस्य, राज्य सभा, 28-5-1990 से अद्यपर्यन्त, (1) पद्मश्री, 1971, (2) पद्म भूषण, 1977 और (3) आस्ट्रेलियन कल्चरल एवार्ड, 1975 से सम्मानित, अनेक पुस्तको के लेखक।

स्थायी पता: 61, लोदी एस्टेट, नई दिल्ली।

जगरलामूडी, श्री चन्द्रमौलि: बी० ए०, बी० एल०, स्वतंत्र पार्टी (आन्ध्र प्रदेश), श्री जे० कुप्पूस्वामी चौधरी के आत्मज, जन्म 4 जुलाई, 1914, विवाह श्रीमती गंगा भवानी से, 4 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, (1) आन्ध्र प्रदेश विधान सभा, 1955—62 और (2) राज्य सभा, 3-4-1968 से 2-4-1974।

स्थायी पता. 14वीं लाइन, अरुण्डेलपेट, गुदूर (आंध्र प्रदेश)।

जनार्दनम्, श्री ए० पी०. एम० ए०, अखिल भारतीय अन्नाद्रमुक (तमिलनाडु), श्री ए० पुरुषोत्तम के आत्मज, जन्म 25 दिसम्बर, 1919, विवाह श्रीमती ए० पी० जे० मनोरजितम् से, 1 पुत्री, सदस्य, (1) तमिलनाडु विधान परिषद, 1968—74 और (2) राज्य सभा, 25-7-1977 से 24-7-1983, कई पुस्तकों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—13-4-1987।

जमीर, श्री एस० सी०: वी० ए०, एलएल० वी०, कांग्रेस (आई) (नागालैंड), श्री सेनयागवा जमीर के आत्मज, जन्म 17 अक्टूबर, 1931, विवाह श्रीमती अलेम्ला से, 3 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, लोक सभा, 1961—70, विदेश मंत्रालय में ससदीय सचिव, रेल, श्रम, नियोजन, पुनर्वास, खाद्य और कृषि मंत्रालयों में केंद्रीय उप-मंत्री, 1968—70, सदस्य, नागालैंड विधान सभा, मंत्री, नागालैंड सरकार, 1974, उप-मुख्य मंत्री, नागालैंड, 1977, मुख्य मंत्री, नागालैंड, 1979 और 1982—86, सदस्य, राज्य सभा, 2-7-1987 से 2-2-1989।

स्थायी पता: नागार्जन, डाकघर दीमापुर (नागालैंड)।

जमुना देवी, श्रीमती: मैट्रिक तक अध्ययन किया, जनता पार्टी (मध्य प्रदेश), श्री सुखाजी सिंघर की आत्मजा, जन्म 19 नवम्बर, 1929, विवाह श्री गुलाबचन्द से, 1 पुत्री, सदस्य, (1) मध्य भारत विधान सभा, 1952—57, (2) लोक सभा, 1962—67 और (3) राज्य सभा, 10-4-1978 से 2-4-1980, महासचिव, जनता पार्टी (मध्य प्रदेश), 1977-78।

स्थायी पता: 54, नेहरू मार्ग, झाबुआ (मध्य प्रदेश)।

जयललिता जयराम, कुमारी. मैट्रिक, अखिल भारतीय अन्नाद्रमुक (तमिलनाडु), श्री आर० जयराम की आत्मजा, जन्म 24 फरवरी, 1948, अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1984 से 28-1-1989, महासचिव, अखिल भारतीय अन्नाद्रमुक पार्टी, तमिल पुस्तकों और उपन्यासों की लेखिका।

स्थायी पता: 'वेद निलयम्', 36, पोइज गार्डन, मद्रास (तमिलनाडु)।

जलाली, आगा सैयद मोहम्मद. नेशनल काँग्रेस (जम्मू और कश्मीर) आगा सैयद हुसैन शाह जलाली के आत्मज, जन्म अप्रैल, 1905, विवाह श्रीमती बादशाह बेगम से, 2 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) जम्मू और कश्मीर सविधान सभा, 1951-52 और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956 और 3-4-1956 से 22-2-1961, दिवगत। श्रद्धाजलि—23-2-1961।

\*जवलिन, श्री जे० पि०: 'इन्टरमीडिएट आर्ट्स' तक अध्ययन किया, जनता दल (कर्णाटक), श्री पद्मनाभैया के आत्मज, जन्म 4 मई, 1931, विवाह श्रीमती शकुन्तला जे० जवलिन से, 3 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1988 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता 8/1, क्लव रोड, हुबली (कर्णाटक)।

जवार हुसैन, श्री बी० ए० (आनर्स), बी० एल०, कांग्रेस (बिहार), श्री एम० मोहम्मद जवार के आत्मज, जन्म 2 फरवरी, 1916, विवाह श्रीमती अख्तर बानो वेगम से, 3 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, बिहार विधान सभा, 1957—62, 1967-68 और 1969—72, मंत्री, बिहार सरकार, 1961 और 1969—75, सदस्य, राज्य सभा, 20-12-1975 से 9-4-1978।

स्थायी पता 10, वाटर टावर रोड, पटना (बिहार)।

जसवन्त सिंह, श्री बी० ए०, निर्दलीय (राजस्थान), कर्नल ठाकुर पृथीराज सिंह जी के आत्मज, जन्म 23 अक्टूबर, 1903, विवाह श्रीमती गुलाब कुमारी से, सदस्य, (1) बीकानेर विधान सभा, 1940—48, (2) सविधान सभा, 1948—50, (3) अन्त कालीन ससद, 1950-51 और (4) राजस्थान विधान सभा, 1952—56, विपक्ष के नेता, राजस्थान विधान सभा, 1952—56, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1956 से 2-4-1962, बीकानेर राज्य में मंत्री, 1941—48, प्रधान मंत्री, बीकानेर राज्य, 1948, मंत्री, राजस्थान राज्य, 1951।

स्थायी पता 10, डौंडसर हाउस, बीकानेर (राजस्थान)।

जसवन्त सिंह, श्री बी० ए०, बी० एससी०, भारतीय जनता पार्टी (राजस्थान), ठाकुर सरदार सिंह के आत्मज, जन्म 3 जनवरी, 1938, विवाह श्रीमती शीतल कुमारी से, 2 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 5-7-1980 से 4-7-1986 तथा 5-7-1986 से 27-11-1989।

स्थायी पता जसोल हाउस, पावटा क्षेत्र, जोधपुर (राजस्थान)।

जाकिर हुसैन, डा० एम० ए०, पीएच० डी० (बर्लिन), डी० लिट० (मानद), (नाम-निर्देशित), श्री फिदा हुसैन के आत्मज, जन्म 8 फरवरी, 1897, विवाह श्रीमती शाहजहा बेगम से, 2 पुत्रिया, उपकुलपति, (1) जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली, 1926—48 और (2) अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ, 1948—56, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956 तथा 3-4-1956 से 6-7-1957, उपरष्ट्रपति और राज्य सभा के पदेन सभापति, 13-5-1962 से 12-5-1967 तथा भारत के राष्ट्रपति 13-5-1967 से 3-5-1969, (1) पद्म विभूषण, 1954 और (2) भारत रत्न, 1963 से सम्मानित, कई पुस्तकों के लेखक, दिवंगत। श्रद्धाजलि—5-5-1969।

जाधव, श्री डी० के० (मध्य प्रदेश), सदस्य, राज्य सभा, 25-3-1969 से 2-4-1970। [अन्य व्यौरें उपलब्ध नहीं हैं।]

स्थायी पता: जय बिहार, ग्वालियर (मध्य प्रदेश)।

जाधव, श्री पाडुरंग धर्माजी. मैट्रिक, चमडा प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा, (नाम-निर्देशित), श्री धर्माजी अम्बोजी जाधव के आत्मज, जन्म 9 सितम्बर, 1922, विवाह श्रीमती उपाताई मुकाणे से, 3 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) बम्बई विधान सभा, 1952—57 और (2) राज्य सभा, 14-4-1978 से 13-4-1984, 1971 में पद्म श्री की उपाधि से सम्मानित, दिवंगत। श्रद्धाजलि—27-7-1987।

\*जाधव, श्री विठ्ठलराव माधवराव: एम० एससी० (कृषि), कांग्रेस (आई) (महाराष्ट्र), श्री माधवराव पाटिल (जाधव) के आत्मज, जन्म 30 अक्टूबर, 1937, विवाह श्रीमती शोभा विठ्ठलराव जाधव से, 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1982 से 2-4-1988 और 3-4-1988 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता: 1, एच० आई० जी० कालोनी, आई० टी० आई० के पास, नादेड (महाराष्ट्र)।

\*जानी, श्री जगदीश: मैट्रिक, कांग्रेस (आई) (उड़ीसा), श्री उतारा जानी के आत्मज, जन्म 3 जनवरी, 1921, विवाह श्रीमती सौरी जानी से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) उड़ीसा विधान सभा, 1971—73 और 1974—77 और (2) राज्य सभा, 2-7-1980 से 1-7-1986 तथा 2-7-1986 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता: ग्राम तथा डाकखाना- दालपाडा, थाना—खजूरीपाडा, जिला-फुलवनी (उड़ीसा)।

जामुदा, श्री दुर्गा प्रसाद: बी० ए०, बी० एल०, कांग्रेस (आई) (बिहार), श्री जोगेन हो के आत्मज, जन्म 13 फरवरी, 1943, विवाह श्रीमती मगदाली जामुदा से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, बिहार विधान सभा, 1972 में चुने गए, बिहार सरकार में उपमन्त्री, 1973, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1984 से 9-4-1990।

स्थायी पता: देलियामार्च रोड, चाईवासा, पोस्ट आफिस चाईवासा, जिला सिंहभूम (बिहार)।

\*जायसवाल, श्री अनन्त राम: बी० ए०, एलएल० बी०, जनता दल (एस) (उत्तर प्रदेश), श्री अयोध्या प्रसाद के आत्मज, जन्म 1 अप्रैल, 1928, विवाह श्रीमती सावित्री से, 1 पुत्री, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1967 और 1969—74, उप मन्त्री / मन्त्री, उत्तर प्रदेश सरकार, 1967 और 1970, सदस्य, (1) लोक सभा, 1977—79 और (2) राज्य सभा, 3-4-1990 से अद्यपर्यन्त, अध्यक्ष, जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश, 1983—85, महासचिव, अखिल भारतीय जनता पार्टी, 1985—87।

स्थायी पता: 554, रसूलपुर, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)।

जार्ज, श्री के० सी० एम० ए०, एलएल० बी०, साम्यवादी दल (द्रावनकोर-कोचीन अब केरल), श्री के० जी० चेरियन के आत्मज, जन्म 1903, अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 5-3-1954।

स्थायी पता 'फेयर लाइट' यूनिवर्सिटी रोड, त्रिवेन्द्रम (केरल)।

जुगल किशोर, श्री बी० ए०, एलएल० बी०, कांग्रेस (पंजाब), श्री चिरजी लाल के आत्मज, जन्म 1888, विवाह श्रीमती इन्द्रावती से, 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 20-4-1957 से 2-4-1962, दिवंगत। श्रद्धाजलि—1-8-1967।

\*जेकब, श्री एम० एम० एम० ए०, एलएल० बी०, आय कर विधि में डिप्लोमा और समाज विज्ञान में प्रमाणपत्र, कांग्रेस (आई) (केरल), श्री मेथ्यू के आत्मज, जन्म 9 अगस्त, 1928, विवाह श्रीमती अचमा से, 4 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 2-7-1982 से 1-7-1988 और 2-7-1988 से अद्यपर्यन्त, अध्यक्ष, अधीनस्थ विधान सवन्धी समिति, राज्य सभा, 1984—86, उप-सभापति, राज्य सभा, 22-2-1986 से 21-10-1986, अध्यक्ष, राज्य सभा की विशेषाधिकार समिति, 1986, जल ससाधन मन्त्रालय के केन्द्रीय राज्य मंत्री और ससदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री, अक्टूबर, 1986 से नवम्बर, 1989, महासचिव, केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (आई), 1978—84।

स्थायी पता आई—1, जवाहर नगर, त्रिवेन्द्रम (केरल)।

\*जेठमलानी, श्री राम एलएल० एम०, जनता दल (कर्णाटक), श्री बूलचन्द गुरुमुख दास के आत्मज, जन्म 14 सितम्बर, 1923, विवाह श्रीमती रत्ना जेठमलानी से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) लोक सभा, 1977—79 तथा 1980—84 और (2) राज्य सभा, 3-4-1988 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता 12, ब्रटन रोड, रिचमौड टाउन, बंगलौर (कर्णाटक)।

जैदी, कर्नल बशीर हुसैन बी० ए० (पंजाब), बी० ए० (आनर्स) (कैम्ब्रिज), बार-एट-लॉ, कांग्रेस (उत्तर प्रदेश), श्री शौकत हुसैन जैदी के आत्मज, जन्म 26 जुलाई, 1898, विवाह श्रीमती कुदसिया से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, मंत्री, रामपुर स्टेट, 1930—36, मुख्यमंत्री, तत्कालीन रामपुर स्टेट, 1937—49, उपकुलपति, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, 1956—62, सदस्य, (1) सविधान सभा, 1947—49, (2) अन्त कालीन ससद, 1949—51, (3) लोक सभा, 1952—57 तथा (4) राज्यसभा, 11-12-1963 से 2-4-1964 तथा 3-4-1964 से 2-4-1970।

स्थायी पता. जामिया नगर, नई दिल्ली।



जैन, श्री अजीत प्रसाद: एम० ए० (ऑनर्स), एलएल० बी०, कांग्रेस (उत्तर प्रदेश), श्री मुकुन्दलाल के आत्मज, जन्म 1902, विवाह श्रीमती लक्ष्मीदेवी से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, (1) उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1937—46 और 1946—47, (2) सविधान सभा, 1947—50, (3) अन्त कालीन ससद, 1950—52 और (4) लोक सभा, 1952—57, 1957—62 और 1962—65, केन्द्रीय मंत्री, (1) राहत और पुनर्वास, 1950—54 और (2) खाद्य और कृषि, 1954—59, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1968 से 2-4-1974, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, 1961—64, केरल के राज्यपाल, 1965-66, अनेक पुस्तकों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—28-2-1977।

\*जैन, डा० जिनेन्द्र कुमार: एम० बी० बी० एस०, एम० एस०, एफ० आई० सी० एस०, भारतीय जनता पार्टी (मध्य प्रदेश), श्री इलम चन्द जैन के आत्मज, जन्म 18 फरवरी, 1945, विवाह डा० (श्रीमती) रागिनी जैन से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 23-3-1990 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता: जैन मेडिकल सेन्टर, ए-39, एन० डी० एस० ई०-II, नई दिल्ली।

जैन, श्री जे० के०. साहित्य रत्न, कांग्रेस (आई) (मध्य प्रदेश), श्री राजे लाल जैन के आत्मज, जन्म 15 अगस्त, 1939, विवाह श्रीमती निर्मल जैन से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 30-6-1980 से 29-6-1986।

स्थायी पता: 16, पार्क एरिया, करोल बाग, नई दिल्ली।

जैन, श्री धर्मचन्द्र. कांग्रेस (आई) (बिहार), श्री मिश्री लाल जैन के आत्मज, जन्म 15 अगस्त, 1935, विवाह श्रीमती शोभा जैन से, 1 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1970 से 2-4-1976 और 3-4-1976 से 2-4-1982।

स्थायी पता. डाकघर चाईबासा, जिला सिंहभूम (बिहार)।

जैन, श्री रत्न लाल: बी० ए०, एलएल० बी, जनसघ (पजाब), श्री पजीशाह जैन के आत्मज, जन्म 20 अप्रैल, 1919, विवाह श्रीमती कैलाशवती से, 3 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1968 से 2-4-1974।

स्थायी पता ए०-3/267, पश्चिम बिहार, दिल्ली।

जैन, श्री राजेन्द्र प्रसाद: (बिहार), सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1964 (चुनाव अवैध घोषित किया गया)।

स्थायी पता: II/सी-95-98, लाजपत नगर, नई दिल्ली।

जैन, श्री श्रीयंस प्रसाद. कांग्रेस (बम्बई अब महाराष्ट्र), राय साहिब गणेशी लाल के आत्मज, जन्म 3 नवम्बर, 1908, विवाह श्रीमती कमलावती जैन से, 5 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954 और 3-4-1954 से 2-4-1958।

स्थायी पता. 29-ए, कार्माइकल रोड, मुम्बई (महाराष्ट्र)।

जैपुरिया, श्री सीताराम बी० काम०, निर्दलीय (उत्तर प्रदेश), सेठ मगताराम जैपुरिया के आत्मज, जन्म 27 मई, 1926, विवाह श्रीमती गायत्री देवी से, 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1962 से 2-4-1968 और 3-4-1968 से 2-4-1974, अनेक पुस्तकों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—23-7-1985।

जैरामदास दौलतराम, श्री एलएल० डी० (मानद), (नाम-निर्देशित), श्री दौलतराम जैठमल के आत्मज, जन्म 1891, विवाह श्रीमती देवीबाई से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, (1) बम्बई विधान परिषद, 1927—29 और (2) सविधान सभा, 1946—47 और 1948—50, केन्द्रीय खाद्य और कृषि मंत्री, 1948—50, सदस्य, राज्य सभा, 19-10-1959 से 2-4-1964, 3-4-1964 से 2-4-1970 और 3-4-1970 से 2-4-1976, महासचिव, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1931—34, कार्यवाहक अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1933, बिहार के राज्यपाल, 1947-48, असम के राज्यपाल, 1950—56, दिवगत। श्रद्धाजलि—1-3-1979।

जैल सिंह, ज्ञानी: डी० लिट० (मानद), कांग्रेस (आई) (पंजाब), सरदार किशन सिंह के आत्मज, जन्म 5 मई, 1916, विवाह श्रीमती प्रधान कौर से, 1 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, मंत्री, पटियाला सरकार तथा पूर्वी पंजाब राज्य सघ, 1948—49 तथा 1951—52, महासचिव, राज्य कांग्रेस कमेटी, 1938, अध्यक्ष, पेंसू प्रदेश कांग्रेस कमेटी, 1955—56, उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी, 1956—58 तथा 1966—72, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1956 से 10-3-1962, भारत के राष्ट्रपति, 1982—87, पंजाबी में 'दुखी प्रजा-दी-पुकार' के लेखक।

स्थायी पता: 4, सरकुलर रोड, नई दिल्ली।

\*जोगी, श्री अजीत बी० ई० (मेकेनिकल), कांग्रेस (आई) (मध्य प्रदेश), श्री के० पी० जोगी के आत्मज, जन्म 29 अप्रैल, 1946, विवाह डा० (श्रीमती) रेणु जोगी से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 30-6-1986 से अद्यपर्यंत, 1970 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रवेश और 1986 में भारतीय प्रशासनिक सेवा से त्याग पत्र, "एडमिनिस्ट्रेशन आफ पेरीफेरल अर्वन एरियाज" के लेखक।

स्थायी पता सी-6, रेजीडेन्सी एरिया, इन्दौर (मध्य प्रदेश)।

जोगेन्द्र सिंह, श्री. (उत्तर प्रदेश), जन्म 1903, सदस्य, (1) केन्द्रीय विधान सभा, 1937—46, (2) सविधान सभा, 1946—49, (3) अन्त कालिक ससद, 1950—52 (4) लोक सभा, 1952—62 और (5) राज्य सभा, 11-12-1963 से 2-4-1966 तथा 3-4-1966 से 20-9-1971, दिवगत। श्रद्धाजलि—19-2-1979।

जोशी, श्री उमाशंकर जेठालाल एम० ए०, डी० लिट० (मानद), (नाम-निर्देशित), श्री जेठालाल कमलजी के आत्मज, जन्म 21 जुलाई, 1911, विवाह श्रीमती ज्योत्सना से, 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1970 से 2-4-1976, कुलपति, गुजरात विश्वविद्यालय, 1966—72, (1) भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, 1967 और (2) साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1973 से सम्मानित, काव्य साहित्यालोचना, लघु कथाओं इत्यादि की अनेक पुस्तकों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—20-12-1988।

**जोशी, कुमारी कुमुदबेन एम० बी० ए०, काग्रेस (आई) (गुजरात), श्री मणिशकर जोशी की आत्मजा, जन्म 31 जनवरी, 1934, अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 15-10-1973 से 2-4-1976, 3-4-1976 से 2-4-1982 और 3-4-1982 से 25-11-1985, केन्द्रीय उपमन्त्री, (1) सूचना और प्रसारण, अक्टूबर, 1980 से जनवरी, 1982 और (2) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जनवरी, 1982 से दिसम्बर, 1984, महासचिव, गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी।**

**स्थायी पता:** चगा (धानोरी) वाया गणदेवी, बिल्डिंग स्टेशन (पश्चिम रेलवे), जिला बलसाड (गुजरात)।

**जोशी, श्री कृष्णानन्द:** बी० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस (आई) (उत्तर प्रदेश), प० दुर्गा दत्त जोशी के आत्मज, जन्म 13 सितम्बर, 1926, अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1976 से 2-4-1982 और 3-4-1982 से 2-4-1988, महासचिव, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, 1980—82।

**स्थायी पता:** ग्राम तथा डाकघर शान्तिपुर, ब्लॉक-2, तहसील किच्छा, जिला नैनीताल (उत्तर प्रदेश)।

**जोशी, श्री जगदीश:** बी० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस (मध्य प्रदेश), प० भवानी दत्त जोशी के आत्मज, जन्म 25 सितम्बर, 1930, विवाह श्रीमती प्रेम जोशी से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, विन्ध्य प्रदेश विधान सभा, 1952, विपक्ष के नेता, विन्ध्य प्रदेश विधान सभा, 1952, सदस्य, (1) मध्य प्रदेश विधान सभा, 1957 और (2) राज्य सभा, 3-4-1974 से 2-4-1980, अध्यक्ष, याचिका समिति, राज्य सभा, 1978-79, महासचिव, विन्ध्य प्रदेश समाजवादी दल, 1948, चेयरमैन, (1) राज्य समाजवादी दल, 1950 और 1962 और (2) एस० एस० पी०, 1968 और 1969, हिन्दी में एक काव्य पुस्तक के लेखक।

**स्थायी पता:** कासान्ता हाउस, रीवा (मध्य प्रदेश)।

**जोशी, श्री जगन्नाथ राव:** बी० ए०, भारतीय जनता पार्टी (दिल्ली), श्री अनन्तराव जोशी के आत्मज, जन्म 23 जून, 1920, अविवाहित, सदस्य, (1) लोक सभा, 1967—70 तथा 1971—77 और (2) राज्य सभा, 3-4-1978 से 2-4-1984, सचिव, उपाध्यक्ष, भारतीय जनसंघ, 1954—68 और 1968—74, उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, 1981।

**स्थायी पता:** नारगुड, जिला धारवाड (कर्णाटक)।

**जोशी, श्री जेटालाल हरिकृष्ण:** काग्रेस (गुजरात), श्री हरिकृष्ण प्रागजी जोशी के आत्मज, जन्म 23 मई, 1902, विवाह श्रीमती निर्मला जोशी से, 3 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) लोक सभा, 1952—57 और (2) राज्य सभा, 22-4-1957 से 2-4-1960 और 3-4-1960 से 2-4-1966, उपसभापति, सौराष्ट्र सविधान सभा, 1949-50, उपाध्यक्ष, सौराष्ट्र विधान सभा, 1950—52, सचिव, सौराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी, 1944-45 और 1948-49, दिवंगत। श्रद्धाजलि—9-6-1980।

जोशी, श्री मगनलाल भगवानजी हाई कोर्ट वकील परीक्षा दी, कांग्रेस (मुम्बई अब महाराष्ट्र), श्री भगवानजी जोशी के आत्मज, जन्म 20 अप्रैल, 1899, विवाह श्रीमती मगलावेन जोशी से, 5 पुत्र, सदस्य, सौराष्ट्र विधान सभा, 1948 और 1952, अध्यक्ष, सौराष्ट्र विधान सभा, 1952—56, सदस्य, राज्य सभा, 22-4-1957 से 2-4-1958, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1957-58, दिवंगत। श्रद्धाजलि—4-11-1986।

जोशी, श्रीमती सुधा विजय वी० ए० (आनर्स), कांग्रेस (आई) (महाराष्ट्र), श्री विश्वनाथ रगराव चिटनिस की आत्मजा, जन्म 10 जून, 1940, विवाह श्री विजय चिन्तामन जोशी से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1984 से 2-4-1990।

स्थायी पता 1/5, शिवानन्द प्ले ग्राउंड, क्रासरोड, विले पार्ले (पूर्व) मुम्बई (महाराष्ट्र)।

जोसेफ, श्री ओ० जे० दसवी कक्षा तक अध्ययन किया, भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) (केरल), श्री जोसेफ के आत्मज, जन्म 15 सितम्बर, 1914, विवाह श्रीमती पी० ओ० कथरी से, 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1980 से 2-4-1986।

स्थायी पता. लाल विला, सुभाष नगर न० 2, वल्लकडेवा, त्रिवेन्द्रम (केरल)।

जोसेफ, श्री नुथालपति बी० ए०, कांग्रेस (आंध्र प्रदेश), श्री येल्लावन्दैया के आत्मज, विवाह श्रीमती ली झीमा से, 2 पुत्र तथा 5 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 30-3-1972 से 2-4-1974।

स्थायी पता चिराला, जिला प्राक्सेम (आंध्र प्रदेश)।

जॉन, श्री वालमपुरी एम० ए० (पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन), वी० एल०, एम० एल०, पीएच० डी० (विजनेस एडमिनिस्ट्रेशन), डी० लिट्० (कमपैरेटिव लिटरेचर), गौंधीवादी विचारधारा और पत्रकारिता में डिप्लोमा, अखिल भारतीय अन्ना द्रविड मुनेत्र कण्णम (I) (तमिलनाडु), श्री ए० डी० सी० फर्नेडो के आत्मज, जन्म 14 अक्टूबर, 1946, विवाह श्रीमती मेरी वानू वालमपुरी जॉन से, 1 पुत्र तथा 4 पुत्रियाँ, सदस्य, (1) तमिलनाडु विधान परिषद, 1983-84 और (2) राज्य सभा, 3-4-1974 से 14-10-1974 और 3-4-1984 से 2-4-1990, तमिल और अंग्रेजी पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता 122, पेरियार पाशाई, चूलाईमेडु, मद्रास (तमिलनाडु)।

जॉन, श्री माइकल कांग्रेस (बिहार), श्री डी० जॉन के आत्मज, जन्म 29 नवम्बर, 1903, अविवाहित, सदस्य, (1) बिहार विधान सभा, 1946—52 और (2) राज्य सभा, 3-4-1956 से 2-4-1962, दिवंगत। श्रद्धाजलि—4-8-1977।

**ज्ञा, श्री कमल नाथ:** इन्टरमीडिएट, निर्दलीय (बिहार), पंडित विश्व नाथ झा के आत्मज, जन्म 15 अगस्त, 1923; विवाह श्रीमती ऊषा देवी से, 2 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) बिहार विधान सभा, 1962—67 और (2) राज्य सभा, 20-3-1973 से 2-4-1974 तथा 3-4-1974 से 9-1-1980।

**स्थायी पता:** सिपाही टोला, पूर्णिया, डाकघर और जिला पूर्णिया (बिहार)।

**ज्ञा, श्री रूद्र नारायण:** एस् एस् पी० (बिहार), पंडित कीर्ति नाथ झा के आत्मज, जन्म 20 दिसम्बर, 1925, विवाह श्रीमती कुन्ती देवी से, 3 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1968 से 10-5-1971, सचिव, बिहार एस् एस् पी०, 1966, दिवगत। श्रद्धाजलि—24-5-1971।

**ज्ञा, श्री लक्ष्मी कान्त:** बी० ए० (केम्ब्रिज विश्वविद्यालय), डी० लिट्० (मानद), आई० सी० एस्, कांग्रेस (आई) (बिहार), श्री श्रीकांत झा के आत्मज, जन्म 22 नवम्बर, 1913, विवाह श्रीमती मेखला झा से, 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 7-7-1986 से 16-1-1988, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, 1967 से 1970, अमरीका में भारत के राजदूत, 1970 से 1973, राज्यपाल, जम्मू और कश्मीर, 1973—81, आर्थिक विषयो पर पुस्तको के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—22-2-1988।

**ज्ञा, श्री शिव चन्द्र:** एम० ए० (अर्थशास्त्र), एम० जे० (पत्रकारिता), जनता पार्टी (बिहार), श्री जयकांत झा के आत्मज, जन्म 1 मार्च, 1929, विवाह श्रीमती नयनतारा झा से, 1 पुत्र तथा 5 पुत्रिया, सदस्य, (1) लोक सभा, 1967—70 और (2) राज्य सभा, 10-4-1978 से 9-4-1984, अनेक पुस्तको के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—20-12-1989।

**टडन, श्री पुरुषोत्तम दास:** एम० ए०, एलएल० बी०, डी० लिट्०, एलएल० डी०, कांग्रेस (उत्तर प्रदेश), श्री सालिग राम टडन के आत्मज, जन्म अगस्त, 1882, विवाह श्रीमती चन्द्रमुखी देवी से, 7 पुत्र और 2 पुत्रिया, मंत्री, पूर्वकाल में नाभा स्टेट, 1914—18, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1937—39 और 1946—50, सदस्य, (1) सविधान सभा, 1946—50, (2) लोक सभा, 1952—57 और (3) राज्य सभा, 20-4-1957 से 1-1-1960, अध्यक्ष, (1) उत्तर प्रदेश कांग्रेस समिति, 1923 और 1948 और (2) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1950-51, दिवगत। श्रद्धाजलि—6-8-1962।

**टमटा, श्री राम प्रसाद:** बी० ए०, एलएल० बी०, कांग्रेस (उत्तर प्रदेश), श्री जी० पी० टमटा के आत्मज, जन्म 5 अक्तूबर, 1909, विवाह श्रीमती कैलाश टमटा से, 2 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1936—46, (2) उत्तर प्रदेश विधान परिषद्, 1947—52 और (3) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956 और 3-4-1956 से 1-5-1958, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1956-57, दिवगत। श्रद्धाजलि—19-2-1979।

टामा, श्री रतन स्नातक पूर्व, कांग्रेस (आई) (अरुणाचल प्रदेश), श्री रोतम ताचो के आत्मज, जन्म 23 सितम्बर, 1946, विवाह श्रीमती रोतम याक से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 27-5-1978 से 26-5-1984, मंत्री, अरुणाचल प्रदेश जनता पार्टी, 1977-78।

स्थायी पता डाकघर रागा, जिला सुवनसिरी (अरुणाचल प्रदेश)।

टेरिएग, श्री जर्ली ई० वाणिज्यिक स्नातक, कांग्रेस (आई) (मेघालय), श्री आर० ई० राजी के आत्मज, जन्म 27 जून, 1922, विवाह श्रीमती विसील्लिएन्ट चार टेरिएग से, 1 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 13-4-1984 से 12-4-1990, अध्यक्ष, मेघालय प्रदेश कांग्रेस समिति, 1970-71, 1974—76 और 1983—87, अग्नेजी की पुस्तक 'के० टिन्ट सिंह' के लेखक।

स्थायी पता. लुम्माववाह, शिलाग (मेघालय)।

\*टॉपडेन, श्री कर्म बी० ए०, सिक्किम सग्राम परिषद (सिक्किम), श्री मर्तम टॉपडेन के आत्मज, जन्म 4 मई, 1941, विवाह श्रीमती चैरी क्लेयर टॉपडेन से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी (सेवा निवृत्त), सदस्य, राज्य सभा, 30-3-1988 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता. मर्तम हाऊस, गगटोक (सिक्किम)।

ठाकर, श्री प्रेमजी भावनजी. कांग्रेस (कच्छ अव गुजरात), श्री भावनजी के आत्मज, जन्म 11 जून, 1911, विवाह श्रीमती लक्ष्मीबेन से, 2 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 26-7-1952।

स्थायी पता बोकला हालिया, भुज (कच्छ) (गुजरात)।

ठाकुर, श्री गुणानन्द एम० ए० (अर्थशास्त्र), कांग्रेस (विहार), श्री महावीर ठाकुर के आत्मज, जन्म 19 फरवरी, 1938, विवाह श्रीमती शांति ठाकुर से, 1 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) लोक सभा, 1967—70 और (2) राज्य सभा, 10-4-1972 से 9-4-1978, दिवंगत। श्रद्धाजलि—4-10-1982।

\*ठाकुर, प्रो० चन्द्रेश पी० एम० ए०, पीएच० डी० (अर्थशास्त्र), कांग्रेस (आई) (विहार), श्री रामचरित्र ठाकुर के आत्मज, जन्म 23 फरवरी, 1935, विवाह डा० (श्रीमती) सुशीला ठाकुर से, 2 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 7-7-1986 से अद्यपर्यन्त, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1989—91, अनेक पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता सी-64, शक्ति नगर एक्सटेंशन, दिल्ली।

ठाकुर जगतपाल सिंह . मैट्रिक, कांग्रेस (आई) (मध्य प्रदेश), श्री कृष्ण चन्द्र सिंह के आत्मज, जन्म 11 मार्च, 1923, विवाह श्रीमती विद्यावती से, 3 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1984 से 9-4-1990, महामंत्री, मध्य प्रदेश कांग्रेस (आई) समिति।

स्थायी पता : 19, महादपाडी, रायगढ (मध्य प्रदेश)।

\*ठाकुर, श्री रामेश्वर एम० ए०, एलएल० बी०, एफ० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउटेन्ट, कांग्रेस (आई) (बिहार), पंडित गोधन ठाकुर उर्फ परमेश्वर ठाकुर के आत्मज, जन्म 28 जुलाई, 1927, विवाह श्रीमती नर्मदा ठाकुर से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1984 से 9-4-1990 तथा 10-4-1990 से अद्यपर्यन्त, "वैकिंग कॉस्ट्स इन इंडिया" पुस्तक के लेखक।

स्थायी पता . आवदिन हाऊस, फ्रेजर रोड, पटना (बिहार)।

\*ठाकुर, श्री सुरेन्द्र सिंह : बी० ई० (मैकेनिकल), कांग्रेस (आई) (मध्य प्रदेश), श्री कर्ण सिंह के आत्मज, जन्म 1 जनवरी, 1954, विवाह श्रीमती अर्चना ठाकुर से, 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 30-6-1986 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता . ग्राम—खजूरिया रामदास, डाकघर बेरासिया, जिला भोपाल (मध्य प्रदेश)।

ठाकुर दास, श्री . बी० ए०, एलएल० बी०, कांग्रेस (उत्तर प्रदेश), श्री राम कृष्ण दास के आत्मज, जन्म 10 जुलाई, 1887, विवाह श्रीमती सरस्वती देवी से, 4 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 4-1-1958, दिवगत। श्रद्धाजलि—12-8-1960।

ठेगडी, श्री दत्तोपत बापूराव बी० ए०, एलएल० बी०, जनसघ (उत्तर प्रदेश), श्री बापूराव दाजी ठेगडी के आत्मज, जन्म 10 नवम्बर, 1920, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1964 से 2-4-1970 और 3-4-1970 से 2-4-1976, सगठन सचिव, (1) 'इन्टक', मध्य प्रदेश, 1950-51 और (2) जनसघ, मध्य प्रदेश, 1952—54, सस्थापक, भारतीय मजदूर सघ, 1955, अग्रेजी और हिन्दी में पुस्तको के लेखक।

स्थायी पता 105/731, गांधी चौक, कानपुर (उत्तर प्रदेश)।

डाग, श्रीमती सत्यवती . मैट्रिक, भूषण और रल, कांग्रेस (हिमाचल प्रदेश), श्री सत्यानन्द स्टोक्स की आत्मजा, जन्म 10 अप्रैल, 1920, विवाह श्री ओंकार नाथ डाग से, 2 पुत्रिया, सदस्या, (1) हिमाचल प्रदेश टैरिटोरियल काउंसिल और (2) राज्य सभा, 3-4-1968 से 2-4-1974, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव/अध्यक्ष, 1962—69।

स्थायी पता : "आवर आर्चर्ड", डाकघर थानाधार, जिला महासू (हिमाचल प्रदेश)।

डांगरे, श्री आर० वी० . काग्रेस (मुम्बई अब महाराष्ट्र), श्री विठ्ठल राव डांगरे के आत्मज, जन्म 15 अगस्त, 1891, विवाह श्रीमती सत्यभामा वाई से, 2 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1954 से 2-4-1960, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश काग्रेस कमेटी, 1948—51, दिवगत, 25-6-1979।

डागा, श्री नारायणदास के० . काग्रेस (मुम्बई अब महाराष्ट्र), श्री केदारनाथ डागा के आत्मज, जन्म 24 अक्टूबर, 1923, विवाह श्रीमती चाद देवी एन० डागा से, 4 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 23-4-1954 से 2-4-1958, दिवगत। श्रद्धाजलि — 18-11-1968।

डागा, श्री सीताराम : इटर, काग्रेस (पश्चिमी बंगाल), श्री दुली चन्द डागा के आत्मज, जन्म 4 अप्रैल, 1923, विवाह श्रीमती सावित्री देवी डागा से, 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-5-1957 से 2-4-1958।

स्थायी पता . 25/1 वालीगज, सर्कुलर रोड, कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)।

डिसूजा, डा० जोसेफ लिओन : एम० बी० बी० एस०, काग्रेस (आई) (महाराष्ट्र), डा० जोसेफ अल्वन डिसूजा के आत्मज, जन्म 23 दिसम्बर, 1919, विवाह डा० (श्रीमती) मर्सिआ डिसूजा से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, महाराष्ट्र विधान परिषद्, 1970—78, मंत्री, महाराष्ट्र सरकार, 1975, सदस्य, राज्य सभा, 5-7-1980 से 4-7-1986, उपाध्यक्ष, मुम्बई प्रदेश काग्रेस कमेटी।

स्थायी पता . बोडे हाऊस, ओर्मिस्टन रोड, कोलाबा, मुम्बई (महाराष्ट्र)।

डूगर, श्री राजपत सिंह . बी० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस (सगठन) (पश्चिमी बंगाल), श्री जगतपाल सिंह डूगर के आत्मज, जन्म 14 जुलाई, 1909, विवाह श्रीमती कमला डूगर से, 2 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954, 3-4-1954 से 2-4-1960, 3-4-1960 से 2-4-1966 और 3-4-1966 से 2-4-1972, अध्यक्ष, आवास समिति, राज्य सभा, 1968—70, दिवगत। श्रद्धाजलि—15-5-1990।

डे, श्री एस० के०: एम० एससी० (इजीनियरी) (मिशिगन), काग्रेस (दिल्ली), श्री पद्म लोचन डे के आत्मज, जन्म 13 सितंबर, 1906, विवाह श्रीमती अरूणा डे से, 2 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 31-1-1957 से 1-3-1962, केन्द्रीय मंत्री, सामुदायिक विकास, सहयोग तथा पंचायती राज, 1956—62, पद्म भूषण से सम्मानित, 1955, कई पुस्तको, विशेष रूप से सामुदायिक विकास से संबंधित पुस्तको के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—18-7-1989।



डेवरी, श्रीमती ओमेम मोयोग . बी०ए० तक अध्ययन किया, कांग्रेस (आई) (अरुणाचल प्रदेश), श्री कुट्टिक मोयोग की आत्मजा, जन्म 2 जुलाई, 1943, विवाह श्री टी० एस० डेवरी से, 3 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 27-5-1984 से 19-3-1990, अध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (आई), 1984 में पद्मश्री से सम्मानित।

स्थायी पता : पी० सैक्टर 4, ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश)।

ढागे, श्री चेंकट कृष्ण : बी० ए०, एलएल० बी०, जी० डी० ए०, एफ० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, निर्दलीय (मुम्बई अब महाराष्ट्र), श्री कृष्णजी ढागे के आत्मज, जन्म 15 मई, 1908, विवाह श्रीमती तहमीनाबाई से, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956 तथा 3-4-1956 से 2-4-1960, दिवगत। श्रद्धाजलि—24-5-1967।

दिल्लों, श्री गुरज सिंह : बी० ए० (आनर्स), एम० ए०, अकाली दल (पंजाब), सरदार रणजीत सिंह ढिल्लो के आत्मज, जन्म 6 जून, 1919, विवाह श्रीमती हरनस कौर से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1958।

स्थायी पता : मोटर स्टैंड, मडी डबवाली, जिला हिसार (हरियाणा)।

तजामुल हुसैन, श्री . वार-एट-लॉ, कांग्रेस (बिहार), नवाब सरफराज हुसैन के आत्मज, जन्म 19 दिसम्बर, 1893, विवाह श्रीमती सावेरा बेगम से, 5 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) बिहार विधान सभा, 1937—50, (2) सविधान सभा, 1946—50, (3) अत कालीन ससद, 1950—52 और (4) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956 और 3-4-1956 से 2-4-1962, दिवगत। श्रद्धाजलि—11-11-1974।

तनखा, पंडित शाम सुन्दर नारायण : एम० ए०, एलएल० बी०, कांग्रेस (उत्तर प्रदेश), पंडित बृज नारायण तनखा के आत्मज, जन्म 14 अगस्त, 1898, विवाह श्रीमती विशान टोपा से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1958, 3-4-1958 से 2-4-1964 और 3-4-1964 से 2-4-1970, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1959-60, अध्यक्ष, (1) आवास समिति, राज्य सभा, 1962-63 और (2) याचिका समिति, राज्य सभा, 1966—68, दिवगत। श्रद्धाजलि—8-5-1985।

तनवीर, श्री हबीब . बी० ए० (नाम-निर्देशित), श्री हाफिज मोहम्मद हयात खान के आत्मज, जन्म 1 सितम्बर, 1923, विवाह श्रीमती मोनिका मिश्र तनवीर से, 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1972 से 2-4-1978, नाटको के लेखक।

स्थायी पता (1) एल०-15, बेर सराय, नई दिल्ली और (2) कुमारी केसरहयात, वैजनाथपाडा, रायपुर (मध्य प्रदेश)।

तन्नाकावालु, श्री के० वी० एम० ए०, कांग्रेस (आई) (तमिलनाडु), श्री वी० तन्नावेलु के आत्मज, जन्म 15 मार्च, 1950, विवाह श्रीमती टी० जयन्ती से, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1984 से 2-4-1990।

स्थायी पता 12, छठी मेन रोड, कम्बुवा नगर, अडियर, मद्रास (तमिलनाडु)।

तन्नालूरा, श्री ए० वी० ए०, एलएल० वी०, कांग्रेस (असम), श्री छावनतन्ना के आत्मज, जन्म 3 दिसम्बर 1926, विवाह श्रीमती ए० डेगलगी से, 3 पुत्रिया, सदस्य, असम विधान सभा, 1957—62, ससदीय सचिव/मुख्य ससदीय सचिव, असम सरकार, 1957—60, सदस्य, राज्य सभा, 20-6-1962 से 2-4-1964 तथा 3-4-1964 से 2-2-1967।

स्थायी पता ठाकथिग बाजार, डाक्टर आयजोल, मिजो हिल्स डिस्ट्रिक्ट (मिजोरम)।

तन्हालिरा, श्री रेमण्ड : वी० ए०, कांग्रेस (असम), श्री टावगा के आत्मज, जन्म 1917, विवाह श्रीमती एम० एम० मिंगलियानी से, सदस्य, (1) असम विधान सभा, 1952 और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1958।

स्थायी पता आयजोल (मिजोरम)।

तपासे, श्री गणपतराव देवजी वी० ए०, एलएल० वी०, कांग्रेस (महाराष्ट्र), श्री देवजी अप्पाजी तपासे के आत्मज, जन्म 30 अक्टूबर, 1908, विवाह श्रीमती रुक्मिणीवाई से, 4 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, बंबई विधान सभा, 1946—57, मंत्री, पूर्वकाल में बंबई राज्य, 1946—57, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1962 से 2-4-1968।

स्थायी पता 71/2, जहागीर विल्डिंग, हर्स रोड, मुम्बई (महाराष्ट्र)।

तय्यबुल्ला, मौलाना एम० एम० एससी०, एलएल० वी०, कांग्रेस (असम), श्री मशियातुल्ला के आत्मज, जन्म 1894, विवाह बेगम मेहर अफरोज तय्यबुल्ला से, 3 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, असम विधान सभा, 1947—52, मंत्री, असम सरकार, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1958 और 3-4-1958 से 2-4-1964, मन्त्री/अध्यक्ष, असम प्रदेश कांग्रेस समिति, 1926—31, 1940—46 और 1946—48, अग्नेजी और असमिया में पुस्तकें के लेखक, दिवंगत। श्रद्धाजलि—7-11-1966।

\*तलरी मनोहर, श्री एम० ए० (जनसंख्या अध्ययन) और एम० ए० (राजनीति शास्त्र), वी० एल० आई० एम० सी० (एम० फिल०), तेलुगु देशम् (आंध्र प्रदेश), श्री टी० पर्वतम् के आत्मज, जन्म 1 जून, 1954, विवाह श्रीमती जया मनोहर से, 1 पुत्र, सदस्य, (1) आंध्र प्रदेश विधान सभा, 1983-84 और (2) राज्य सभा, 3-4-1986 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता सनिधि स्ट्रीट, श्री कालहस्ती, जिला चित्तूर (आंध्र प्रदेश)।

तलवडी, सरदार जगदेव सिंह · मैट्रिक तक अध्ययन किया, अकाली दल (पजाब), श्री छगा सिंह के आत्मज, जन्म 24 जून, 1929, विवाह श्रीमती मोहिन्दर कौर से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, पजाब विधान सभा, 1967—77, मंत्री, पजाब सरकार, 1969—71, सदस्य, (1) लोक सभा, 1977—79 और (2) राज्य सभा, 5-7-1980 से 4-7-1986, अध्यक्ष, शिरोमणि अकाली दल।

स्थायी पता : तलवडी राय, बरास्ता रायकोट, जिला लुधियाना (पजाब)।

तलवार, डा० (श्रीमती) मंगलादेवी · एम० आर० सी० एस० (इंग्लैंड), एल० आर० सी० पी० (लंदन), एल० एम० (डबलिन), एम० पी० एच० (यू० एस० एं०), कांग्रेस (राजस्थान), डा० गुरुदयाल वात्सल्य की आत्मजा, जन्म 8 अक्टूबर, 1910, विवाह डा० जी० एल० तलवार से, 3 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1966 से 2-4-1972।

स्थायी पता एस० एम० एस० अस्पताल, जयपुर (राजस्थान)।

तारा चद, डा० : एम० ए०, पीएच० डी०, (नाम-निर्देशित), श्री के० कृपा नारायण के आत्मज, जन्म 17 जून, 1888, विवाह श्रीमती महादेवी से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 1947-48, ईरान में भारत के राजदूत, 1951—56, सदस्य, राज्य सभा, 22-8-1957 से 2-4-1962 और 3-4-1962 से 2-4-1968, भारतीय सस्कृति और इतिहास पर पुस्तको के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—12-11-1973।

\*तारादेवी, श्रीमती डी० के० : वी० ए०, कांग्रेस (आई) (कर्णाटक), श्री डी० एस० कृष्णप्पा गौडा की आत्मजा, जन्म 26 दिसम्बर, 1953, विवाह श्री सिद्धार्थ रेड्डी से, सदस्य, कर्णाटक विधान परिषद्, 1981—85, अध्यक्ष, आश्वासन समिति, कर्णाटक विधान परिषद्, सदस्य, (1) लोक सभा, 1984—89 और (2) राज्य सभा, 26-3-1990 से अद्यपर्यन्त, महासचिव, कर्णाटक प्रदेश कांग्रेस समिति; सयुक्त सचिव, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति।

स्थायी पता : डाकघर मुदि-गेरे, जिला चिकमगलूर (कर्णाटक)।

तारिक, श्री ए० एम० · कांग्रेस (जम्मू और कश्मीर), श्री अल-हज शेख गुलाम कादिर के आत्मज, जन्म 22 जून, 1923, विवाह बेगम तारिक से, 3 पुत्र और 5 पुत्रिया, सदस्य, (1) लोक सभा, 1957—62 और (2) राज्य सभा, 16-4-1962 से 4-3-1965 और 4-5-1967 से 15-4-1968, कुछ पुस्तको के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—23-1-1980।

ताल्लिब, श्री निरंजन सिंह : कांग्रेस (पजाब), श्री एस० रतन सिंह के आत्मज, जन्म 25 जनवरी, 1902, विवाह श्रीमती मनमोहन कौर से, 1 पुत्री, सदस्य, पजाब विधान सभा, 1957—67, पजाब सरकार में लगभग 5 वर्ष तक मंत्री, सदस्य, राज्य सभा, 16-7-1974 से 28-5-1976, अध्यक्ष, पजाब प्रदेश कांग्रेस समिति, 1972, दिवगत। श्रद्धाजलि—10-8-1976।

\*तिरिया, कुमारी सुशीला . बी० ए०, बी० एड०, कांग्रेस (आई) (उड़ीसा), श्री रूपनारायण तिरिया की आत्मजा, जन्म 6 फरवरी, 1954, अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 2-7-1986 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता - कलुआखामम, डाकघर रुगुडी, चारास्ता टाटो, पुलिस स्टेशन, जशीपुर, जिला मयूर भज (उड़ीसा)।

तिलक, श्री जे० एस्० . बी० एससी० (आनर्स), कांग्रेस (महाराष्ट्र), श्री श्रीधर बलवत तिलक के आत्मज, जन्म 12 अक्टूबर, 1921, विवाह श्रीमती इन्दु तिलक से, 1 पुत्र, सदस्य, (1) महाराष्ट्र विधान सभा, 1956—61 और (2) राज्य सभा, 3-4-1968 से 2-4-1974 और 3-4-1974 से 2-4-1980, मराठी भाषा में अनेक पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता 568, नारायण, पुणे (महाराष्ट्र)।

तिवारी, श्री नारायण दत्त एम० ए० (कूटनीति और अन्तर्राष्ट्रीय मामले), कांग्रेस (आई) (उत्तर प्रदेश), श्री पूर्णानन्द तिवारी के आत्मज, जन्म 18 अक्टूबर, 1925, विवाह श्रीमती सुशीला तिवारी से, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1952—62 और 1969—80, अध्यक्ष, लोक लेखा समिति, उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1960—62, मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, 1969, 1970 और 1973, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, जनवरी, 1976 से अप्रैल, 1977 और अगस्त, 1984 से सितम्बर, 1985, उत्तर प्रदेश विधान सभा में विपक्ष के नेता, जून, 1977 से मार्च, 1978 और अक्टूबर, 1978 से अक्टूबर, 1979, सदस्य, (1) लोक सभा, 1980—84 और (2) राज्य सभा, 2-12-1985 से 4-7-1986 और 5-7-1986 से 23-10-1988, योजना, श्रम, उद्योग, इस्पात और खान, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और विदेश मन्त्रालयों के केन्द्रीय मंत्री, 1985—88, उपाध्यक्ष, योजना आयोग, राज्य सभा में सदन के नेता, 12-4-1987 से 25-6-1988।

स्थायी पता : 338-सी, सैक्टर बी-1, मोहन नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।

तिवारी, पंडित भवानी प्रसाद . एम० ए०, डी० लिट्०, कांग्रेस (मध्य प्रदेश), पंडित विनायक राव के आत्मज, जन्म 13 फरवरी, 1912, विवाह श्रीमती प्रेम कान्ति तिवारी से, 1 पुत्र और 5 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1964 से 2-4-1970 और 3-4-1970 से 2-4-1976, पद्मश्री से सम्मानित, 1972, अनेक पुस्तकों के लेखक, दिवंगत। श्रद्धाजलि—15-12-1977।

तिवारी, श्री शंकरलाल बी० ए०, एलएल० बी०, कांग्रेस (मध्य प्रदेश), श्री राजाराम तिवारी के आत्मज, जन्म 26 अप्रैल, 1908, विवाह श्रीमती सुमित्रा तिवारी से, 1 पुत्री, सदस्य, मध्य प्रदेश विधान सभा, 1946—62 और 1967—72, ससदीय सचिव/मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार, 1948—52, 1952—62, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1972 से 9-4-1978, सचिव/अध्यक्ष, मध्य प्रदेश कांग्रेस समिति, 1965—67, 1969 और 1971-72, दिवंगत। श्रद्धाजलि—18-11-1985।

\*वर्तमान सदस्य।

तिवारी, श्री वी० एन० : एम० ए०, पीएच० डी०, (नाम-निर्देशित), पंडित वैजनाथ तिवारी के आत्मज, जन्म 17 मार्च, 1936, विवाह डा० (श्रीमती) अमृत कौर से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 27-9-1982 से 3-4-1984, पंजाबी, अंग्रेजी और हिन्दी भाषा में पुस्तकों के लेखक, दिवंगत। श्रद्धाजलि—23-4-1984।

तुम्पल्लीवर, श्री मारोतीराव दामोदर काग्रेस (महाराष्ट्र), श्री दामोदर गुरु मूर्ति तुम्पल्लीवर के आत्मज, जन्म 10 जुलाई, 1910, विवाह श्रीमती श्यामाबाई उर्फ माया तुम्पल्लीवर से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1956 से 12-3-1962, कुछ पुस्तकों के लेखक, दिवंगत। श्रद्धाजलि—15-11-1971।

तैमूर, श्रीमती सईदा अनवरा : एम० ए०, (नाम-निर्देशित) काग्रेस (आई), श्री सईद यूसुफ अली की आत्मजा, जन्म 24 नवम्बर, 1936, विवाह मोहम्मद मुहीबुद्दीन तैमूर से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, असम विधान सभा, राज्य मंत्री, असम सरकार, 1974—77, असम की मुख्य मंत्री, दिसम्बर, 1980 से जून, 1981, सदस्य, राज्य सभा, 25-11-1988 से 8-5-1990।

स्थायी पता . हातीगौन, दिसपुर, गुवाहाटी (असम)।

तोतू, श्री ज्ञान चन्द . एफ० एससी०, काग्रेस (आई) (हिमाचल प्रदेश), श्री ज्योति प्रसाद के आत्मज, जन्म 15 सितम्बर, 1919, विवाह श्रीमती शकुन्तला देवी से, 1 पुत्र, सदस्य, पेप्सू विधान सभा, 1953—56, अध्यक्ष, (1) लोक लेखा समिति, 1953—56, (2) बजट लोकज समिति, 1956 और (3) वेतन सशोधन समिति, 1956, सदस्य, पंजाब विधान सभा, 1962—67, अध्यक्ष, पुस्तकालय समिति, विधान सभा, 1964, उपमंत्री, पंजाब सरकार, 1965-66, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1974 से 2-4-1980।

स्थायी पता . डाकघर तोतू, शिमला (हिमाचल प्रदेश)।

तोम्बी, श्री सलम : स्नातक पूर्व, मणिपुर पीपुल्स पार्टी (मणिपुर), श्री निगथोउनोउ के आत्मज, जन्म 10 अक्टूबर, 1910, विवाह श्रीमती इवेमपिचक से, 4 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) लोक सभा, 1962—67 और (2) मणिपुर विधान सभा, अध्यक्ष, मणिपुर विधान सभा, 1967-68, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1972 से 4-4-1974, अध्यक्ष, (1) मणिपुर राज्य काग्रेस, 1959—62 और (2) मणिपुर पीपुल्स पार्टी, 1968—71।

स्थायी पता : केसम पाट, थोकचोम लाइकाई, डाकघर इम्फाल (मणिपुर)।

तोहडा, सरदार गुरचरण सिंह : पंजाबी में स्नातक, अकाली दल (पंजाब), सरदार दिलीप सिंह के आत्मज, जन्म सितम्बर, 1924, विवाह श्रीमती जोगेन्द्र कौर से, सदस्य, (1) राज्य सभा, 28-3-1969 से 2-4-1970, 3-4-1970 से 2-4-1976, 9-5-1980 से 2-4-1982 और 3-4-1982 से 2-4-1988 और (2) लोक सभा, 1977—79, उपाध्यक्ष, शिरोमणि अकाली दल, 1958—60 और 1962—65।

स्थायी पता : गांव तथा डाकघर तोहडा, जिला पटियाला (पंजाब)।

त्यागी, श्री ओम प्रकाश जनसघ (उत्तर प्रदेश), पंडित राम स्वरूप के आत्मज, जन्म 12 दिसम्बर, 1912, विवाह श्रीमती चमेली देवी से, 4 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1) लोक सभा, 1967—70 और (2) राज्य सभा, 3-4-1972 से 21-3-1977, धार्मिक और सामाजिक तथा राजनीतिक विषयो पर अनेक पुस्तको के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—12-5-1986।

त्यागी, श्री महावीर कायेस (ओ) (उत्तर प्रदेश), श्री शिव नाथजी के आत्मज, जन्म 31 दिसम्बर, 1899, विवाह श्रीमती शरमदा त्यागी से, 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) उत्तर प्रदेश विधान सभा, 9 वर्षों के लिए, (2) सविधान सभा, (3) अन्त कालीन समद और (4) लोक सभा, 1952—57, 1957—62 और 1962—67, वित्त, रक्षा तथा पुनर्वास विभागो में केन्द्रीय मंत्री, 1953—66, अध्यक्ष, (1) लोक लेखा समिति और (2) पाचवा वित्त आयोग, 1968, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1970 से 2-4-1976, दिवगत। श्रद्धाजलि—9-6-1980।

\*त्यागी, श्री शान्ति स्यातक, कायेस (आई) (उत्तर प्रदेश), श्री हरद्वारी लाल के आत्मज, जन्म 1920, विवाह श्रीमती स्वदेश त्यागी से, 1 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1982 से 2-4-1988 और 3-4-1988 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता : ग्राम और डाकघर कैधवारी, जिला मेरठ (उत्तर प्रदेश)।

त्रिपाठी, श्री कमलापति शास्त्री, डी० लिट्०, कायेस (आई) (उत्तर प्रदेश), श्री नारायणपति त्रिपाठी के आत्मज, जन्म 3 सितम्बर, 1905, विवाह श्रीमती लक्ष्मी त्रिपाठी से, 3 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1936—73, मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, 1952—60, 1962—64, उपमुख्य मंत्री/ मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश, 1969-70 और 1971—73, सदस्य, (1) सविधान सभा, 1947—50, (2) लोक सभा, 1980—84 और (3) राज्य सभा, 11-12-1973 से 2-4-1978, 3-4-1978 से 8-1-1980 और 19-1-1985 से 4-7-1986, नौवहन और परिवहन तथा रेल मन्त्रालयो में केन्द्रीय मंत्री, 1973—77 और 1980, विपक्ष के नेता, राज्य सभा, मार्च, 1977—जनवरी, 1980, अनेक पुस्तको के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—27-12-1990।

त्रिपाठी, श्री चन्द्रिका प्रसाद मैट्रिक, कायेस (आई) (मध्य प्रदेश), श्री फुन्दी लाल त्रिपाठी के आत्मज, जन्म 21 फरवरी, 1922, विवाह श्रीमती चिरोजा त्रिपाठी से, 4 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1) मध्य प्रदेश विधान सभा, 1957—67 और (2) राज्य सभा, 10-4-1984 से 9-4-1990।

स्थायी पता . डाकघर वधरजी तहसील और जिला जबलपुर (मध्य प्रदेश)।

त्रिपाठी, श्री हीरा वल्लभ वी० एससी०, एलएल० वी०, कायेस (ओ) (उत्तर प्रदेश), पंडित पद्म दत्त त्रिपाठी के आत्मज, जन्म अगस्त, 1902, विवाह श्रीमती प्रेमवती त्रिपाठी से, सदस्य, (1) अन्त कालीन समद, 1950—52, (2) लोक सभा 1952—57 और (3) राज्य सभा, 20-4-1957 से 2-4-1960, 3-4-1960 से 2-4-1966 और 3-4-1966 से 2-4-1972, दिवगत। श्रद्धाजलि—6-5-1982।

त्रिलोकी सिंह, श्री : इटरमीडिएट, कांग्रेस (उत्तर प्रदेश), श्री गोकर्ण दयाल सिंह के आत्मज, जन्म 10 मार्च, 1908, अविवाहित, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1946—52 और 1957—62, विपक्ष के नेता, उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1950—52 और 1957—62, सदस्य, राज्य सभा, 27-4-1967 से 2-4-1968, 3-4-1970 से 2-4-1976 और 3-4-1976 से 29-1-1980, अध्यक्ष, खाद्य अपमिश्रण निवारण (सशोधन विधेयक, 1974) सम्बन्धी ससद की संयुक्त समिति, उपाध्यक्ष, (1) जन कांग्रेस, 1950-51, (2) के० एम० पी० पी०, 1951-52, (3) क्रान्तिकारी समाजवादी पार्टी, 1952—68 और (4) उत्तर प्रदेश, प्रदेश कांग्रेस समिति, 1974—77, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्रजा समाजवादी दल, 1954-55, इसके महासचिव, 1955—58, दिवगत। श्रद्धाजलि—30-1-1980।

त्रिवेदी, श्री एच० एम० : बी० एससी०, बार-एट-लॉ, कांग्रेस (गुजरात), श्री मूलशकर जेठाभाई त्रिवेदी के आत्मज, जन्म 8 मार्च, 1914, विवाह डा० (श्रीमती) ज्योति एच० त्रिवेदी से, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1972 से 9-4-1978, नौवहन और परिवहन मंत्रालय में केन्द्रीय राज्य मंत्री, 1974, कुछ पुस्तकों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—18-2-1982।

\*त्रिवेदी, श्री दिनेशभाई : बी० कॉम०, एम० बी० ए० (यू० एस० ए०), जनता दल (गुजरात), श्री हीरालाल त्रिवेदी के आत्मज, जन्म 4 जून, 1950, विवाह श्रीमती मिनल त्रिवेदी से, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1990 से अद्यपर्यन्त।  
स्थायी पता : 145, पटेलवास इसानपुर सिटी, अहमदाबाद (गुजरात)।

थान्हावा, श्री केशवन : बी० ए०, बी० एल०, भारतीय साम्यवादी दल (मा०) (केरल), श्री कृष्ण के आत्मज, जन्म 26 मार्च, 1903, विवाह श्रीमती पी० थानकम्मा से, 1 पुत्री, सदस्य, (1) ट्रावनकोर श्री मूलम सभा, 1937-38 और (2) राज्य सभा, 15-4-1967 से 28-11-1969, दिवगत। श्रद्धाजलि—28-11-1969।

थानुलिंगम, श्री पी० : बी० ए०, बी० एल०, कांग्रेस (मद्रास, अब तमिलनाडु), श्री एम० परमार्थलिंग नादार के आत्मज, जन्म 17 फरवरी, 1915, विवाह श्रीमती नक्षेत्रम अम्माल से (दिवगत) पुन श्रीमती रामनायगम अम्माल से, 2 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) पूर्वकाल में ट्रावनकोर-कोचीन विधान सभा, 1948—50 और 1953—56, (2) लोक सभा, 1957—62 और (3) राज्य सभा, 9-7-1964 से 2-4-1968, दिवगत। श्रद्धाजलि—2-11-1988।

थावरे, श्री गगाराम मथाजी : कांग्रेस (मध्य प्रदेश), श्री मथाजी थावरे के आत्मज, जन्म 23 अप्रैल, 1902, विवाह श्रीमती त्रैपदी वाई थावरे से, 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 16-8-1952, मराठी भाषा में 'चक्रधर एण्ड महानुभाव' नामक एक पुस्तक के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—24-11-1952।

थामस, डा० पारेकुन्नेल जोसेफ : एम० ए०, बी० लिट्०, डी० फिल० (आक्सऑन) के० एस० जी० रोमा, निर्दलीय (केरल), श्री पारेकुन्नेल जोसेफ के आत्मज, जन्म 25 फरवरी, 1895, विवाह श्रीमती अन्नमा थॉमस से, 1 पुत्र और 2 पुत्रियाँ, सदस्य, (1) मद्रास विधान परिषद्, 1937—42 और (2) राज्य सभा, 22-4-1957 से 2-4-1962, अंग्रेजी, मलयालम और तमिल भाषा में अनेक पुस्तकों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—16-8-1965।

थिम्मावोवी, श्री एल० एच० वी० ए०, कांग्रेस (मैसूर अब कर्णाटक), श्री एच० सिद्ध वोवी के आत्मज, जन्म 2 फरवरी, 1920, अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 24-8-1952।

स्थायी पता डाकघर लाक्वल्ली, तारेकेडी ताल्लुक (कर्णाटक)।

थिम्मारेड्डी, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी • विद्वान (संस्कृत, हिन्दी और तेलुगू), कांग्रेस (मैसूर अब कर्णाटक), श्री वी० वेंकटप्पा रेड्डी की आत्मजा, जन्म 1914, विवाह श्री एन० सी० थिम्मारेड्डी से, 1 पुत्र और 6 पुत्रियाँ, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1958 से 2-4-1964 और 3-4-1964 से 2-4-1970।

स्थायी पता डाकघर नागसाद्र, दोडकुरुगोड, जिला कोल्लार (कर्णाटक)।

दत्त, श्री कृष्ण वी० एससी०, एलएल० बी०, नेशनल काँग्रेस (जम्मू और कश्मीर), श्री देवी चद रैना के आत्मज, जन्म 13 अक्टूबर, 1913, विवाह श्रीमती चम्पा देवी से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 11-11-1960 से 10-11-1966।

स्थायी पता 154, पक्की घक्की, जम्मू तवी (जम्मू और कश्मीर)। —

दत्त, श्री त्रिलोचन • एम० ए०, नेशनल काँग्रेस (जम्मू और कश्मीर), पंडित विश्वनाथ के आत्मज, जन्म 30 मार्च, 1914, विवाह श्रीमती शान्ति देवी से, 3 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 11-11-1954 से 10-11-1960।

स्थायी पता रेजीडेसी रोड, जम्मू तवी (जम्मू और कश्मीर)।

दत्त, श्रीमती नर्गिस • सीनियर केम्ब्रिज, (नाम-निर्देशित), श्री अब्दुल रशीद की आत्मजा, जन्म 1 जून, 1929, विवाह श्री सुनील दत्त से, 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1980 से 3-5-1981, (1) 1959 में 'पद्मश्री' से सम्मानित, (2) 1974 में स्पेशल सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से सम्मानित और (3) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार से सम्मानित, दिवगत। श्रद्धाजलि—4-5-1981।

दत्त, डा० नलिनक्ष एम० ए०, एलएल० बी०, पीएच० डी०, डी० लिट्० (लन्दन), कांग्रेस (पश्चिमी बंगाल), श्री सुरेन्द्र नाथ दत्त के आत्मज, जन्म 1894, विवाह श्रीमती नलिनी सुन्दरी दत्त से, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954 तथा 3-4-1954 से 2-4-1960, बौद्ध धर्म पर अनेक पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता 39, रामानन्द चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)।



दत्त, डा० विद्या प्रकाश : एम० ए०, पीएच० डी०, कांग्रेस (नाम-निर्देशित), चौधरी कृष्ण गोपाल दत्त के आत्मज, जन्म 25 जून, 1925, विवाह श्रीमती गार्गी दत्त से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 4-12-1971 से 2-4-1974 और 3-4-1974 से 2-4-1980, कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय, कई पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता . मकान न० 46, रोड न० 78, पजाबी बाग, नई दिल्ली।

दफ्तरी, श्री सी० के० . एम० ए०, एलएल० बी० (केम्ब्रिज), चार-एट-लॉ, (नाम-निर्देशित), श्री किशनलाल रतनलाल के आत्मज, जन्म 1 अप्रैल, 1893, विवाह श्रीमती सुशीला दफ्तरी से, 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1972 से 2-4-1978, भारत के सालिसिटर जनरल, 1951—63, भारत के महान्यायवादी, 1963—68, दिवगत। श्रद्धाजलि—18-2-1983।

दर, श्री अब्दुल गनी . प्रोग्रेसिव इन्डिपेण्डेंट पार्टी (पजाब), श्री जीवन दर के आत्मज, जन्म 14 अक्टूबर, 1907, विवाह श्रीमती शमशाद दर से, सदस्य, (1) पजाब विधान सभा, 1952—62 और (2) राज्य सभा, 23-11-1962 से 23-2-1967, अनेक पुस्तकों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—23-1-1980।

दरबारा सिंह, श्री : कांग्रेस (आई) (पंजाब), सरदार दलीप सिंह के आत्मज, जन्म 10 फरवरी, 1916, विवाह श्रीमती गुरवचन कौर से, 3 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, पजाब विधान सभा, 1952—69, मंत्री, पजाब सरकार, 1956-57 और 1962—67, मुख्य मंत्री, पजाब, जनवरी, 1980 से अक्टूबर, 1983, सदस्य, लोक सभा, 1971—77, अध्यक्ष, (1) सविधान (वत्तीसवा) सशोधन विधेयक, 1973 सबंधी संयुक्त समिति और (2) लोक सभा की मरकरी उपक्रमों सबंधी ससदीय समिति, 1975, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1984 से 11-3-1990, अध्यक्ष, आवास समिति, राज्य सभा, अक्टूबर-दिसम्बर, 1986, महासचिव/अध्यक्ष, पजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी, 1953—56, 1957—64 और 1978—81, दिवगत। श्रद्धाजलि—13-3-1990।

दलपत सिंह, श्री : एम० ए०, एलएल० बी०, कांग्रेस (राजस्थान), श्री खागर सिंह जी के आत्मज, जन्म 21 नवम्बर, 1922, विवाह श्रीमती शुभकवर से, 2 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 26-8-1964 से 2-4-1966 और 3-4-1966 से 18-3-1972।

स्थायी पता : ग्राम तथा डाकघर—सिरियारी, तहसील खरचौ, जिला पाली (राजस्थान)।

दलवाई, श्री हुसेन . बी० ए०, एलएल० बी०, कांग्रेस (आई) (महाराष्ट्र), श्री मिसरीखान बाबाखान दलवाई के आत्मज, जन्म 17 अगस्त, 1922, विवाह श्रीमती फातिमा हुसेन दलवाई से, 3 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, महाराष्ट्र विधान सभा, 1962—78, मंत्री, महाराष्ट्र सरकार, 1977-78, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1984 से 28-12-1984।

स्थायी पता . ग्राम उकताद, डाकघर—चिपलून, जिला रत्नागिरि (महाराष्ट्र)।

\*दवे, श्री अनन्तराय देवशकर : बी० ए०, एलएल० बी०, भारतीय जनता पार्टी (गुजरात), श्री देवशकर के आत्मज, जन्म 27 मई, 1938, विवाह श्रीमती इन्दिरा से, 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) लोक सभा, 1977 और (2) राज्य सभा, 10-4-1990 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता . माधवनगर, माण्डवी-कच्छ (गुजरात)।

दवे, श्री रोहित मनुशकर एम०ए० एलएल० बी०, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (गुजरात), श्री मनुशकर कृष्णशकर दवे के आत्मज, जन्म . 16 मई, 1908, अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1958 से 2-4-1964, सयुक्त सचिव, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, 1948-49, दिवगत। श्रद्धाजलि—6-11-1987।

दवे, श्री सोमनाथ पी० बी० ए०, एलएल० बी०, कांग्रेस (मुम्बई अव महाराष्ट्र), श्री प्रभाशकर एन० दवे के आत्मज, जन्म 18 अक्टूबर, 1906, विवाह श्रीमती शारदा से, 4 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, (1) मुम्बई विधान सभा और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1958 और 3-4-1958 से 5-1-1959, दिवगत। श्रद्धाजलि—9-2-1959।

दामोदरन, श्री के० भा० सा० द० (केरल), श्री के० टी० नम्बूरिपद के आत्मज, जन्म 1 मार्च, 1912, विवाह श्रीमती के० पी० पद्मन् से, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1964 से 2-4-1970, सचिव, केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, 1940, मलयालम मे अनेक पुस्तको के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—10-8-1976।

दास, श्री ए० धर्म बी० ए०, एलएल० बी०, कांग्रेस (उत्तर प्रदेश), डा० धर्मदास के आत्मज, जन्म 18 जुलाई, 1887, विवाह कुमारी ठाकुर दास से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, (1) सविधान सभा, 1946—50, (2) उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1946—52 और (3) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1958 और 3-4-1958 से 27-7-1960, दिवगत। श्रद्धाजलि—8-8-1960।

दास, श्री जगन्नाथ एम० ए०, कांग्रेस (उड़ीसा), श्री राधेश्याम दास के आत्मज, जन्म 5 मार्च, 1892, विवाह श्रीमती प्रमिला देवी से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, (1) विहार और उड़ीसा विधान परिषद्, 1930—35, (2) उड़ीसा विधान सभा, 1936—46, (3) केन्द्रीय विधान सभा, 1946-47, (4) अन्त कालीन ससद्, 1950-51 और (5) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956।

स्थायी पता जाजपुर, डाकघर जाजपुर, कटक (उड़ीसा)।

दास, श्री नन्द किशोर . एम० ए०, कांग्रेस (उड़ीसा), श्री श्याम चरण दास के आत्मज, सदस्य, (1) विहार विधान परिषद् और उड़ीसा विधान परिषद्, 1927, 1928 और 1929 और (2) उड़ीसा विधान सभा, उपाध्यक्ष और फिर अध्यक्ष, उड़ीसा विधान सभा, सदस्य, (1) सविधान सभा, (2) अन्त कालीन ससद् और (3) राज्य सभा, 3-4-1960 से 2-4-1966, अध्यक्ष, उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी, दिवगत। श्रद्धाजलि—17-7-1986।

दास, श्रीमती पुष्पलता : एम० ए०, कांग्रेस (असम), श्री आर० सेकिया की आत्मजा, जन्म 27 मार्च, 1915, विवाह श्री ओम्यो कुमार दास से, 1 पुत्री, सदस्य, असम विधान सभा, मंत्री, असम सरकार, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956 तथा 3-4-1956 से 2-4-1962।

स्थायी पता - रोजनीथ, शिलांग (मेघालय)।

\*दास, श्री वसन्त कुमार . हाई स्कूल, जनता दल (एस) (उड़ीसा), श्री वी० शत्रुघ्न दास के आत्मज, जन्म 20 अप्रैल, 1940, विवाह श्रीमती रोमा दास से, 3 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1990 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता . बहादुर बगीचा पारा, डाकघर भवानीपटना, जिला कालाहाडी (उड़ीसा)।

दास, श्री बाके विहारी : प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (उड़ीसा), श्री जगन्नाथ दास के आत्मज, जन्म जनवरी, 1923, विवाह श्रीमती सुधामजरीदास से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) उड़ीसा विधान सभा, 1957—61 और (2) राज्य सभा, 3-4-1966 से 4-4-1971, सयुक्त सचिव/सचिव, उड़ीसा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, 1947—54, कुछ पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता 14, अशोक नगर, भुवनेश्वर (उड़ीसा)।

दास, श्री भुवनानन्द : वी० ई०, कांग्रेस (उड़ीसा), श्री रामचन्द्र दास के आत्मज, जन्म 14 मई, 1885, विवाह श्रीमती रुक्मणी देई से, सदस्य, (1) केन्द्रीय विधान सभा, 1923—45, (2) सविधान सभा, 1946—50, (3) अन्त कालीन ससद, 1950—52, (4) लोक सभा, 1952—57 और (5) राज्य सभा, 27-4-1957 से 23-2-1958, अध्यक्ष, ससदीय लोक लेखा समिति, 1950—54, दिवगत। श्रद्धाजलि—24-2-1958।

दास, महन्त लक्ष्मी नारायण कांग्रेस (मध्य प्रदेश), गुरु महन्त विहारी दास के आत्मज, अविवाहित, सदस्य, (1) मध्य प्रदेश विधान परिषद्, 1937—52 और (2) राज्य सभा, 3-4-1962 से 2-4-1968, अध्यक्ष, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, 1957—59, दिवगत। श्रद्धाजलि—17-3-1987।

दास, श्री महावीर : कांग्रेस (विहार), श्री दरवारी दास के आत्मज, जन्म 10 जनवरी, 1915, विवाह श्रीमती सुन्दरी देवी से, 5 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1962 से 2-4-1968 और 3-4-1968 से 2-4-1974, 'आल इंडिया जन सेवक सपर्क सघ' के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—23-4-1984।

\*दास, श्रीमती मीरा : एम० ए०, एलएल० वी०, जनता दल (उड़ीसा), श्री पद्म महन्ती की आत्मजा, जन्म 10 नवम्बर, 1941, विवाह श्री विमलदास से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1990 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता : क्वार्टर स० एल-3, 119, आचार्य विहार, भुवनेश्वर, जिला पुरी (उड़ीसा)।

दास, श्रीमती मोनिका • बी० ए०, कांग्रेस (आई) (कर्णाटक), डा० अनुकूल चन्द्र चोगल की आत्मजा, जन्म • 1939, विवाह डा० सी० आर० दास से, 1 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1980 से 2-4-1986।

स्थायी पता 13, चाणक्यपुरी, हुयली (कर्णाटक)।

दास, श्री विपिनपाल • एम० एससी०, कांग्रेस (आई) (असम), श्री सत्तपाल दास के आत्मज, जन्म 1 फरवरी, 1923, विवाह श्रीमती आरती दास से, 2 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1970 से 2-4-1976 और 3-4-1976 से 2-4-1982, केन्द्रीय उप मंत्री, विदेश मंत्रालय, अक्तूबर, 1974 से मार्च, 1977, अध्यक्ष, याचिका समिति, राज्य सभा, 1979, सचिव, असम पी० एम० पी०, 1952—54, सयुक्त सचिव, अखिल भारतीय पी० एम० पी०, 1954-55, महासचिव, अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी, 1956 और 1957, कुछ पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता • हेमचन्द्र रोड, गुवाहाटी (असम)।

दास, श्री विश्वनाथ बी० ए०, बी० एल०, कांग्रेस (उड़ीसा), श्री मधुसूदन दास के आत्मज, जन्म 1890, विवाहित, 2 पुत्र, सदस्य, (1) मद्रास विधान परिषद्, 1920—30 और (2) उड़ीसा विधान सभा, 1937—43, मुख्य मंत्री, उड़ीसा, जुलाई, 1937 से नवम्बर, 1939, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1954 से 2-4-1960 और 3-4-1960 से 22-6-1961, उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तीन बार अध्यक्ष, दिवगत। श्रद्धाजलि—23-7-1984।

दास, कुमारी शोयला वाला कांग्रेस (उड़ीसा), श्री मधुसूदन दास की आत्मजा, जन्म 25 मार्च, 1875, अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954, 'लाइफ आफ मधुसूदन' और 'आटोबायोग्राफी' की लेखिका, दिवगत। श्रद्धाजलि—29-4-1968।

दासप्पा, श्री एच० सी० बी० ए०, एलएल० बी, कांग्रेस (मैसूर अब कर्णाटक), श्री हिरल्ली चेत्रियाह के आत्मज, जन्म 5 दिसम्बर, 1894, विवाह श्रीमती यशोधरा से, 2 पुत्र, सदस्य, (1) मैसूर विधान परिषद्, 1927—38 और (2) मैसूर सविधान सभा, 1948—50, मंत्री, मैसूर राज्य, अक्तूबर, 1947—मार्च, 1952, सदस्य, राज्य सभा 3-4-1954 से 13-3-1957, अध्यक्ष, मैसूर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, मई—दिसम्बर, 1952, दिवगत। श्रद्धाजलि—16-11-1964।

\*दासगुप्त, श्री गुम्दास एम० कॉम०, भारतीय साम्यवादी दल (पश्चिमी बंगाल), श्री दुर्गा प्रमत्र दामगुप्त के आत्मज, जन्म 3 नवम्बर, 1936, विवाह श्रीमती जयश्री दासगुप्त से, 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 12-3-1985 से 2-4-1988 और 3-4-1988 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता • 78, चितली रोड, कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)।

दासगुप्त, श्री तड़ित मोहन : बी० एससी०, कांग्रेस (त्रिपुरा), श्री अनग मोहन दासगुप्त के आत्मज, जन्म 21 फरवरी, 1919, अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1962 से 2-3-1967, महासचिव, त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी, 1951—57।

स्थायी पता . थाना रोड, अगरतला (त्रिपुरा)।

दिनकर, प्रो० रामधारी सिंह : डी० लिट्० (मानद), कांग्रेस (बिहार), श्री रविनाथ सिन्हा के आत्मज, जन्म 30 सितम्बर, 1908, विवाह श्रीमती श्यामावती से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954, 3-4-1954 से 2-4-1960 और 3-4-1960 से 26-1-1964, 1959 में पद्म भूषण से सम्मानित किये गये और 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त किया, हिन्दी गद्य, पद्य और बाल साहित्य में अनेक पुस्तकों के रचयिता, दिवगत। श्रद्धाजलि—25-4-1974।

दिनेश चन्द्र, श्री स्वामी . एम० ए० (अंग्रेजी साहित्य), एम० ए० (अर्थशास्त्र और लोक प्रशासन), एलएल० बी०, कांग्रेस (राजस्थान), श्री रमेश चन्द्र शर्मा के आत्मज, जन्म 14 जनवरी, 1936, विवाह श्रीमती भगवती स्वामी से, 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1976 से 2-4-1982, "फूड क्राइसिस इन इंडिया" के लेखक।

स्थायी पता : माधो विहारी जी का मंदिर, स्टेशन रोड, जयपुर (राजस्थान)।

दिनेश सिंह, श्री कांग्रेस (आई) (उत्तर प्रदेश), राजा अवधेश सिंह के आत्मज, जन्म 19 जुलाई, 1925, विवाह श्रीमती रानी नीलिमा कुमारी सिंह से, सदस्य, लोक सभा, 1957—62, 1962—67, 1967—70 और 1971—77, केन्द्रीय सरकार में विदेश, वाणिज्य तथा औद्योगिक विकास और आंतरिक व्यापार मंत्रालयों के उप मंत्री/राज्य मंत्री/मंत्री, 1962—66 और 1967—71, सदस्य, राज्य सभा, 14-7-1977 से 2-4-1980 और 30-6-1980 से 2-4-1982, 'टुवर्ड्स द न्यू होराइजन्स' और 'इंडिया एंड द चेजिंग एशियन सीन' के लेखक।

स्थायी पता गाव और डाकघर कालाकाकर, जिला—प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश)।

दिवाकर, श्री आर० आर० . एम० ए०, एलएल० बी, (नाम-निर्देशित), श्री राम चन्द्र के आत्मज, जन्म 30 सितम्बर, 1894, विवाह श्रीमती राधाबाई से, 1 पुत्र, सदस्य, (1) सविधान सभा, 1947—50 और (2) अन्त कालीन ससद, 1950—52, सूचना और प्रसारण मंत्री, भारत सरकार, 1949—52, सदस्य, राज्य सभा (चुने गये), 3-4-1952 से 13-6-1952 और (नाम-निर्देशित) 3-4-1962 से 2-4-1968, अध्यक्ष, कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी, 1930—42, बिहार के राज्यपाल, 1952—57, अंग्रेजी, कन्नड और हिन्दी में असंख्य पुस्तकों के रचयिता, दिवगत। श्रद्धाजलि—12-3-1990।

द्विवेदी, श्री देवेन्द्र नाथ : एम० ए० (राजनीति शास्त्र), एलएल० एम०, कांग्रेस (उत्तर प्रदेश), पंडित सरजू प्रसाद द्विवेदी के आत्मज, जन्म 1 जुलाई, 1936, विवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1974 से 2-4-1980।

स्थायी पता . डी-46/22, रामपुरा, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)।

द्विवेदी, श्री चैरगो स्वतन्त्र पार्टी (उड़ीसा), श्री नरहरि द्विवेदी के आत्मज, जन्म 16 दिसम्बर, 1920, विवाह, (1) श्रीमती हेमलता देवी से और (2) श्रीमती विष्णु प्रिया देवी से, 3 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1960 से 2-4-1966, दिवगत। श्रद्धाजलि—18-3-1987।

द्विवेदी, श्री सुरेन्द्र नाथ प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (उड़ीसा), श्री मगुनी द्विवेदी के आत्मज, जन्म 11 फरवरी, 1913, विवाह श्रीमती गायत्री द्विवेदी से, 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956, महासचिव, उत्कल, पी० सी० सी०, 1946—49, अध्यक्ष, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, उत्कल शाखा, अनेक पुस्तकों के लेखक तथा उड़िया भाषा में अनुवाद कार्य।

स्थायी पता तेलग बाजार, कटक (उड़ीसा)।

दीक्षित, श्री उमा शंकर कांग्रेस (उत्तर प्रदेश), पंडित राम स्वरूप दीक्षित के आत्मज, जन्म 12 जनवरी, 1901, विवाह श्रीमती शिव प्यारी दीक्षित से, 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 26-4-1961 से 2-4-1964, 3-4-1964 से 2-4-1970 और 3-4-1970 से 10-1-1976, केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार नियोजन, निर्माण और आवास तथा गृह मन्त्रालयों के मंत्री रहे, सभा के नेता, राज्य सभा, 1971—75।

स्थायी पता 68, मोती भवन, नजर बाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।

दीक्षित, श्री जगदीश चन्द्र वी० ए० (आनर्स), एम० ए०, एलएल० वी०, अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में डिप्लोमा, कांग्रेस (उत्तर प्रदेश), श्री लक्ष्मी नारायण के आत्मज, जन्म 21 नवम्बर, 1925, विवाह श्रीमती कमल दीक्षित से, 1 पुत्र, सदस्य, (1) उत्तर प्रदेश विधान परिषद्, 1957—60 और (2) राज्य सभा, 23-9-1969 से 2-4-1970, दिवगत। श्रद्धाजलि—12-3-1990।

दीपक, श्री कृष्ण कुमार एम० ए०, जनता दल (हरियाणा), पण्डित कर्मचन्द के आत्मज, जन्म 4 दिसम्बर, 1934, विवाह श्रीमती चंचल शर्मा से, 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 23-3-1990 से 13-7-1990।

स्थायी पता . गाव व डाकखाना खैरपुर, निकट कैनाल कालोनी, सिरसा (हरियाणा)।

दुगल, श्री उत्तम सिंह निर्दलीय (पंजाब), श्री भगवान सिंह दुगल के आत्मज, जन्म 25 जुलाई, 1899, विवाह सरदारनी बलवत कौर से, 3 पुत्र तथा 4 पुत्रिया, सदस्य, (1) पंजाब विधान सभा, 1937—46 और (2) राज्य सभा, 3-4-1964 से 20-4-1968, दिवगत। श्रद्धाजलि—29-4-1968।

दुगल, श्री हरचरण सिंह (पंजाब), सदस्य, राज्य सभा, 28-3-1969 से 2-4-1970। [अन्य व्यौरें उपलब्ध नहीं हैं]

स्थायी पता मकान सं० 87, मोहल्ला दादन, फरीदकोट (पंजाब)।

दुबे, डा० आर० पी० : एम० वी० वी० एस०, कांग्रेस (मध्य प्रदेश), पंडित विशम्भर नाथ दुबे के आत्मज, जन्म 5 मार्च, 1896, विवाह डा० उर्मिला कुमारी दुबे से, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1960, दिवगत। श्रद्धाजलि—24-4-1961।

\*दुबे, श्री विन्देश्वरी : कांग्रेस (आई) (बिहार), श्री शिव नरेश दुबे के आत्मज, जन्म 14 फरवरी, 1921, विवाह श्रीमती शिव सखी देवी से, 1 पुत्री, सदस्य, बिहार विधान सभा, 1952—57, 1962—77 और 1985—88, मंत्री, बिहार सरकार, मुख्य मंत्री, बिहार, 1985—88, सदस्य, (1) लोक सभा, 1980—84 और (2) राज्य सभा, 3-4-1988 से अद्यपर्यन्त, केन्द्रीय विधि और न्याय तथा श्रम मंत्री, 1988-89, अध्यक्ष, (1) बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और (2) भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस।

स्थायी पता : ग्राम तथा डाकघर—1, महुआ, जिला भोजपुर (बिहार)।

दुबे, श्री वैजनाथ : सोशलिस्ट पार्टी (विन्ध्य प्रदेश अव मध्य प्रदेश), पंडित इगडू दुबे के आत्मज, जन्म 1 जुलाई, 1903, विवाहित, 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954।

स्थायी पता : द्वारा वार्ड सख्या 2, गोधर, रोवा (मध्य प्रदेश)।

दुबे, श्री बोध राम : एम० ए०, वी० एल०, कांग्रेस (उड़ीसा), श्री कृष्ण राम दुबे के आत्मज, जन्म अप्रैल, 1895, विवाह, (1) श्रीमती श्यामा देवी और (2) श्रीमती रुक्मणी देवी से, 3 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, उड़ीसा विधान सभा, 1937—39 और 1946—48, मंत्री, उड़ीसा सरकार, 1937—39, सदस्य, (1) सविधान सभा और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1958, दिवगत, 27-8-1964।

दुबे, पंडित सीता चरण : एम० ए०, वी० एल०, कांग्रेस (मध्य प्रदेश), पंडित रामचरण लाल दुबे के आत्मज, जन्म फरवरी, 1879, विवाह श्रीमती लक्ष्मी देवी से, 3 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) मध्य प्रदेश विधान परिषद, 1926—29 और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954, दिवगत, 2-10-1972।

देव, श्री के० पी० सिंह . वी० एससी० (भू-विज्ञान ऑनर्स), भारतीय लोक दल (उड़ीसा), श्री शंकर प्रताप सिंह देव महेन्द्र वहादुर विद्यासागर के आत्मज, जन्म 6 अगस्त, 1941, विवाह श्रीमती सावित्री देवी (विवाह पूर्व कृष्णा देवी) से, 2 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) लोक सभा, 1967—70 और (2) राज्य सभा, 28-1-1972 से 2-4-1976।

स्थायी पता : पैलेस, डाकघर धेन्कानाल (उड़ीसा)।

देव, श्री वीर केसरी : आई० एससी०, भारतीय लोक दल (उड़ीसा), श्री बी० एम० देव के आत्मज, जन्म 1927, विवाह श्रीमती एम० देवी से, 4 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) उड़ीसा विधान सभा, 1957—67 और (2) राज्य सभा, 19-4-1967 से 2-4-1970 और 3-4-1970 से 2-4-1976।

स्थायी पता • डाकघर भवानीपटना, कालाहाडी (उड़ीसा)।

देव, श्री सुरेश चन्द्र • बी० ए० तक अध्ययन किया, कांग्रेस (असम), श्री तारा नाथ देव के आत्मज, जन्म 9 जून, 1893, अविवाहित, सदस्य, (1) लोक सभा, 1952—57 और (2) राज्य सभा, 3-5-1957 से 2-4-1960 और 3-4-1960 से 2-4-1966, दिवगत। श्रद्धाजलि—23-11-1981।

देव, श्री शंकर प्रताप सिंह • स्वतंत्र पार्टी (उड़ीसा), राजा सूर प्रताप देव महेंद्र बहादुर के आत्मज, जन्म 15 नवम्बर, 1904, विवाह रानी श्रीमती रत्ना प्रोवा देवी से, 2 पुत्र, सदस्य, (1) चैम्बर ऑफ प्रिन्सेज, 1928—46, (2) उड़ीसा विधान सभा, 1957 और (3) राज्य सभा, 3-4-1964 से 3-8-1965, उडिया और हिन्दी में अनेको पुस्तको के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—16-8-1965।

देवी सिंह, श्री • बी० ए०, स्वतंत्र पार्टी (राजस्थान), ठाकुर जय सिंह जी के आत्मज, जन्म 19 मार्च, 1922, विवाह श्रीमती सज्जन कुमारी से, 4 पुत्र, सदस्य, (1) राजस्थान विधान सभा, 1952—57 और (2) राज्य सभा, 3-4-1964 से 2-4-1970, राजस्थान स्वतंत्र पार्टी के सचिव, 1962—64।

स्थायी पता • भाडवा हाउस, ससार चन्द्र रोड, जयपुर (राजस्थान)।

देवकी गोपीदास, श्रीमती : बी० एल०, कांग्रेस (केरल), जन्म 1918, विवाह श्री वेजहापर ए० गोपीदास से, 3 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) त्रावणकोर विधान सभा, 1948, (2) त्रावणकोर कोचीन विधान सभा, (3) केरल विधान सभा और (4) राज्य सभा, 3-4-1962 से 2-4-1968, दिवगत। श्रद्धाजलि—23-7-1973।

देवगिरकर, श्री टी० आर० : बी० ए० (ऑनर्स), कांग्रेस (महाराष्ट्र), श्री रघुनाथ के आत्मज, जन्म नवम्बर, 1896, अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956 और 3-4-1956 से 2-4-1962, अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी, 1954, अनेक पुस्तको के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—28-7-1975।

देव बर्मन, श्री वीरचन्द्र • एम० ए०, एलएल० बी०, भारतीय साम्यवादी दल (त्रिपुरा), श्री सतीश चन्द्र देव बर्मन के आत्मज, जन्म 1 मार्च, 1920, अविवाहित, सदस्य, (1) त्रिपुरा विधान सभा, 1962—67 और (2) राज्य सभा, 3-4-1974 से 2-4-1980।

स्थायी पता • हरीश ठाकुर स्ट्रीट, अगरतला (त्रिपुरा)।



देशमुख, श्री त्रिविक्रम गोपाल : एम० ए०, पत्रकारिता में डिप्लोमा, कांग्रेस (महाराष्ट्र), श्री गोपाल यादव देशमुख के आत्मज, जन्म 12 अगस्त, 1927, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1968 से 2-4-1974।

स्थायी पता : "सरस्वती" केनाल रोड, राम दास पेठ, नागपुर (महाराष्ट्र)।

देशमुख, श्री नरसिंग राव बालभीमराव : बी० ए०, एलएल० बी०, कृषक और कामगार पार्टी (मुम्बई अब महाराष्ट्र), श्री बालभीमराव के आत्मज, विवाह श्रीमती शशिकला से, 1 पुत्र तथा 4 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954 और 3-4-1954 से 2-4-1960।

स्थायी पता : उस्मानाबाद, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)।

देशमुख, श्री वापूरावजी मारुतरावजी : हाई स्कूल, कांग्रेस (आई) (महाराष्ट्र), श्री मारुतराव देशमुख के आत्मज, जन्म 9 मई, 1916, विवाह श्रीमती रमाबाई वापूराव देशमुख से, 2 पुत्र तथा 4 पुत्रिया; सदस्य, (1) सी० पी० और वरर विधान सभा, 1952—57, (2) बम्बई विधान सभा, 1957—60, (3) महाराष्ट्र विधान सभा, 1960—67 और (4) राज्य सभा, 3-4-1976 से 2-4-1982, दिवगत। श्रद्धाजलि—7-8-1990।

देशमुख, श्री रामराव माधवराव : एम० ए०, एलएल० बी० (कैम्ब्रिज), बार-एट-लॉ, कांग्रेस (महाराष्ट्र), श्री माधवराव शकरराव देशमुख के आत्मज, जन्म 25 नवम्बर, 1892, विवाह श्रीमती शशिबालाबाई कदम से, 1 पुत्र तथा 4 पुत्रिया, सदस्य, सी० पी० एण्ड वरर विधान परिषद, 1920—25, 1927—30 और 1937—41, मली, सी० पी० और वरर सरकार, 1927-28, 1929-30 और 1937-38, ग्वालियर राज्य में मंत्री, 1941—44, दक्षिण अफ्रीका सघ में भारत के उच्चायुक्त, 1945—47, रीवा राज्य में प्रधान मंत्री, 1947-48, सदस्य, (1) केन्द्रीय विधान सभा, 1926-27 और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1958 और 3-4-1958 से 2-4-1964, "केस फॉर वरर" के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—20-4-1981।

देशमुख, श्रीमती विमल पजाव : बी० ए०, एलएल० बी०, कांग्रेस (महाराष्ट्र), श्री जयराम नाना वैद्य की आत्मजा, जन्म 24 अक्टूबर, 1906, विवाह डा० पी० एस० देशमुख से, 1 पुत्र, सदस्य, (1) लोक सभा, जून, 1965 से मार्च, 1967 और (2) राज्य सभा, 19-4-1967 से 2-4-1972।

स्थायी पता : अमरावती कैम्प, अमरावती (महाराष्ट्र)।

देशमुख, श्री शं० ना० : कांग्रेस (आई) (महाराष्ट्र), श्री नारायणराव के आत्मज, जन्म 29 अगस्त, 1913, विवाहित, 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) महाराष्ट्र विधान सभा, 1967—72 और (2) राज्य सभा, 3-4-1984 से 2-4-1990।

स्थायी पता : मम्माजी रोड, गाव देवलाली नासिक रोड, जिला नासिक (महाराष्ट्र)।

देसाई, श्री आर० एम० : बी० ए०, काग्रेस (यू) (कर्णाटक), श्री भालप्पा देसाई के आत्मज, जन्म 7 अगस्त, 1920, विवाह श्रीमती शांतादेवी से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, (1) मैसूर विधान सभा, 1957—69 और (2) राज्य सभा, 3-4-1976 से 2-4-1982।

स्थायी पता : तालुक विलगी, जिला बीजापुर, डाकघर यदाहल्ली (कर्णाटक)।

देसाई, श्री खन्डूभाई के० स्नातक (गुजरात विद्यापीठ), काग्रेस (गुजरात), श्री कासनजी के आत्मज, जन्म 23 अक्टूबर, 1898, विवाह श्रीमती पार्वतीबेन से, 1 पुत्र तथा 4 पुत्रिया, सदस्य, (1) मुम्बई विधान सभा, 1937—39 और 1946—50, (2) सविधान सभा, 1946—50, (3) अत कालीन ससद, 1950—52 और (4) लोक सभा, 1952—57, केन्द्रीय श्रम मंत्री, 1954—57, सदस्य, राज्य सभा, 9-3-1959 से 2-4-1964 और 3-4-1964 से 31-3-1968, महासचिव और अध्यक्ष, आई० एन० टी० यू० सी०, दिवगत। श्रद्धाजलि—25-4-1975।

\*देसाई, श्री जगेश : बी० कॉम, एफ० सी० ए०, काग्रेस (आई) (महाराष्ट्र), श्री मथुरादास देसाई के आत्मज, जन्म 8 फरवरी, 1926, विवाह श्रीमती सावित्री देसाई से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, महाराष्ट्र विधान सभा, 1972—78, मंत्री, महाराष्ट्र सरकार, 1975—78, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1984 से 2-4-1990 और 3-4-1990 से अद्यपर्यन्त, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1987—90, अध्यक्ष, सरकारी आश्वासनों सवधी समिति, राज्य सभा, 1990-91, महासचिव, महाराष्ट्र प्रदेश काग्रेस कमेटी (आई), 1979—83, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश काग्रेस कमेटी (आई)।

स्थायी पता : "कल्पना", तल्मिकी रोड, सारस्वत कालोनी, सात्ताकूज (पश्चिम), मुम्बई (महाराष्ट्र)।

देसाई, श्री जनार्दन राव : काग्रेस (मैसूर, अब कर्णाटक), श्री रघुवेन्द्र राव के आत्मज, जन्म 1896, विवाह श्रीमती सुभद्राबाई से, 4 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1956 से 2-4-1962, अध्यक्ष, हैदराबाद राज्य काग्रेस, 1948-49, दिवगत। श्रद्धाजलि—25-4-1975।

देसाई, श्री दजीबा बलवंतराव : बी० ए० (ऑनर्स), एलएल० बी०, कृषक और कामगार पार्टी (महाराष्ट्र), श्री वलवतराव अन्नाजी देसाई के आत्मज, जन्म 15 सितम्बर, 1925, विवाह श्रीमती लीला देसाई से, 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1960 से 2-4-1966, महासचिव, कृषक और कामगार पार्टी, 1954—60, दिवगत। श्रद्धाजलि—25-3-1985।

देसाई, श्री सुरेश जे० एम० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस (ओ) (गुजरात), श्री जमीतराम जी० देसाई के आत्मज, जन्म 5 मई, 1909, विवाह श्रीमती कलावती मजूमदार से, 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1960 से 2-4-1966 और 3-4-1966 से 2-4-1972, सयुक्त सचिव, अखिल भारतीय समाजवादी दल, 1946—51, अध्यक्ष, प्रजा समाजवादी दल, गुजरात और सौराष्ट्र, 1955—61, दिवगत। श्रद्धाजलि—21-2-1989।

दोषी, श्री लालचन्द हीराचन्द : बी० ए०, काग्रेस (मैसूर, अब कर्णाटक), श्री हीराचन्द नेमचन्द दोषी के आत्मज, जन्म 24 अक्टूबर, 1904, विवाह श्रीमती ललिताबाई से, 3 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, (1) मुम्बई विधान परिषद, 1937—39 और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1958।

स्थायी पता : नीला हाऊस, पोद्दार रोड, महालक्ष्मी, मुम्बई (महाराष्ट्र)।

\*द्रोणमराजू, श्री सत्यनारायण : इटरमीडिएट; काग्रेस (आई) (आन्ध्र प्रदेश), श्री अप्पालनरसिहन के आत्मज, जन्म 19 दिसम्बर, 1933, विवाह, (1) श्रीमती सावित्री और (2) श्रीमती पार्वती से, 4 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) लोक सभा, 1977—79, (2) आन्ध्र प्रदेश विधान सभा, 1980—83 और (3) राज्य सभा, 3-4-1988 से अद्यपर्यन्त, 'ग्रामोद्योग' (ग्रामीण प्रशासन का इतिहास) के लेखक।

स्थायी पता : चिनमुशिदिवाडा, पेडुटी (एस० ओ०), जिला विशाखापतनम् (आन्ध्र प्रदेश)।

\*धवन, श्री आर० के० : काग्रेस (आई) (आन्ध्र प्रदेश), जन्म 16 जुलाई, 1937, अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1990 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता : 141, गोल्फ लिक्स, नई दिल्ली।

धर, श्री डी० पी० : बी० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस (जम्मू और कश्मीर), श्री श्रीकांत धर के आत्मज, जन्म 24 अप्रैल, 1918, विवाह श्रीमती विजयलक्ष्मी से, 1 पुत्र, सदस्य, (1) जम्मू और कश्मीर सविधान सभा, 1951—56, (2) जम्मू और कश्मीर विधान सभा, 1956—61 और (3) जम्मू और कश्मीर विधान परिषद, 1962—68, मंत्री, जम्मू और कश्मीर सरकार, 1961—68, सदस्य, र० सभा, 11-11-1972 से 7-2-1975, केन्द्रीय योजना मंत्री तथा उपाध्यक्ष, योजना आयोग, 1972—74, (1) रूस, 1969—71 और (2) मंगोलिया में भारत के राजदूत रहे, दिवंगत। श्रद्धाजलि—21-7-1975।

धर्म प्रकाश, डा० : एल० एच० एम० एस०, ए० एम०, काग्रेस (उत्तर प्रदेश), श्री मोहन लालजी के आत्मज, जन्म नवम्बर, 1900, विवाह श्रीमती सरस्वती देवी से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, (1) सविधान सभा, 1948—50, (2) अस्थायी ससद, 1950—52 तथा (3) राज्य सभा, 9-8-1958 से 2-4-1962 तथा 3-4-1962 से 2-4-1968, दिवंगत। श्रद्धाजलि—1-8-1972।

धर्मपाल, श्री . वी० ए०, कांग्रेस (आई) (जम्मू और कश्मीर), श्री रामलाल के आत्मज, जन्म 2 अप्रैल, 1934, विवाह श्रीमती सनोप कुमारी से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, जम्मू और काश्मीर विधान सभा, 1967—87, ससदीय सचिव, 1967—72, मंत्री, 1972—75, जम्मू और काश्मीर सरकार, अध्यक्ष, (1) लोक लेखा समिति, 1976-77 तथा (2) प्राक्कलन समिति, 1977-78, 1980-81 तथा 1982-83, जम्मू और काश्मीर विधान सभा, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1988 से 27-11-1989, उपाध्यक्ष/सचिव/महासचिव, जम्मू और काश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, 1967—72 तथा 1976—88।

स्थायी पता : 10-बी/ची, गांधी नगर, जम्मू (जम्मू और काश्मीर)।

धर्मवीर, श्री : एम० ए०, एलएल० वी०, कांग्रेस (आई) (उत्तर प्रदेश), श्री रामभरोसे लाल के आत्मज, जन्म 30 नवम्बर, 1936, विवाह श्रीमती इंदिरा देवी से, 3 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1967, 1969 तथा 1974, मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, 1969—77, सदस्य, राज्य सभा, 5-7-1980 से 22-12-1984, केन्द्रीय श्रम उपमन्त्री, 1982—84, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (आई) 1979-80, दिवंगत। श्रद्धाञ्जलि—17-1-1985।

धावे, श्री एस० डब्ल्यू : वी० एससी०, एलएल० वी०, कांग्रेस (एम) (महाराष्ट्र), श्री वासुदेवराव हरवाजी धावे के आत्मज, जन्म 9 जुलाई, 1920, विवाह श्रीमती प्रभा से, 1 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1974 से 2-4-1980 तथा 5-7-1980 से 4-7-1986, अध्यक्ष, महाराष्ट्र आई० एन० टी० यू० सी०, 1966—75, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एस)।

स्थायी पता : 81, रहते कालोनी, वर्धा रोड, नागपुर (महाराष्ट्र)।

धारिया, श्री मोहन माणिकचंद : वी० ए०, एलएल० वी०, कांग्रेस (महाराष्ट्र), श्री माणिकचंद दामोदरदास धारिया के आत्मज, जन्म 14 फरवरी, 1925, विवाह श्रीमती शशिकला से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1964 से 2-4-1970 तथा 3-4-1970 से 10-3-1971, सचिव, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी, 1962—67, 'फ्यूंस एंड दी फायर' पुस्तक के लेखक।

स्थायी पता : अनंत स्मृति, 2064, विजय नगर, पुणे (महाराष्ट्र)।

धुलप, श्री कृष्णराव नारायण . एम० ए०, एलएल० वी०, कृषक तथा कामगार पार्टी (महाराष्ट्र), श्री नारायण श्रीपत धुलप के आत्मज, जन्म 16 जुलाई, 1922, विवाह श्रीमती उषा कृष्णराव धुलप से, 2 पुत्र तथा 4 पुत्रिया, सदस्य, (1) बम्बई विधान सभा, 1957—60 तथा (2) महाराष्ट्र विधान सभा, 1960—72, विपक्ष के नेता, महाराष्ट्र विधान सभा, 1962—72; सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1974 से 2-4-1980, दिवंगत। श्रद्धाञ्जलि—21-2-1989।

धूसिया, श्री सोहन लाल : बी० कॉम, एलएल० बी०, कांग्रेस (आई) (उत्तर प्रदेश), श्री द्वारका राम के आत्मज, जन्म 1 जुलाई, 1923, विवाह श्रीमती छाया देवी से, 4 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) अन्त कालीन ससद, 1950—52, (2) लोक सभा, 1952—57 तथा (3) उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1957—77, मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1984 से 2-4-1990।

स्थायी पता : मोहल्ला पठान टोला, डाकघर पुरानी बस्ती, जिला बस्ती (उत्तर प्रदेश)।

\*नटराजन, श्रीमती जयन्ती . बी० ए०, एलएल० बी०, कांग्रेस (आई) (तमिलनाडु), डा० सी० आर० सुन्दरराजन की आत्मजा, जन्म 7 जून, 1954, विवाह श्री वी० के० नटराजन से, 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 30-6-1986 से अद्यपर्यन्त, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1990-91।

स्थायी पता : 47, वारेन रोड, मायलापोर, मद्रास (तमिलनाडु)।

नटराजन, श्री सी० डी० : एम० ए०, एलएल० बी०, निर्दलीय (तमिलनाडु), श्री सी० दुरेस्वामी के आत्मज, जन्म 14 मई, 1915, विवाह श्रीमती कान्तामणि से, 2 पुत्र, सचिव, तमिलनाडु विधान परिषद, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1974 से 2-4-1980।

स्थायी पता : 17-बी, टेलर्स रोड, मद्रास (तमिलनाडु)।

नरथा सिंह, श्री : कांग्रेस (आई) (राजस्थान), श्री चुरा रामजी के आत्मज, जन्म अगस्त, 1928, विवाह श्रीमती रामोती देवी से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) राजस्थान विधान सभा, 1972—77 और (2) राज्य सभा, 3-4-1982 से 2-4-1988।

स्थायी पता : लाल बस्ती, बयाना, जिला भरतपुर (राजस्थान)।

नरथी सिंह, श्री : एम० ए०, एलएल० बी०, जनता पार्टी (राजस्थान), श्री चरण सिंह के आत्मज, जन्म 28 दिसम्बर, 1929, विवाह श्रीमती विद्यावती से, 5 पुत्र तथा 5 पुत्रिया, सदस्य, (1) राजस्थान विधान सभा और (2) राज्य सभा, 3-4-1974 से 2-4-1980।

स्थायी पता : एम-16, गांधी नगर, जयपुर (राजस्थान)।

नन्जुन्दैया, श्री बी० सी० : कांग्रेस (मैसूर वर्तमान कर्णाटक), श्री भावीकट्टै चन्नाबसप्पा के आत्मज, जन्म 17 जनवरी, 1913, विवाह श्रीमती बी० अम्बावाई से, 3 पुत्र और 4 पुत्रिया, सदस्य, (1) मैसूर प्रतिनिधि सभा, 1937—44, (2) मैसूर विधान सभा, 1948—57 और (3) राज्य सभा, 25-4-1957 से 2-4-1960 और 3-4-1960 से 2-4-1966।

स्थायी पता : टुमकुर (कर्णाटक)।

नन्दा, श्री नरसिंह प्रसाद : बी० ए० (आनर्स), बी० एल० (स्वर्ण पदक प्राप्त), कांग्रेस (यू) (उडीसा), श्री नारायण के आत्मज, जन्म 25 सितम्बर, 1927, विवाह श्रीमती सध्यारानी नन्दा से, 3 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1976 से 2-4-1982, अध्यक्ष, अधीनस्थ विधान सवधी समिति, राज्य सभा, 1980।

स्थायी पता गाव और डाकघर बोलनगिर, जिला बोलनगिर (उडीसा)।

नफीसुल हसन, श्री . एम० ए०, एलएल० बी०, कांग्रेस (उत्तर प्रदेश), हाफिज मोहम्मद इलाही के आत्मज, जन्म 12 जुलाई, 1900, विवाह इकबाल जहा बेगम से, 2 पुत्र और 4 पुत्रिया, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1937—52, उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1946—50 और 1950—52, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1960 से 2-4-1966, दिवगत। श्रद्धाजलि—20-11-1978।

नरसिंहम, श्री के० एल० बी० ए०, साम्यवादी दल (आन्ध्र प्रदेश), श्री के० पट्टाभिरमैया के आत्मज, जन्म 1914, विवाह श्रीमती के० वरलक्ष्मी से, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1958 और 3-4-1958 से 2-4-1964, दिवगत। श्रद्धाजलि—24-5-1967।

नरसैया, श्री एच० एस० बी० ए०, बी० एल०, कांग्रेस (कर्णाटक), श्री एच० एस० श्रीनिवासैया के आत्मज, जन्म 14 अप्रैल, 1905, विवाह श्रीमती जनम्बा से, 5 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1972 से 15-5-1977, 'आनन्दगिरि' के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—11-6-1977।

नरेन्द्र देव, श्री एम० ए०, एलएल० बी०, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (उत्तर प्रदेश), श्री बी० बलदेव प्रसाद के आत्मज, जन्म 31 अक्टूबर, 1889, विवाह श्रीमती प्रेमा देवी से, 2 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954 और 3-4-1954 से 20-2-1956, कुलपति, (1) लखनऊ विश्वविद्यालय, 1947—51 और (2) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, 1951—54, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, 1936-37, अध्यक्ष, (1) सोशलिस्ट पार्टी, 1950—52 और (2) प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, 1954, समाजवाद और बौद्ध धर्म से सम्बन्धित पुस्तकों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—20-2-1956।

नरेन्द्र सिंह, श्री : बी० ए०, एलएल० बी०, कांग्रेस (आई) (उत्तर प्रदेश), चौधरी श्याम लाल सिंह के आत्मज, जन्म 3 अगस्त, 1938, विवाह श्रीमती फूल कुमारी से, 2 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 14-7-1977 से 2-4-1978, 3-4-1978 से 2-4-1984 और 3-4-1984 से 4-2-1985, महामंत्री, लोक दल।

स्थायी पता . ग्राम धरमनगढपुर, डाकघर सजेती, जिला कानपुर (उत्तर प्रदेश)।

नलवा, श्री हरि सिंह : बी० ए० (अर्थशास्त्र), काग्रेस (आई) (हरियाणा), श्री छजू राम के आत्मज, जन्म 2 अक्टूबर, 1932, विवाह श्रीमती काता कुमारी नलवा से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) हरियाणा विधान सभा, 1972—77 और (2) राज्य सभा, 19-3-1980 से 2-4-1982 और 3-4-1982 से 2-4-1988, उपाध्यक्ष और महासचिव, हरियाणा प्रदेश काग्रेस (आई) समिति।

स्थायी पता : ग्राम—उझा, तहसील—पानीपत, जिला—करनाल (हरियाणा)।

\*नल्लाशिवन्, श्री ए० . इंटरमीडिएट, सी०पी०आई० (एम) (तमिलनाडु), श्री अरूमुगम के आत्मज, जन्म 22 फरवरी, 1922, विवाह श्रीमती कातिमति से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) तमिलनाडु विधान सभा और (2) राज्य सभा, 25-7-1989 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता : 2/27, करपागविनय नगर, कोइल स्ट्रीट, ब्रमादेशम डाकघर वाया अम्बासमुद्रम्, जिला तिरुनेलवेलि (तमिलनाडु)।

नवल किशोर, श्री . एम० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस (उत्तर प्रदेश), श्री रघुवर दयाल के आत्मज, जन्म 1 जनवरी, 1919, विवाह श्रीमती कौशल्या देवी से, 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) रामपुर राज्य विधान सभा, 1948-49 और (2) उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1952—68, अध्यक्ष, आकलन समिति, उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1954—60, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, 1961—63 और 1967, सदस्य, राज्य सभा, 30-3-1970 से 19-4-1975, महामंत्री, उत्तर प्रदेश काग्रेस कमेटी, 1964 और 1969-70, दिवगत। श्रद्धाजलि—25-4-1975।

\*नाइक, श्री आर० एम० एम० एस० सी०, जनता दल (कर्णाटक), श्री शिवप्पा रमैया नाइक के आत्मज, जन्म 6 जून, 1933, विवाह श्रीमती लीलावती से, 1 पुत्र तथा 4 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1986 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता : 83-ए, टाउनशिप डडेली, जिला उत्तरकन्नडा (कर्णाटक)।

नाइक, श्री एल० आर० . बी० ए० (आनर्स), एलएल० बी०, काग्रेस (आई) (कर्णाटक), श्री रामसिंह नाइक के आत्मज, जन्म 18 सितम्बर, 1916, विवाह श्रीमती शोभना एल० नाइक से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 20-7-1977 से 2-4-1980।

स्थायी पता 7, दोमलूर ले-आउट, बगलौर (कर्णाटक)।

नाइक, श्री एल० नरसिंह . एम० ए०, एम० फिल०, बी० एड०, तेलुगु देशम (आन्ध्र प्रदेश), श्री हरीलाल के आत्मज, जन्म 11 अक्टूबर, 1938, विवाह श्रीमती रगावाई से, 2 पुत्र, सदस्य, (1) आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद् तथा (2) राज्य सभा, 3-4-1988 से 12-1-1989, दिवगत। श्रद्धाजलि—21-2-1989।

नाइक, श्री महेश्वर वी० ए०, कांग्रेस (उडीसा), श्री राम कृष्ण नाइक के आत्मज, जन्म जुलाई, 1906, विवाह श्रीमती सुरेन्द्री देवी से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, (1) मयूरभज विधान सभा, 1944—46, (2) मयूरभज राज्य विधान सभा तथा मंत्री, 1947—49, (3) अन्त कालीन ससद, 1950—52 और (4) राज्य सभा, 3-4-1956 से 27-2-1962, उडिया में नाटक, गीत, लघुकथायें आदि से सबधित पुस्तको के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—20-2-1986।

नाग, डा० कालीदास : एम० ए० (कलकत्ता), डी० लिट्० (पेरिस), आफिसर 'डी' अकाडेमिक (फ्रांस सरकार), (नाम- निर्देशित), बाबू मोतीलाल नाग के आत्मज, जन्म 16 जनवरी, 1892, विवाह श्रीमती शांता देवी से, 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954, अनेक पुस्तको के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—9-11-1966।

नागराजमूर्ति, श्री वी० पी० वी० ए०, एलएल० वी०, कांग्रेस (कर्णाटक), श्री पुतमदप्पा के आत्मज, जन्म 20 दिसम्बर, 1920, विवाह श्रीमती वाजय से, 1 पुत्री, सदस्य, (1) मैसूर विधान सभा, 1952—57 और (2) राज्य सभा, 3-4-1970 से 2-4-1976।

स्थायी पता : रागी बोम्पनाहल्ली, मलवल्लि तहसील, जिला मड्या (कर्णाटक)।

नागपुरे, श्री विठ्ठलराव तुकाराम . वी० ए०, एलएल० वी०, कांग्रेस (महाराष्ट्र), श्री तुकारामपत नागपुरे के आत्मज, जन्म 1 जुलाई, 1907, विवाह श्रीमती लक्ष्मीबाई से, 1 पुत्र, सदस्य, (1) बम्बई विधान परिषद्, 1956—58 और (2) राज्य सभा, 3-4-1960 से 2-4-1966 और 3-4-1966 से 2-4-1972।

स्थायी पता . मकान न० 19, मूल टाउन, चादा (महाराष्ट्र)।

नागोके, जस्येदार कथम सिंह कांग्रेस (पजाब), सरदार बेला सिंह के आत्मज, जन्म 28 अप्रैल, 1894, विवाह श्रीमती ईशर कौर से, सदस्य, (1) पजाब विधान सभा, 1946 और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954 तथा 3-4-1954 से 2-4-1960, दिवगत। श्रद्धाजलि—14-2-1966।

\*नायक, श्री जी० स्वामी . मैट्रिक तक अध्ययन किया, कांग्रेस (आई) (आन्ध्र प्रदेश), श्री गेमा के आत्मज, जन्म 25 दिसम्बर, 1934, विवाह श्रीमती रुक्मिणी नायक से, 3 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1980 से 2-4-1986 तथा 3-4-1986 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता . मकान न० 7-1-632/107, बापू नगर, डाकघर सजीव रेड्डी नगर, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)।



नायडु, श्री एन० पी० चेंगलराया : मद्रिक, काग्रेस (आई) (आन्ध्र प्रदेश), श्री एन० पी० वेंकटस्वामी नायडु के आत्मज, जन्म 6 अगस्त, 1915, विवाह श्रीमती एन० पी० माचित्री से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) मद्रास विधान परिषद्, 1953-54, (2) आन्ध्र प्रदेश विधान सभा, 1955—62, (3) लोक सभा, 1967—70 और (4) राज्य सभा, 10-4-1978 से 9-4-1984, सचिव, आन्ध्र राज्य काग्रेस कमेटी, 1951—53, उपाध्यक्ष, आन्ध्र प्रदेश काग्रेस कमेटी, 1960—64।

स्थायी पता : नायडु बिल्डिंग, चित्तूर (आन्ध्र प्रदेश)।

नायडु, कुमारी एम० एल० मेरी . वी० ए०, एल० टी०, काग्रेस (आन्ध्र प्रदेश), श्री एम० एम० गणेश नायडु की आत्मजा, जन्म 28 अगस्त, 1910, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1964 से 2-4-1970।

स्थायी पता : आरोग्य नीलायम, सूघेटारपेट, नेल्लोर (आन्ध्र प्रदेश)।

नायडु, श्री पी० एस० राजगोपाल वी० एससी०, वी० एल०, काग्रेस (मद्रास, अब तमिलनाडु), श्री पी० शकन्या नायडु के आत्मज, जन्म 11 मार्च, 1914, विवाह श्रीमती जानकी से, 2 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954 और 3-4-1954 से 2-4-1960, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1956-57।

स्थायी पता . "प्रेम कुटीर" 11, इन्फेन्ट्री रोड, वेल्लोर (तमिलनाडु)।

नायर, श्री एम० एन० गोविन्दन . वी० ए०, कम्युनिस्ट पार्टी (केरल), श्री वी० आर० नारायण पिल्लै के आत्मज, जन्म . दिसम्बर, 1910, विवाह श्रीमती देवकी से, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1956 से 2-4-1962 और 3-4-1962 से 3-3-1967, सचिव, सी० पी० आई०, ट्रावन्कोर कोचीन राज्य, 1951—54, सचिव, सी०पी०आई० केन्द्रीय सचिवालय, दिवंगत। श्रद्धाञ्जलि—17-1-1985।

नायर, श्री के० पी० माधवन : वी० ए०, वी० एल०, काग्रेस (केरल), श्री के० आर० अच्युतन पिल्लै के आत्मज, जन्म . 20 नवम्बर, 1905, विवाह श्रीमती पवीजहम से, 2 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956 तथा 3-4-1956 से 2-4-1962, महासचिव, अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी, 1955—58।

स्थायी पता . एर्नाकुलम मिक्स बिल्डिंग, एर्नाकुलम (केरल)।

नायर, श्री जी० गोपीनाथन् : वी० ए०, आर० एस० पी० (केरल), श्री एन० गोविन्दा पिल्लै के आत्मज, जन्म 6 अक्टूबर, 1925, अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1968 से 2-4-1974, सगठन सचिव, आर० एस० पी०, केरल, 1950—53, सचिव, आर० एस० पी०, केरल राज्य, 1953—57 तथा 1964—68।

स्थायी पता . केर्यालम, किलीमानूर, त्रिवेन्द्रम (केरल)।

नायर, श्री पी० नारायणन . कम्युनिस्ट पार्टी (केरल), श्री के० वी० नारायणन नायर के आत्मज, जन्म अप्रैल, 1906, विवाह श्रीमती कारथ कुन्हीमालु अम्मा से, 4 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1956 से 2-4-1960, सचिव, केरल प्रदेश कांग्रेस समिति, 1939-40, दिवगत। श्रद्धाजलि—23-7-1973।

नायर, श्री सी० के० गोविन्दन वी० ए०, वी० एल०, कांग्रेस (केरल), श्री के० एम० अप्पा नायर के आत्मज, जन्म जुलाई, 1897, विवाह श्रीमती ए० लक्ष्मी कुट्टी अम्मा से, 2 पुत्र तथा 4 पुत्रिया, सदस्य, (1) मद्रास विधान सभा, 1937—39 तथा 1946—51 और (2) राज्य सभा, 3-4-1964 से 27-6-1964, सचिव, केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, 1933—39, अध्यक्ष, केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, 1951 तथा 1960—63, दिवगत। श्रद्धाजलि—7-9-1964।

\*नारायण, श्री आर० के० वी० ए०, डी० लिट्., लीड्स, दिल्ली, श्री वेंकटेश्वर ओर मैसूर विश्वविद्यालयों से मानद उपाधि, (नाम-निर्देशित), श्री आर० वी० कृष्णास्वामी अय्यर के आत्मज, जन्म 10 अक्टूबर, 1906, विवाह श्रीमती राजमल से, 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 12-5-1986 से अद्यपर्यन्त, 'पद्म-भूषण' से सम्मानित, अनेक उपन्यासों और लघु-कथाओं के लेखक।

स्थायी पता . 15, विवेकानन्द रोड, यादवगिरि, मैसूर (कर्णाटक)।

नारायण, श्री एम० डी० . वी० एससी०, एम० एस० (कोलोरेडो, संयुक्त राज्य अमरीका), निर्दलीय (मैसूर, वर्तमान कर्णाटक), श्री लोकसेवानिरत एम० एस० देवेगौडा के आत्मज, जन्म 9 अप्रैल, 1928, विवाहित, 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1966 से 2-4-1972।

स्थायी पता डाकघर कोप्पा, चिकमगलूर जिला (कर्णाटक)।

नारायण, श्री देवकीनन्दन स्नातक (तिलक विद्यापीठ, पुणे), कांग्रेस (महाराष्ट्र), श्री नारायण के आत्मज, जन्म अक्टूबर, 1899, विवाह श्रीमती द्रौपदी देवी से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954, 3-4-1954 से 2-4-1960 और 3-4-1960 से 2-4-1966, अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी, 1951—54, दिवगत। श्रद्धाजलि—29-4-1985।

नारायणप्पा, श्री कोडा कांग्रेस (हैदराबाद, वर्तमान आन्ध्र प्रदेश), श्री वेंकप्पा के आत्मज, विवाह श्रीमती कमलाचाई से, 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954, दिवगत। श्रद्धाजलि—17-8-1976।

नारायणप्पा, श्री सन्दा . एस० एस० एल० सी०, कांग्रेस (संगठन) (आन्ध्र प्रदेश), श्री सन्दा रामप्पा के आत्मज, जन्म 1 जुलाई, 1913, विवाह श्रीमती एस० लक्ष्मी देवी से, 4 पुत्रिया, सदस्य, (1) मद्रास राज्य विधान सभा, (2) आन्ध्र प्रदेश विधान सभा और (3) राज्य सभा, 3-4-1968 से 2-4-1974, दिवगत। श्रद्धाजलि—23-1-1980।

\*नारायणसामी, श्री वी० वी० ए०, वी० एल०; कांग्रेस (आई) (पाडिचेरी), श्री वेलु मुखू कुमारासामी के आत्मज, जन्म 30 मई, 1947, विवाह श्रीमती कालै सेल्वी से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 5-8-1985 से अद्यपर्यन्त, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1989-90।

स्थायी पता: न० 9, एल्लामन कोइल स्ट्रीट, पाडिचेरी।

निगम, श्री लाडली मोहन: वी० ए० तक अध्ययन, लोक दल (मध्य प्रदेश), श्री लक्ष्मण प्रसाद निगम के आत्मज, जन्म 21 मई, 1927, अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1978 से 9-4-1984, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1982-83, महासचिव/सगठन सचिव, एस० एस० पी० और समाजवादी पार्टी, 1964—71।

स्थायी पता: 13, महारानी रोड, इन्दौर (मध्य प्रदेश)।

निगम, श्रीमती सावित्री देवी: कांग्रेस (उत्तर प्रदेश); श्री आनदी प्रसाद निगम की आत्मजा, जन्म 17 मई, 1919, विवाह श्री वृजनन्दन प्रसाद निगम से, 2 पुत्रिया, सदस्या, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956 और 3-4-1956 से 28-2-1962, उपसभाध्यक्षा, राज्य सभा, 1957-58, कुछ पुस्तको की लेखिका, दिवंगत। श्रद्धाजलि—29-7-1985।

निज़ामुद्दीन, श्री सैयद: एम० ए० (अर्थशास्त्र), वी० एड०, एलएल० वी०, जनता पार्टी (जम्मू और कश्मीर), श्री सैयद गुलाम मुस्तफा के आत्मज, जन्म 28 अक्टूबर, 1931, विवाह श्रीमती आयशा से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) जम्मू और कश्मीर विधान सभा, 1962—67 और (2) राज्य सभा, 16-4-1974 से 15-4-1980, महासचिव, नेशनल कांग्रेस।

स्थायी पता: ग्राम तकिया बहाई, डाकखाना बोचू, कोकरनाग अनतनाग (जम्मू और कश्मीर)।

निरंजन सिंह, श्री: वी० ए०, पी० एस० पी० (मध्य प्रदेश), ठाकुर ऋद्धि सिंह के आत्मज, जन्म . 1906, विवाह श्रीमती दयावती शास्त्री से, 1 पुत्र तथा 5 पुत्रिया, सदस्य, मध्य प्रदेश विधान सभा, 1946—57, विपक्ष के नेता, मध्य प्रदेश विधान सभा, 1950-51, 1953—55 और 1956-57, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1958 से 2-4-1964 और 3-4-1964 से 17-10-1968, सचिव/अध्यक्ष, प्रजा समाजवादी पार्टी, मध्य प्रदेश, दिवंगत। श्रद्धाजलि—18-11-1968।

निहाल सिंह, श्री एम० एच० एस०: कांग्रेस (पंजाब), श्री महाराज हरि सिंह के आत्मज, जन्म 1892, विवाह श्रीमती सतवत कौर से, 2 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954 और 3-4-1954 से 2-4-1960, दिवंगत। श्रद्धाजलि—31-3-1969।

नुरुल हसन, प्रो० एम० एम० ए०, डी०फिल० (आक्सफोर्ड), फैलो, (1) रॉयल हिस्टोरिकल सोसाइटी और (2) रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, लंदन, कांग्रेस (उत्तर प्रदेश), श्री अब्दुल हसन के आत्मज, जन्म 26 दिसंबर, 1921, विवाह रामपुर की नवाबजादी खुशाल लकुवा बेगम से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1968 से 30-9-1971, 11-11-1971 से 2-4-1972 और 3-4-1972 से 2-4-1978, केन्द्रीय राज्य मंत्री / शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री, 1971 और 1972, सोवियत संघ में भारत के राजदूत, राज्यपाल, (1) पश्चिमी बंगाल और (2) उड़ीसा, इतिहास तथा शिक्षा सम्बन्धी पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता: 31-ए, चंदर बाग, अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)।

नेकी राम, श्री : कांग्रेस (हरियाणा), श्री भोवल राम के आत्मज, जन्म 1922, विवाह श्रीमती तोजन से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1960 से 2-4-1966 और 3-4-1966 से 2-4-1972।

स्थायी पता: ग्राम तथा डाकखाना परभूवाला, उत्काणा मंडी, जिला हिसार (हरियाणा)।

नेहरू, श्रीमती उमा: कांग्रेस (उत्तर प्रदेश), पंडित निरंजन नाथ कुंजु की आत्मजा, जन्म 8 मार्च, 1884, विवाह पंडित श्याम लाल नेहरू से, 1 पुत्री, सदस्य, (1) उत्तर प्रदेश विधान सभा, (2) लोक सभा, 1952—57 और 1957—62 और (3) राज्य सभा, 3-4-1962 से 28-8-1963, हिंदी में कुछ पुस्तकों की लेखिका, दिवंगत। श्रद्धांजलि—29-8-1963।

नैकर, श्री एम० ए० मनिक्कावेलू : वी० ए०, वी० एल०, कांग्रेस (मद्रास, वर्तमान तमिलनाडु), श्री एम० अलगप्पा के आत्मज, जन्म 14 दिसम्बर, 1896, विवाह श्रीमती कुप्पाम्मल से, 2 पुत्र, सदस्य, (1) मद्रास विधान परिषद, 1926—37, (2) मद्रास विधान सभा, 1952—62 और (3) राज्य सभा, 3-4-1962 से 15-4-1964।

स्थायी पता 1, क्रिसेन्ट पार्क स्ट्रीट, त्यागराजनगर, मद्रास (तमिलनाडु)।

नौशेर अली, सैयद वी० ए० (आनर्स), एलएल० वी०, निर्दलीय (कम्युनिस्ट ब्लाक) (प० बंगाल), सैयद ओमेद अली के आत्मज, जन्म अगस्त, 1891, विवाह श्रीमती लुफ्फिसा से, 4 पुत्र तथा 4 पुत्रियाँ, सदस्य, (1) बंगाल विधान परिषद, 1929—36 और (2) बंगाल विधान सभा, 1937—46, मंत्री, बंगाल सरकार, 1937-38, अध्यक्ष, बंगाल विधान सभा, 1943—46, सदस्य, (1) अंत कालीन पार्लियामेंट, 1950—52, (2) प० बंगाल विधान परिषद, 1957—62 और (3) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956 और 3-4-1962 से 2-4-1968, दिवंगत। श्रद्धांजलि—7-4-1972।

पड़ाज़री, सरदार रघवीर सिंह कांग्रेस (पंजाब), सरदार जावद सिंह के आत्मज, जन्म 26 अप्रैल, 1914, विवाह श्रीमती मनजीत कौर से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1954 से 2-4-1960, 3-4-1960 से 2-4-1966 और 3-4-1966 से 2-4-1972, महासचिव, 'पेप्सू'—प्रदेश कांग्रेस समिति, 1954-55।

स्थायी पता. वसाराके, अमृतसर (पंजाब)।

पंडा, श्री अक्षय वी० ए०, एलएल० वी०, कांग्रेस (आई) (उड़ीसा), श्री बशीधर पडा के आत्मज, जन्म 19 सितम्बर, 1937, विवाह श्रीमती शैल वाला पडा से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 2-7-1980 से 1-7-1986, महासचिव, उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी, 1968—70 और 1980।

स्थायी पता: कठगडा साही, कटक (उड़ीसा)।

पंडा, श्री कृष्ण चन्द्र: स्वतंत्र पार्टी (उड़ीसा), श्री सत्यानन्द पडा के आत्मज, जन्म 4 अगस्त, 1916, विवाह श्रीमती सरोजिनी देवी से, 4 पुत्र तथा 5 पुत्रियाँ, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1968 से 2-4-1974।

स्थायी पता. रुगुडीपाडा, बोलनगीर (उड़ीसा)।

पडा, श्री ब्रह्मानन्द कांग्रेस (उड़ीसा), श्री कृपासिन्धु पडा के आत्मज, जन्म 1 जनवरी, 1922, विवाह श्रीमती पार्वती से, सदस्य, राज्य सभा, 30-11-1967 से 2-4-1972 और 3-4-1972 से 2-4-1978, अध्यक्ष, याचिका समिति, राज्य सभा, 1976—78, लघु कथाओ, एकांकी नाटक और कविताओ के लेखक तथा कुछ पुस्तको का अनुवाद भी किया।

स्थायी पता गाधी नगर, डाकघर बहरामपुर, जिला गजम (उड़ीसा)।

पंत, श्री कृष्ण चन्द्र एम० एससी०, कांग्रेस (आई) (उत्तर प्रदेश), श्री गोविन्द बल्लभ पंत के आत्मज, जन्म 10 अगस्त, 1931, विवाह श्रीमती इला पंत से, 2 पुत्र, सदस्य, (1) लोक सभा, 1962—67, 1967—70 और 1971—77 और (2) राज्य सभा, 3-4-1978 से 2-4-1984, सभा के नेता, 1979-80, वित्त, इस्पात और भारी उद्योग, गृह, इलैक्ट्रॉनिकी, परमाणु ऊर्जा और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभागो में केन्द्रीय मंत्री, 1967—80, महासचिव, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति।

स्थायी पता 22, दक्षिणेश्वर, 10, हेली रोड, नई दिल्ली।

पंत, पं० गोविन्द बल्लभ. वी० ए०, एलएल० वी०, कांग्रेस (उत्तर प्रदेश), पं० मनोरथ पंत के आत्मज, जन्म 10 सितम्बर, 1887, विवाहित, 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) उत्तर प्रदेश विधान परिषद्, 1923 और (2) उत्तर प्रदेश विधान सभा, प्रधान मंत्री, उत्तर प्रदेश राज्य, 1937—39 और 1946, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश, अप्रैल 1946 से दिसम्बर, 1954, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कांग्रेस समिति, 1927, सदस्य, (1) केन्द्रीय विधान सभा, 1934, (2) सविधान निर्मात्री सभा और (3) राज्य सभा, 2-3-1955 से 2-4-1958 और 3-4-1958 में 7-3-1961, केन्द्रीय गृह मंत्री, अध्यक्ष, राज्य सभा की विशेषाधिकार समिति, 1957-58, 'भारत-रत्न' के पुरस्कार से विभूषित, 1957, दिवगत। श्रद्धाजलि—7-3-1961।

\*पंवार, श्री भंवर लाल: वी० ए०, एलएल० वी०, कांग्रेस (आई) (राजस्थान), श्री लालचन्दजी पवार के आत्मज, जन्म 3 अगस्त, 1933, विवाह श्रीमती राधा से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 2-7-1985 से 4-7-1986 और 5-7-1986 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता: कटला बाजार, जोधपुर (राजस्थान)।

\*पचौरी, श्री सुरेश वी० ई० (मेकेनिकल), कम्प्यूटर पाठ्यक्रम (बुनियादी कार्यक्रम तैयार करना), कांग्रेस (आई) (मध्य प्रदेश), श्री कालिका प्रसाद के आत्मज, जन्म 1 जुलाई, 1952, अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1984 से 9-4-1990 और 10-4-1990 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता काटेज न० 10, पुराने सचिवालय के सामने, भोपाल (मध्य प्रदेश)।

पटनायक, श्री दिवाकर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (उड़ीसा), श्री मदन मोहन दिवान बक्शी पटनायक के आत्मज, जन्म 6 अक्टूबर, 1899, अविवाहित, सदस्य, (1) उड़ीसा विधान सभा, 1936—42 और 1951—56 और (2) राज्य सभा, 3-4-1958 से 2-4-1964, उपाध्यक्ष, फार्वर्ड ब्लाक, दिवगत। श्रद्धाजलि—8-3-1976।

पटनायक, श्री बीजू वैमानिकीय इंजीनियर, जनता पार्टी (उड़ीसा), श्री लक्ष्मीनारायण पटनायक के आत्मज, जन्म 5 मार्च, 1916, विवाह श्रीमती ज्ञान पटनायक से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, 25 वर्ष तक उड़ीसा विधान सभा, मुख्य मंत्री, उड़ीसा, 1961—63, सदस्य, राज्य सभा, 13-5-1971 से 6-10-1971।

स्थायी पता महानदी रोड, कटक (उड़ीसा)।

\*पटेल, श्री छोट्टू भाई वी० ए०, अध्यापन में डिप्लोमा, एन० डी० एस्० प्रमाणपत्र, कांग्रेस (आई) (गुजरात), श्री सुख भाई वल्लभभाई पटेल के आत्मज, जन्म 8 मार्च, 1939, विवाह श्रीमती कान्ताबेन सी० पटेल से, 2 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 14-8-1987 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता गाव बोदाली, तालुक नवमारी, जिला वलसाड (गुजरात)।

पटेल, श्री त्रिभुवनदास किशिभाई कांग्रेस (ओ) (गुजरात), श्री किशिभाई पटेल के आत्मज, जन्म 22 अक्टूबर, 1903, विवाह श्रीमती मणि लक्ष्मी से, 6 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 21-7-1967 से 2-4-1968 और 3-4-1968 से 2-4-1974, सचिव/अध्यक्ष, गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति, 1959—67, (1) सामुदायिक विकास के लिए रमण मेगसेसे पुरस्कार से सम्मानित, 1963 और (2) पद्म भूषण से सम्मानित, 1964।

स्थायी पता मकान न० 721, वार्ड न० 2, 'आनन्द' जिला कैरा (गुजरात)।

पटेल, श्री दहियाभाई वी० स्नातक, स्वतंत्र पार्टी (गुजरात), सरदार वल्लभभाई पटेल के आत्मज, जन्म 28 नवम्बर, 1905, विवाह श्रीमती भानुमती से, 2 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1958 से 2-4-1964, 3-4-1964 से 2-4-1970 और 3-4-1970 से 11-8-1973, उपाध्यक्ष, स्वतंत्र पार्टी, अनेक पुस्तकों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—13-8-1973।

\*वर्तमान सदस्य।

पटेल, श्री देवदत्त कुमार किक्काभाई. एम० ए०, बी० एड०, कोविद, जनसघ (गुजरात), श्री किक्काभाई रणछोड जी पटेल के आत्मज, जन्म 14 फरवरी, 1938, विवाह श्रीमती विमला से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1970 से 2-4-1976, उपाध्यक्ष/अध्यक्ष, गुजरात राज्य जनसघ, 1970—72।

स्थायी पता: स्टेशन रोड ब्यारा, (टी० वी० रेलवे) जिला—सूरत (गुजरात)।

पटेल, श्री मगनभाई शंकरभाई काग्रेस (गुजरात), श्री शंकरभाई पटेल के आत्मज, जन्म 11 मार्च, 1892, विवाह श्रीमती सूरजवेन से, 2 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, बडौदा विधान सभा, 1936—42 और 1946—49, मंत्री, बडौदा राज्य, सदस्य, (1) वम्बई राज्य विधान सभा, 1949—56 और (2) राज्य सभा, 16-8-1960 से 2-4-1962 और 3-4-1962 से 16-4-1967, अध्यक्ष, गुजरात प्रदेश काग्रेस समिति, 1955—58, दिवगत। श्रद्धाजलि—24-5-1967।

पटेल, श्री मनुभाई मोतीलाल: एम० ए०, जनता पार्टी (गुजरात), श्री मोतीलाल के आत्मज, जन्म 11 अक्टूबर, 1920, विवाह श्रीमती प्रमोदा से, 1 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, गुजरात विधान सभा, 1962—67, उपमन्त्री, गुजरात सरकार, 1962, सदस्य, (1) लोक सभा, 1967—70 और (2) राज्य सभा, 10-4-1978 से 9-4-1984, महामन्त्री, अखिल भारतीय काग्रेस समिति (ओ), 1971 से 1977।

स्थायी पता: लाजपत भवन, हरपी रोड, बडौदा (गुजरात)।

पटेल, कुमारी मणिवेन वल्लभभाई: स्नातक, गुजरात विद्यापीठ, काग्रेस (गुजरात), सरदार वल्लभभाई पटेल की आत्मजा, जन्म अप्रैल, 1903, सदस्य, (1) लोक सभा, 1952—57 और 1957—62 और (2) राज्य सभा, 3-4-1964 से 2-4-1970, मंत्री, गुजरात प्रदेश काग्रेस समिति, 1953—56, उपाध्यक्ष, गुजरात प्रदेश काग्रेस समिति, 1957—64, दिवगत। श्रद्धाजलि—26-3-1990।

पटेल, श्री राम पूजन: एम० ए० (हिन्दी), काग्रेस (आई) (उत्तर प्रदेश); श्री राम किशोर पटेल के आत्मज, जन्म 26 जुलाई, 1940, विवाह श्रीमती कमलादेवी से, 3 पुत्र, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1969—77, उपमन्त्री, उत्तर प्रदेश सरकार, 1971—73, सदस्य, राज्य सभा, 16-9-1981 से 29-12-1984।

स्थायी पता: 35-ए, फाफामाऊ बाजार, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)।

\*पटेल, श्री विठ्ठलभाई एम०: इटर्मिडियट, काग्रेस (आई) (गुजरात), श्री मोतीभाई पटेल के आत्मज, जन्म 4 मई, 1927, विवाह श्रीमती शर्मिष्ठावेन से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1982 से 2-4-1988 और 3-4-1988 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता: 4 / 20, पत्रकार कालोनी, नारगपुर, अहमदाबाद (गुजरात)।

पटेल, डा० शान्ति जी० एम० बी० बी० एस०, जनता पार्टी (महाराष्ट्र), डा० गिरधर लाल जे० पटेल के आत्मज, जन्म 8 अगस्त, 1922, विवाह श्रीमती लीला एस० पटेल से, 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 5-7-1980 से 4-7-1986, महासचिव/अध्यक्ष, हिन्द मजदूर सभा, 1970—72।

स्थायी पता स्नेह सदन, बी-11, शीतलादेवी मंदिर मार्ग, माहिम, बम्बई (महाराष्ट्र)।

पटेल, श्री सुन्दरमणि. स्वतंत्र पार्टी (उड़ीसा), श्री राम कृष्ण पटेल के आत्मज, जन्म 6 सितम्बर, 1923, विवाह श्रीमती छायावती पटेल से, 4 पुत्र तथा 4 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1962 से 2-4-1968 और 3-4-1968 से 2-4-1974, महामंत्री, (1) स्वतंत्र पार्टी, उड़ीसा और (2) गणतंत्र परिषद, उड़ीसा, सयुक्त सचिव, स्वतंत्र पार्टी।

स्थायी पता. गाव और डाकघर भेदावहल, जिला सुन्दरगढ (उड़ीसा)।

पटेल, श्री हरिहर० बी० ए०, बी० एल०, गणतंत्र परिषद (उड़ीसा), श्री दशरथी पटेल के आत्मज, जन्म 20 सितम्बर, 1924, विवाह श्रीमती खिरोदा कुमारी पटेल से, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1958 से 28-6-1961, महामंत्री, गणतंत्र परिषद, 1954—57, 'गुजनन' नामक पुस्तक के लेखक।

स्थायी पता. डाकघर सुन्दरगढ, जिला सुन्दरगढ (उड़ीसा)।

पट्टनायक, श्री भवानी चरण० मैट्रिक तक अध्ययन किया, जनता पार्टी (उड़ीसा), श्री नारायण पट्टनायक के आत्मज, जन्म 11 मई 1922, विवाह श्रीमती वसन्त मजरी पट्टनायक से, 2 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 29-8-1961 से 2-4-1966, 3-4-1966 से 2-4-1972 और 3-4-1978 से 2-4-1984, मंत्री, उत्कल प्रदेश कांग्रेस पार्टी, 1957—67।

स्थायी पता. 34, अशोक नगर, भुवनेश्वर (उड़ीसा)।

पट्टनायक, श्री सुनील कुमार विधि स्नातक, कांग्रेस (आई) (उड़ीसा), श्री हरे कृष्ण पट्टनायक के आत्मज, जन्म 25 मई, 1924, विवाह श्रीमती शैल बाला पट्टनायक से, 3 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1984 से 2-4-1990।

स्थायी पता डाकघर रायरगपुर, जिला मयूरभज (उड़ीसा)।

पट्टाभिरमण, श्री टी० एस एम० ए०, बी० एल०, कांग्रेस (मद्रास, अब तमिलनाडु), श्री आर० एस० सेतुगम अय्यर के आत्मज, जन्म 25 नवम्बर, 1918, विवाह श्रीमती के० एस० मंगलम् से, 3 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, (1) मद्रास विधान सभा, 1946—52 और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956, 20-4-1957 से 2-4-1960 और 3-4-1960 से 2-4-1966, दिवगत। श्रद्धाजलि—20-11-1967।



\*पद्मनाभम्, श्री मेन्तै: एम० ए०, बी० एल०, तेलुगु देशम् (आंध्र प्रदेश), श्री अप्पन्ना के आत्मज, जन्म 2 अप्रैल, 1934, विवाह श्रीमती उदयानी भास्करम से, 2 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 13-9-1989 से अद्यपर्यन्त, सयुक्त सचिव, समाजवादी दल, आंध्र प्रदेश, 1957-58, महासचिव, जनता पार्टी, 1977—80।

स्थायी पता: वेक कालोनी, भीमवरम्, पश्चिमी गोदावरी जिला (आंध्र प्रदेश)।

पनिकर, श्री के० वासुदेव. बी० ए०, बी० एल०, काग्रेस (आई) (उड़ीसा), श्री बी० कृष्ण पनिकर के आत्मज, जन्म 1943, विवाह श्रीमती शाता कुमारी से, 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1984 से 3-5-1988; सयुक्त सचिव, अखिल भारतीय काग्रेस समिति (आई), 1980—88, महासचिव, अखिल भारतीय काग्रेस समिति (आई), फरवरी, 1988 से मई, 1988, दिवगत। श्रद्धाजलि—3-5-1988।

पनिकर, सरदार के० एम०: (नाम-निर्देशित), श्री परमेश्वरन पोती के आत्मज, जन्म 3 जून, 1895, विवाह श्रीमती गौरी अम्मा से, 1 पुत्र तथा 4 पुत्रिया, मंत्री, पूर्व काल में पटियाला राज्य, 1933—38, मंत्री, पूर्व काल में बीकानेर राज्य, 1938—44, मुख्य मंत्री, बीकानेर राज्य, 1944—48, राजदूत, (1) चीन, 1948—52, (2) मिस्र तथा अन्य अरब देश, 1952—54 और (3) फ्रांस, 1955—59, सदस्य, राज्य सभा, 25-8-1959 से 2-4-1960 और 3-4-1960 से 22-5-1961, अंग्रेजी और मलयालम में अनेक पुस्तकों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—11-12-1963।

परमानन्द, डा० (श्रीमती) सीता: बी० लिट्, डी० फिल० (आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय), वार-एंट-लॉ, काग्रेस (मध्य प्रदेश), श्री एन० एल० अजगावकर की आत्मजा, विवाह श्री परमानन्द से, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1958 और 3-4-1958 से 2-4-1964, दिवगत। श्रद्धाजलि—23-1-1980।

\*परमार, श्री राजूभाई ए०: बी० ए०, काग्रेस (आई) (गुजरात), श्री अर्जुनभाई परमार के आत्मज, जन्म 27 जून, 1950, विवाह श्रीमती नीला से, 2 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1988 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता. एफ-4, संस्कृति अपार्टमेंट, रचना सोसाइटी के निकट, सेटेलाइट रोड, जोधपुर, अहमदाबाद (गुजरात)।

परमेश्वरन, श्री बी०: बी० ए०, काग्रेस (मद्रास अथवा तमिलनाडु), श्री एम० वाला सुब्रह्मण्यम् के आत्मज, जन्म 20 जनवरी, 1913, विवाह श्रीमती शारदा से, 1 पुत्र, सदस्य, मद्रास विधान सभा, 1946—52 और 1952 में पुनर्निर्वाचित, मद्रास में ससदीय सचिव, 1946-47, मद्रास सरकार में मंत्री, 1949—52 और 1954—57, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1958 से 12-3-1962, सचिव, तमिलनाडु प्रदेश काग्रेस समिति, 1952—54, उपाध्यक्ष, तमिलनाडु प्रदेश काग्रेस समिति, 1955-56।

स्थायी पता: न० 4—सैंकेड क्र्रीमेंट पार्क रोड, गाधीनगर, आडयार, मद्रास (तमिलनाडु)।

\*वर्तमान सदस्य।

**परीख, प्रो० रामलाल :** एम० ए० (भारतीय इतिहास और संस्कृति), जनता पार्टी (गुजरात), श्री दह्या लाल आर० परीख के आत्मज, जन्म 18 अप्रैल, 1927, विवाह श्रीमती पद्मावेन आर० परीख से, 5 पुत्रियाँ, सदस्य, राज्य सभा, 14-8-1975 से 13-8-1981, सचिव, गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी, 1970-71, कुलपति, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद, 1971—75, अनेक पुस्तकों के लेखक।

**स्थायी पता :** 6/1, लोटस सोसायटी, आश्रम रोड, अहमदाबाद (गुजरात)।

**परांजपे, श्रीमती शकुन्तला :** बी० एससी०, एम० ए० (कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय), (नाम-निर्देशित), श्री रघुनाथ पुरुषोत्तम परांजपे की आत्मजा, जन्म 17 जनवरी, 1906, विवाह श्री यूसुफ स्लेपजौफ से, 1 पुत्री, सदस्य, (1) महाराष्ट्र विधान परिषद्, 1958—64 और (2) राज्य सभा, 3-4-1964 से 2-4-1970, नाटकों, उपन्यासों, कहानियों आदि की लेखिका।

**स्थायी पता :** परांजपे रोड, पूना (महाराष्ट्र)।

**\*पलनियाडी, श्री एम० :** एस० एस० एल० सी०, कांग्रेस (आई) (तमिलनाडु), श्री मरुथैया के आत्मज, जन्म 10 दिसम्बर, 1918, विवाह श्रीमती एम० पुनियावल्ली से, 3 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1) मद्रास विधान सभा, 1952—57, (2) लोक सभा, 1957—62 और (3) राज्य सभा, 30-6-1986 से अद्यपर्यन्त, अध्यक्ष, तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस कमेटी, 1983—88।

**स्थायी पता :** सी-159, 9वा चौणहा, थिल्लैई नगर, तिरुचिरपल्ली (तमिलनाडु)।

**पवार, श्री धैर्यशीलराव यशवन्तराव :** कांग्रेस (महाराष्ट्र), श्री यशवन्तराव प्रतापराव पवार के आत्मज, जन्म 1922, विवाह श्रीमती उदयनी देवी पवार से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956, 3-4-1956 से 2-4-1962, 3-4-1962 से 2-4-1968 और 3-4-1972 से 2-4-1978।

**स्थायी पता :** मकान नं० 1349, पुणना आगय रोड, सुरगना हाऊस, त्रियम्बक रोड, नासिक (महाराष्ट्र)।

**पहाडिया, श्री जगन्नाथ प्रसाद :** एम० ए०, एलएल० बी०, कांग्रेस (राजस्थान), श्री नथीलाल जी के आत्मज, जन्म 15 जनवरी, 1932, विवाह श्रीमती शान्ति पहाडिया से, 2 पुत्र और 5 पुत्रियाँ, सदस्य, (1) लोक सभा, 1957—62 और (2) राज्य सभा, 2-3-1965 से 21-3-1966 और 22-3-1966 से 23-7-1967।

**स्थायी पता :** गाव और डाकघर भुसावर, भरतपुर (राजस्थान)।

**पहाडिया, श्रीमती शान्ति :** अडरमैट्रिक, कांग्रेस (आई) (राजस्थान), श्री सोना रामजी की आत्मजा, जन्म 1 अगस्त, 1936, विवाह श्री जगन्नाथ पहाडिया से, 2 पुत्र और 5 पुत्रियाँ, सदस्य, (1) राजस्थान विधान सभा, मई से अक्टूबर, 1980 और (2) राज्य सभा, 10-4-84 से 9-4-90।

**स्थायी पता :** गाव और डाकघर भुसावर, जिला भरतपुर (राजस्थान)।

पाडे, श्री तारकेश्वर : स्नातक, कांग्रेस (उत्तर प्रदेश), पंडित अनिरुद्ध पाडे के आत्मज, जन्म 14 अगस्त, 1912, विवाह श्रीमती सोहन फूला देवी से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1958, 3-4-1958 से 2-4-1964, 3-4-1964 से 15-12-1964 और 30-7-1966 से 2-4-1970, सचिव/महासचिव, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, 1952—57, दिवगत। श्रद्धांजलि—27-7-1988।

\*पांडे, श्री विशम्भर नाथ : स्नातकोत्तर अनुसंधान (पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च), (नाम-निर्देशित) कांग्रेस (आई), श्री रामाधार पाडे के आत्मज, जन्म 23 दिसम्बर, 1906, विवाह श्रीमती शांता पाडे से, 1 पुत्री, सदस्य, (1) उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1952-53, (2) उत्तर प्रदेश विधान परिषद, 1972—74 और (3) राज्य सभा, 3-4-1976 से 2-4-1982, 3-4-1982 से 29-6-1983 और 25-11-1988 से अद्यपर्यन्त, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (आई), 1981, उड़ीसा के राज्यपाल, अगस्त, 1983 से नवम्बर, 1988, पद्मश्री से सम्मानित, 1976, इतिहास, संस्कृति और कविता पर अनेक पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता : 142/144, दक्षिणी मलाका, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)।

पांडे, श्री सी० डी० : एम० ए०, डी० लिट्० (पेरिस), कांग्रेस (ओ) (उत्तर प्रदेश), श्री जय दत्त पाडे के आत्मज, जन्म 24 अगस्त, 1905, विवाह श्रीमती शकुन्तला से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) अनन्तम ससद, 1950—52, (2) लोक सभा, 1952—62 और (3) राज्य सभा, 3-4-1962 से 2-4-1968 और 3-4-1968 से 2-4-1974; 'ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री' नामक पुस्तक के लेखक, दिवगत। श्रद्धांजलि—22-2-1988।

पाटिल, श्री उधवराव साहेबराव : बी० ए०, एलएल० बी०, पीजेड्स एण्ड वर्कर्स पार्टी (महाराष्ट्र), श्री साहेबराव पाटिल के आत्मज, जन्म 20 जनवरी, 1920, विवाह श्रीमती शारदाबाई से, 1 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) हैदराबाद विधान सभा, 1952—60 और (2) बम्बई विधान सभा, 1957—60, विपक्ष के नेता, बम्बई विधान सभा, 1958-59, सदस्य, (1) महाराष्ट्र विधान सभा, 1960—62 और (2) राज्य सभा, 3-4-1964 से 2-3-1967, मंत्री, पीजेड्स एण्ड वर्कर्स पार्टी, 1954, दिवगत। श्रद्धांजलि—23-7-1984।

पाटिल, श्री गुलाबराव रघुनाथराव : बी० ए०, एलएल० बी०, कांग्रेस (महाराष्ट्र), श्री रघुनाथराव अर्जुनराव पाटिल के आत्मज, जन्म 16 सितम्बर 1921, विवाह श्रीमती प्रमिला देवी से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1966 से 2-4-1972 और 3-4-1972 से 2-4-1978, दिवगत। श्रद्धांजलि—21-2-1989।

पाटिल, श्री दिनकरराव गोविन्दराव : एम० ए०, एलएल० बी०, कांग्रेस (आई) (महाराष्ट्र), श्री गोविन्दराव रामचन्द्र पाटिल के आत्मज, जन्म 2 फरवरी, 1930, विवाह श्रीमती वसुन्धरा से, 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1982 से 2-4-1988।

स्थायी पता: 28, वसन्त कालोनी, जिला सांगली (महाराष्ट्र)।

पाटिल, श्री देवरावः मैट्रिक, कांग्रेस (आई) (महाराष्ट्र), श्री शिवराम बापूजी पाटिल के आत्मज, जन्म 1 जुलाई, 1915, विवाह श्रीमती बाछला से, 5 पुत्र, सदस्य, (1) मध्य प्रदेश विधान सभा, 1951—55, (2) बम्बई विधान सभा, 1957, (3) महाराष्ट्र विधान सभा, 1957—62, (4) लोक सभा, 1962—67 और 1967—70 और (5) राज्य सभा, 3-4-1974 से 22-10-1978, दिवगत। श्रद्धाजलि—20-11-1978।

पाटिल, श्री पन्डारीनाथ सीतारामजी . कांग्रेस (महाराष्ट्र), श्री सीतारामजी पाटिल के आत्मज, जन्म 1903, विवाह श्रीमती सरस्वतीबाई से, सदस्य, (1) सी० पी० और वेरर विधान सभा, 1937—52 और (2) राज्य सभा, 3-4-1962 से 2-4-1968 और 3-4-1968 से 2-4-1974, 'लाइफ ऑफ महात्मा जोतिबा फुले' नामक पुस्तक के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—20-11-1978।

पाटिल, श्री विनायकराव पाण्डुरंगः (महाराष्ट्र), सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1960 से 1-12-1962, [अन्य विवरण उपलब्ध नहीं हैं।] दिवगत। श्रद्धाजलि—28-12-1968।

\*पाटिल, श्री विश्वासराव रामराव वी० ए०, एलएल० वी०, जनता दल (एस) (महाराष्ट्र), श्री रामराव तात्यासाहेब पाटिल के आत्मज, जन्म 8 जुलाई, 1934, विवाह श्रीमती प्रमिला विश्वासराव पाटिल से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1988 से अद्यपर्यंत, उपाध्यक्ष, जनता दल, महाराष्ट्र, 1989-90।

स्थायी पता गाव व डाकघर येदमचिन्द्र, तालुक वलावा, जिला सागली (महाराष्ट्र)।

पाटिल, श्री चीरेन्द्र वी० ए०, एलएल० वी०, कांग्रेस (ओ) (मैसूर अब कर्णाटक), श्री वासप्पा पाटिल के आत्मज, जन्म 28 फरवरी, 1924, विवाह श्रीमती शारदा पाटिल से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) हैदराबाद विधान सभा, 1952—56 और (2) मैसूर विधान सभा, 1956—71, मैसूर सरकार के उपमन्त्री, 1957—68, मुख्य मंत्री, मैसूर, 1968—71, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1972 से 9-4-1978।

स्थायी पता : 381, पैलेस अपर आर्चेड्स, सदाशिव नगर, बंगलौर (कर्णाटक)।

पाटिल, श्री सोनूसिंह धनसिंह : वी० ए०, एलएल० वी०, कांग्रेस (महाराष्ट्र), श्री धनसिंह रायसिंह पाटिल के आत्मज, जन्म 6 फरवरी, 1912, विवाह श्रीमती भीमकुवरा से, 3 पुत्र और 5 पुत्रिया, सदस्य, (1) बम्बई विधान परिषद, 1946—57 और (2) राज्य सभा, 22-4-1957 से 2-4-1958 और 3-4-1958 से 2-4-1964।

स्थायी पता . रचना, चालीसगाव, जिला जलगाव (महाराष्ट्र)।

\*वर्तमान सदस्य।

**पाटिल पुट्टप्पा, श्री :** बी० ए०, एलएल० बी०, एम० एससी० (पत्रकारिता) कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, कांग्रेस (मैसूर अथ कर्णाटक), श्री सिद्धलिंगप्पा के आत्मज जन्म 13 जनवरी, 1922, विवाह श्रीमती इन्दुमती से, 2 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1962 से 2-4-1968 और 3-4-1968 से 2-4-1974, कुछ पुस्तकों के लेखक।

**स्थायी पता :** देशपाण्डे नगर, हुबली, जिला धारवाड, मैसूर (कर्णाटक)।

1

**पाटील, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह :** एम० ए०, एलएल० बी०, कांग्रेस (आई) (महाराष्ट्र), श्री नारायणराव की आत्मजा, जन्म 19 दिसम्बर, 1934, विवाह श्री देवीसिंह रामसिंह शेखावत से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, महाराष्ट्र विधान सभा, 1962—85, महाराष्ट्र सरकार में उपमन्त्री/मन्त्री, 1967—78 और 1982—85, विपक्ष की नेता, महाराष्ट्र विधान सभा, जुलाई, 1979 से फरवरी, 1980, सदस्य, राज्य सभा, 5-7-1985 से 2-4-1990, उपसभापति, राज्य सभा, 18-11-1986 से 5-11-1988, अध्यक्ष, विशेषाधिकार सबधी समिति, राज्य सभा, 1986—88, अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी, 1988—90।

**स्थायी पता :** 84, राजुल-बी० अपार्टमेन्ट्स, 9, हार्कनीस रोड, मालाबार हिल, बम्बई (महाराष्ट्र)।

**\*पाटील, श्रीमती सूर्यकान्ता . बी० ए० ;** कांग्रेस (आई) (महाराष्ट्र), श्री जयवन्तराव पाटील की आत्मजा, जन्म 15 अगस्त, 1948, विवाह श्री आर० बी० मास्के से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, महाराष्ट्र विधान सभा, 1980—85, अध्यक्ष, अधीनस्थ विधान सबधी समिति, महाराष्ट्र विधान सभा, 1981-82, सदस्य, राज्य सभा, 3-7-1986 से अद्यपर्यन्त।

**स्थायी पता :** "प्रियदर्शिनी" कैलाश नगर, जिला नान्देड (महाराष्ट्र)।

**पाठक, श्री आनन्द :** भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) (पश्चिमी बंगाल), श्री कमलकान्त पाठक के आत्मज, जन्म 15 जनवरी, 1931, विवाह श्रीमती सौमती रैनी से, 2 पुत्र, सदस्य, (1) पश्चिमी बंगाल विधान सभा, 1971 और (2) राज्य सभा, 13-7-1977 से 2-4-1978 और 3-4-1978 से 9-1-1980।

**स्थायी पता :** वार्ड न० 2, मुडाटाटा बस्ती, डाकघर सोनदा, जिला दार्जिलिंग (पश्चिमी बंगाल)।

**पाठक, श्री गोपाल स्वरूप :** एम० ए०, एलएल० बी०, कांग्रेस (उत्तर प्रदेश), पंडित कृष्ण स्वरूप पाठक के आत्मज, जन्म 26 फरवरी, 1896, विवाह श्रीमती प्रकाशवती से, 3 पुत्र और 3 पुत्रिया, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, 1945-46, विधि मन्त्री, भारत सरकार, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1960 से 2-4-1966 और 3-4-1966 से 13-5-1967, मैसूर के राज्यपाल, 13 मई, 1967 से 31 अगस्त, 1969 तक, भारत के उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के पदेन सभापति, 31-8-1969 से 30-8-1974, दिवंगत। श्रद्धाजलि—4-10-1982।

\*वर्तमान सदस्य।

पाण्डेय, श्री नरमिह नारायण. वी० काम०, काग्रेस (आई) (उत्तर प्रदेश), श्री रामाधार पाण्डेय के आत्मज, जन्म 9 फरवरी, 1929, विवाह श्रीमती प्रेमावती पाण्डेय से, 1 पुत्र और 4 पुत्रिया, सदस्य, (1) उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1962—67, (2) लोक सभा, 1971—77 और (3) राज्य सभा, 30-6-1980 से 2-4-1982।

स्थायी पता विंदवासनी नगर, बैंक रोड गोरखपुर शहर (उत्तर प्रदेश)।

\*पाण्डेय, श्रीमती मनोरमा : एम० ए०, एलएल वी०, काग्रेस (आई) (बिहार), पंडित रमा कान्त पाण्डेय की आत्मजा, जन्म 23 जुलाई, 1932, विवाह श्री जे० एन० पाण्डेय से, 3 पुत्र, सदस्य, बिहार विधान सभा, 1957—77, ससदीय सचिव और मंत्री, बिहार सरकार, 1961-62 और 1972—74, सदस्य, राज्य सभा, 7-7-1980 से 6-7-1986 और 7-7-1986 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता . नेहरू नगर, डाकघर पाटलीपुत्र, पटना (बिहार)।

\*पाण्डेय, डा० रत्नाकर. एम० ए०, पीएच० डी०, डी० लिट्०, काग्रेस (आई) (उत्तर प्रदेश), पंडित हरिहर पाण्डेय के आत्मज, विवाह श्रीमती कुसुम पाण्डेय से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 5-7-1986 से अद्यपर्यन्त, अनेक पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता. के-64/44, गोला दीनानाथ, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)।

पाण्डेय, श्री सुधाकर : एम० कॉम०, साहित्य रत्न, विद्या वाचस्पति (मानद), साहित्य वारिधि, काग्रेस (आई) (उत्तर प्रदेश), प० हरिहर पाण्डेय के आत्मज, जन्म 1 जुलाई, 1927, विवाह, श्रीमती शिव देवी पाण्डेय से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) लोक सभा, 1971—77 और (2) राज्य सभा, 5-7-1980 से 4-7-1986, वाणिज्य और हिन्दी साहित्य पर अनेक पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता . के-64/44, गोला दीनानाथ, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)।

पाणिग्रही, श्री स्वप्नानन्द: वी० ए०, वी० एल०, काग्रेस (उड़ीसा), श्री अब्युतनन्द पाणिग्रही के आत्मज, जन्म 3 नवम्बर, 1923, विवाह श्रीमती हिरणमयी देवी से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1954 से 2-4-1960।

स्थायी पता डाकखाना, बोलनगीर, जिला बोलनगीर (उड़ीसा)।

पात्र, श्री नारायण. काग्रेस (उड़ीसा), श्री दैत्यारी पात्र के आत्मज, जन्म 15 मार्च, 1912, विवाह श्रीमती सीता देवी से, 4 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) उड़ीसा विधान सभा, 1946—51 और (2) राज्य सभा, 3-4-1964 से 2-4-1970।

स्थायी पता: डाकघर गुण्डी, जिला गजम (उड़ीसा)।

\*वर्तमान सदस्य।

पारिपेड्डी, श्री व्हेजवाड़ा: वी० एससी०, निर्दलीय (आंध्र प्रदेश), श्री रामचन्द्र रेड्डी के आत्मज, जन्म 5 जनवरी, 1927, विवाह श्रीमती प्रमिला से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1) आंध्र प्रदेश विधान परिषद्, 1958—62, (2) आंध्र प्रदेश विधान सभा, 1967—72 और (3) राज्य सभा, 10-4-1972 से 9-4-1978।

स्थायी पता: वूची रेड्डी, पालेम, जिला नेल्लूर (आंध्र प्रदेश)।

पाराशर, श्री विनयकुमार रामलाल: मैट्रिक, कांग्रेस (महाराष्ट्र), श्री रामलाल पाराशर के आत्मज, जन्म 14 फरवरी, 1914, विवाह श्रीमती यशोदादेवी शास्त्री से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) बम्बई और महाराष्ट्र विधान परिषद्, 1958—72 और (2) राज्य सभा, 3-4-1972 से 2-4-1978।

स्थायी पता : मकान न० 316, वार्ड न० 42, अकोला, जिला अकोला (महाराष्ट्र)।

पारीख, श्री चंदूलाल पीताम्बरदास: वी० ए०, एलएल० वी०, कांग्रेस (बम्बई, अब महाराष्ट्र), श्री पीताम्बरदास नन्दलाल पारीख के आत्मज, जन्म 22 जनवरी, 1894, विवाह श्रीमती इछावेन से, 3 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1) बम्बई विधान सभा, 1946—51 और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954 और 3-4-1954 से 2-4-1958, कुछ पुस्तको के लेखक, दिवगत, 30-1-1980।

पार्थसारथी, श्री आर० टी०: एम० ए०, वी० एल०, कांग्रेस (ओ) (मद्रास, अब तमिलनाडु); श्री आर० वी० वी० टाटाचारियर के आत्मज, जन्म 17 फरवरी, 1921, विवाह श्रीमती प्रेमा पार्थसारथी से, 3 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य राज्य सभा, 3-4-1966 से 2-4-1972, कुछ पुस्तको के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—20-2-1986।

पार्थसारथी, प्रो० (श्रीमती) जी०. एम० ए०, एल० टी० (मद्रास), एम० ए०, वी० लिट्० (आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय); कांग्रेस (मद्रास, अब तमिलनाडु), श्री खोडादद मुगासेठ की आत्मजा, जन्म 2 जुलाई, 1911; विवाह श्री जी० पार्थसारथी से, 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1960 से 2-4-1966, दिवगत। श्रद्धाजलि—7-11-1966।

पार्वती कृष्णन, श्रीमती: वी० ए० (आनर्स) (आक्सफोर्ड), साम्यवादी दल (मद्रास, अब तमिलनाडु), डा० पी० सुब्बारायन की आत्मजा, जन्म 15 मार्च, 1919, विवाह श्री एन० के० कृष्णन से, 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1954 से 12-3-1957।

स्थायी पता: "लॉकस्ते", टी० वी० के० स्वामी रोड, आर० एस० पुरम, कोयम्बटूर (तमिलनाडु)।

पॉल, श्री माखन एम० ए०, आर० एस० पी० (पश्चिमी बंगाल); श्री शशि कुमार पॉल के आत्मज, जन्म अक्टूबर, 1913, अविवाहित, सदस्य, (1) पश्चिमी बंगाल विधान परिषद् और (2) राज्य सभा, 10-7-1981 से 9-7-1987, बंगला भाषा में पुस्तको के लेखक।

स्थायी पता: 37, रिपन स्ट्रीट, कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)।

पालीवाल, श्री कृष्णादत्त. (उत्तर प्रदेश), सदस्य, राज्य सभा, 27-4-1967 से 2-4-1968, [अन्य विवरण उपलब्ध नहीं हैं]। दिवगत। श्रद्धाजलि—22-7-1968।

पालीवाल, श्री टीका राम बी० ए०, एलएल० बी०, कांग्रेस (राजस्थान), पंडित हुकुम चन्द पालीवाल के आत्मज, जन्म 1907, विवाह श्रीमती प्रकाशवती पालीवाल से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, राजस्व मंत्री, जयपुर स्टेट, 1948-49, सदस्य, राजस्थान विधान सभा, 1957-58, मंत्री, राजस्थान सरकार, 1951-52, मुख्य मंत्री, राजस्थान, मार्च, 1952 से नवम्बर, 1952, उप-मुख्य मंत्री, राजस्थान, 1952—54, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1958 से 1-3-1962, महासचिव, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी, 1950-51।

स्थायी पता: 4, म्यूजियम रोड, जयपुर (राजस्थान)।

\*पासवान, श्री कामेश्वर एम० ए०, भा० ज० पा० (बिहार), श्री लाला राम पासवान के आत्मज, जन्म 15 जनवरी, 1941, विवाह श्रीमती सिंहासन देवी से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, बिहार विधान परिषद, मंत्री, बिहार सरकार, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1990 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता: गाव जाफराबाद, डाकघर फतुआ, जिला पटना (बिहार)।

पासवान, श्री राम भगत एम० ए०, बी० एल०, कांग्रेस (आई) (बिहार), श्री छट्टू पासवान के आत्मज, जन्म 31 दिसम्बर, 1933, विवाह श्रीमती विमला देवी से, 3 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) लोक सभा, 1971—76 और (2) राज्य सभा, 7-7-1980 से 29-12-1984, कुछ पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता: गाव मधुवन, डाकघर मदनपुर, जिला दरभंगा (बिहार)।

पिल्लै, श्री जे० सिंवाशमुगम एम० ए०, कांग्रेस (मद्रास, अब तमिलनाडु), श्री टी० जगन्नाथन पिल्लै के आत्मज, जन्म 24 फरवरी, 1901, विवाह श्रीमती चन्द्रा से, 3 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, मद्रास विधान सभा, 1937—55, अध्यक्ष, मद्रास विधान सभा, 1947—55, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1962 से 2-4-1968, कुछ पुस्तकों के लेखक दिवगत। श्रद्धाजलि—17-2-1975।

पिल्लै, श्री सी० नारायण बी० ए०, एलएल० बी०, कांग्रेस (ट्रावनकोर-कोचीन, अब केरल), श्री केशव पिल्लै के आत्मज, जन्म मई, 1905, विवाह श्रीमती डी० सरस्वती अम्मा से, 3 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1958, मलयालम में कुछ पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता: थाईचाड, त्रिवेन्द्रम (केरल)।



**पीताम्बर दास**, श्री. वी० ए०, एलएल० बी, जनसघ (उत्तर प्रदेश), श्री त्रिवेणी प्रसाद जी के आत्मज, जन्म 30 जनवरी, 1905, विवाह श्रीमती राजेश्वरी देवी से, 4 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान परिषद, 1956—68, मभापति, (1) आश्वासन समिति, उत्तर प्रदेश विधान परिषद, 1966-67 और (2) नियम सकलन समिति, उत्तर प्रदेश विधान परिषद, 1967-68, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1968 से 2-4-1974, सचिव/अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जनसघ, 1956—59, उपाध्यक्ष/अध्यक्ष, अखिल भारतीय जनसघ, 1959-60, दिवगत। श्रद्धाजलि—23-7-1985।

**\*पुगलिया, श्री नरेश सी०** वी० काम० तक अध्ययन किया, कांग्रेस (आई) (महाराष्ट्र), श्री चुन्नालालजी राजमलजी पुगलिया के आत्मज, जन्म 20 मई, 1948, विवाह श्रीमती शीलादेवी पुगलिया से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) महाराष्ट्र विधान सभा, 1978 और 1980 और (2) राज्य सभा, 5-7-1986 से अद्यपर्यन्त।

**स्थायी पता:** गाधी चौक, चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)।

**पुन्नैया, श्री कोटा:** कांग्रेस (आन्ध्र प्रदेश), श्री कोटैया के आत्मज, जन्म 4 मई, 1926, विवाह श्रीमती सावित्री देवी से, 3 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1960 से 2-4-1966, 3-4-1966 से 2-4-1972 और 10-4-1972 से 9-4-1978, महासचिव, आन्ध्र प्रदेश कांग्रेस समिति, तेलुगु में कुछ पुस्तकों के लेखक।

**स्थायी पता:** खम्मामेट, जिला खम्माम (आन्ध्र प्रदेश)।

**पुनाच्चा, श्री चेप्पुडिरा मुथाना:** कांग्रेस (मैसूर, अब कर्णाटक), श्री चेप्पुडिरा मुथाना के आत्मज, जन्म 1910, विवाहित, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, कुर्ग विधान परिषद, 1945-46, मुख्य मंत्री, कुर्ग, 1952—56, मंत्री, मैसूर सरकार, 1957, सदस्य, (1) सविधान निर्मात्री सभा और प्रांतीय समद, 1947—51 और (2) राज्य सभा, 3-4-1964 से 25-2-1967, रेलवे, परिवहन और नागर विमानन मंत्रालयों में केंद्रीय मंत्री, 1966-67, दिवगत। श्रद्धाजलि—7-8-1990।

**पुरकायस्थ, श्री महितोष:** श्रम कल्याण में डिप्लोमा, कांग्रेस (असम), श्री महेन्द्र चन्द्र पुरकायस्थ के आत्मज, जन्म 29 जुलाई, 1919, अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1966 से 21-3-1972।

**स्थायी पता:** नजीर पट्टी, डाकघर सिल्वर (असम)।

**पुरी, श्री देव दत्त:** वी० ए०, कांग्रेस (हरियाणा), श्री वद्री दास के आत्मज, जन्म 4 अगस्त, 1914, विवाह श्रीमती कमला पुरी से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1) पंजाब विधान सभा, 1952—57 और 1957—62, (2) लोक सभा, 1962—67 और (3) राज्य सभा, 3-4-1970 से 2-4-1976, उपाध्यक्ष, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी।

**स्थायी पता:** "सरस्वती हाउस", डाकघर यमुनानगर, जिला अम्बाला (हरियाणा)।

**पुरी, श्री मुकन्द लाल एम० ए०** (पंजाब और आक्सफोर्ड), बार-एट-लॉ, कांग्रेस (पंजाब), श्री वृजलाल पुरी के आत्मज, जन्म 1 सितम्बर, 1887, विवाहित, 1 पुत्र और 4 पुत्रिया, सदस्य, (1) पंजाब विधान परिषद/पंजाब विधान सभा, 1929—45 और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 11-1-1953, दिवंगत। श्रद्धाजलि—11-2-1953।

**पुलगर, श्री खामसुम नामग्याल** सिक्किम सभाग परिषद (सिक्किम), सदस्य, राज्य सभा, 20-10-1987 से 1-3-1988। [अन्य विवरण उपलब्ध नहीं हैं।]

स्थायी पता तिब्बत रोड, गगतोक (सिक्किम)।

**पुस्तके, श्री त्रयम्बक दामोदर वी० ए०, एलएल० वी०**, कांग्रेस (मध्य प्रदेश), श्री दामोदर पत के आत्मज, जन्म 10 जून, 1889, विवाह श्रीमती उमाबाई पुस्तके से, 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) म्वालयार स्टेट विधान सभा, 1922—40, (2) अनन्निम ससद, 1950—52 और (3) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1958 और 3-4-1958 से 11-8-1960, दिवंगत। श्रद्धाजलि—12-8-1960।

**पेंडसे, श्री लालजी० सयुक्त महाराष्ट्र समिति (वम्बई, अब महाराष्ट्र)**, श्री मोरेश्वर चिन्तामन पेंडसे के आत्मज, जन्म 18 मई, 1900, विवाह श्रीमती शीलाबाई से, 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1958 से 2-4-1964, कुछ पुस्तको के लेखक, दिवंगत। श्रद्धाजलि—12-11-1973।

**पै, श्री टी० ए० वी० काम०**, कांग्रेस (मैसूर, अब कर्णाटक), श्री टी० उपेन्द्र अनन्त पै के आत्मज, जन्म 17 जनवरी, 1922, अविवाहित, सदस्य, (1) मद्रास/मैसूर विधान सभाए और (2) राज्य सभा, 10-4-1972 से 21-3-1977, रेलवे, उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालयो में केन्द्रीय मंत्री, 1972—77, 1972 में पद्म भूषण से सम्मानित, दिवंगत। श्रद्धाजलि—17-8-1981।

**\*पोद्दार, डा० आर० के०० वी० एससी० (आनर्स) एम० एससी० (भौतिक विज्ञान)**, और पीएच० डी० (वायो-फिजिक्स), भारतीय साम्यवादी दल (मा०) (पश्चिमी बंगाल), श्री ब्रजेंद्र कुमार पोद्दार के आत्मज, जन्म 9 नवम्बर, 1930, विवाह श्रीमती झरना पोद्दार (नी सरकार) से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 12-3-1985 से 9-7-1987 और 10-7-1987 से अद्यपर्यन्त, कुलपति, कलकत्ता विश्वविद्यालय, 1979—85।

स्थायी पता ए० ए० 10/7, देशबन्धु नगर, कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)।

\*वर्तमान सदस्य।

पोद्दार, श्री राजेन्द्र कुमार: वाणिज्य में इन्टरमीडिएट, निर्दलीय (विहार), श्री आनन्दीलाल पोद्दार के आत्मज, जन्म 5 दिसम्बर, 1936, विवाह श्रीमती नीला देवी पोद्दार से, 1 पुत्र, सदस्य, (1) पश्चिमी बंगाल विधान सभा, 1967 और (2) राज्य सभा, 3-4-1968 से 2-4-1974 और 3-4-1974 से 2-4-1980।

स्थायी पता: 36, चोरगी रोड, कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)।

पोद्दार, श्री रामनाथ आनन्दीलाल: कांग्रेस (राजस्थान), श्री आनन्दीलाल पोद्दार के आत्मज, जन्म 21 जनवरी, 1910, विवाह श्रीमती फनीवाई से, 2 पुत्र और 3 पुत्रियाँ, सदस्य, (1) बम्बई विधान सभा, 1946—52 और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954।

स्थायी पता: पोद्दार हाऊस, 10, मेरिन ड्राइव, मुम्बई (महाराष्ट्र)।

पृथ्वीनाथ, श्री: एम० ए० (अर्थशास्त्र), एलएल० बी, बी० के० डी० (उत्तर प्रदेश), सेठ गोपीनाथ के आत्मज, जन्म 16 जनवरी, 1916, विवाह श्रीमती प्रेमलता से, 1 पुत्र और 2 पुत्रियाँ, सदस्य, (1) उत्तर प्रदेश विधान परिषद, 1956—62 और (2) राज्य सभा, 3-4-1968 से 2-4-1974, दिवंगत। श्रद्धाजलि—21-2-1991।

प्रजापति, श्री प्रवीण कुमार: बी० एससी०, कांग्रेस (आई) (मध्य प्रदेश), श्री कर्माराम प्रजापति के आत्मज, जन्म 4 फरवरी, 1942, विवाह श्रीमती हेमन्ती प्रजापति से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 30-6-1980 से 29-6-1986, दिवंगत। श्रद्धाजलि—17-3-1988।

प्रधान, श्री पतितपावन : बी० ए० (अंग्रेजी), एम० ए० (राजनीति विज्ञान), एलएल० बी०, लोक दल (उड़ीसा), श्री दिगम्बर प्रधान के आत्मज, जन्म 2 जून, 1934, विवाह डा० (श्रीमती) दीप्ति प्रधान से, 4 पुत्रियाँ, सदस्य, राज्य सभा, 13-7-1977 से 2-4-1982, महासचिव, जनता पार्टी की राज्य शाखा।

स्थायी पता : गाव-जाराउट, डाकघर सरपाल वरमता देवगढ, जिला सम्भलपुर (उड़ीसा)।

प्रधान, श्री बद्री नारायण : एम० ए०, बी० टी०, भारतीय साम्यवादी दल (मा०) (पश्चिमी बंगाल), श्री बंरु नारायण प्रधान के आत्मज, जन्म 14 जनवरी, 1929, विवाह श्रीमती पद्मा प्रधान से, 2 पुत्र और 5 पुत्रियाँ, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1984 से 28-1-1986, मैक्सिम गोरकी 'मदर' का नेपाली में अनुवाद।

स्थायी पता : ब्लॉक मख्खा 1, बागरकोटा टी गार्डन, डाकघर बागरकोटा, जिला जलपाईगुडी (पश्चिमी बंगाल)।

प्रधान, श्रीमती सरस्वती : वी० ए०, वी० एड०, कांग्रेस (उड़ीसा) , श्री मदन मोहन प्रधान की आत्मजा, जन्म 30 मई, 1925, विवाह श्री दुर्योधन प्रधान से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, उड़ीसा विधान सभा, 1961—67 और 1967—71, उप मंत्री, उड़ीसा सरकार, 1962—67, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1972 से 2-4-1978।

स्थायी पता डाकघर कामगाँव, पुलिस स्टेशन, भाटली, जिला सम्भलपुर (उड़ीसा)।

प्रभु सिंह, श्री . जनता पार्टी (हरियाणा), श्री पोहलू राम के आत्मज, जन्म 14 अगस्त, 1916, विवाह श्रीमती टिडो देवी से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, हरियाणा विधान सभा, 1967 और 1968—72, मंत्री, हरियाणा सरकार, 1970—72, सदस्य, राज्य सभा, 2-8-1974 से 1-8-1980।

स्थायी पता . गाव तथा डाकघर अशोक कालोनी, धिवानी (हरियाणा)।

प्रशान्त, श्री धर्म चन्द्र वी० ए० (आनर्स), निर्दलीय (जम्मू और कश्मीर), पंडित अमरनाथ के आत्मज, जन्म 17 अप्रैल, 1923, विवाह श्रीमती प्रकाश रानी से, 3 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1982 से 2-4-1988, डोगरी और हिन्दी भाषा में कहानियों और नाटको आदि की अनेक पुस्तको के लेखक।

स्थायी पता 35, जुलहाका मुहल्ला, जम्मू (जम्मू और कश्मीर)।

प्रसाद, श्री के० एल० एन० . कांग्रेस (आई) (आन्ध्र प्रदेश), श्री दामोदरैया के आत्मज, जन्म 1 जनवरी, 1928, विवाह श्रीमती के० प्रभावती से, 5 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1970 से 2-4-1976, 3-4-1976 से 2-4-1982 और 3-4-1982 से 16-7-1987, दिवंगत। श्रद्धाजलि—27-7-1987।

प्रसाद, डा० बद्री नाथ : स्टेट डाक्टर ऑफ साइन्स (पेरिस), पीएच० डी० (लिवरपूल), एम० एससी० (बनारस), एफ० एन० आई०, एफ० एन० ए० एस० सी०, (नाम-निर्देशित), श्री राम लाल के आत्मज, जन्म 12 जनवरी, 1899, विवाह श्रीमती लक्ष्मी देवी से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1964 से 18-1-1966, पद्म भूषण से सम्मानित, 1963, गणित विज्ञान से सम्बन्धित पुस्तको के लेखक, दिवंगत। श्रद्धाजलि—14-2-1966।

प्रसादराव, श्री नन्दुरै दुर्गा मल्लिकार्जुन साय्यवादी दल (आन्ध्र प्रदेश), श्री जानकी रमैया के आत्मज, जन्म 24 सितम्बर, 1912, विवाह श्रीमती सुमित्रा से, 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 30-11-1953 से 2-4-1956, तेलुगु में पुस्तको के लेखक।

स्थायी पता . आरुगोलानु, गन्नवरम ताल्लुक, कृष्णा जिला (आन्ध्र प्रदेश)।

**प्रेम मनोहर, श्री :** बी० एससी०, जनता पार्टी (उत्तर प्रदेश), श्री कैलाश चन्द्र मंगल के आत्मज, जन्म 9 अक्टूबर, 1923, विवाह श्रीमती विमला मागलिक से, 5 पुत्र और 5 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1968 से 2-4-1974 और 14-7-1977 से 2-4-1980।

**स्थायी पता :** 118/307, कौशल पुरी, कानपुर (उत्तर प्रदेश)।

**\*फर्नाडिस, श्री जॉन एफ० .** बी० ए०, एलएल० बी०, कांग्रेस (आई) (गोवा), श्री अल्बर्ट फर्नाडिस के आत्मज, जन्म 15 अगस्त, 1952, अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 8-7-1987 से अद्यपर्यन्त, सयुक्त सचिव/महासचिव, गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी, 1978—87।

**स्थायी पता .** मकान न०—165/1, करजलेम, डाकघर डोन पॉल (गोवा)।

**\*फागुनी राम, डा० :** बी० ए० (ऑनर्स), एम० ए०, पीएच० डी०, कांग्रेस (आई) (बिहार), श्री वेजनाथ राम के आत्मज, जन्म 2 जनवरी, 1945, विवाह प्रो० (श्रीमती) सुशीला दास से, 4 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, बिहार विधान सभा, 1972—77, राज्य मंत्री, बिहार सरकार, 1973, सदस्य, राज्य सभा, 11-2-1985 से 2-4-1988 और 3-4-1988 से अद्यपर्यन्त, सयुक्त सचिव, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी।

**स्थायी पता :** ग्राम मक्शियावा, डाकघर भीमपुर मक्शियावा वाया कांच, जिला गया (बिहार)।

**फूल सिंह, श्री :** बी० ए०, एलएल० बी०, कांग्रेस (उत्तर प्रदेश), श्री लक्ष्मण सिंह के आत्मज, जन्म 1902, विवाह श्रीमती रिसाली देवी से, 4 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1936—57 और 1962—67, उपमन्त्री/मन्त्री, उत्तर प्रदेश सरकार, 1952—57, 1962 और 1967, सदस्य, राज्य सभा, 11-8-1969 से 27-9-1970, दिवंगत। श्रद्धाजलि—9-11-1970।

**फेरुमान, सरदार दर्शन सिंह :** कांग्रेस (पंजाब), सरदार चदा सिंह के आत्मज, जन्म मार्च, 1892, विवाह श्रीमती करतार कौर से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956, 3-4-1956 से 22-10-1956 और 3-4-1958 से 2-4-1964, महासचिव/अध्यक्ष, शिरोमणि अकाली दल, 1924—28, दिवंगत। श्रद्धाजलि—17-11-1969।

**\*फोतेदार, श्री माखन लाल :** एम० ए०, एलएल० बी०, कांग्रेस (आई) (उत्तर प्रदेश), श्री नारायण जी फोतेदार के आत्मज, जन्म 5 मार्च, 1932, विवाह श्रीमती रत्न रानी से, सदस्य, जम्मू और कश्मीर विधान सभा, 1967—77, अध्यक्ष, लोक लेखा समिति और अन्य समितिया, जम्मू और कश्मीर विधान सभा, राज्य मंत्री, जम्मू और कश्मीर सरकार, सदस्य, राज्य सभा, 9-5-1985 से 2-4-1990 और 3-4-1990 से अद्यपर्यन्त, केन्द्रीय इस्पात और खान मंत्री, जुलाई, 1987—दिसम्बर, 1989।

**स्थायी पता :** मकान न० 4/9, सेक्टर 5, राजेन्द्र नगर, साहिवावाद, जिला गाजियावाद (उत्तर प्रदेश)।

बसीलाल, श्री : वी० ए०, एलएल० वी०, कांग्रेस (हरियाणा), चौधरी मोहर सिंह के आत्मज, जन्म 26 अगस्त, 1927, विवाह श्रीमती विद्या देवी से, 2 पुत्र तथा 4 पुत्रिया, सदस्य, हरियाणा विधान सभा, 1967-68, 1968—72 और 1972—75, मुख्य मंत्री, हरियाणा, मई, 1968 से नवम्बर, 1975, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1960 से 2-4-1966 और 3-4-1976 से 7-1-1980, केन्द्रीय रक्षा मंत्री, दिसम्बर, 1975 से मार्च, 1977।

स्थायी पता : मकान न० 187, विजय नगर, भिवानी (हरियाणा)।

\*बख्त, श्री सिकन्दर : वी० एससी०, भारतीय जनता पार्टी (मध्य प्रदेश), श्री एच० एम० युसुफ के आत्मज, जन्म 24 अगस्त, 1918, विवाह श्रीमती राज एस० बख्त से, 2 पुत्र, सदस्य, (1) महानगर परिषद, दिल्ली और (2) लोक सभा, 1977—79, केन्द्रीय आवास और निर्माण मंत्री, 1977—79, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1990 से अद्यपर्यन्त, उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय, भारतीय जनता पार्टी।

स्थायी पता : वी० 34/1, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली।

बगाइतकार, श्री सदाशिव लोकदल (महाराष्ट्र), श्री शकर के आत्मज, जन्म 13 नवम्बर, 1923, अर्वावाहित, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1978 से 5-12-1983, अध्यक्ष और सचिव, सोशलिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र, 1957—60, कुछ पुस्तकों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—6-12-1983।

बघेल, डा० के० सी० . एल० एम० पी०, निर्दलीय (मध्य प्रदेश), श्री जुदावन मिह बघेल के आत्मज, जन्म 16 जुलाई, 1900, विवाह श्रीमती राजकुवर से, 1 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, सेन्ट्रल प्रोविंसेज विधान सभा, 1946, 1951 और 1957, ससदीय सचिव, सेन्ट्रल प्रोविंसेज, 1947, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1964 से 22-2-1969, अनेक नाटकों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—24-2-1969।

बच्चन, डा० हरिवंश राय . एम० ए० (इलाहाबाद), पीएच० डी० (केंब्रिज), (नाम-निर्देशित), श्री प्रताप नारायण के आत्मज, जन्म 27 नवम्बर, 1907, विवाह श्रीमती तेजी बच्चन से, 2 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1966 से 2-4-1972, सोवियत लैंड नेहरू एवार्ड, 1966 और साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1969 से सम्मानित, अनेक पुस्तकों के लेखक, जिनमें अनुवाद, कविताएँ, निवन्ध आदि शामिल हैं।

स्थायी पता . वी-8, 'सोपान' गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली।

बड़ठाकुर, श्रीमती उषा . वी० ए०, वी० टी०, कांग्रेस (असम), श्री लक्ष्मी प्रसाद चरुआ की आत्मजा, जन्म 1912, विवाह श्री चन्द्र नाथ बड़ठाकुर से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, असम विधान सभा, 1952—62, मंत्री, असम सरकार, 1957-58, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1966 से 2-4-1972, असमिया भाषा में गांधी जी पर एक पुस्तक की लेखिका।

स्थायी पता . नौगाव (असम)।

**वनर्जी, श्री जहरलाल :** बी० ए०, बी० टी०, काग्रेस (यू०) (पश्चिमी बंगाल), श्री ज्योतिष चन्द्र वनर्जी के आत्मज, जन्म 2 जुलाई, 1918, अविवाहित, सदस्य, (1) पश्चिमी बंगाल विधान सभा, 1962—67 और (2) राज्य सभा, 10-7-1975 से 9-7-1981, उपाध्यक्ष, पश्चिमी बंगाल प्रदेश काग्रेस कमेटी, 1970-71, दिवगत। श्रद्धाजलि—17-1-1985।

**वनर्जी, श्री तारा शंकर :** (नाम-निर्देशित), श्री हरिदास वनर्जी के आत्मज, जन्म . 22 जुलाई, 1898, विवाह श्रीमती उमा शशि देवी से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, नाम-निर्देशित सदस्य, (1) पश्चिमी बंगाल विधान परिषद, 1952—60 और (2) राज्य सभा, 3-4-1960 से 2-4-1966; 1962 में पद्मश्री से सम्मानित, अनेक उपन्यासों, लघु कहानियों, नाटकों, निवन्धों आदि के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—15-11-1971।

**वनर्जी, श्री बी० एन० :** एलएल० बी० (कलकत्ता), एलएल० एम० (लदन), वार-एट-लॉ, (नाम-निर्देशित), श्री उषेन्द्र नाथ वनर्जी के आत्मज, जन्म 8 जनवरी, 1916, विवाह श्रीमती तूलिका वनर्जी से, 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1976 से 2-4-1982, सचिव/महासचिव, राज्य सभा, 1963 से मार्च, 1976।

**स्थायी पता :** 22/1/1/3, मनोहरपुकर रोड, कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)।

**वनर्जी, श्री सत्यप्रिय :** एम० ए०, बी० एल०, अखिल भारतीय फारवर्ड ब्लाक (मार्क्सवादी) (पश्चिमी बंगाल), श्री कुमुदनीकांत वनर्जी के आत्मज, जन्म . 25 अगस्त, 1893, विवाह श्रीमती प्रतिभा देवी से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, (1) बंगाल विधान सभा, 1937—45, (2) केन्द्रीय विधान सभा, 1946-47 और (3) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956 और 3-4-1956 से 23-3-1957, अध्यक्ष, मार्क्सवादी फारवर्ड ब्लाक, सचिव, बंगाल प्रदेश काग्रेस कमेटी, दिवगत। श्रद्धाजलि—25-3-1957।

**वनमाली बाबू, श्री:** बी० ए०, बी० एल०, काग्रेस (आई) (उड़ीसा), श्री गोकुल चन्द्र बाबू के आत्मज, जन्म 9 मार्च, 1918, विवाह श्रीमती सरोज कुमारी से, 4 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, उड़ीसा विधान सभा, 1961—71, 1967 तक उड़ीसा सरकार में मंत्री रहे, सदस्य, (1) लोक सभा, 1971—76 और (2) राज्य सभा, 3-4-1982 से 2-4-1988।

**स्थायी पता :** 'कादम्बरी', धनुपाली, सम्बलपुर (उड़ीसा)।

**वनारसी दास, श्री :** काग्रेस (ओ) (उत्तर प्रदेश), श्री रणजीलाल के आत्मज, जन्म 8 जुलाई, 1912, विवाह श्रीमती विद्यावती देवी से, 5 पुत्र तथा 6 पुत्रिया, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1946-47, 1952—57 और 1962—67 में उत्तर प्रदेश सरकार में ससदीय सचिव तथा मंत्री रहे, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1972 से 28-6-1977, अस्थायी सभापति, राज्य सभा, 24 से 30 मार्च, 1977, महासचिव, उत्तर प्रदेश काग्रेस कमेटी, 1960—69, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश काग्रेस कमेटी (ओ), 1970, दिवगत। श्रद्धाजलि—5-8-1985।

बरगोहेन, श्री नवीन चन्द्र • वी० ए०, एलएल० वी०, कांग्रेस (असम), श्री मुही चन्द्र बरगोहेन के आत्मज, जन्म मार्च, 1923, विवाह श्रीमती सरस्वती बरगोहेन से, 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1972 से 9-4-1978 ।

स्थायी पता . राजबारी, वार्ड न० 2, जोरहट नगर (असम) ।

बरगोहेन, श्रीमती वेदवती : वी० ए० तक अध्ययन किया, कांग्रेस (असम), श्री बापूराम बरूआ की आत्मजा, जन्म 19 नवम्बर, 1911, विवाह श्री सुरेन्द्र नाथ बरगोहेन से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1954 से 2-4-1960 और 3-4-1960 से 2-4-1966 ।

स्थायी पता : अतिलागाव, जोरहट (असम) ।

बरबोरा, श्री गोलाप . एस० एस० पी० (असम), श्री कमल बरबोरा के आत्मज, जन्म 1926, विवाह श्रीमती अजली तारा बरबोरा से, 3 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1968 से 2-4-1974, सयुक्त सचिव, सचिव और अध्यक्ष असम राज्य समाजवादी दल और महासचिव, अखिल भारतीय समाजवादी दल, 1955—65 ।

स्थायी पता • डाकघर तिनसुखिया (असम) ।

बरार, सरदार नरेन्द्र सिंह • अकाली दल (पंजाब), श्री प्रताप सिंह के आत्मज, जन्म 1913, विवाह, (1) श्रीमती निरजन कौर और (2) श्रीमती सतपाल कौर से, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1966 से 2-4-1972, दिवंगत । श्रद्धाजलि—14-5-1986 ।

बरूआ, श्री डी० के० एलएल० वी०, कांग्रेस (असम), श्री नीलकान्त बरूआ के आत्मज, जन्म 22 फरवरी, 1914, विवाह श्रीमती प्रियलता बरूआ से, 1 पुत्र, सदस्य, (1) सविधान सभा, 1949—51, (2) लोक सभा, 1952—57, और (3) असम विधान सभा, 1957—62, 1962—67 और 1967—72, मंत्री, असम सरकार, बिहार के राज्यपाल, फरवरी, 1971 से फरवरी, 1973, सदस्य, राज्य सभा, 19-7-1973 से 2-4-1974 और 3-4-1974 से 21-3-1977, केन्द्रीय मंत्री, पैट्रोलियम और रसायन, फरवरी, 1973 से अक्टूबर, 1974, अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अक्टूबर, 1974 ।

स्थायी पता . नौगाव डाकघर (असम) ।

बरूआ, श्री लक्षेश्वर वी० एल०, कांग्रेस (असम), जन्म जनवरी, 1893, विवाह श्रीमती जॉन्तारा राजखोवा से, 4 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, असम विधान सभा, 1926, 1936 और 1946 में चुने गये, अध्यक्ष, असम विधान सभा, नवम्बर, 1947 से फरवरी, 1952, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954 ।

स्थायी पता . खालीमारी, डिब्रूगढ़ डाकघर (असम) ।



वरुआ, श्री लीला धर काग्रेस (असम), श्री गिरिधर वरुआ के आत्मज, जन्म 8 मार्च, 1908, विवाह श्रीमती गिरिजा वरुआ से, 3 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 27-8-1958 से 2-4-1960 और 3-4-1960 से 2-4-1966, दिवंगत। श्रद्धाजलि—19-2-1973।

\*बरोगपा, श्री सुशील . एम० ए०, काग्रेस (आई) (हिमाचल प्रदेश), श्री गोम्बो बरोगपा के आत्मज, जन्म . 10 मार्च, 1947, विवाह श्रीमती डावा डोलमा से, 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1988 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता : ग्राम तथा डाकघर केलोग, जिला लाहौल तथा स्पीती (हिमाचल प्रदेश)।

बर्मन, श्री देवेन्द्र नाथ : स्कूल फाइनल और जूनियर वी० टी०, भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) (पश्चिमी बंगाल), श्री माखन चद्र बर्मन के आत्मज, जन्म 8 नवम्बर, 1943, विवाह श्रीमती सुमिला बर्मन से, 3 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 10-7-1981 से 9-7-1987।

स्थायी पता : ग्राम बालाकुथी, डाकघर बालाकुथी, जिला कूच विहार (पश्चिमी बंगाल)।

बर्मन, श्री प्रसेनजित . वी० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस (आई) (पश्चिमी बंगाल), श्री चन्द्रमोहन बर्मन के आत्मज, जन्म 1 अक्टूबर, 1934, विवाह श्रीमती राधारानी बर्मन से, 4 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) पश्चिमी बंगाल विधान सभा, 1967-68 और 1969-70 और (2) राज्य सभा, 3-4-1976 से 2-4-1982।

स्थायी पता : देवी चाडी, डाकघर तथा जिला कूच विहार (पश्चिमी बंगाल)।

\*बलराम, श्री एन० ई० : मिडिल तक अध्ययन किया, भा० सा० द० (केरल), श्री नारायणन के आत्मज, जन्म नवम्बर, 1920, विवाह श्रीमती पक्काक्षि से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, केरल विधान सभा, 1957—59 और 1970—78, मंत्री, केरल सरकार, 1971, सदस्य, राज्य सभा, 22-4-1985 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता : 44, वृदावन हाउसिंग कालोनी, पट्टम, त्रिवेन्द्रम (केरल)।

बलराम दास, श्री : एम० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस (आई) (मध्य प्रदेश), श्री दुर्गा दास के आत्मज, जन्म 7 मार्च, 1931, विवाह श्रीमती राम कुमारी से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1970 से 2-4-1976 और 3-4-1976 से 2-4-1982।

स्थायी पता : ए-79, अशोक विहार, फेज-1, दिल्ली।

बशीर, श्री थालेकुन्निल . बी० एससी०, एलएल०बी०, काग्रेस (अन्तोनियुप) (केरल), श्री मीरा साहिव के आत्मज, जन्म 7 मार्च, 1945, विवाह श्रीमती सुहरा बशीर से, सदस्य, (1) केरल विधान सभा और (2) राज्य सभा, 20-7-1977 से 21-4-1979 और 22-4-1979 से 29-12-1984 ।

स्थायी पता . थालेकुन्निल हाउस, पुल्लमपारा, डाकघर वेजरामुडू, त्रिवेन्द्रम (केरल) ।

बसवपुत्रेया, श्री भक्तीनेनि साम्यवादी (आन्ध्र प्रदेश), श्री वेकटपैया के आत्मज, जन्म 14 दिसम्बर, 1914, विवाह श्रीमती जगदम्बा से, 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954, 3-4-1954 से 2-4-1960 और 3-4-1960 से 2-4-1966 ।

स्थायी पता : 3-6-547/6, हिमायतनगर, हेदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) ।

बसवराज, श्री एच० आर० एस० एस० एल० सी० तक अध्ययन किया, काग्रेस (आई) (कर्णाटक), श्री हीरहाल रमैया के आत्मज, जन्म 21 जनवरी, 1921, विवाह, (1) श्रीमती एच० बी० सरनम्मा से तथा (2) श्रीमती वसती देवी से, 3 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1978 से 17-1-1980 ।

स्थायी पता : न० 26/ए 2, साके रोड, बगलौर (कर्णाटक) ।

बसवराजु, श्री एम० इटरमीडिएट, काग्रेस (आई) (कर्णाटक), श्री हसन मुद्दना के आत्मज, जन्म 1 नवम्बर, 1927, विवाह श्रीमती चिक्कनजम्मि से, 4 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) कर्णाटक विधान सभा, 1967—72 और (2) राज्य सभा, 3-4-1980 से 2-4-1986 ।

स्थायी पता . गन्डहल्ली (पोस्ट) कृष्णराजनगर (के० आर० नगर) तालुक, जिला मैसूर (कर्णाटक) ।

बसु, श्री चित्त . बी० एससी०, एम० ए०, फारवर्ड ब्लाक (पश्चिमी बंगाल), श्री विनोद बिहारी बसु के आत्मज, जन्म 25 दिसम्बर, 1925, अविवाहित, सदस्य, (1) पश्चिमी बंगाल विधान सभा, 1957-62, (2) राज्य सभा, 3-4-1966 से 2-4-1972 और 2-12-1985 से 27-11-1989 और (3) लोक सभा, 1977—79 और 1980—84 ।

स्थायी पता : डाकघर, बारासात, जिला 24 परगना (पश्चिमी बंगाल) ।

बसु, श्री सन्तोष कुमार : एम० ए०, बी० एल०, काग्रेस (पश्चिमी बंगाल), श्री राजचन्द्र बसु के आत्मज, जन्म जनवरी, 1890, विवाह श्रीमती इन्दुमती बसु से, 3 पुत्र, सदस्य, (1) बंगाल विधान परिषद, 1928 और (2) बंगाल विधान सभा, 1937—45, मंत्री, बंगाल सरकार, 1941—43, सदस्य, राज्य सभा, 3-5-1957 से 2-4-1958 और 3-4-1958 से 2-4-1964, पाकिस्तान में ढाका में भारत के उप उच्चायुक्त, 1948—50, अनेक पुस्तकों के लेखक ।

स्थायी पता : 65, डायमन्ड हार्बर रोड, कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल) ।

\*बसु राय, श्री सुनील मेट्रिक, भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) (पश्चिमी बंगाल), श्री धीरेन्द्र नाथ चमु राय के आत्मज, जन्म मार्च, 1925, विवाह श्रीमती नीलिमा वसु राय से, 1 पुत्र, सदस्य, (1) पश्चिमी बंगाल विधान सभा, 1969, 1971 और 1977 और (2) राज्य सभा, 10-7-1987 से अद्यपर्यन्त, बंगला भाषा में अनेक पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता . के० एस० रोड, रेलपाडा, आसनसोल (पश्चिमी बंगाल)।

बासल, श्री पवन कुमार वी० एस०, एलएल० वी०, कांग्रेस (आई) (पंजाब), श्री प्यारा लाल के आत्मज, जन्म 16 जुलाई, 1948, विवाह श्रीमती मधु बासल से, 2 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1984 से 9-4-1990, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1985—87।

स्थायी पता . मकान न० 64, सेक्टर 28-ए, चण्डीगढ़।

\*बागडोदिया, श्री सन्तोष . वी० काम०, कांग्रेस (आई) (राजस्थान), श्री महावीर प्रसाद बागडोदिया के आत्मज, जन्म 11 दिसम्बर, 1940, विवाह श्रीमती पुष्पा बागडोदिया से, 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 5-7-1986 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता 44, बेलीगज, सर्कुलर रोड, कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)।

बाग्ची, श्री चन्दन के० कांग्रेस (आई) (बिहार), सदस्य, राज्य सभा, 12-4-1983 से 9-4-1984 [अन्य व्योरे उपलब्ध नहीं है।]

स्थायी पता डाकघर—सरायकिला, जिला सिधभूम (बिहार)।

बाबर, डा० (कुमारी) सरोजिनी कृष्णराव . एम० ए०, पीएच० डी०, कांग्रेस (महाराष्ट्र), श्री कृष्णराव भाऊराव बाबर की आत्मजा, जन्म 7 जनवरी, 1920, अविवाहिता, सदस्य, (1) महाराष्ट्र विधान सभा, 1952—57, (2) महाराष्ट्र विधान परिषद, 1963—66 और (3) राज्य सभा, 3-4-1968 से 2-4-1974, उपन्यासो, निबन्धो, लघु कहानियो तथा लोकगाथाओ सहित अनेक पुस्तको की लेखिका।

स्थायी पता . "जवाहर," 43, विजयनगर कालोनी, पुणे (महाराष्ट्र)।

बर्लिंगे, डा० वामन शिवदास . एम० ए०, पीएच० डी० (लंदन), बार-एट-लॉ, कांग्रेस (महाराष्ट्र), श्री शिवदास कृष्ण बर्लिंगे के आत्मज, जन्म 15 जनवरी, 1904, विवाह श्रीमती रमावाई से, 2 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार, 1946—52, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956 और 3-4-1956 से 2-4-1962।

स्थायी पता . धर्म पैठ, नागपुर (महाराष्ट्र)।

वालान, श्री एम० सी०. वी० ए०, वी० एल०, अ० भा० अ० ड० मु० क० (तमिलनाडु); श्री वी० विदाम्बराथायन् के आत्मज, जन्म 6 जुलाई, 1933, विवाह श्रीमती वसन्त वालान से, 3 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) मद्रास विधान सभा, 1967—71 और (2) राज्य सभा, 3-4-1972 से 2-4-1978।

स्थायी पता वाटर टैंक रोड, नागरकोइल (तमिलनाडु)।

\*वालानन्दन, श्री ई०. मेंट्रिक तक अध्ययन किया, भा० सा० द० (मार्क्सवादी) (केरल), श्री रमन के आत्मज, जन्म 16 जून, 1924, विवाह श्रीमती सरोजिनी से, 1 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) केरल विधान सभा, 1967 से 1977, (2) लोक सभा, 1980—84 और (3) राज्य सभा, 2-7-1988 से अद्यपर्यन्त, सचिव, 'सीटू', 1979, साइलेट वेली पर एक पुस्तक तथा सामाजिक आर्थिक समस्याओं पर लेख लिखे।

स्थायी पता पोन्नमवुलथ, डाकघर-कालामसेरी, कोचीन (केरल)।

\*वालू, श्री टी० आर० वी० एससी०, एल० सी० ई०, डी० एम० के० (तमिलनाडु), श्री रजुथेवर के आत्मज, जन्म 15 जून, 1941, विवाह श्रीमती टी० आर० वी० पोरकोडि से, 3 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 30-6-1986 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता 28, युनाइटेड इंडिया कालोनी, फर्स्ट क्रासस्ट्रीट, मद्रास (तमिलनाडु)।

वालेश्वर दयाल, श्री लोकदल (मध्य प्रदेश), श्री शिव शंकर लाल के आत्मज, विवाह श्रीमती मावित्री से, सदस्य, राज्य सभा, 14-7-1977 से 9-4-1978 और 10-4-1978 से 9-4-1984, अध्यक्ष, अखिल भारतीय सयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, 1973।

स्थायी पता: डाकघर बामनिया (वाया रतलाम), पश्चिमी रेलवे (मध्य प्रदेश)।

वाल्मीक, श्री अच्छे लाल- जूनियर हाई स्कूल, कांग्रेस (आई) (उत्तर प्रदेश), श्री अगनू राम वाल्मीक के आत्मज, जन्म 1938, विवाह श्रीमती छाया देवी वाल्मीक से, 2 पुत्र तथा 7 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 31-1-1985 से 4-7-1986।

स्थायी पता: 22, वाल्मीकी पुरी, इण्डत नगर, डालीगज, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।

वाल्मीकी, श्री शिवलाल कांग्रेस (आई) (उत्तर प्रदेश), सदस्य, राज्य सभा, 16-9-1981 से 2-4-1982। [अन्य व्यौर उपलब्ध नहीं हैं।]

स्थायी पता: 107/3, मोहल्ला जवाहर नगर, कानपुर (उत्तर प्रदेश)।

बासर, श्री टोडकः वी० ए०, काग्रेस (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 27क(5) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा अरुणाचल प्रदेश से नाम-निर्देशित), श्री मितो बासर के आत्मज, जन्म 1941, विवाह श्रीमती शिन्दे बासर से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, (1) पूर्वोत्तर सीमात एजेंसी परिषद, अरुणाचल प्रदेश, 1968—72 और (2) राज्य सभा, 27-5-1972 से 26-5-1978, महासचिव, अरुणाचल प्रदेश तदर्थ प्रदेश कांग्रेस कमेटी, 1972—76।

स्थायी पता. डाकघर बासर, जिला सियाग (अरुणाचल प्रदेश)।

\*वासुमतारी, श्री अमृत लालः एम० ए०, एलएल० बी०, कांग्रेस (एस) (असम), श्री सुरेन्द्र नाथ वासुमतारी के आत्मज, जन्म 1 फरवरी, 1942, विवाह श्रीमती अनुरानी वासुमतारी से, 3 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) असम विधान सभा, 1985—89 और (2) राज्य सभा, 15-6-1989 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता. गोसाई गाव टाउन, डाकघर गोसाई गाव, कोकराझाड (असम)।

वासुमतारी, श्री धरनीधरः कांग्रेस (आई) (असम), श्री लखमी राम वासुमतारी के आत्मज, जन्म 29 अप्रैल, 1914, विवाह श्रीमती नर्मदा वासुमतारी से, 4 पुत्र, सदस्य, (1) असम विधान सभा, 1946—56, (2) सविधान सभा, 1946—52, (3) लोक सभा, 1957—62, 1962—67, 1967—70 और 1971—77 और (4) राज्य सभा, 15-6-1983 से 14-6-1989, अध्यक्ष, (1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सबधी ससदीय समिति, लोक सभा, 1968—70 और 1972—74 और (2) लाभ के पदों सबधी सयुक्त समिति, लोक सभा, 1975—77, अध्यक्ष, असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (आई), 1983—85।

स्थायी पता: भारालुमुख, गुवाहाटी (असम)।

विन्दुमती देवी, श्रीमती: एम० ए०, कांग्रेस (सगठन) (उत्तर प्रदेश), कुवर महेश्वर वत्स सिंह की आत्मजा, जन्म 19 जुलाई, 1918, विवाह डा० आर० वी० दास से, 1 पुत्री, सदस्य, (1) उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1957—62 और (2) राज्य सभा, 9-7-1967 से 2-4-1972।

स्थायी पता: कोटवा धाम, डाकघर कोटवा, जिला बाराबकी (उत्तर प्रदेश)।

\*धिरला, श्री कृष्ण कुमारः हिन्दी प्रभाकर (हिन्दी में आनर्स), निर्दलीय (राजस्थान), श्री जी० डी० धिरला के आत्मज, जन्म: 12 अक्टूबर, 1918, विवाह श्रीमती मनोरमा देवी धिरला से, 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1984 से 9-4-1990 और 10-4-1990 से अद्यपर्यन्त, 'इन्दिरा गाधी रेमिनिसेन्सिज' नामक पुस्तक के लेखक।

स्थायी पता: (1) चन्द्र भवन, पिलानो (राजस्थान), (2) धिरला भवन, 9/1, आर० एन० मुखर्जी रोड, कलकत्ता तथा (3) धिरला हाऊस, 7, तीस जनवरी मार्ग, नई दिल्ली।

विष्ट, श्री जशोद सिंह. बी० ए०, एलएल० बी०, काग्रेम (उत्तर प्रदेश), ठाकुर लक्ष्मण सिंह विष्ट के आत्मज, जन्म 1 अक्टूबर, 1897, विवाह श्रीमती घर्मा विष्ट से, 4 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956 और 3-4-1956 से 2-4-1962, दिवगत। श्रद्धाजलि—24-5-1971।

विसि, श्री प्रमथ नाथ एम० ए०, (नाम-निर्देशित), श्री एन० एन० विसि के आत्मज, जन्म 11 जून, 1901, विवाह श्रीमती सुरुचि विसि से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, (1) पश्चिमी बंगाल विधान परिषद्, 1962—68 और (2) राज्य सभा, 3-4-1972 से 2-4-1978, 'पद्मश्री' से सम्मानित, अनेक पुस्तकों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—15-5-1985।

\*विस्वास, श्री देवव्रत बी० एससी०, फारवर्ड ब्लाक (पश्चिमी बंगाल), श्री तुलसी चरण विस्वास के आत्मज, जन्म 28 सितम्बर, 1945, विवाह श्रीमती स्वर्ण विस्वास से, 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1990 से अद्यपर्यन्त, अनेक पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता. गाव और डाकघर बगनान चेतन्य बटी जिला हुगली (पश्चिमी बंगाल)।

वीड, श्री इन्द्र भूषण काग्रैस (पश्चिमी बंगाल), श्री शशि भूषण वीड के आत्मज, जन्म 7 जनवरी, 1899, विवाहित, 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956।

स्थायी पता. 14/1/बी, श्रीनाथदास लेन, कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)।

बुध सिंह, सरदार. नेशनल कांग्रेस (जम्मू और कश्मीर), श्री अनन्त राम के आत्मज, जन्म 1884, विवाह श्रीमती माया देवी से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, जम्मू और कश्मीर विधान सभा, 1934—36, जम्मू और कश्मीर सरकार में मंत्री रहे, 1948—50, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1958 और 3-4-1958 से 2-4-1964, अध्यक्ष, प्रोवेंशिएल नेशनल कांग्रेस, जम्मू, 1950—54, अनेक पुस्तकों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—21-7-1975।

\*बूरागोहाड़, श्री भद्रेश्वरः बी० ए० (आनर्स), एम० ए०, एलएल० बी०, असम गण परिषद (असम), श्री गणेश्वर बूरागोहाड़ के आत्मज, जन्म 1 मार्च, 1947, विवाह श्रीमती चन्द्रप्रभा बूरागोहाड़ से, सदस्य, असम विधान सभा, 1985 से अप्रैल, 1990, उपाध्यक्ष, असम विधान सभा, अप्रैल, 1986 से मार्च, 1990, अध्यक्ष, (1) विशेषाधिकार समिति और (2) अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, असम विधान सभा, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1990 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता: गाव पेहीपुखवे, डाकघर लौंगपटिया द्वारा सापेखाती, जिला सिवसागर (असम)।

\*बेकल 'उत्साही', श्री एन्ड्रेस, विशारद (हिन्दी) और अदीब माहिर, कामिल और मुशी (उर्दू), कांग्रेस (आई) (उत्तर प्रदेश), मोहम्मद जफर खान लोदी के आत्मज, जन्म 1 जून, 1928, विवाह श्रीमती सोघारा वेगम से, 2 पुत्र तथा 4 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 5-7-1986 से अद्यपर्यन्त, 1976 में 'पद्मश्री' से विभूषित, अन्य साहित्यिक पुरस्कारों से पुरस्कृत, हिन्दी और उर्दू में अनेक पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता. 'गीताज', सिविल लाइन, बलरामपुर, जिला-गोडा (उत्तर प्रदेश)।

\*बेनीवाल, श्रीमती विद्या: आठवीं कक्षा (हिन्दी), जनता दल (एस) (हरियाणा), श्री अर्जुन राम की आत्मजा, जन्म 1944, विवाह चौधरी जगदीश कुमार बेनीवाल से, 1 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) हरियाणा विधान सभा, 1987—90 और (2) राज्य सभा, 10-4-1990 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता. गाव और डाकघर दडवा कला, जिला सिरसा (हरियाणा)।

\*बेबी, श्री एम० ए० भा० सा० द० (मार्क्सवादी) (केरल), श्री पी० एम० अलेग्जेडर के आत्मज, जन्म अप्रैल, 1954, विवाह श्रीमती वेटी लुइस से, 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1986 से अद्यपर्यन्त, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1990-91।

स्थायी पता भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी), कोल्लम जिला समिति कार्यालय, पोलायाथोडू, कोल्लम (केरल)।

बेरवा, श्री जमनालाल: कांग्रेस (राजस्थान), श्री नानग राम के आत्मज, जन्म अगस्त, 1933, विवाह श्रीमती रुक्मिणी देवी से, 4 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) लोक सभा, 1967—70 और (2) राज्य सभा, 10-4-1972 से 9-4-1978।

स्थायी पता. धन्ना तलाई, टोक, जिला टोक (राजस्थान)।

बेहरिग, श्री बी० डी०. जनता दल (मणिपुर), सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1990 (राज्य सभा के सदस्य के रूप में शपथ लिए बिना और सभा में स्थान ग्रहण किये बिना उसी दिन त्यागपत्र दे दिया)।

स्थायी पता. गाव खबाथेल, डाकघर सुगनु (मणिपुर)।

बोदरा, श्री थियोडोर. बी० ए०, बी० एल०, झारखण्ड पार्टी (बिहार), श्रद्धेय श्री खूस्तानन्द बोदरा के आत्मज, जन्म 1 जनवरी, 1917, विवाह श्रीमती अबिनाशी बोदरा से, 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1954 से 2-4-1960।

स्थायी पता नयाटोली, राची (बिहार)।

\*वर्तमान सदस्य।

बोसडे, श्री शंकरराव बाजीराव: 24 सितम्बर, 1915, विवाह डा (क) 2-4-1970 और 3-4-1970 के

स्थायी पता. अधिवक्ता, कच्छांड देव

बोस, डा० अतीन्द्र नाथ: (पश्चिमी बंगाल); श्री (1) पश्चिमी बंगाल विधान सभा, बंगला भाषा की

बोस, श्रीमती प्रतिभा: 1923, विवाह श्री प्रदेश कांग्रेस

बोस, प्रो: 1 जनवरी और

प्रवर्द्धन श्री

श्री

श्री



**भगवती, श्री वी० सी० :** कांग्रेस (असम); श्री दुर्गेश्वर सरमा भगवती के आत्मज, जन्म : मार्च, 1907, विवाह श्रीमती विमल देवी से, 4 पुत्र, सदस्य, (1) असम विधान सभा, 1947—57 और (2) लोक सभा, 1957—70, केन्द्रीय उप-मन्त्री, परिवहन और संचार तथा निर्माण, आवास और शहरी विकास, मई, 1962 से मार्च, 1967, सभापति, आवास समिति, लोक सभा, 1967—70, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1972 से 9-4-1978, अध्यक्ष, असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अध्यक्ष, आई० एन० टी० यू० सी०, 1971, अनेक पुस्तकों के लेखक।

**स्थायी पता :** डाकघर-तेजपुर, जिला दारंग (असम)।

**भगवान दीन, श्री :** हाई स्कूल, कांग्रेस (आई) (उत्तर प्रदेश), श्री गोरेलाल के आत्मज, जन्म 1 अप्रैल, 1916, विवाह श्रीमती शीला देवी से, 9 पुत्र तथा 6 पुत्रिया, सदस्य, (1) सविधान सभा, 1946—50, (2) उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1946—52 और 1952—57 और (3) राज्य सभा, 3-4-1976 से 2-4-1982।

**स्थायी पता :** सी/370, महानगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।

**भजन लाल, श्री :** एफ० ए० (इन्टरमीडिएट इन आर्ट्स), कांग्रेस (आई) (हरियाणा), चौधरी खेरज के आत्मज, जन्म 6 अक्टूबर, 1930, विवाह श्रीमती जसमन देवी से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, हरियाणा विधान सभा, 1968—86, हरियाणा सरकार में मंत्री, 1970—75 और 1978-79, हरियाणा के मुख्य मंत्री, जून, 1979 से जून, 1986, सदस्य, राज्य सभा, 2-8-1986 से 27-11-1989, केन्द्रीय पर्यावरण और वन तथा कृषि मंत्री, 1986—89।

**स्थायी पता :** मण्डी, आदमपुर तहसील, जिला हिसार (हरियाणा)।

**भट्ट, श्रीमती ईला रमेश :** वी० ए०, एलएल० वी०, श्रम और सहकारिता में अन्तर्राष्ट्रीय डिप्लोमा (इजराइल), (नाम-निर्देशित), श्री सुमन भट्ट की आत्मजा, जन्म . 7 सितम्बर, 1933, विवाह श्री रमेश मणिलाल भट्ट से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 12-5-1986 से 26-9-1988, निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त किए, (1) मेगसेसे पुरस्कार, 1977, (2) पद्मश्री, 1985, (3) पद्म भूषण, 1986, तथा कई राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार, महिलाओं की समस्याओं पर अनेक पुस्तकों की लेखिका।

**स्थायी पता :** 5, पचशील सोसायटी, उस्मानपुर, अहमदाबाद (गुजरात)।

**\*भट्ट, श्री जितेन्द्रभाई लाभशंकर :** वी० काम०, एफ० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउंटेंट, कांग्रेस (आई) (गुजरात), श्री लाभशंकर जी भट्ट के आत्मज, जन्म 29 मार्च, 1927, विवाह श्रीमती ज्योत्सना देवी से, 1 पुत्र तथा 4 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 14-8-1987 से अद्यपर्यन्त।

**स्थायी पता :** 12, अशोक सोसायटी, सुरेन्द्र नगर (गुजरात)।

भट्ट, श्री नन्द किशोर • एम० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस (आई) (मध्य प्रदेश), श्री सिद्धनाथ जी भट्ट के आत्मज, जन्म 17 दिसम्बर, 1919, विवाह श्रीमती तारा प्रियदर्शिनी से, 1 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1966 से 2-4-1972, 10-4-1972 से 9-4-1978 और 30-6-1980 से 29-6-1986, अध्यक्ष, 'इटक', 1980—84।

स्थायी पता डी/32, तारा अपार्टमेंट्स, कालका जी, नई दिल्ली।

भट्ट, श्री नानाभाई एम० ए०, एस० टी० सी० डी० (मुम्बई), काग्रेस (सौराष्ट्र अब गुजरात), श्री कालिदास भट्ट के आत्मज, जन्म नवम्बर, 1881, विवाह श्रीमती अज्वालि वहन से, 4 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सौराष्ट्र सरकार में मंत्री, 1948-49, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956, अनेक पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता • लोक भारती, सनोसारा, सौराष्ट्र (गुजरात)।

भट्टाचार्य, श्रीमती इला : बी० ए० (ऑनर्स), भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) (त्रिपुरा), श्री जतीन्द्र मोहन चनर्जी की आत्मजा, जन्म 25 सितम्बर, 1921, विवाह श्री नरेन्द्र नाथ भट्टाचार्य से, 2 पुत्र तथा 5 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1980 से 2-4-1986।

स्थायी पता कृष्ण नगर, अगरतला (त्रिपुरा)।

भट्टाचार्य, श्री कमलेन्दु. एम० ए० (अग्रेजी), काग्रेस (आई) (असम), श्री कामिनी मोहन भट्टाचार्य के आत्मज, जन्म 1 मार्च, 1946, विवाह श्रीमती सुदेशना भट्टाचार्य से, 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1984 से 9-4-1990।

स्थायी पता सुभाष नगर, सिलचर-4, जिला-कछार (असम)।

भट्टाचार्य, श्री जी० सी०. बी० ए०, एलएल० बी०, लोकतांत्रिक समाजवादी दल (उत्तर प्रदेश), श्री जे० एन० भट्टाचार्य के आत्मज, जन्म जून, 1931, विवाह श्रीमती अर्चना भट्टाचार्य से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1978 से 2-4-1984, उपाध्यक्ष, "इटक"।

स्थायी पता • 10, सप्रू रोड, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)।

भट्टाचार्य, श्री नेपालदेव बी० एससी०, भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) (पश्चिमी बंगाल), श्री आदित्यदेव भट्टाचार्य के आत्मज, जन्म 19 दिसम्बर, 1950, अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 28-9-1981 से 2-4-1982 और 3-4-1982 से 2-4-1988।

स्थायी पता 45, वैस्ट घोषपाडा रोड, डाकघर भाटपाडा, जिला 24 परगना (पश्चिमी बंगाल)।

\*भट्टाचार्य, प्रो० सौरीन्द्रः एम० ए०, क्रान्तिकारी समाजवादी दल (पश्चिमी बंगाल), श्री सत्येन्द्रनाथ भट्टाचार्य के आत्मज, जन्म 30 जनवरी, 1926, विवाह श्रीमती मीरा भट्टाचार्य से, 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1978 से 2-4-1984 और 3-4-1988 से अद्यपर्यन्त, इतिहास की पाठ्य-पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता: 50/1, शरत घोष गार्डन रोड, कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)।

भण्डारी, श्री सुन्दर सिंहः एम० ए०, एलएल० बी०, भारतीय जनता पार्टी (उत्तर प्रदेश), डा० सुजान सिंह जी भंडारी के आत्मज, जन्म 12 अप्रैल, 1921, अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1966 से 2-4-1972 और 3-4-1976 से 2-4-1982, सचिव, भारतीय जन सघ, राजस्थान, 1951—60, अखिल भारतीय सचिव और महासचिव, भारतीय जन सघ, 1961—77।

स्थायी पता: पचायती नोहरा के सामने, उदयपुर (राजस्थान)।

भदौरिया, श्रीमती सरला: वनिता (वर्धा आश्रम), विशारद, साहित्य रत्न (साहित्य सम्मेलन, प्रयाग) और माटिसरी में डिप्लोमा, एस० एस० पी० (उत्तर प्रदेश), ठाकुर सूर्यभक्त सिंह चौहान की आत्मजा, जन्म 1921; विवाह श्री अर्जुन सिंह भदौरिया से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1964 से 2-4-1970।

स्थायी पता. ग्राम लुहया, डाकघर बसरेहर, जिला इटावा (उत्तर प्रदेश)।

भद्रम, श्री एम० वी०: भारतीय साम्यवादी दल (आन्ध्र प्रदेश), श्री ब्रह्मनन्दम के आत्मज, जन्म 31 जनवरी, 1918, विवाह श्रीमती लक्ष्मी से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, (1) मद्रास विधान सभा, 1952-53, (2) आन्ध्र प्रदेश विधान सभा, 1953-54 और (3) राज्य सभा, 3-4-1966 से 2-4-1972।

स्थायी पता: म्युनिसिपल कालोनी, विशाखापटनम-1 (आन्ध्र प्रदेश)।

\*भाटिया, श्री मदनः वी० ए० (आनर्स), एम० ए० (अग्रेजी) पंजाब और एम० ए० कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, बैरिस्टर-एट-लॉ, कांग्रेस (आई) (नाम-निर्देशित), श्री राधा किशन के आत्मज, जन्म 21 अगस्त, 1929, विवाह श्रीमती मोहिनी भाटिया से, सदस्य, राज्य सभा, 27-9-1982 से 26-9-1988 और 25-11-1988 से अद्यपर्यन्त, "पब्लिक सर्विसेस लॉ थ्रू द केसेज" के लेखक।

स्थायी पता: 159, गोल्फ लिक्स, नई दिल्ली।

भाभडा, श्री हरी शंकरः वी० ए०, एलएल० बी०, प्रभाकर (हिन्दी), भारतीय जनता पार्टी (राजस्थान), श्री मन्नालाल जी भाभडा के आत्मज, जन्म 6 अगस्त, 1928, विवाह श्रीमती यशोदा देवी से, 2 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1978 से 9-4-1984, अध्यक्ष, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी, 1980।

स्थायी पता: 49, सिविल लाइन्स, जयपुर (राजस्थान)।

भारती, श्रीमती के० उदय भानु० वी० एम्सी०, काग्रेम (केरल), श्री एस० कर्कचुपिल्ला पणिकर की आत्मजा, जन्म 2 अगस्त, 1913, विवाह श्री ए० पी० उदय भानु से, 1 पुत्र तथा 4 पुत्रियां, मदन्य, राज्य सभा, 3-4-1954 से 2-4-1958 और 3-4-1958 से 2-4-1964, "फ्रॉम-किचन टु पार्लियामेंट" (मलयालम में) की लेखिका, केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1960 से सम्मानित।

स्थायी पता: मुत्तुकुलोन, जिला अल्लेपी (केरल)।

भारद्वाज, श्री जगन्नाथ: वी० एससी०, काग्रेम (हिमाचल प्रदेश), हवलदार पंडित लालजी राम के आत्मज, जन्म 30 सितंबर, 1916, विवाह श्रीमती धनवन्ती से, 1 पुत्र तथा 2 पुत्रियां, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1972 से 9-4-1978, दिवगत। श्रद्धाजलि—23-2-1987।

भारद्वाज, श्री रामचन्द्र. काग्रेम (आई) (बिहार), श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह के आत्मज, सदस्य, राज्य सभा, 7-7-1980 से 6-7-1986, सचिव, बिहार प्रदेश काग्रेम कमेटी, दिवगत। श्रद्धाजलि—6-11-1987।

\*भारद्वाज, श्री हसराम एम० ए०, एलएल० वी०, काग्रेम (आई) (मध्य प्रदेश), श्री जगन्नाथ प्रसाद के आत्मज, जन्म 17 मई, 1937, विवाह श्रीमती प्रफुल्लता भारद्वाज से, 1 पुत्र तथा 2 पुत्रियां, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1982 से 2-4-1988 और 3-4-1988 से अद्यपर्यन्त, केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री, दिसम्बर, 1984 से नवम्बर, 1989।

स्थायी पता ई-7/19, चार इमली, भोपाल (मध्य प्रदेश)।

भार्गव, श्री भगवत नारायण० वी० ए०, एलएल० वी०, काग्रेम (उत्तर प्रदेश), पंडित बाबूलाल भार्गव के आत्मज, जन्म 25 नवंबर, 1891, विवाह श्रीमती शिवा देवी भार्गव से, 3 पुत्र तथा 2 पुत्रियां, सदस्य, (1) उत्तर प्रदेश विधान परिषद्, 1923—30, (2) उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1936—45 और (3) राज्य सभा, 3-4-1960 से 2-4-1966, हिन्दी भाषा में अनेक पुस्तकों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—17-11-1980।

भार्गव, श्री महावीर प्रसाद० वी० एससी०, काग्रेम (उत्तर प्रदेश), प० शिव दत्त भार्गव के आत्मज, जन्म 30 दिसम्बर, 1917, विवाह श्रीमती चन्द्र कान्ति भार्गव से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 13-12-1956 से 2-4-1958, 3-4-1958 से 2-4-1964 और 3-4-1964 से 2-4-1970, स्थायी सचिव, अखिल भारतीय काग्रेम कमेटी, जुलाई, 1949 से जनवरी, 1957, उप-सभाध्यक्ष राज्य सभा, 1960-61 और 1962-63।

स्थायी पता. 1203, बाग मुजफ्फर खान, आगरा (उत्तर प्रदेश)।

भार्गव, श्रीमती शारदा: एम० ए०, कांग्रेस (राजस्थान), पं० मुकुट बिहारी लाल भार्गव की आत्मजा, जन्म 7 मई, 1912, विवाह प्रो० भगवान दास भार्गव से, 4 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, (1) जयपुर विधान परिषद्, 1945—49, (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956, 3-4-1956 से 2-4-1962 और 22-8-1963 से 2-4-1966, उप-सभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1956-57।

स्थायी पता. सवाई मानसिंह राज मार्ग, जयपुर (राजस्थान)।

भीम राज, श्री: वी० ए०, कांग्रेस (आई) (राजस्थान), चौधरी अगद राज के आत्मज, जन्म 28 दिसम्बर, 1943, विवाह श्रीमती दमयती देवी से, 2 पुत्र, सदस्य, (1) राजस्थान विधान सभा, 1972—77 और (2) राज्य सभा, 10-4-1978 से 9-4-1984 और 10-4-1984 से 9-4-1990, अध्यक्ष, आवास समिति, राज्य सभा, 1986—88।

स्थायी पता: ग्राम लीलावाली, तहसील सागरिया, जिला गंगा नगर (राजस्थान)।

भुपिन्दर सिंह, श्री० इन्टरमीडिएट, निर्दलीय (पजाब), सरदार राजिन्दर सिंह बरार के आत्मज, जन्म 1 जुलाई, 1926, विवाह श्रीमती प्रकाश बरार से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य राज्य सभा, 6-4-1967 से 2-4-1970।

स्थायी पता: झिडवाला गाव, महाबडेर, जिला फिरोजपुर (पजाब)।

भुयान, श्री गया चंद वी० ए०, एलएल० वी०, जनता पार्टी (उडीसा), श्री हरेकृष्ण भुयान के आत्मज, जन्म 27 फरवरी, 1927, विवाह श्रीमती क्ष्यामलता भुयान से, 4 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1982 से 2-4-1988, दिवगत। श्रद्धाजलि—24-4-1989।

भुयान, डा० सूर्य कुमार: एम० ए०, वी० एल० (कलकत्ता), पीएच० डी० (लदन), डी०लिट० (लदन), कांग्रेस (असम), श्री श्रीजुत रविलाल भुयान के आत्मज, जन्म जनवरी, 1894, विवाह श्रीमती लक्ष्मिणी भुयान से, 3 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954, अनेक पुस्तको के लेखक। दिवगत, 5-7-1964।

भुवालका, श्री राम कुमार. कांग्रेस (पश्चिमी बंगाल), श्री रगलाल भुवालका के आत्मज, जन्म 4 मई, 1897, विवाह श्रीमती ताग देवी से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रियां, सदस्य, (1) पश्चिमी बंगाल विधान परिषद्, 1954—63 और (2) राज्य सभा, 9-9-1963 से 2-4-1968, दिवगत। श्रद्धाजलि—23-1-1980।

**भूपेन्द्र सिंह, श्री:** ज्ञानी, बी० ए०, अकाली दल (पंजाब), सरदार नरायण सिंह के आत्मज, जन्म 17 अगस्त, 1910, विवाह श्रीमती हरवस कौर से, 3 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1970 से 2-4-1976 और 13-10-1976 से 9-4-1978, अध्यक्ष, शिरोमणि अकाली दल (मास्टर ग्रुप) 1962—68।

**स्थायी पता:** डेरा बाबा जोगा सिंह चौक, चिन्तपुरनी, अमृतसर (पंजाब)।

**भैरो प्रसाद, श्री:** बी० ए०, कांग्रेस (मध्य प्रदेश), श्री अम्बिका प्रसाद के आत्मज, जन्म 6 फरवरी, 1900, विवाह श्रीमती शोलावती देवी से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, मंत्री, भोपाल राज्य, 1947-48, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1958।

**स्थायी पता:** कोतवाली के निकट, भोपाल (मध्य प्रदेश)।

**भोला प्रसाद, श्री:** भारतीय साम्यवादी दल (बिहार), श्री रामरूप महतो के आत्मज, जन्म 7 जनवरी, 1918, विवाह श्रीमती गीता देवी से, 4 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1970 से 2-4-1976, और 3-4-1976 से 2-4-1982।

**स्थायी पता:** किसान मजदूर केन्द्र, लखी सराय, जिला मुंगेर (बिहार)।

**मंजुरन, श्री मथई बी० ए०,** सोशलिस्ट पार्टी (ट्रावनकोर कोचीन अब केरल), श्री मैथ्यू के आत्मज, जन्म 15 अक्टूबर, 1913, अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954, मलयालम में पुस्तकों के लेखक।

**स्थायी पता:** पचालम, एर्णाकुलम (केरल)।

**मडल, श्री अहमद हुसैन:** एम० ए०, एलएल० बी०, कांग्रेस (आई) (प० बंगाल), श्री अल-हज उल्फत हुसैन मडल के आत्मज, जन्म 28 फरवरी, 1928, विवाह वेगम फैजुन्निसा अहमद से, 4 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1) प० बंगाल विधान परिषद, 1964—67, (2) प० बंगाल विधान सभा, 1967-68 और (3) राज्य सभा, 10-7-1975 से 9-7-1981, उपाध्यक्ष, प० बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, 1968-69।

**स्थायी पता:** डाकघर बाकुय, जिला-हावडा (प० बंगाल)।

**मडल, श्री भूपेन्द्र नारायण बी० ए०, बी० एल०,** भारतीय लोक दल (बिहार), श्री जयनारायण मडल के आत्मज, जन्म 1 फरवरी, 1904, विवाह श्रीमती राधावती यादव से, 2 पुत्र, सदस्य, (1) बिहार विधान सभा, 1957—62, (2) लोक सभा, 1962—64 और (3) राज्य सभा, 3-4-1966 से 2-4-1972 और 10-4-1972 से 30-5-1975, सचिव, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, बिहार, 1954-55, अध्यक्ष, (1) बिहार सोशलिस्ट पार्टी, 1955 और (2) सोशलिस्ट पार्टी आफ इंडिया, 1959 तथा 1972, दिवंगत। श्रद्धांजलि—21-7-1975।

मकवाणा, श्री योगेन्द्र वी० ए०, एलएल० वी०, कांग्रेस (आई) (गुजरात), श्री मावजीभाई मकवाणा के आत्मज, जन्म 23 अक्टूबर, 1933, विवाह श्रीमती शातावेन मकवाणा से, 1 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 5-3-1973 से 2-4-1976, 3-4-1976 से 2-4-1982 और 3-4-1982 से 2-4-1988, केन्द्र में गृह, संचार और कृषि विभागों के राज्य मंत्री, 1980—88, महासचिव, गुजरात प्रदेश कांग्रेस (आई) कमेटी, 1975—80।

स्थायी पता: “द्वारकेश,” 12, हेमन्तकुज सोसायटी, पालाडी, अहमदाबाद (गुजरात)।

मजहर इमाम, सैयद कांग्रेस (बिहार), सैयद फजल इमाम के आत्मज, जन्म 1908 में, विवाहित, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) बिहार विधान सभा, 1946 तथा (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956 और 3-4-1956 से 2-4-1962, दिवगत। श्रद्धाजलि—22-2-1988।

मजूमदार, श्री रामकृष्णः एम० ए० (राजनीति शास्त्र), फॉरवर्ड ब्लॉक (पश्चिमी बंगाल), श्री जोगेश चन्द्र मजूमदार के आत्मज, जन्म 1 फरवरी, 1929, विवाह श्रीमती विभा मजूमदार से, 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1982 से 22-8-1987, दिवगत। श्रद्धाजलि—24-8-1987।

मजूमदार, श्री सत्येन्द्र नारायणः वी० ए०, साम्यवादी दल (पश्चिमी बंगाल), श्री उमेश चन्द्र मजूमदार के आत्मज, विवाह श्रीमती अमिया मजूमदार से, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 5-4-1957, कुछ पुस्तकों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—27-7-1987।

मजूमदार, श्री एम० आर०ः वी० एससी०, एलएल० वी०, कांग्रेस (मध्य प्रदेश), श्री रामचन्द्र राव मजूमदार के आत्मज, जन्म 8 सितंबर, 1888, विवाह श्रीमती राधाबाई से, 2 पुत्र और 4 पुत्रिया, सदस्य, (1) मध्य प्रदेश विधान सभा, 1937—52 और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956।

स्थायी पता: बुरहानपुर (मध्य प्रदेश)।

मजूमदार, श्री सुरेश चन्द्रः कांग्रेस (पश्चिमी बंगाल), जन्म दिसम्बर, 1888, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954 और 3-4-1954 से 12-8-1954, दिवगत। श्रद्धाजलि—23-8-1954।

\*मट्टू, श्री गुलाम रसूलः मेट्रिक, नेशनल कांग्रेस (जम्मू और कश्मीर), हाजी मोहम्मद शाह मट्टू के आत्मज, जन्म 23 मार्च, 1925, विवाह श्रीमती फातिमा गुलाम रसूल मट्टू से, 2 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1982 से 2-4-1988 तथा 3-4-1988 में अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता: के द्वारा मट्टू ब्रदर्स, हरि सिंह हाई स्ट्रीट, श्रीनगर, कश्मीर।

मणि, श्री ए० डी० एम० ए० (राजनीति शास्त्र तथा अर्थशास्त्र); निर्दलीय (मध्य प्रदेश), श्री दुईन्वामो अय्यर के आत्मज, जन्म 8 अप्रैल, 1910, विवाह श्रीमती कमला मणि से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 22-12-1960 से 2-4-1966 तथा 3-4-1966 से 2-4-1972, दिवगत। श्रद्धाजलि—22-2-1978।

\*मदनी, श्री मौलाना असद. फाजिल (इस्लामी धर्मशास्त्र में एम० ए० के बराबर), कांग्रेस (आई) (उत्तर प्रदेश), मौलाना हुसेन अहमद मदनी के आत्मज, जन्म 1928 में, विवाह श्रीमती वरीरह बानो से, 4 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1968 से 2-4-1974, 5-7-1980 से 4-7-1986 और 3-4-1988 से अद्यपर्यन्त, उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी।

स्थायी पता मदनी मजिल, देवबन्द, जिला सहारनपुर (उत्तर प्रदेश)।

मदना, श्री एम० वी० ए० तक अध्ययन किया, कांग्रेस (आई) (कर्णाटक), श्री माली चिक्कापपन्ना के आत्मज, जन्म 5 जून, 1937, विवाह श्रीमती केनचम्मा से, 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1980 से 2-4-1986।

स्थायी पता: 5, III क्रॉस, अत्रायप्पा ब्लॉक, कुमार पार्क वैस्ट, बगलौर (कर्णाटक)।

मनहर, श्री भगताराम वी० एससी० (एग्रीकल्चर), कांग्रेस (आई) (मध्य प्रदेश), श्री राजा राम मनहर के आत्मज, जन्म 22 अक्टूबर, 1938, विवाह श्रीमती कमला मनहर से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1) लोक सभा, 1974—77 और (2) राज्य सभा, 10-4-1978 से 9-4-1984 तथा 10-4-1984 से 9-4-1990।

स्थायी पता: गाव तथा डाकखाना चम्पा, जिला विलासपुर (मध्य प्रदेश)।

मलकानी, श्री नारायणदास रत्नमल एम० ए० (बम्बई), एम० ए० (कलकत्ता), एलएल० वी०, (नाम-निर्देशित), श्री रत्नमल गिडुमल मलकानी के आत्मज, जन्म अक्टूबर, 1890, विवाह श्रीमती रुकमणीबाई से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956 और 3-4-1956 से 2-4-1962, सिन्धी पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता: टीएचएक्स-64, डाकघर आदिपुर, कच्छ (गुजरात)।

मलिक, श्री धीरेन्द्र चन्द्र: वी० एससी०, एम० ए०, एलएल० वी०, कांग्रेस (बिहार), श्री भूपेन्द्र चन्द्र मलिक के आत्मज, जन्म 17 मई, 1894, अविवाहित, सदस्य, (1) लोक सभा, 1957—62 और (2) राज्य सभा, 3-4-1962 से 2-4-1968, कविताओं की कुछ पुस्तकों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—23-3-1971।



**मलिक, श्री मुख्तियार, सिंह:** बी० ए०, एलएल० बी०, कांग्रेस (आई) (हरियाणा), चौधरी शिवदयाल के आत्मज, जन्म 3 जुलाई, 1912, विवाहित, 1 पुत्री, सदस्य, (1) पंजाब विधान सभा, 1962—66, (2) हरियाणा विधान सभा, 1966-67 और 1968—71, (3) लोक सभा, 1971—79 और (4) राज्य सभा, 6-4-1967 से 2-4-1968 और 10-4-1984 से 9-4-1990, अध्यक्ष, (1) जन सघ, (हरियाणा) 1966—69 और 1972—75 और (2) जनता पार्टी, हरियाणा, 1978—80।

**स्थायी पता:** गाव और डाकघर कुडली, जिला सोनीपत (हरियाणा)।

**मलिक, श्री सत्यपाल:** बी० एससी०, एलएल० बी०, ससदीय कार्य में डिप्लोमा, कांग्रेस (आई) (उत्तर प्रदेश), श्री वृष सिंह के आत्मज, जन्म 24 जुलाई, 1946, विवाह श्रीमती इकबाल मलिक से, सदस्य, (1) उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1974—76 तथा (2) राज्य सभा, 5-7-1980 से 4-7-1986 और 5-7-1986 से 14-9-1989, सचिव, (1) ऑल इंडिया, भारतीय लोक दल, 1975-76 तथा (2) अखिल भारतीय लोकदल, 1979—84, महासचिव, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (आई), 1985।

**स्थायी पता:** गाव और डाकघर हिसावादा, जिला मेरठ (उत्तर प्रदेश)।

**मलिक, श्री सैयद अब्दुल:** एम० ए० (असमिया), कांग्रेस (आई) (असम), श्री सैयद रहमत अली के आत्मज, जन्म 19 जनवरी, 1919, विवाह श्रीमती हसना मलिक से, 1 पुत्र और 5 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा 3-4-1976 से 2-4-1982, (1) सोवियत देश नेहरू पुरस्कार, 1965 तथा (2) साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1972 से सम्मानित, अनेक उपन्यासों, लघु कथाओं, काव्य संग्रह, नाटकों आदि के लेखक।

**स्थायी पता:** गाव और डाकघर नहरानी, जिला शिवसागर (असम)।

**मलिक, डा० हरेकृष्ण:** एम० बी० बी० एस०, एम० डी० (सेगविज्ञान), जनता पार्टी (उड़ीसा), श्री प्राणकृष्ण मलिक के आत्मज, जन्म 4 अगस्त, 1931, विवाह श्रीमती मानसी मलिक से, 3 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1978 से 2-4-1984, उपाध्यक्ष, उड़ीसा कांग्रेस (स०), 1974—77।

**स्थायी पता:** गाव और डाकघर मध्य कच्छ, जिला कटक (उड़ीसा)।

**मलिकार्जुनुडु, श्री के० पी०:** एम० ए०, बी० एल०, कांग्रेस (स०) (आंध्र प्रदेश), श्री अल्लामय्या अय्यावरु के आत्मज, जन्म 25 दिसम्बर, 1901, विवाह श्रीमती अन्नपूर्णा से, 2 पुत्र और 6 पुत्रिया, सदस्य, (1) मद्रास विधान परिषद्, 1937—40 और (2) राज्य सभा, 3-4-1966 से 2-4-1972, तेलुगु तथा अग्रेजी पुस्तकों के लेखक।

**स्थायी पता:** बुट्टय्यापेट, मछलीपट्टम (आंध्र प्रदेश)।

मल्होत्रा, श्रीमती उषा गायन संगीत में बी० ए०, कांग्रेस (आई) (हिमाचल प्रदेश), डा० एम० एल० वहल की आत्मजा, जन्म 6 अगस्त, 1933, विवाह श्री हरीश चन्द्र मल्होत्रा से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1980 से 2-4-1986।

स्थायी पता 'उषा किरण', दि माल, शिमला (हिमाचल प्रदेश)।

मल्लिक चौधरी, श्री सुहृद् फॉरवर्ड ब्लॉक (मार्क्सवादी) (पश्चिमी बंगाल), श्री बाके विहारी मल्लिक चौधरी के आत्मज, जन्म 25 नवंबर, 1918, अविवाहित, सदस्य, (1) पश्चिमी बंगाल विधान सभा, 1952 और 1957 और (2) राज्य सभा, 10-7-1969 से 9-7-1975, महासचिव, पश्चिमी बंगाल फॉरवर्ड ब्लॉक (मार्क्सवादी), उपाध्यक्ष, 'सीटू', दिवंगत। श्रद्धाजलि—17-11-1980।

मसूद, श्री रशीद बी० एससी०, एलएल० एम०, जनता दल (उत्तर प्रदेश), श्री काजी मसूद के आत्मज, जन्म 15 अगस्त, 1947, विवाह श्रीमती सुआलेहा मसूद से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1) लोक सभा, 1977—79 तथा 1980—84 और (2) राज्य सभा, 5-7-1986 से 27-11-1989, महासचिव, लोक दल, 1985—89।

स्थायी पता गगोह, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश)।

महतो, श्री चन्धु एम० ए० (अंग्रेजी), बी० एल०, शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा, कांग्रेस (आई) (बिहार), चौधरी महतो के आत्मज, जन्म 10 नवंबर, 1934, विवाह श्रीमती शीला देवी से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, बिहार विधान सभा, 1972—77 और 1977—80, राज्य मंत्री, बिहार सरकार, 1972-73, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1984 से 9-4-1990, महासचिव, बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति, 1982-83।

स्थायी पता ग्राम-कापन, डाकघर सिंधियाघाट, जिला ममस्तीपुर (बिहार)।

महन्त, श्री सुशील चन्द . बी० एससी०, एलएल० बी०, लोकदल (हरियाणा), श्री हरिचन्द महन्त के आत्मज, जन्म 26 अप्रैल, 1929, विवाह श्रीमती ऊषा देवी महन्त से, 3 पुत्र, महाधिवक्ता, हरियाणा, 1977-79, सदस्य, राज्य सभा, 2-8-1980 से 1-8-1986।

स्थायी पता मकान न० 578, सैक्टर 8-बी, चण्डीगढ़।

महन्ती, श्री धनन्जय . मैट्रिक-पास, कलकत्ता उच्च न्यायालय से मुख्तगी की परीक्षा उत्तीर्ण की और उड़ीसा उच्च न्यायालय से अधिवक्ता (प्लेडर) की परीक्षा उत्तीर्ण की, कांग्रेस (उड़ीसा), श्री भाषाग्रही महन्ती के आत्मज, जन्म 6 जून, 1915, विवाह श्रीमती सरस्वती देवी से, 4 पुत्र और 5 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 22-8-1961 से 2-4-1964, उपाध्यक्ष, 'इन्क', उड़ीसा, 1956-57।

स्थायी पता डाकघर राउरकेला-1, जिला सुन्दरगढ़ (उड़ीसा)।

महन्ती, श्री भैरव चन्द्र : वी० ए०, निर्दलीय (उडीसा), श्री कुलमणि महन्ती के आत्मज, जन्म 13 जुलाई, 1913, विवाह श्रीमती गीताजलि महन्ती से, 3 पुत्र, सदस्य, उडीसा विधान सभा, 1946—57 और 1971-72, मंत्री, उडीसा सरकार, 1952—56, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1974 से 2-4-1980, दिवगत। श्रद्धाजलि—25-7-1980।

महन्ती, श्री विनय कुमार . वी० ए०, कांग्रेस (उडीसा), श्री बालुकेश्वर महन्ती के आत्मज, जन्म 20 जनवरी, 1933, अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1964 से 2-4-1970 तथा 3-4-1970 से 2-4-1976, महामंत्री/अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर सघ कांग्रेस, उडीसा, महामंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, दिवगत। श्रद्धाजलि—18-11-1985।

\*महन्ती, श्री शारदा : वी० ए०, वी० एल०, जनता दल (उडीसा), श्री फकीर चरण महन्ती के आत्मज, जन्म 7 मार्च, 1925, विवाह श्रीमती विद्यावती महन्ती से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1990 से अद्यपर्यन्त, महासचिव, जनता दल, उडीसा।

स्थायी पता . बाका बाजार, कटक (उडीसा)।

महन्ती, श्री सुभाष : एम० ए० (इतिहास), कांग्रेस (आई) (उडीसा), श्री किशोर चन्द्र महन्ती के आत्मज, जन्म 7 जनवरी, 1949, विवाह श्रीमती कविता महन्ती से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1984 से 2-4-1990।

स्थायी पता . ग्राम और डाकघर टिगिरिया, जिला कटक (उडीसा)।

महन्ती, श्री सुरेन्द्र . कांग्रेस (आई) (उडीसा), श्री लोकनाथ महन्ती के आत्मज, जन्म 21 मई, 1922, विवाह श्रीमती रेणुका महन्ती से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1) राज्य सभा, 3-4-1952 से 23-3-1957 और 3-4-1978 से 2-4-1984 और (2) लोक सभा, 1957—62 और 1971—77, (1) उडीसा साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1954 और (2) साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1970 से सम्मानित, अनेक पुस्तको के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—27-12-1990।

\*महाजन, श्री प्रमोद : वी० एससी० (भौतिक शास्त्र), एम० ए० (राजनीति शास्त्र) और पत्रकारिता में डिप्लोमा, भारतीय जनता पार्टी (महाराष्ट्र), श्री चैकटेश के आत्मज, जन्म . 30 अक्टूबर, 1949, विवाह श्रीमती रेखा से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 5-7-1986 से अद्यपर्यन्त, महासचिव, महाराष्ट्र, (1) जनता पार्टी, 1978—80 और (2) भारतीय जनता पार्टी, 1980—83, सचिव, भारतीय जनता पार्टी, 1983—86।

स्थायी पता : 8, गुरु अशीष, निकट वसन्त पार्क, चेन्वूर, वम्बई (महाराष्ट्र)।

महापात्र, श्री बसुदेव वी० कॉम०, एलएल० वी०, कांग्रेस (आई) (उडीसा), श्री वामदेव महापात्र के आत्मज, जन्म 8 अप्रैल, 1932, विवाह श्रीमती सलिला महापात्र से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, उडीसा विधान सभा, 1971—73, 1974—77 और 1980—85, उडीसा सरकार में 1980—1985 तक मंत्री रहे, अध्यक्ष, सार्वजनिक उपक्रम समिति, उडीसा विधान सभा, 1974—77, सदस्य, राज्य सभा, 2-7-1986 से 28-10-1990, महासचिव, उडीसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (आई), 1985—88, दिवगत। श्रद्धाजलि—27-12-1990।

महापात्र, श्री भगीरथी एम० ए०, वी० एल०, कांग्रेस (उडीसा), श्री दुर्गाचरण महापात्र के आत्मज, जन्म 24 मई, 1892, विवाह श्रीमती सरला देवी से, 1 पुत्र, सदस्य, (1) केन्द्रीय विधान सभा, 1945—47 और (2) राज्य सभा, 3-4-1956 से 2-4-1962, दिवगत। श्रद्धाजलि—4-8-1975।

महापात्र, श्री लक्ष्मण वी० ए०, एलएल० वी०, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (उडीसा), श्री ब्रज महापात्र के आत्मज, जन्म 7 जून, 1923, विवाह श्रीमती रत्नमणि महापात्र से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1) उडीसा विधान सभा, 1961—73 और (2) राज्य सभा, 3-4-1974 से 2-4-1980, दिवगत। श्रद्धाजलि—22-8-1983।

महापात्र, डा० श्याम सुन्दर एम० ए०, पीएच० डी०, निर्दलीय (उडीसा), श्री नरेन्द्र नाथ महापात्र के आत्मज, जन्म 25 जनवरी, 1929, विवाह डा० (श्रीमती) राधा देवी महापात्र से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1) लोक सभा, 1971—76 और (2) राज्य सभा, 2-7-1980 से 1-7-1986, महासचिव, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (आई), 1980—82।

स्थायी पता नूपुर गेड, डाकघर बालासोर (उडीसा)।

महावीर प्रसाद, डा० एम० ए०, पीएच० डी०, लोकदल (बिहार), श्री सहदेव यादव के आत्मज, जन्म 1939 में, विवाह श्रीमती चन्द्र कला देवी से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, बिहार विधान सभा, 1967, 1969 और 1977, मंत्री, बिहार सरकार, 1968—71 और 1977—79, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1982 से 19-1-1985।

स्थायी पता . कीर्तिपुर, डाकघर बाघरस, बरगस्ता कनादियानी, जिला दरभंगा (बिहार)।

महावीर, डा० भाई . एम० ए०, पीएच० डी० (अर्थशास्त्र), भारतीय जनता पार्टी (मध्य प्रदेश), श्री भाई परमानन्द के आत्मज, जन्म . 30 अक्टूबर, 1922, विवाह श्रीमती कृष्णा कुमारी से, 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 16-4-1968 से 15-4-1974 तथा 10-4-1978 से 9-4-1984, राज्य सभा की अधीनस्थ विधान सचि समिति के अध्यक्ष, 1982—84, अखिल भारतीय जन सघ के महासचिव, 1951, अध्यक्ष, भारतीय जन सघ, दिल्ली, 1968-69, अखिल भारतीय जन सघ के उपाध्यक्ष, अर्थशास्त्र पर अनेक पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता . 389/डी०/एस०, न्यू राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली।

महिडा, श्री हरिसिंह भगुवावा . बी० ए०, एलएल० बी०, कांग्रेस (आई) (गुजरात), श्री भगुवावा महिडा के आत्मज, जन्म 19 मई, 1919, विवाह श्रीमती सीताबेन महिडा से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1) चम्बई विधान सभा, 1952—60 और (2) गुजरात विधान सभा, 1960—62 और 1972—74, मंत्री, गुजरात सरकार, सदस्य, राज्य सभा, 14-8-1975 से 13-8-1981 और 14-8-1981 से 15-3-1985।

स्थायी पता देशाद, ताल्लुका वलिया, जिला भरूच (गुजरात)।

महिडा, श्री यू० एन० : बी० ई० (सिविल), एम० आई० ई०, कांग्रेस (गुजरात), श्री नरसिंहवावा महिडा ठाकुर के आत्मज, जन्म 20 अप्रैल, 1904, विवाह श्रीमती सूरजकुंवरवा महिडा से 2 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1968 से 2-4-1974, विज्ञान की पुस्तकों के लेखक, दिवंगत। श्रद्धाजलि—4-3-1991।

महिषी, डा० (श्रीमती) सरोजिनी . एम० ए०, एलएल० बी०, पीएच० डी०, डी० लिट्०, जनता पार्टी (कर्णाटक), श्री बिन्दुराव महिषी की आत्मजा, जन्म 3 मार्च, 1927, अविवाहिता, सदस्या, लोक सभा, 1962—67, 1967—70 और 1971—77, प्रधानमंत्री की ससदीय सचिव, पर्यटन और नागर विमानन तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य से संबंधित विभागों में उपमंत्री/राज्यमंत्री, 1967—76, लोक सभा की सभापति-तालिका में तीन वर्षों के लिए सदस्या रही, सदस्या, राज्य सभा, 8-9-1983 से 9-4-1984 और 10-4-1984 से 9-4-1990, उपसभाध्यक्षा, राज्य सभा, 1984-85, कन्नड, हिन्दी और अंग्रेजी में अनेक पुस्तकों की लेखिका।

स्थायी पता राम नगर, होसयल्लापुर रोड, धारवाड (कर्णाटक)।

महेन्द्र कौर, श्रीमती . भारतीय जनता पार्टी (हिमाचल प्रदेश), सरदार हरचन्द सिंह जेजी की आत्मजा, जन्म 1922 में, विवाह पटियाला के महाराजा महामहिम यादवेन्द्र सिंह से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्या, (1) राज्य सभा, 3-4-1964 से 24-2-1967 और 10-4-1978 से 9-4-1984 तक और (2) लोक सभा, 1967—71, महासचिव, कांग्रेस (ओ), 1974—77।

स्थायी पता . 123, जोर बाग, प्रथम मजिल, नई दिल्ली।

\*महेन्द्र प्रसाद, श्री . कांग्रेस (आई) (बिहार), श्री बाली राम शर्मा के आत्मज, जन्म 8 जनवरी, 1940, विवाह श्रीमती सतुला देवी से, 3 पुत्र, सदस्य, (1) लोक सभा, 1980—84 और (2) राज्य सभा, 31-1-1985 से 6-7-1986 और 7-7-1986 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता . (1) गाँव गोविन्दपुर, डाकखाना मोदनगज, जिला जहानाबाद (बिहार) और (2) 67, पाटलीपुत्र कॉलोनी, पटना (बिहार)।

महेश शरण, श्री : श्री. ए. एल. एल. वी. कापूर (विद्यार्थी), मुजो रंग राज्य के अध्यक्ष जन्म 1890 में, विवाह श्रीमती नन्दा कुमारी देवी से 1 पुत्र, मदन्य, राज्य सभा, 3-4-1954 से 2-4-1963 तथा 3-4-1960 से 29-11-1965, स्थायी पता—धरमपुर—29-11-1965 ।

\*महेश्वर, श्री क जी श्री ए. एल. एल. वी. अनन्ता दल (कर्णाटक), श्री महादेव के अध्यक्ष जन्म 24 अक्टूबर 1928, विवाह श्रीमती सुशर्मा से 1 पुत्र, मदन्य (1) कर्णाटक विधान सभा 1983—85 और (2) राज्य सभा 3-4-1986 से अग्रजन्म।

स्थायी पता 135, वा ब्लाक, गुजराती नगर बंगलूर (कर्णाटक) ।

माझी, श्री धनेश्वर वी. ए. वी. एड., जन्मा पार्टी (उड़ीसा) श्री अमर माझी के अध्यक्ष जन्म 5 जुलाई 1941, विवाह श्रीमती निलानामा माझी से, मदन्य (1) उड़ीसा विधान सभा 1971—73 और 1974—77 और (2) राज्य सभा, 3-4-1978 से 2-4-1984 ।

स्थायी पता गाव बाजार, डाकघर दुडुना राज. ॥ राजगढ़ (उड़ीसा) ।

माझी, श्री पृथ्वी वी. ए. कापूर (आड) (अमम) श्री वीर सिंह माझी के अध्यक्ष जन्म 24 जनवरी, 1951, विवाह श्रीमती अनिता माझी से 2 पुत्र और 1 पुत्री मदन्य राज्य सभा, 10-4-1984 से 9-4-1990 ।

स्थायी पता लसाइ गाव डाकघर सम्राट्टिगढ़ (अमम) ।

माझी, श्री सी. पी. वी. एम. कापूर (उड़ीसा), श्री लक्ष्मण माझी के अध्यक्ष जन्म 19 नवम्बर 1929, विवाह श्रीमती दमयन्ती से, 5 पुत्रिया मदन्य राज्य सभा 3-4-1972 से 2-4-1978, केंद्र में पेंशेंटियम और ग्वायन तथा टैक्स विभाग से उपन्यास, 1974—76 ।

स्थायी पता गाव—राजुआ डाकघर पादुपनी, जिला मयूरभोज (उड़ीसा) ।

माधुर, श्री जगदीश प्रसाद वी. ए. एल. एल. वी., जन्म सभा (गुजरात), श्री मदन साहू के अध्यक्ष जन्म 13 जनवरी 1928 विवाह श्रीमती मनमोहिनी देवी से 1 पुत्र और 2 पुत्रिया मदन्य, (1) गुजरात विधान सभा 1957—62 और (2) राज्य सभा 3-4-1970 से 2-4-1976, राजस्थान प्रदेश जन सभा के (1) मंत्री 1957—71 तथा (2) अध्यक्ष 1972—74 ।

स्थायी पता . राज. राज्य के मिस्ट, देवीपुरा गेट, सौरा (गुजरात) ।

\*माथुर, श्री जगदीश प्रसाद • भारतीय जनता पार्टी (उत्तर प्रदेश), श्री महावीर प्रसाद माथुर के आत्मज, जन्म 9 नवम्बर, 1921, अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1978 से 2-4-1984 तथा 3-4-1990 से अद्यपर्यन्त, सचिव, (1) अखिल भारतीय जन सघ, 1956—77 और (2) भारतीय जनता पार्टी, 1986।

स्थायी पता . भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, 7, विधान सभा मार्ग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।

\*माथुर, श्री मनमोहन . बी० ए०, कांग्रेस (आई) (उड़ीसा), श्री चन्द्रलाल माथुर के आत्मज, जन्म 16 अगस्त, 1946, विवाह श्रीमती लक्ष्मी माथुर से, 3 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, उड़ीसा विधान सभा, 1980—85, अध्यक्ष, याचिका समिति, उड़ीसा विधान सभा, 1983-84, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1988 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता : स्टेट्यू पारा, पोस्ट ऑफिस, भवानी पटना, जिला कालाहाडी (उड़ीसा)।

माथुर, श्री हरीश चन्द्र . राज्यरत्न, बी० ए०, निर्दलीय (राजस्थान), लाला राम चन्द्रजी के आत्मज, जन्म जून, 1904, विवाह श्रीमती अमर कुवर से, 8 पुत्र और 2 पुत्रिया, पूर्वकाल में जोधपुर राज्य में मंत्री रहे, 1947-48, सदस्य, (1) सविधान सभा और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956, 4-5-1967 से 2-4-1968 और 3-4-1968 से 12-6-1968, दिवंगत। श्रद्धाजलि—22-7-1968।

\*माधवन, श्री. एम. : बी० कॉम०, बी० एल०, अ० भा० अ० ड्र० मु० क० (तमिलनाडु), श्री सेलेय्या पिल्लै के आत्मज, जन्म 3 अक्टूबर, 1933, विवाह श्रीमती धनलक्ष्मी से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, तमिलनाडु विधान सभा, 1962—76 और 1984—87, मंत्री, तमिलनाडु सरकार, 1967—76, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1990 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता 17, सिक्स्थ मेन रोड, राजा अन्नामलाई पुरम, मद्रास (तमिलनाडु)।

माधवन, श्री के० के० : बी० ए०, एलएल० बी०, कांग्रेस (यू) (केरल), श्री कुन्हन के आत्मज, जन्म 23 जुलाई, 1917, विवाह श्रीमती देवी से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1) केरल विधान सभा, 1965 और (2) राज्य सभा, 3-4-1976 से 2-4-1982।

स्थायी पता मकान न० XLVIII/622, पूर्वी मायगलम, डाकघर एडापल्ली, कोचीन (केरल)।

मान, लेफ्टीनेन्ट कर्नल सरदार जोगिन्दर सिंह • डिप्लोमा प्राप्त, सयुक्त मोर्चा (पेपसू वर्तमान पंजाब), सरदार हरनाम सिंह मान के आत्मज, जन्म 17 अगस्त, 1905, विवाह श्रीमती गुरुचन कौर से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, पंजाब विधान सभा, 1937—51, मंत्री, पंजाब सरकार, 1949, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956।

स्थायी पता . मुँरे फील्ड, शिमला ईस्ट (हिमाचल प्रदेश)।

\*मान, श्री भूपेन्द्र सिंह वी०ए० तक अध्ययन किया, (नाम निर्देशित), श्री अनूप सिंह के आत्मज, जन्म 15 मिनम्बर, 1939, विवाह श्रीमती सुखिन्द्र कौर से, 2 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 18-9-19०0 में अद्यपर्यन्त।  
स्थायी पता काजी मोरी गेट के सामने, बटाला, जिला गुरदामपुर (पंजाब)।

माने (पाटिल), श्री मारुति दन्यान् काग्रेस (आई) (महाराष्ट्र), सदस्य, राज्य सभा, 5-7-1985 से 4-7-1986।  
[अन्य व्यापार उपनव्य नहीं है।]

स्थायी पता गाव और डाकघर कावटे पिरान, तालुका—मिराज, जिला सागली (महाराष्ट्र)।

\*भारन, श्री मुरासोली एम० ए०, डी० एम० के० (तमिलनाडु), श्री शानमुगा सुन्दरम् के आत्मज, जन्म 1937, विवाह श्रीमती मल्लिगा से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, (1) लोक सभा, 1968—70 और 1971—77 तथा (2) राज्य सभा, 25-7-1977 से 24-7-1983, 25-7-1983 से 24-7-1989 आर 25-7-1989 में अद्यपर्यन्त, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री, दिसम्बर, 1989 से नवम्बर, 1990, राजनीतिशास्त्र पर पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता सम्पादक, "मुगसोली", 53, कोडम्बकम हाई रोड, मद्रास (तमिलनाडु)।

मारीस्वामी, श्री एस० एस० डी० एम० के० (तमिलनाडु), श्री एस० ए० सोमसुन्दरम के आत्मज, जन्म 15 जून, 1920, विवाह श्रीमती एम० रुक्मिणी से, 3 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1964 से 2-4-1970 तथा 3-4-1970 से 2-4-1976, तमिल तथा अंग्रेजी में पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता 4884, ए० ए० नगर, मद्रास (तमिलनाडु)।

मालवीय, श्री रतनलाल किशोरीलाल वी० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस (मध्य प्रदेश), श्री किशोरी लाल मालवीय के आत्मज, जन्म 8 नवम्बर, 1907, विवाह श्रीमती रोहिणी देवी मालवीय से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1) सविधान सभा, 1948—50, (2) अनन्तिम ससद, 1950—52 और (3) राज्य सभा, 3-4-1954 से 2-4-1960 और 3-4-1960 से 2-4-1966, केन्द्रीय श्रम तथा रोजगार मंत्री के समर्पित सचिव, 1962, केन्द्रीय उप श्रम तथा रोजगार मंत्री, 1962—66, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, आई० एन० टी० यू० सी०, मध्य प्रदेश, 1950—62, दिवंगत।  
श्रद्धाञ्जलि—17-1-1985।

\*मालवीय, श्री राधाकिशन वी० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस (आई) (मध्य प्रदेश), श्री छोटेलाल मालवीय के आत्मज, जन्म 8 जुलाई, 1943, विवाह श्रीमती शांतिबाई मालवीय से, 1 पुत्र और 4 पुत्रियाँ, सदस्य, (1) मध्य प्रदेश विधान सभा, 1972—77 और (2) राज्य सभा, 3-4-1982 से 2-4-1988 और 3-4-1988 में अद्यपर्यन्त, श्रम तथा ससदीय कार्य मंत्रालय में केन्द्रीय उपमंत्री/राज्य मंत्री, 1988-89।

स्थायी पता गाव भिचोली, हम्पी, जिला इन्दौर (मध्य प्रदेश)।



\*मालवीय, श्री सत्य प्रकाश • एम० ए० (प्रथम वर्ष), एलएल० वी०, सामाजिक कार्यों में डिप्लोमा, जनता दल (उत्तर प्रदेश), श्री श्याम किशोर मालवीय के आत्मज, जन्म 25 जून, 1934, विवाह डा० (श्रीमती) मरोजिनी मालवीय से, 1 पुत्री, उत्तर प्रदेश विधान सभा के दो चार सदस्य रहे, 1974—80, उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में मंत्री, 1977—80, विपक्ष के नेता, 1977 तथा सभा के नेता, उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1979-80, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1984 से 2-4-1990 और 3-4-1990 से अद्यपर्यन्त, केन्द्रीय पेट्रोलियम और रसायन तथा मसदोय कार्य मंत्रालय में मंत्री, नवम्बर 1990 से अद्यपर्यन्त, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1988—90, महासचिव, अखिल भारतीय लाकदल (अ)।

स्थायी पता • 89 वाघम्वरी मार्ग, मोहिल नगर, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)।

मालवीय, श्री हर्ष देव : वी० एससी०, कांग्रेस (उत्तर प्रदेश), पंडित मूल चन्द्र मालवीय के आत्मज, जन्म 17 अक्टूबर, 1917, विवाह श्रीमती गायत्री मालवीय से, 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1972 से 2-4-1978, अंग्रेजी की अनेक पुस्तकों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—21-2-1989।

माली, श्री गणेश लाल एम० ए०, एलएल०वी०, कांग्रेस (राजस्थान), श्री नाथू लाल माली के आत्मज, जन्म 9 जनवरी, 1924, विवाह श्रीमती केसर देवी से, 2 पुत्र और 5 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1972 से 9-4-1978।

स्थायी पता • सूरजपोल, उदयपुर (राजस्थान)।

\*मासोदकर, श्री भास्कर अन्नाजी एम० ए०, एलएल०वी०, कांग्रेस (आई) (महाराष्ट्र), श्री अन्नाजी रामचन्द्र मासोदकर के आत्मज, जन्म 14 अगस्त, 1927, विवाह श्रीमती संध्या से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, न्यायाधीश, चम्बई उच्च न्यायालय, 1972—86 सदस्य, राज्य सभा, 5-7-1986 से अद्यपर्यन्त, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1990-91, विधि सवधी अनेक पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता: 11 वी/समता विल्डिंग, सारंग के सामने, जनरल जे० वी० मार्ग, मुम्बई (महाराष्ट्र)।

माहथा, श्री श्रीनारायण • कांग्रेस (बिहार), श्री विश्वनाथ माहथा के आत्मज, जन्म 11 जून, 1901, विवाह श्रीमती पी० एम० वर्मन से, सदस्य, (1) बिहार विधान परिषद्, 1930—36, (2) काउंसिल आफ स्टेट्स, 1937—47 (3) सविधान सभा, (4) अन्तरिम ससद् और (5) राज्य सभा, 3-4-1952 से 6-10-1956, दिवगत। श्रद्धाजलि—19-11-1956।

\*माहेश्वरी, श्रीमती सरला • एम० ए० (राजनीति शास्त्र), सी० पी० आई० (एम) (पश्चिमी बंगाल), श्री हरीश भदानी की आत्मजा, जन्म 21 जुलाई, 1954, विवाह श्री अरुण माहेश्वरी से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1990 से अद्यपर्यन्त, हिन्दी में अनुवाद कार्य।

स्थायी पता. सी० एफ-204, साल्ट लेक सिटी, कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)।

\*मित्तल, श्री सत पाल· स्नातक, (नाम-निर्देशित), कांग्रेस (आई), श्री लाला अमर नाथजी के आत्मज, जन्म 1 जनवरी, 1931, विवाह श्रीमती ललिता मित्तल से, 3 पुत्र, सदस्य, पंजाब विधान परिषद्, 1964—70, पंजाब सरकार में उपमन्त्री, 1966-67, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1976 से 2-4-1982, 3-4-1982 से 2-4-1988 और 25-11-1988 से अद्यपर्यन्त, उप-सभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1982-83, महासचिव, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी, 1972।

स्थायी पता· 13-ई, सराभा नगर, लुधियाना (पंजाब)।

मित्र, श्री प्रतुल चन्द्र कांग्रेस (संगठन) (बिहार), डा० पूर्णचन्द्र मित के आत्मज, जन्म 29 जुलाई, 1908, विवाह श्रीमती शान्ता दत्ता से, 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1960 से 2-4-1966 और 3-4-1966 से 2-4-1972, दिवगत। श्रद्धाजलि—17-7-1978।

मित्र, डा० पूर्ण चन्द्र एल० एम० पी०, कांग्रेस (बिहार), श्री राम नारायण मित के आत्मज, जन्म 11 अगस्त, 1877, विवाह श्रीमती सती वाला देवी से, 6 पुत्र और 8 पुत्रिया, सदस्य, (1) बिहार विधान सभा, 1937—52 और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954 और 3-4-1954 से 23-8-1959, दिवगत। श्रद्धाजलि—24-8-1959।

मित्र, श्री शंकर प्रसाद· एम० ए० (कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी), मानार्थ एलएल० डी० (पंजाब), बरिस्टर-एट-लॉ, निर्दलीय (पश्चिमी बंगाल), श्री मणीन्द्र नाथ मित के आत्मज, जन्म 26 दिसम्बर, 1917, विवाह श्रीमती अलोक मित से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, पश्चिमी बंगाल विधान सभा, 1952—57, पश्चिमी बंगाल सरकार में मंत्री रहे, 1956, न्यायाधीश, कलकत्ता उच्च न्यायालय, 1957—72, मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता उच्च न्यायालय, 1972—79, वार्यवाहक राज्यपाल, पश्चिमी बंगाल, 1979, सदस्य, राज्य सभा, 10-7-1981 से 9-8-1986, कई पुस्तकों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—11-8-1986।

मित्रा, श्री सतोष एम० कॉम०, सी० पी० आई० (मार्क्सवादी) (पश्चिमी बंगाल), श्री हरिपाद मिता के आत्मज, जन्म 27 जुलाई, 1922, विवाह श्रीमती विजली मित्रा से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 10-7-1981 से 28-3-1984, अनेक पुस्तकों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—23-4-1984।

मिर्जा, श्री दाऊद अली बी०ए० तक अध्ययन किया, कांग्रेस (मद्रास अब तमिलनाडु), मसूलीपतम के नवाब रजा अली खान बहादुर के आत्मज, जन्म 23 सितम्बर, 1907, विवाह वेगम रुखिया मिर्जा उर्फ शाह वेगम से, 4 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 11-12-1956 से 2-4-1962, कुछ पुस्तकों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—21-8-1986।

**मिर्धा, श्री राम निवास:** एम० ए० (राजनीति शास्त्र), एलएल०बी०, काग्रेस (आई) (राजस्थान), श्री बलदेव राम मिर्धा के आत्मज, जन्म 24 अगस्त, 1924, विवाह श्रीमती इन्दिरा मिर्धा से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राजस्थान विधान सभा, 1954—57, राजस्थान सरकार के मंत्री, 1954—57, अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा, 1957—67, सदस्य, राज्य सभा, 4-5-1967 से 2-4-1968, 3-4-1968 से 2-4-1974, 3-4-1974 से 2-4-1980 तथा 5-7-1980 से 29-12-1984, केन्द्रीय सरकार में गृह, रक्षा, पूर्ति और पुनर्वास, सिचाई और विदेश मन्त्रालयों में राज्य मंत्री, 1970—77 तथा 1983-84, उपसभापति, राज्य सभा, मार्च 1977 से अप्रैल, 1980, अध्यक्ष, राज्य सभा की विशेषाधिकार समिति, 1977—80।

**स्थायी पता:** गाव कुचारा, जिला नागौर (राजस्थान)।

**मिश्र, श्री ऋषि कुमार:** स्नातक, काग्रेस (राजस्थान), श्री जीवनलाल मिश्र के आत्मज, जन्म 28 सितम्बर, 1932, विवाह श्रीमती वीना मिश्र से, 3 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1974 से 2-4-1980।

**स्थायी पता:** डी-19, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर (राजस्थान)।

**मिश्र, श्री कलराज:** एम० ए० (समाजशास्त्र), भारतीय जनता पार्टी (उत्तर प्रदेश), श्री रामाज्ञा मिश्र के आत्मज, जन्म 1 जुलाई, 1941, विवाह श्रीमती सत्यवती देवी मिश्र से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1978 से 2-4-1984।

**स्थायी पता:** गाव मलिकपुर, डाकघर सेदपुर, जिला गाजीपुर (उत्तर प्रदेश)।

**मिश्र, श्री कैलाशपति:** इन्टरमीडिएट तक अध्ययन किया, भारतीय जनता पार्टी (बिहार), श्री हजारी मिश्र के आत्मज, जन्म 5 अक्टूबर, 1926, अविवाहित, मंत्री, बिहार सरकार, 1977—80, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1984 से 9-4-1990, महासचिव/उपाध्यक्ष/अध्यक्ष, भारतीय जनसंघ, बिहार, अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, बिहार, 1980 से 1986।

**स्थायी पता:** 28, राजेन्द्र नगर, पटना (बिहार)।

**मिश्र, श्री गोविन्द चन्द्र:** मैट्रिक, काग्रेस (उड़ीसा), श्री वैद्यनाथ मिश्र के आत्मज, जन्म फरवरी, 1890, विवाहित, 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 6-12-1956 से 2-4-1960, उड़िया भाषा में कुछ पुस्तकों के लेखक।

**स्थायी पता:** दसपल्ला, जिला पुरी (उड़ीसा)।

**\*मिश्र, श्री चतुरानन:** मैट्रिक तक अध्ययन किया, भारतीय साम्यवादी दल (बिहार), श्री वचनानन्द मिश्र के आत्मज, जन्म 7 अप्रैल, 1925, विवाह श्रीमती हेमन्ती मिश्र से, 1 पुत्र तथा 4 पुत्रिया, सदस्य, (1) बिहार विधान सभा के लिये तीन बार तथा (2) राज्य सभा, 10-4-1984 से 9-4-1990 और 10-4-1990 से अद्यपर्यन्त, अध्यक्ष, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काग्रेस।

**स्थायी पता:** गाव नाहर, डाकखाना भगवतीपुर-नाहर बरास्ता रामपत्ती, जिला मधुबनी (बिहार)।

मिश्र, श्री चन्द्रगोपाल गजधरप्रसाद बी०ए०, एलएल०बी०, किसान मजदूर प्रजा पार्टी (मध्य प्रदेश), श्री गजधर प्रसाद मिश्र के आत्मज, जन्म अप्रैल, 1876, विवाह श्रीमती जनक दुलारी वाई से, 3 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954, दिवगत। श्रद्धाजलि—18-11-1957।

मिश्र, डा० जगन्नाथ. बी० ए० (आनर्स), एम० ए० (अर्थशास्त्र), पीएच०डी०, कांग्रेस (आई) (बिहार), पंडित रविनन्दन मिश्र के आत्मज, जन्म 24 जून, 1937, विवाह श्रीमती वीना मिश्र से, 3 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) बिहार विधान परिषद्, 1968 और (2) बिहार विधान सभा, 1972—88, मंत्री, बिहार सरकार, 1972—75, मुख्य मंत्री, बिहार, 1975—77 तथा 1980—83, बिहार विधान सभा में विपक्ष के नेता, 1977—80, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1988 से 16-3-1990, मुद्रा, बैंकिंग तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, आदि पर पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता 2, सर्कुलर रोड, पटना (बिहार)।

मिश्र, श्री बिबुधेन्द्र बी०ए०, बी०एल०, कांग्रेस (उडीसा), श्री गोपी नाथ मिश्र के आत्मज, जन्म 30 नवम्बर, 1920, विवाह श्रीमती उमा राय से, 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1958 से 27-2-1962, सचिव, फारवर्ड ब्लॉक, उडिया में पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता . कुन्धेवेन्त साही, पुरी (उडीसा)।

मिश्र, श्री मन्मथनाथ. बी० ए०, एलएल० बी०, कांग्रेस (उडीसा), श्री मणि चरण मिश्र के आत्मज, जन्म 1930, विवाह श्रीमती ज्योत्स्ना रानी देवी से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1962 से 2-4-1968।

स्थायी पता. बारीपाडा, मयूरभज (उडीसा)।

मिश्र, श्री महेन्द्र मोहन बी० ए०, बी० एल०, कांग्रेस (आई) (बिहार), श्री भुवनेश्वर मिश्र के आत्मज, जन्म 1 दिसम्बर, 1929, विवाह डा० शशि लेखा मिश्र से, 2 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1976 से 2-4-1982 तथा 3-4-1982 से 2-4-1988, महासचिव, बिहार प्रदेश कांग्रेस (आई) समिति, 1980—82।

स्थायी पता. भुवनेश्वर भवन, क्लब रोड, रामना, मुजफ्फरपुर (बिहार)।

मिश्र, श्री ललित नारायण. एम० ए० (अर्थशास्त्र), कांग्रेस (बिहार), पंडित रविनन्दन मिश्र के आत्मज, जन्म जनवरी, 1923, विवाह श्रीमती कामेश्वरी देवी से, 4 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) लोक सभा, 1952—57 तथा 1957—62 और (2) राज्य सभा, 18-2-1964 से 2-4-1966 तथा 3-4-1966 से 2-2-1972, केन्द्रीय योजना, श्रम तथा रोजगार मंत्री के ससदीय सचिव, 1957—60, केन्द्रीय सरकार में योजना और श्रम तथा रोजगार, गृह, वित्त और रक्षा उत्पादन विभागों में उपमंत्री और राज्य मंत्री रहे, 1960—62 तथा 1964—70, सचिव, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, महासचिव, आई० एन० टी० यू० सी०, बिहार, दिवगत। श्रद्धाजलि—17-2-1975।

मिश्र, श्री लिंगराजः एम० ए० (स्वर्ण पदक विजेता), काग्रेस (उड़ीसा), पंडित नीलकंठ मिश्र के आत्मज, जन्म 1894, विवाह श्रीमती उमा देवी से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, बिहार और उड़ीसा विधान परिषद, 1927—30, मंत्री, उड़ीसा सरकार, 1946—51, सदस्य, (1) लोक सभा, 1952—57 और (2) राज्य सभा, 27-4-1957 से 19-12-1957, कुछ पुस्तकों के लेखक, दिवंगत। श्रद्धाजलि—19-12-1957।

मिश्र, श्री लोकनाथः निर्दलीय (उड़ीसा), पंडित गोदावरिस मिश्र के आत्मज, जन्म नवम्बर, 1922, विवाह श्रीमती वीणापाणि मिश्र से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1960 से 2-4-1966, 3-4-1966 से 2-4-1972 और 3-4-1972 से 2-4-1978, अध्यक्ष, याचिका समिति, राज्य सभा, उपाध्यक्ष, स्वतंत्र पार्टी, उड़ीसा।

स्थायी पता: 5, लेविस रोड, भुवनेश्वर (उड़ीसा)।

मिश्र, श्री श्याम धरः बी० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस (सगठन) (उत्तर प्रदेश), पंडित काशी प्रसाद मिश्र के आत्मज, जन्म 29 जुलाई, 1918, विवाह श्रीमती शांति देवी से, 2 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, पूर्व काल में बनारस राज्य असेंबली, 1943—49, मंत्री, बनारस राज्य, 1949, सदस्य, (1) उत्तर प्रदेश विधान परिषद, 1950—52, (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1958, 3-4-1958 से 1-3-1962 और 3-4-1968 से 2-4-1974 और (3) लोक सभा, 1962—67, केन्द्रीय सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्री के ससदीय सचिव, 1959—62, केन्द्रीय सरकार में सामुदायिक विकास, पचायती राज और सहकारिता, सिंचाई और बिजली, रक्षा और खाद्य तथा कृषि विभागों में उपमंत्री रहे, 1962—67, महासचिव, काग्रेस कमेटी, बनारस राज्य, 1952—58, महासचिव, अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी, 1969।

स्थायी पता: गोपीगंज, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)।

मिश्र, श्री श्याम नंदनः एम० ए०, बी० एल०, काग्रेस (सगठन) (बिहार), श्री मुरलीधर मिश्र के आत्मज, जन्म 20 अक्टूबर, 1920, विवाह श्रीमती ध्रुवस्वामिनी देवी से, सदस्य, (1) अंतरिम ससद, 1950—52 और (2) लोक सभा, 1952—62, प्रधानमंत्री के ससदीय सचिव, 1951-52, केन्द्रीय योजना उपमंत्री, 1954—62, सदस्य, राज्य सभा, 4-12-1962 से 2-4-1966 और 3-4-1966 से 11-3-1971, राज्य सभा में विपक्ष के नेता, दिसम्बर, 1969 से मार्च, 1971, महासचिव बिहार प्रदेश काग्रेस कमेटी।

स्थायी पता: ग्राम उमागाव, डाकघर सोठगाव, जिला दरभंगा (बिहार)।

मिश्र, श्री श्रीकांतः मैट्रिक-पास, मुख्तारी की परीक्षा, जन सघ (बिहार), पंडित हसराम मिश्र के आत्मज, जन्म 5 जून, 1920, विवाह श्रीमती ललिता देवी से, 7 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1970 से 1-10-1970, दिवंगत। श्रद्धाजलि—9-11-1970।

मिश्र, श्री शिव कुमार काग्रस (आई) (उत्तर प्रदेश), श्री रामेश्वर दयाल मिश्र के आत्मज, जन्म अक्तूबर, 1912, विवाह, (1) श्रीमती शिवदा आर (2) श्रीमती कृष्णा देवी से, 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, मद्रस्य, (1) उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1948, 1952 तथा 1969 आर (2) राज्य सभा, 3-4-1984 से 2-4-1990।

स्थायी पता. गाव तथा डाकघर नभीची, जिला ग्वाहजहापुर (उत्तर प्रदेश)।

\* मिश्र, श्री शिव प्रताप एम० ए० (प्राचीन इतिहास), एम० ए० (दरशन शास्त्र), एलएल० बी० एम० एम० डी० काग्रस (आई) (उत्तर प्रदेश), श्री एन० पी० मिश्र के आत्मज, विवाहित, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री सदस्य राज्य सभा 3-4-1988 से अद्यपर्यंत।

स्थायी पता. 44-ए, टगोर टाउन, 'अनुभव', इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)।

मिश्र, श्री सत्यानन्द काग्रस (उड़ीसा), श्री कुंज बिहारी मिश्र के आत्मज, जन्म अप्रैल, 1903, विवाह श्रीमती कुन्दा कधी देवी से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, (1) पूर्व काल में पटना राज्य की विधान सभा, 1947-48 आर (2) राज्य सभा, 7-4-1962 से 2-4-1964।

स्थायी पता: गाव छटामखाना, डाकखाना सकृत्पुर, जिला बालागौर (उड़ीसा)।

मिश्र, श्रीमती रोडा. सौनियर केन्द्रित तक शिक्षा प्राप्त बनी, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी (आन्ध्र प्रदेश), श्री मानचर शं भन्सा की आत्मजा, जन्म 16 अक्तूबर, 1928, विवाह श्री होंमी मिश्र से, 1 पुत्र आर 1 पुत्री, सदस्य, (1) आन्ध्र प्रदेश विधान सभा, 1959—67 आर (2) आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद, 1968—80, आन्ध्र प्रदेश सरकार में मंत्री मंत्री, 1968—71 और 1978—80, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1980 से 2-4-1986, महासचिव, आन्ध्र प्रदेश काग्रस (आई) कमेटी, 1977।

स्थायी पता बी-1, अमल विलास, सत वाडी, महरोली, नई दिल्ली।

\* मीणा, श्री धूलेश्वर एम० ए० (भूगोल), काग्रस (आई) (राजस्थान), श्री हूरमाजी के आत्मज, जन्म 5 अगस्त, 1935, विवाह श्रीमती धुली बाई से, 4 पुत्र आर 2 पुत्रिया, मद्रस्य, (1) लोक सभा, 1962—67 तथा 1967—70 आर (2) राज्य सभा, 5-7-1980 से 4-7-1986 तथा 5-7-1986 से अद्यपर्यंत।

स्थायी पता ग्राम—खोखादरा, डाकघर—खेरवाडा, जिला—उदयपुर (राजस्थान)।

मीर, श्री गुलाम मोहम्मद बी० ए०, एलएल० बी०, काग्रस (जम्मू और कश्मीर), राजा फाजा मीर के आत्मज, जन्म 27 अप्रैल, 1932, विवाह श्रीमती नुसरा बेगम से, 2 पुत्र आर 1 पुत्री, सदस्य, जम्मू और कश्मीर विधान परिषद, 1962, जम्मू और कश्मीर सरकार में मंत्री, 1963, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1964 से 13-3-1967।

स्थायी पता पुंड्र शहर (जम्मू और कश्मीर)।

मीर्जा इर्शादबेग, श्री. वी० एससी०, एल०एल० वी०, कांग्रेस (आई) (गुजरात), श्री मीर्जा अव्युव बेग मोहम्मद आजमबेग के आत्मज, जन्म 3 अक्टूबर, 1949, विवाह श्रीमती सईदा बेगम से, 2 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 21-3-1983 से 9-4-1984 तथा 10-4-1984 से 9-4-1990, उप-सभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1989-90, महासचिव, गुजरात प्रदेश कांग्रेस (आई) समिति।

स्थायी पता • मीर्जा कैम्प, मोडासा, सावरकान्डा (गुजरात)।

मुडा, श्री भेंयाराम इटरमीडिएट स्टेडर्ड, कांग्रेस (बिहार), श्री गोपाल मुडा के आत्मज, जन्म 1 जनवरी, 1918, विवाह श्रीमती जिगी देवी से, 5 पुत्र, सदस्य, (1) बिहार विधान सभा, 1967 और (2) राज्य सभा, 10-4-1972 से 9-4-1978।

स्थायी पता : ग्राम सेलदा, डाकखाना मुरहा, जिला राची (बिहार)।

मुंशी, श्री अरमान अली : गणतांत्रिक सघ (त्रिपुरा), श्री अजलीश भूया के आत्मज, जन्म जनवरी, 1893, विवाह बेगम सेमिसिया खातून से, 4 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) त्रिपुरा सविधान सभा और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954।

स्थायी पता : डाकखाना अगरतला (त्रिपुरा)।

मुंशी. श्रीमती लीलावती . कांग्रेस (राजस्थान), श्री केशवलाल की आत्मजा, जन्म 21 मई, 1899, विवाह श्री क० एम० मुंशी से, 2 पुत्र तथा 4 पुत्रिया, सदस्य, (1) पूर्व काल में बम्बई विधान सभा, 1937—46 और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1958, कुछ पुस्तकों की लेखिका, दिवंगत। श्रद्धाजलि—20-2-1978।

मुखर्जी, डा० राधा कुमुद : एम० ए०, पीएच० डी०, डी० लिट् की मानद उपाधि, एफ० ए० एस० वी०, (नाम-निर्देशित), श्री गोपाल चन्द्र मुखर्जी के आत्मज, जन्म 25 जनवरी, 1884, विवाह श्रीमती अनमुया देवी से, 1 पुत्र, सदस्य, (1) पूर्व काल में बंगाल विधान परिषद, 1937—43 और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1958, पद्म भूषण से अलंकृत, 1957, भारतीय इतिहास और संस्कृति की अनेक पुस्तकों के लेखक, दिवंगत। श्रद्धाजलि—10-9-1963।

मुखर्जी, श्रीमती कनक एम० ए० (आनर्म), वी० टी०, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (पश्चिमी बंगाल), श्री सतीश चन्द्र दामगुप्त की आत्मजा, जन्म 30 दिसंबर, 1921, विवाह श्री सुरेंद्र कुमार मुखर्जी से, 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1978 से 2-4-1984 और 3-4-1984 से 2-4-1990, उपसभाध्यक्षा, राज्य सभा, 1985—87, अनेक बंगला पुस्तकों की लेखिका।

स्थायी पता : ब्लाक ए०, फ्लैट सं० 7, 15, बेचुलाल रोड, कलकत्ता-700014।

**मुखर्जी, श्री काली.** कांग्रेस (पश्चिमी बंगाल), श्री सीतानाथ मुखर्जी के आत्मज, जन्म 5 जनवरी, 1916, विवाह श्रीमती शरदेदू मुखर्जी से, सदस्य, (1) पश्चिम बंगाल विधान सभा, 1952—57 और (2) राज्य सभा, 3-4-1972 से 2-4-1978, सचिव, पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, पश्चिम बंगाल, 1962—71, दिवगत। श्रद्धाजलि—3-4-1989।

**मुखर्जी, श्री देवव्रत .** (प० बंगाल), सदस्य, राज्य सभा, 4-11-1965 से 2-4-1968। [अन्य व्यौरा उपलब्ध नहीं है]  
स्थायी पता 25, हलदरपारा रोड, कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)।

**मुखर्जी, श्री प्रणव कुमार :** एम० ए० (इतिहास तथा राजनीति विज्ञान), एलएल० बी०, डी० लिट्० (मानद), निर्दलीय (गुजरात), श्री कामदा किकर मुखर्जी के आत्मज, जन्म 11 दिसंबर, 1935, विवाह श्रीमती शुभ्र मुखर्जी से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 10-7-1969 से 9-7-1975, 10-7-1975 से 9-7-1981 और 14-8-1981 से 13-8-1987, औद्योगिक विभाग, जहाजरानी और परिवहन, वित्त, वाणिज्य, इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति विभागों में केन्द्रीय उपमन्त्री / राज्य मन्त्री / मन्त्री, 1973—77 और 1980—84, राज्य सभा के नेता, जनवरी, 1980 से दिसंबर, 1984, सचिव, बंगला कांग्रेस, 1967—71, कई पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता 19, केतन सोसाइटी, अहमदाबाद (गुजरात)।

**मुखर्जी, श्री बी० के० .** कांग्रेस (उत्तर प्रदेश), श्री टी० के० मुखर्जी के आत्मज, जन्म 16 अक्टूबर, 1890, विवाह श्रीमती लावण्य प्रवा मुखर्जी से, 6 पुत्र, सदस्य, (1) पूर्व काल में संयुक्त प्रांत विधान सभा 1937—52 और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1958, महासचिव, उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, 1935-36 और 1941—43 और इसके अध्यक्ष, 1937, 1941 और 1944—45, महासचिव/उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, 1938 और 1944-45, अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, उत्तर प्रदेश, 1954, दिवगत। श्रद्धाजलि—28-3-1977।

**\*मुखर्जी, श्री समर जी० ए०,** भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) (पश्चिमी बंगाल), श्री सचिन्द्रलाल मुखर्जी के आत्मज, जन्म 7 नवम्बर, 1913, अविवाहित, सदस्य, (1) पश्चिम बंगाल विधान सभा, 1957—62, (2) लोक सभा, 1971—77, 1977—79 और (3) राज्य सभा, 29-12-1986 से 9-7-1987 और 10-7-1987 से अद्यपर्यन्त, महामन्त्री, 'सौदृ', 1984।

स्थायी पता : 9, दिलखुश स्ट्रीट, कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)।



**मुखोपाध्याय, श्रीमती पुरवी** स्नातक, कांग्रेस (यू) (पश्चिमी बंगाल), श्री वी० एन० वनर्जी की आत्मजा, जन्म 7 जुलाई, 1923, विवाह प्रो० विवेकानन्द मुखर्जी से, 1 पुत्र, सदस्य, पश्चिमी बंगाल विधान सभा, 1952—68, पश्चिमी बंगाल सरकार में मंत्री, 1952—67, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1970 से 2-4-1976 और 3-4-1976 से 2-4-1982, महासचिव, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, अध्यक्ष, पश्चिमी बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, 1977, दिवगत। श्रद्धाजलि— 11-3-1991।

**मुत्तु, डा० (श्रीमती) सत्यवाणी** एस० एस० एल० सी०, अ० भा० अ० ड्र० मु० क० (तमिलनाडु), श्री के० नागर नेदर की आत्मजा, जन्म 15 फरवरी, 1923, विवाह श्री एम० एस० मुत्तु से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) तमिलनाडु विधान सभा, 1957—62 तथा 1967—76 और (2) तमिलनाडु विधान परिषद, 1977-78, तमिलनाडु सरकार में मंत्री रही, 1967—74, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1978 से 2-4-1984, केन्द्रीय समाज कल्याण मंत्री, 1979, तमिल में 'जॉन ऑफ आर्क' पर एक पुस्तक की लेखिका।

स्थायी पता : प्लॉट न० 3211, अन्नानगर, मद्रास (तमिलनाडु)।

**मुदलियार, डा० ए० रामास्वामी** . मानद डी० सी० एल० (आक्सफोर्ड), एलएल० डी० (मद्रास), निर्दलीय (मद्रास, अब तमिलनाडु), श्री ए० कप्पुस्वामी मुदलियार के आत्मज, जन्म 14 अक्टूबर, 1887, विवाह श्रीमती कामाक्षीयाममल से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) पूर्व काल में मद्रास विधान परिषद, 1921—26, (2) काउंसिल ऑफ स्टेट, 1930, (3) केन्द्रीय विधान सभा, 1931—34, (4) सविधान सभा 1947—50, (5) अनंतिम मसद, 1950—52 और (6) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956 और 3-4-1956 से 2-4-1962, दिवगत। श्रद्धाजलि—10-8-1976।

**मुबारक शाह, ख्वाजा** नेशनल कांग्रेस (जम्मू और कश्मीर), सदस्य, राज्य सभा, 11-11-1978 से 10-1-1980। [अन्य व्योरा उपलब्ध नहीं है] दिवगत। श्रद्धाजलि—9-12-1981।

**मुरारी लाल, डा० :** एम० वी० (पजाब), कांग्रेस (उत्तर प्रदेश), लाला श्याम लाल रोहतगी के आत्मज, जन्म 16 मार्च, 1874, विवाहित, 1 पुत्र, सदस्य, (1) उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1936-37, (2) उत्तर प्रदेश विधान परिषद, 1947—51 और (3) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956, उर्दू में 'विधवा पुनर्विवाह' पर एक पुस्तक के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—27-11-1961।

**मुराहरि, श्री गोडे** निर्दलीय (उत्तर प्रदेश), श्री जी० गगरजू के आत्मज, जन्म 20 मई, 1926, अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1962 से 2-4-1968, 3-4-1968 से 2-4-1974 और 3-4-1974 से 20-3-1977, उपासभापति, राज्य सभा, 13-4-1972 से 2-4-1974 और 26-4-1974 से 20-3-1977, अध्यक्ष, राज्य सभा की विशेषाधिकार समिति, 1972—74 और 1974—77, महामंत्री, अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी, 1958—59, दिवगत। श्रद्धाजलि—6-8-1982।

मुल्ला, श्री आनन्द नारायण एम० ए०, एलएल० बी०, कांग्रेस (उत्तर प्रदेश) श्री जगत नारायण मुल्ला के आत्मज, जन्म 24 अक्टूबर, 1901, विवाह श्रीमती अन्नपूर्णा मुल्ला से, 1 पुत्री, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, 1954—61, सदस्य, लोक सभा, 1967—70, अध्यक्ष, (1) भूमि अर्जन अधिनियम के सबध मे गठित ससद की समुक्त समिति, 1967—69 और (2) अधीनस्थ विधान सबधी समिति, लोक सभा, 1969-70, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1972 से 2-4-1978, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त, 1964, उर्दू मे शैरो-शायरी की पुस्तको के लेखक।

स्थायी पता : बी० निर्मला नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।

मुल्ला, श्री सुरेश नारायण बी० ए०, बैरिस्टर-एट-लॉ, कांग्रेस (आई) (उत्तर प्रदेश), पंडित तेज नारायण मुल्ला के आत्मज, जन्म 27 जून, 1915, विवाह श्रीमती सावित्री से, 3 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1976 से 2-4-1982, दिवगत। श्रद्धाजलि—23-7-1984।

मुसाफिर, श्री गुरमुख सिंह कांग्रेस (पजाब), सरदार सुजान सिंह के आत्मज, जन्म 15 जनवरी, 1899, विवाहित 5 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) सविधान सभा, 1947—50 (2) अन्तरिम ससद, 1950—52, (3) लोक सभा, 1952—57, 1957—62 तथा 1962—66 और (4) पजाब विधान परिषद, 1966—68, मुख्य मंत्री, पजाब, 1966—67, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1968 से 2-4-1974 और 3-4-1974 से 18-1-1976, अध्यक्ष, पजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी, 1947—59, पजाबी, अग्रेजी और हिन्दी मे अनेक पुस्तको के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—19-1-1976।

मूपनार, श्री जी० के० एस० एस० एल० सी०, कांग्रेस (आई) (तमिलनाडु), श्री आर० गोविन्द स्वामी मूपनार के आत्मज, जन्म अगस्त, 1931, विवाह श्रीमती के० कस्तुरि मे, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 25-7-1977 से 24-7-1983 और 25-7-1983 से 2-2-1989, अध्यक्ष, तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस कमेटी (आई), महामंत्री, आल इंडिया कांग्रेस कमेटी (आई), 1980 से।

स्थायी पता (1) मूपनार हाउस, सुन्दर पेरुमल कोइल पोस्ट, जिला तजावूर (तमिलनाडु) और (2) 36, वारेन रोड, मायलापुर, मद्रास (तमिलनाडु)।

\*मेनन, प्रो० एम० जी० के० एम० एस०, पीएच० डी०, डी० एससी० (सम्मानार्थ), जनता दल (राजस्थान), श्री के० शंकर मेनन के आत्मज, जन्म 28 अगस्त, 1928, विवाह श्रीमती इन्दुमती मेनन से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1990 से अद्यपर्यन्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागो मे केन्द्रीय राज्य मंत्री, जनवरी, 1990 से नवम्बर, 1990, (1) पद्मश्री, 1961, (2) पद्म भूषण, 1968 और (3) पद्म विभूषण, 1985 तथा अनेक वैज्ञानिक पुरस्कारो और मैडलो से अलंकृत।

स्थायी पता मकान न० 245, इस्लामिया स्कूल रोड, सीकर (राजस्थान)।

मेनन, श्री के० माधव : वी० ए०, वी० एल०, कांग्रेस (केरल), श्री अच्युत मेनन के आत्मज, जन्म 26 जुलाई, 1897, विवाह श्रीमती ए० वी० कुट्टिमालु अम्मा से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, मंत्री, मद्रास सरकार, 1947—52, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1954 से 2-4-1960 तथा 3-4-1960 से 2-4-1966, अध्यक्ष रहे, केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, 2 अवधियों तक, दिवगत। श्रद्धाजलि—15-11-1971।

मेनन, श्री बालचन्द्र . वी० ए०, वी० एल०, भा० सा० द० (केरल), श्री ए० सी० कुन्हुनी राजा के आत्मज, जन्म 17 मार्च, 1911, विवाह श्रीमती ए० राधा से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1) केरल विधान सभा, 1957 और 1960 और (2) राज्य सभा, 22-4-1967 से 21-4-1973, सचिव/उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय मजदूर सघ कांग्रेस, 1954—57, दिवगत। श्रद्धाजलि—17-1-1985।

मेनन, श्रीमती लक्ष्मी एन० : एम० ए०, एल० टी०, टी० डिप्लोमा (लन्दन), एलएल० वी०, एल' अलॉयन्स फ्रैंकाइज, पेरिस से फ्रेंच भाषा में डिप्लोमा, कांग्रेस (बिहार), श्री एम० राम वर्मा तम्पन की आत्मजा, जन्म 27 मार्च, 1899, विवाह प्रो० वी० के० एन० मेनन से, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954, 3-4-1954 से 2-4-1960 और 3-4-1960 से 2-4-1966, प्रधान मंत्री के ससदीय सचिव, 1952—57, विदेश मंत्रालय में केन्द्रीय उपमन्त्री/राज्य मंत्री, 1957—62, पद्म भूषण से सम्मानित, 1957, "दि पोजीशन ऑफ बुमेन" की लेखिका।

स्थायी पता प्लेन व्यू, त्रिवेन्द्रम (केरल)।

मेनन, श्रीमती लीला दामोदर . वी० ए०, राष्ट्रभाषा विशारद, कांग्रेस (केरल), श्री के० यू० कृष्णन नैयर की आत्मजा, जन्म 4 जनवरी, 1923, विवाह श्री के० ए० दामोदर मेनन से, 3 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1) केरल विधान सभा, 1947—52 और 1960—64 और (2) राज्य सभा, 3-4-1974 से 2-4-1980।

स्थायी पता : नौका आजाद रोड, कलूर, कोचीन (केरल)।

मेनन, श्री विश्वनाथ एलएल० वी०, भा० सा० द० (माकर्मवादी) (केरल), श्री अम्वादी नारायण मेनन के आत्मज, जन्म 14 जनवरी, 1927, विवाह श्रीमती प्रभावती मेनन से, 2 पुत्र, सदस्य, (1) लोक सभा, 1967—71 और (2) राज्य सभा, 3-4-1974 से 2-4-1980।

स्थायी पता . "माधव मंगलम्" डाकघर—मुदवूर, मुवातुपुझा (केरल)।

मेनन, श्री वी० के० कृष्णा • वी० ए०, वी० एससी० (अर्थशास्त्र) (लन्दन), एम० ए० (लन्दन), एम० एससी० (अर्थशास्त्र) (लन्दन), बार-एट-लॉ, मिडल टेम्पल, किंग्स इन्स, डब्लिन (सम्मानार्थ), कांग्रेस (मद्रास, जो अब तमिलनाडु है), श्री कोमथ कृष्णा कुरूप के आत्मज, जन्म 3 मई, 1897, अविवाहित, ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त, 1947—52 और साथ-साथ आयर्लैण्ड में भारतीय राजदूत भी, 1949—52, सदस्य, राज्य सभा, 26-5-1953 से 2-3-1956 और 3-4-1956 से 15-3-1957, विना विभाग के केन्द्रीय मंत्री, 1956-57, पद्म विभूषण से सम्मानित, 1954, दिवगत। श्रद्धाजलि—11-11-1974।

मेनन, श्री सी० अच्युत वी० ए०, वी० एल०, भा० सा० द० (केरल), श्री एम० अच्युत मेनन के आत्मज, जन्म 1913, विवाह श्रीमती अमिनि अम्मा से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, केरल विधान सभा, 1952—54, 1957—59 और 1960—64, केरल सरकार के मंत्री, 1957—59, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1968 से 24-4-1970, मलयालम तथा अग्रेजी पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता . 105, कुक्कलिया लेन, त्रिवेन्द्रम (केरल)।

मेनोन, श्री को० प० सुब्रह्मण्य एस० एस० एल० सी०, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) (केरल), श्री के० गोविन्द मेनोन के आत्मज, जन्म 26 अप्रैल, 1924, विवाह श्रीमती सरोजिनी से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1968 से 2-4-1974, कुछ पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता • कोरेपराम्बु वीडु, डाकघर—नाराकल, वारास्ता कोचीन (केरल)।

मेहता, श्री अशोक वी० ए०, कांग्रेस (महाराष्ट्र), श्री रजीतराम मेहता के आत्मज, जन्म 24 अक्टूबर, 1911, अविवाहित, सदस्य, (1) लोक सभा, 1954—57 और 1957—62 और (2) राज्य सभा, 3-4-1966 से 26-2-1967, केन्द्रीय सरकार में योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण विभागों में मंत्री, 1966—67, उपाध्यक्ष, योजना आयोग, 1963, महासचिव, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, 1950—53, चैयरमैन, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, 1959—63, अनेक पुस्तकों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—17-1-1985।

मेहता, श्री ओम . वी० ए०, कांग्रेस (आई) (जम्मू और कश्मीर), श्री एन० एल० मेहता के आत्मज, जन्म 20 फरवरी, 1927, विवाह श्रीमती सरला मेहता से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1) जम्मू और कश्मीर विधान परिषद्, 1957 और 1959—64 और (2) राज्य सभा, 3-4-1964 से 2-4-1970, 3-4-1970 से 2-4-1976 और 3-4-1976 से 2-4-1982, ससदीय कार्य, जहाजगानी और परिवहन, निर्माण और आवास तथा गृह विभागों में केन्द्रीय राज्य मंत्री रहे, 1970-71, 1973 और 1974—77, अध्यक्ष, राजभाषा समिति।

स्थायी पता . 30, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली।

\*मोगरका, श्री कमल. इटरमीडिएट (साइंस), जनता दल (राजस्थान), श्री महावीर प्रसाद आर० मोगरका के आत्मज, जन्म 18 जून, 1946, विवाह श्रीमती भारती से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1988 से अद्यपर्यन्त, प्रधानमन्त्री के कार्यालय में केन्द्रीय राज्य मंत्री, नवम्बर, 1990 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता: 24-वी, कर्मिचियल रोड, मुम्बई (महाराष्ट्र)।

मोरारका, श्री राधेश्याम आर०: वी० कॉम (स्वर्ण पदक विजेता), जनता पार्टी (राजस्थान), श्री रामकुमार श्रीनिवास मोरारका के आत्मज, जन्म 26 मार्च, 1923, विवाह श्रीमती नर्मदा मोरारका से, 2 पुत्र, सदस्य, लोक सभा, 1952—67, अध्यक्ष, लोक लेखा समिति, लोक सभा, 1964—67, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1978 से 9-4-1984, उप-सभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1979-80 और 1982-83।

स्थायी पता 24-वी, कर्मिचियल रोड, मुम्बई (महाराष्ट्र)।

मोसेस, श्री एम०: एम० वी० वी० एस०, एम० डी०, डी० ओ०, डी० एल० ओ०, कांग्रेस (आई) (तमिलनाडु), डा० एम० मथाईस के आत्मज, जन्म 15 अक्टूबर, 1929, विवाह श्रीमती शीला से, 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) तमिलनाडु विधान सभा, 1971—76 और (2) राज्य सभा, 3-4-1978 से 2-4-1984।

स्थायी पता. 2, असारी पल्लम रोड, नागर काइल, कन्याकुमारी जिला (तमिलनाडु)।

मोहता, श्री गोपालदास बुलाकीदासजी: कांग्रेस (मध्य प्रदेश), श्री बुलाकी दास जी मोहता के आत्मज, जन्म 15 सितम्बर, 1902, विवाह श्रीमती गंगाबाई उर्फ जेठाबाई से, 2 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) पूर्व काल में सैन्ट्रल प्रोविन्सेस एंड वेरार लेजिस्लेटिव असेम्बली, 1937 और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956।

स्थायी पता: मोहता मिलम, अकोला (मध्य प्रदेश)।

मोहता, श्री महेन्द्र कुमार. स्वतंत्र पार्टी (राजस्थान), श्री सूरजमल मोहता के आत्मज, जन्म 28 दिसम्बर, 1927, विवाह श्रीमती कृष्णा देवी मोहता से, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1968 से 2-4-1974।

स्थायी पता मोहता निवास, 6/2, क्वीन्स पार्क, कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)।

मोहन, श्री वी० आर०: वी० ए०, एम० काम०, निर्दलीय (उत्तर प्रदेश); श्री एन० एन० मोहन के आत्मज, जन्म 30 जुलाई, 1925, विवाह श्रीमती कोमिन्ता मोहन से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) उत्तर प्रदेश विधान परिषद, 1962—67 और (2) राज्य सभा, 3-4-1972 से 28-1-1973, पद्म विभूषण में सम्मानित, दिवंगत।  
दिवंगत—19-2-1973।

मोहन सिंह, श्री. भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून से स्नातक, कांग्रेस (पंजाब), सरदार तारा सिंह के आत्मज, जन्म 3 जनवरी, 1909, विवाह श्रीमती जसवन्त कौर से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1) राज्य सभा, 3-4-1960 से 2-4-1966 और 10-4-1972 से 9-4-1978 और (2) पंजाब विधान सभा, 1967, अध्यक्ष, फॉरवर्ड ब्लॉक, 1950—55, कुछ पुस्तकों के लेखक, दिवंगत। श्रद्धाजलि—27-12-1989।

मोहन सिंह, श्री इन्टरमीडिएट, कांग्रेस (आई) (उत्तर प्रदेश), राजा विश्वनाथ शरण सिंह के आत्मज, जन्म 2 जून, 1943, विवाह रानी उषा सिंह से, 2 पुत्र और 4 पुत्रियां, सदस्य, (1) उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1969—80 और (2) राज्य सभा, 1-8-1989 से 2-4-1990।

स्थायी पता तिलोई भवन, 19, केसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।

मोहनन, श्री के० वी० ए०, भा० सा० द० (मार्क्सवादी) (केरल), श्री कृष्ण पिलै के आत्मज, जन्म 5 अप्रैल, 1940, विवाह श्रीमती के० पद्मावती से, 2 पुत्रियां, सदस्य, राज्य सभा, 2-7-1982 से 1-7-1988, अध्यक्ष, (1) राज्य सभा की सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, 1984—86 और (2) राज्य सभा की सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति, 1986—88।

स्थायी पता. पडवाथ हाउस, पल्लाना, थिक्कुन्नापूजा, एल्लेप्पी जिला (केरल)।

मोहनरगम, श्री आर० एम० ए०, वी० एल०, अ० भा० अ० द्र० मु० क० (तमिलनाडु), श्री ए० रागवतु नायडु के आत्मज, जन्म 27 नवम्बर, 1934, विवाह श्रीमती एम० अमिक्तावल्ली से, 3 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1) लोक सभा, 1977—79 और (2) राज्य सभा, 30-6-1980 से 8-9-1982 और 11-2-1983 से 29-6-1986, अध्यक्ष, राज्य सभा की सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति, 1984-85, दिवंगत। श्रद्धाजलि—9-4-1990।

\*मोहम्मद अफजल, श्री उर्फ मीम अफजल. एम० ए०, वी० एड०, जनता दल (उत्तर प्रदेश), श्री मोहम्मद अहमद के आत्मज, जन्म 8 जनवरी, 1952, विवाह श्रीमती शहनाज परवीन से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1990 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता. 1734, कूचा डाखनी राय, दरिया गज, नई दिल्ली।

मोहम्मद अली, श्री वी० ए०, एलएल० वी०, कांग्रेस (मध्य प्रदेश), श्री वादल मिया के आत्मज, जन्म 7 दिसम्बर, 1923, विवाह श्रीमती असमतुनिशा से, 1 पुत्र और 5 पुत्रियां, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1956 से 2-4-1962।

स्थायी पता बुदार, जिला शहडोल (मध्य प्रदेश)।

मोहम्मद, चौधरी ए० काप्रेस (सगठन) (बिहार), चौधरी ए० गफ्फार के आत्मज, जन्म 1922, विवाह, (1) श्रीमती तमीजुन निशा से, 2 पुत्र और 1 पुत्री और (2) श्रीमती नुरूल फातिमा से, 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 22-9-1961 से 2-4-1964, 3-4-1964 से 2-4-1970 और 3-4-1970 से 7-2-1973, दिवगत। श्रद्धाजलि—19-2-1973।

मोहम्मद फारूकी, मौलाना विद्वान, अल-अजहर विश्वविद्यालय, काहिरा (मिश्र), मास्टर ऑफ ओरियन्टल लेगवेजेज एंड थियोलॉजिकल स्टडीज सेटर, काप्रेस (उत्तर प्रदेश), मौलाना विलायत हुसैन के आत्मज, जन्म 1904, विवाह श्रीमती अमीना से, 4 पुत्र और 4 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954 और 3-4-1954 से 2-4-1960, धर्म विज्ञान सम्बन्धी अनेक पुस्तको के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—21-2-1989।

\*मोहम्मद यूनस, श्री: (नाम-निर्देशित) (काप्रेस आई), श्री हाजी गुलाम समदानी के आत्मज, जन्म 26 जून, 1916, विवाहित, 1 पुत्र, अनेक स्थानों पर भारतीय राजनयिक मिशनो के अध्यक्ष, चाण्डिय मलालय के सेवानिवृत्त सचिव, अध्यक्ष, भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण, 1971—77 तथा राज्य मंत्री का दर्जा, 1980—89, सदस्य, राज्य सभा, 15-6-1989 से अद्यपर्यन्त, कुछ पुस्तको के लेखक।

स्थायी पता: 1, तुगलक रोड, नई दिल्ली।

मोहम्मद रफीक, श्री. निर्दलीय (असम), श्री नूरकश के आत्मज, जन्म 1899, विवाह वेगम रईसा खातून से, 4 पुत्र और 4 पुत्रिया, सदस्य, (1) असम विधान सभा, 1946 और 1952 और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956, उपाध्यक्ष, असम प्रान्तीय मुस्लिम लीग, दिवगत, 6-1-1970।

\*मोहम्मद सलीम, श्री एम० ए० (दर्शनशास्त्र), भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) (पश्चिमी बंगाल), श्री अजीज-उल-हक के आत्मज, जन्म 5 जून, 1957, विवाह डा० (श्रीमती) रोसिना खातून से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1990 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता 14/1 डी कवितीर्थ सरणि, खिदिरपुर, कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)।

मोहिदीन, श्री एस० ए० खाजा. मुस्लिम लीग (तमिलनाडु), श्री एस० अब्दुल खादर के आत्मज, जन्म 4 फरवरी, 1927, विवाह श्रीमती जैलानी बी से, 6 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1968 से 2-4-1974 और 3-4-1974 से 2-4-1980, सचिव, मुस्लिम लीग, तमिलनाडु।

स्थायी पता. 4, फर्स्ट सरदारजग, गार्डन स्ट्रीट, मद्रास (तमिलनाडु)।

मौर्य, श्री वृद्ध प्रिय बी० एससी०, एलएल० एम०, (सांविधानिक विधि में विशेषज्ञताप्राप्त), निर्दलीय (आन्ध्र प्रदेश), श्री बी० आर० मौर्य के आत्मज, जन्म 12 सितम्बर, 1928, विवाह श्रीमती काता मौर्य से, 4 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, लोक सभा, 1962—67 तथा 1971—77, कृषि और उद्योग मंत्रालय में केन्द्रीय राज्य मंत्री, 1974—77, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1978 से 9-4-1984।

स्थायी पता "गिरवर", साहिबाबाद, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)।

म्हैसेकर, श्री गोविन्दराव रामचन्द्र. एम० एससी०, एलएल० बी०, काग्रेस (आई) (महाराष्ट्र), श्री रामचन्द्र राव म्हैसेकर के आत्मज, जन्म 14 दिसम्बर, 1923, विवाह श्रीमती शकुन्तला म्हैसेकर से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1976 से 2-4-1982।

स्थायी पता. 1-8-41, कैलाश नगर, नान्देड (महाराष्ट्र)।

याजी, श्री शील भद्रः काग्रेस (बिहार), श्री शिवताहल याजी के आत्मज, जन्म 22 मार्च, 1916, सदस्य, राज्य सभा, 27-4-1957 से 2-4-1958, 3-4-1958 से 2-4-1964 और 3-4-1966 से 2-4-1972, जनरल सेक्रेटरी / प्रेजीडेन्ट, फारवर्ड ब्लाक, बिहार, उपाध्यक्ष/अध्यक्ष/महासचिव, फारवर्ड ब्लाक, जनरल सेक्रेटरी, आल इण्डिया युनाइटेड लेफ्ट फ्रंट, 1947—49, कुछ पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता 'नशैमन' फ्रेजर रोड, पटना (बिहार)।

\*यादव, श्री ईशदत्त. बी० ए०, एलएल० बी०, जनता दल (एस) (उत्तर प्रदेश), श्री शिव फेर यादव के आत्मज, जन्म 21 सितम्बर, 1936, विवाह श्रीमती माया यादव से, 4 पुत्र और 6 पुत्रिया, सदस्य, (1) उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1977 और (2) राज्य सभा, 3-4-1988 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता गाव ऐग खुर्द, डाकखाना ऐरा कला, जिला आजमगढ (उत्तर प्रदेश)।

यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद बी० ए०, बी० एल०, आचार्य (हिन्दी), भारतीय जनता पार्टी (बिहार), श्री राजपति प्रसाद यादव के आत्मज, जन्म जनवरी, 1925, विवाह श्रीमती जानकी देवी से, 3 पुत्र और 5 पुत्रिया, सदस्य, (1) बिहार विधान सभा, 1962—67, (2) लोक सभा, 1977—79 और (3) राज्य सभा, 3-4-1968 से 2-4-1974 और 3-4-1982 से 2-4-1988, केन्द्रीय राज्य मंत्री, (1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अगस्त, 1977 से जनवरी, 1979 और (2) उद्योग मंत्रालय में उद्योग विभाग में जनवरी, 1979 से जुलाई, 1979, अध्यक्ष, (1) भारतीय जनसंघ, बिहार और (2) भारतीय जनता पार्टी, बिहार, उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय जनसंघ।

स्थायी पता ग्राम और पोस्ट एकाशी, जिला मुंगेर (बिहार)।



\*यादव, श्री वलराम सिंह वी० ए०, एलएल० वी०, काग्रेस (आई) (उत्तर प्रदेश), श्री महेन्द्र सिंह यादव के आत्मज, जन्म 22 अप्रैल, 1939, विवाह श्रीमती कृष्णा यादव से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1969—74 और 1980 से 1984, मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, 1969-70, 1971—73, 1980—83 और 1984-85, सदस्य, (1) लोक सभा, 1984 से 1989 और (2) राज्य सभा, 3-4-1990 से अद्यपर्यन्त, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (आई), 1984—90।

स्थायी पता. 26, लक्ष्मणपुरी लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।

\*यादव, श्री रजन प्रसाद. एम० एससी० (भूविज्ञान), पीएच० डी०, जनता दल (बिहार), श्री जगन भगत के आत्मज, जन्म 18 अप्रैल, 1948, विवाह श्रीमती सुमन यादव से, 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1990 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता. कदम कुआ, नाला रोड, पटना (बिहार)।

\*यादव, श्री राम नरेश. एम० ए०, एलएल० वी०, कांग्रेस (आई) (उत्तर प्रदेश), श्री गया प्रसाद यादव के आत्मज, जन्म 1 जुलाई, 1928, विवाह श्रीमती अनारी देवी उर्फ शांति देवी से, 3 पुत्र और 5 पुत्रिया, सदस्य, (1) लोक सभा, मार्च-दिसम्बर, 1977 और (2) उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1978 और 1985, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश, जून, 1977 से मार्च, 1979, उप-मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश, मार्च, 1979 से फरवरी, 1980, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1988 से 12-4-1989 और 20-6-1989 से अद्यपर्यन्त, महासचिव, भारतीय लोक दल, हिन्दी में "समता की ओर" और "आख देखी नहीं कागज लेखी" पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता. (1) मोहल्ला अलवल, आजमगढ (उ० प्र०) और (2) न० 1, माल एवेन्यू, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।

यादव, श्री रामानन्द: एम० ए०, कांग्रेस (आई) (बिहार), श्री अनन्त यादव के आत्मज, जन्म 1927, सदस्य, बिहार विधान सभा, 1952—57, 1962—67 और 1969—71, मंत्री, बिहार सरकार, 1969—71, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1976 से 2-4-1982 और 3-4-1982 से 2-4-1988, अध्यक्ष, याचिका समिति, राज्य सभा, 1982-84, केन्द्रीय राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास, जून, 1986 से अप्रैल, 1988, तीन वर्ष तक महासचिव, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी।

स्थायी पता. स्थान और डाकघर मुबारकपुर, चरास्ता तेजपुर, फुलवारिया, जिला—सारण छपरा (बिहार)।

यादव, श्री शरद. वी० ई०, एम० एससी० (पूर्वार्ध) (गणित), जनता दल (उत्तर प्रदेश), श्री नन्द किशोर यादव के आत्मज, जन्म 1 जुलाई, 1945, अविवाहित, सदस्य, (1) लोक सभा, 1975—76 तथा 1977—79 और (2) राज्य सभा, 5-7-1986 से 28-11-1989, महासचिव, लोक दल।

स्थायी पता: 46-ए, मोहल्ला हाउसिंग सोसायटी, इटावा (उत्तर प्रदेश)।

यादव, श्री श्याम लाल एम० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस (आई) (उत्तर प्रदेश), श्री बालकृष्ण के आत्मज, जन्म 12 सितम्बर, 1927, विवाह श्रीमती जानकी देवी से, 5 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1957—62 और 1967-68, मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, अप्रैल, 1967 से फरवरी, 1968, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1970 से 2-4-1976, 3-4-1976 से 2-4-1982 और 3-4-1982 से 29-12-1984, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1977-79, उपसभापति, राज्य सभा, जुलाई, 1980 से दिसम्बर, 1984, अध्यक्ष, (1) सरकारी आध्यासनो सम्बन्धी समिति, राज्य सभा, 1974—76 और 1978—80 और (2) विशेषाधिकार समिति, राज्य सभा, 1980—84, सचिव/उपाध्यक्ष, \*बी० के० डी०, उत्तर प्रदेश, 1969—73, उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश काग्रेस कमेटी (आई), 1977—80।

स्थायी पता सी०-27/137-6, रामपुरी, जगतगज, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)।

यादव, श्री हुकमदेव नारायण स्नातक, जनता पार्टी (बिहार), श्री राजगीर यादव के आत्मज, जन्म 17 नवम्बर, 1939, विवाह श्रीमती आशा देवी से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य (1) बिहार विधान सभा, 1967—74, (2) लोक सभा, 1977—79 और (3) राज्य सभा, 7-7-1980 से 6-7-1986, महासचिव, (1) बी० एल० डी०, 1975—77, (2) जनता पार्टी, बिहार, 1977—79 और (3) जनता पार्टी।

स्थायी पता. गाव और डाकखाना बिजुली, जिला दरभंगा (बिहार)।

\*योगम, श्री न्योडेक एम० ए० (राजनीति विज्ञान), काग्रेस (आई) (अरुणाचल प्रदेश), श्री रिन्यो योगम के आत्मज, जन्म 1 मार्च, 1946, विवाह श्रीमती नीलिमा योगम से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 27-5-1990 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता ग्राम और डाकघर ओयान वाया पासीघाट, पूर्वी सियाग जिला (अरुणाचल प्रदेश)।

रगनाथन, श्री एस० एम० ए०, निर्दलीय (तमिलनाडु), श्री आर० सौराजन के आत्मज, जन्म 12 नवम्बर, 1908, विवाह श्रीमती पदमा से, 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1974 से 2-4-1980, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, 1966—72, दिवगत। श्रद्धाञ्जलि—27-12-1990।

रगा, प्रो० एन० जी० बी० लिट् (ऑक्सफोर्ड), डि० लिट् (आन्ध्र प्रदेश), राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और सामाजिक विज्ञान में डिप्लोमा (ऑक्सफोर्ड), काग्रेस (आई) (आन्ध्र प्रदेश), श्री नगैया गोगिनेनी के आत्मज, जन्म 7 नवम्बर, 1900, विवाह श्रीमती भारती देवी से, सदस्य, (1) केन्द्रीय विधान सभा, 1930, 1935—45, (2) सविधान सभा, 1946—50, (3) अन्त कालीन ससद, 1947—51 और (4) लोक सभा, 1957—61, 1962—67 और 1967—70, अध्यक्ष, लोक लेखा समिति, 1958-59, सदस्य राज्य सभा, 3-4-1952 से 16-3-1957 और 18-7-1977 से 8-1-1980, अध्यक्ष, आन्ध्र प्रान्तीय काग्रेस, 1946—51, अध्यक्ष, स्वतन्त्र पार्टी, 1959—71, अग्रेजी और तेलुगू में बड़ी सख्या में पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता पीजेन्ट इस्टीट्यूट, नुडुवरेलु डाकघर, जिला गुन्टूर (आन्ध्र प्रदेश)।

**रघुवीर, (प्रो०) डा०:** एम० ए०, पीएच० डी० (लंदन), डी० लिट्० एट्० फिल० (हॉलेड), कांग्रेस (गुजरात), श्री मुशीराम के आत्मज, जन्म दिसम्बर, 1902, विवाह श्रीमती लज्जावती देवी से, 1 पुत्र और 4 पुत्रिया, सदस्य, (1) सविधान सभा और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956 और 3-4-1956 से 2-4-1962, शब्द कोशो तथा शब्दावली सकलन सहित विभिन्न विषयो पर अनेको पुस्तको के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—13-8-1963।

**रघुवीर सिंह, डा०:** एम० ए०, एलएल० बी०, डी० लिट्०, कांग्रेस (मध्य प्रदेश); महामहिम महाराजा सर राम सिंह जी के आत्मज, जन्म 23 फरवरी, 1908, विवाह महाराज कुमारी मोहन कुमारी से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, अध्यक्ष, सीतामऊ स्टेट राज्य परिषद (विधान मडल), 1939-41 और 1945-46, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954 और 3-4-1954 से 2-4-1960, हिन्दी तथा अग्रेजी की अनेको पुस्तको के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—21-2-1991।

**रचैया, श्री बी०:** बी० एससी०, बी० एल०, कांग्रेस (कर्णाटक), श्री वसवेया के आत्मज, जन्म 10 अगस्त, 1922, विवाह श्रीमती गोरम्मा से, 2 पुत्र और 5 पुत्रिया, सदस्य, कर्णाटक विधान सभा, 1952—70, मैसूर सरकार मे मंत्री, 1962—70, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1974 से 21-3-1977।

**स्थायी पता:** अलूर, धमराज नगर तालुक, जिला मैसूर (कर्णाटक)।

**रजाक, श्री ए० अब्दुल. एम० ए०, एलएल० बी०, टी० टी० एन० सी० (ट्रावनकोर-कोचिन वर्तमान केरल), श्री अल्लापिचेई साहिव के आत्मज, जन्म 24 अप्रैल, 1914, विवाह श्रीमती नफिजा से, 1 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) ट्रावनकोर-कोचिन विधान सभा और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956, दिवगत। श्रद्धाजलि—21-2-1991।**

**रजाक, श्रीमती नूरजहां:** बी० ए०, बी० एल०, ए० आई० ए० डी० एम० के० (तमिलनाडु), श्री बी० रुस्तम खान की आत्मजा, जन्म 25 दिसम्बर, 1939, विवाह श्री एम० रजाक से, 1 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 25-7-1977 से 24-7-1983।

**स्थायी पता:** 123, पिडारियर कोइल स्ट्रीट, मद्रास (तमिलनाडु)।

**\*रजी, श्री सैयद सिद्दिके** बी० कॉम०, एलएल० बी०, कांग्रेस (आई) (उत्तर प्रदेश), श्री सैयद विरासत हुसैन के आत्मज, जन्म 7 मार्च, 1939, विवाह श्रीमती चाद फरहाना से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) राज्य सभा, 5-7-1980 से 14-5-1985 और 6-12-1988 से अद्यपर्यन्त और (2) उत्तर प्रदेश विधान परिषद, 1985—88, मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, 1985—88, महामंत्री, उत्तर प्रदेश कांग्रेस (आई) समिति, 1980।

**स्थायी पता.** डी-2/8, रिबर बैंक कालोनी, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।

\*रणजीत सिंह, श्री जनता दल (एस) (हरियाणा); श्री देवीलाल के आत्मज, सदस्य, (1) हरियाणा विधान सभा और (2) राज्य सभा, 12-9-1990 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता: गाव चौटाला, जिला सिरसा (हरियाणा)।

रणवीर सिंह, श्री. वी० ए०, कांग्रेस (हरियाणा), चौधरी मातृ राम के आत्मज, जन्म 26 नवम्बर, 1914, विवाह श्रीमती हरदेवी से, 5 पुत्र, सदस्य, (1) सविधान सभा, 1947—50, (2) सविधान सभा (विधायी), 1947—50, (3) अस्थायी संसद, 1950—52, (4) लोक सभा, 1952—62 और (5) पंजाब विधान सभा, 1962—66, पंजाब सरकार में मंत्री, सदस्य, हरियाणा विधान सभा, 1966-67 और 1968—72, हरियाणा सरकार में मंत्री, 1966-67, सदस्य राज्य सभा, 10-4-1972 से 9-4-1978, अध्यक्ष, राज्य सभा की आवास समिति, 1974—76, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1976-77।

स्थायी पता: गाव और डाकघर साधी, रोहतक (हरियाणा)।

\*रत्न कुमारी, श्रीमती. इटरमोडिण्ट, काव्य तीर्थ, कांग्रेस (आई) (मध्य प्रदेश), श्री सेठ गोविन्द दास की आत्मजा, जन्म 13 दिसम्बर, 1913, विवाह श्री लक्ष्मी चन्द से, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1976 से 2-4-1982, 3-4-1982 से 2-4-1988 और 3-4-1988 से अद्यपर्यन्त, कुछ पुस्तकों की लेखिका।

स्थायी पता: 238, कोतवाली वार्ड, जबलपुर (मध्य प्रदेश)।

रत्नस्वामी, श्री एम०. एम० ए० (केंटव०), वार-एट-लॉ (ग्रेज इन), स्वतंत्र पार्टी (तमिलनाडु), राय वहादुर एम० आई० रत्नस्वामी के आत्मज, जन्म 15 अगस्त, 1885, विवाह श्रीमती मेरी से, 4 पुत्र तथा 5 पुत्रिया, सदस्य, (1) मद्रास विधान परिषद, 1921—25, (2) केन्द्रीय विधान सभा, 1927 और (3) राज्य सभा, 3-4-1962 से 2-4-1968 और 3-4-1968 से 2-4-1974, बुलपति, अन्ना मलाई विश्वविद्यालय, 1942—48, 1968 में 'पद्म भूषण' से सम्मानित, अनेक पुस्तकों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—11-6-1977।

रथ, श्री अभिमन्यु: गणतंत्र परिषद (उड़ीसा), श्री भागीरथी रथ के आत्मज, जन्म 13 जून, 1921, विवाह श्रीमती लावण्य देवी से, 4 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1956 से 2-4-1962, दिवगत। श्रद्धाजलि—20-12-1989।

रथ, श्री वैद्यनाथ: डी० एड०, वी० एल०, साम्यवादी दल (उड़ीसा), श्री रघुनाथ रथ के आत्मज, जन्म 12 अप्रैल, 1912, विवाह श्रीमती तिलोत्तमा देवी से, 3 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) उड़ीसा विधान सभा, 1946—52 और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954।

स्थायी पता: गाव कलरहग, डाकघर पतिया, जिला कटक (उड़ीसा)।

\*रफीक आलम, श्री: एम० ए०, एलएल० बी०, कांग्रेस (आई) (बिहार), मोहम्मद खलीलुर्रहमान के आत्मज, जन्म 1 जून, 1929, विवाह श्रीमती आलम आर से, 5 पुत्र और 4 पुत्रिया, सदस्य, बिहार विधान सभा, 1962—67 और 1969—80, बिहार सरकार में मंत्री, अध्यक्ष, प्राक्कलन समिति, बिहार विधान सभा, 1969-70, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1982 से 2-4-1988 और 3-4-1988 से अद्यपर्यन्त, अध्यक्ष, राज्य सभा की याचिका समिति, 1986—88, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, वस्त्र और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालयो में केन्द्रीय उपमन्त्री/राज्य मंत्री, फरवरी, 1988 से नवम्बर, 1989, अध्यक्ष, बिहार प्रदेश कांग्रेस (आई) समिति, 1980—83, राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, 1988 से सम्मानित।

स्थायी पता: गाव गौडामणी, डाकघर गगीहाट, वारास्ता किशनगज, जिला पूर्णिया (बिहार)।

रमेश बाबू, श्री एस० बी०: बी० ए०, एलएल० बी०, कांग्रेस (आई) (आंध्र प्रदेश), श्री एस० बालाराम के आत्मज, जन्म 6 फरवरी, 1949, अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1982 से 2-4-1988।

स्थायी पता: 11-6-517, नामपल्ली, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)।

रमोल, श्री शिवानन्द: कांग्रेस (हिमाचल प्रदेश), श्री फतेह सिंह के आत्मज, जन्म 2 अक्टूबर, 1894, विवाह श्रीमती भजनी देवी से, 7 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1) हिमाचल प्रदेश विधान सभा, 1952—56, (2) लोक सभा, 1959—62 और (3) राज्य सभा, 3-4-1962 से 2-4-1968, महासचिव/अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस समिति, 1952—59, दिवगत। श्रद्धाजलि—13-3-1972।

\*रवि शंकर, पंडित: केलिफोर्निया, सान्ताक्रूज, कोलगेट-हेमिल्टन, न्यूयार्क विश्वविद्यालयो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, रवीन्द्र भारती और दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा डी० लिट्० की मानद उपाधि से सम्मानित, (नाम-निर्देशित), पंडित श्याम शंकर के आत्मज, जन्म 7 अप्रैल, 1920, विवाहित, 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 12-5-1986 से अद्यपर्यन्त, सम्मानित, (1) पद्म विभूषण, (2) फैलो आफ संगीत नाटक अकादमी, (3) विश्वभारती से देशी-कोट्टम, (4) त्रैमी अवार्ड, (5) एशियाड '82 के लिए कलात्मक निदेशक और संगीत के लिए रचनाकार 'विशिष्ट ज्योति' और (6) 'कालिदास सम्मान', अग्नेजी और वाग्ला में पुस्तको के लेखक।

स्थायी पता: 5-13/131, तराना बाजार, शिवपुर, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)।

रहमतुल्ला, श्री के० मुहम्मद: कांग्रेस (मद्रास अब तमिलनाडु), श्री के० हुसैन पीरन साहिब के आत्मज, जन्म 2 जून, 1902, विवाह रहमतुन्निसा बेगम से, 3 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1) मद्रास विधान सभा, (2) मद्रास विधान परिषद, (3) केन्द्रीय विधान सभा और (4) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954।

स्थायी पता: अनन्तपुर, मद्रास (तमिलनाडु)।

रहमतुल्ला, श्री मोहम्मद. कांग्रेस (आई) (आन्ध्र प्रदेश), शेख हुसैन साहिब के आत्मज, विवाह श्रीमती करीमुन्निसा बेगम से, 5 पुत्र और 6 पुत्रिया, सदस्य, (1) आन्ध्र प्रदेश विधान सभा 12 वर्षों के लिए और (2) राज्य सभा, 3-4-1976 से 2-4-1982, उपाध्यक्ष/अध्यक्ष, आन्ध्र प्रदेश कांग्रेस समिति (आई)।

स्थायी पता डाकघर वाक्स न० 12, कडप्पा (आन्ध्र प्रदेश)।

\*रहमान, श्री मोहम्मद खलीलुर एम० ए०, एलएल० बी०, तेलुगू देशम् (आन्ध्र प्रदेश), श्री मोहम्मद अब्दुल लतीफ के आत्मज, जन्म 4 जनवरी, 1936, विवाह श्रीमती फारूख जमाल से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 5-10-1987 से 2-4-1988 और 3-4-1988 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता (1) कोडागल-509338, महबूब नगर जिला (आन्ध्र प्रदेश) और (2) 10-3-14/बी/6, सिन्धी कालोनी, हुमायू नगर, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)।

राउत, श्री राजाराम बालकृष्ण (बम्बई अब महाराष्ट्र), सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 15-3-1957। [अन्य विवरण उपलब्ध नहीं हैं।]

स्थायी पता 91, कोलीवाडी, कासावाडी, बम्बई (महाराष्ट्र)।

राउतराय, श्री नीलमणि. बी० ए०, एलएल० बी०, बी० एल० डी० (उड़ीसा), श्री चन्द्र शेखर राउतराय के आत्मज, जन्म 24 मई, 1920, विवाह श्रीमती नलिनी देवी राउतराय से, 1 पुत्र, 24 वर्ष तक उड़ीसा विधान सभा के सदस्य रहे, 18 वर्ष तक उड़ीसा सरकार में उपमन्त्री/मन्त्री रहे, 4 वर्ष तक उड़ीसा सरकार में उप-मुख्य मन्त्री रहे, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1976 से 26-6-1977, अध्यक्ष, (1) उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, 1967—70, (2) उड़ीसा कांग्रेस, 1970 और (3) भारतीय लोक दल, उड़ीसा।

स्थायी पता 26, कैन्टोनमेंट रोड, कटक (उड़ीसा)।

राजंगम, श्री एन० मैट्रिक, अ० भा० अ० ड्र० मु० क० (I) (तमिलनाडु), श्री नारायणन् के आत्मज, जन्म 1 दिसम्बर, 1920, विवाह श्रीमती दावमणी से, 3 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, तमिलनाडु विधान सभा, 1962—76, तमिलनाडु सरकार में मन्त्री, 1974—76, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1984 से 2-4-1990।

स्थायी पता. 32-ए, थानम नगर, तिरुप्पुलियर कुड्डालोर एन० टी०, दक्षिणी अर्काट (तमिलनाडु)।

राजगोपाल, श्री एम०: बी० एससी० तक अध्ययन किया, कांग्रेस (आई) (कर्णाटक), श्री एम० मुनीरगैया के आत्मज, जन्म 23 अप्रैल, 1935, विवाह श्रीमती शारदा से, 1 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1982 से 2-4-1988, महामन्त्री, कर्णाटक प्रदेश कांग्रेस (आई) समिति, दो वर्षों के लिए।

स्थायी पता मल्लोहल्ली कदानूर, डाकघर दोडुवल्लापुर, बगलौर (कर्णाटक)।

राजगोपालन, श्री जी० वी० ए०, काग्रेस (मद्रास, अब तमिलनाडु), श्री जी० श्रीनिवासाचारियर के आत्मज, जन्म 22 सितम्बर, 1921, विवाह श्रीमती ललिता राजगोपालन से, 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1958, 3-4-1958 से 2-4-1964 और 3-4-1964 से 16-11-1964, केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री के ससदीय सचिव, 1953—60, महामंत्री, अखिल भारतीय काग्रेस समिति, 1960—62, दिवगत। श्रद्धाजलि—16-11-1964।

राजगोपालन, श्रीमती जी० ललिता: वी० ए० (आनर्स), एम० ए० (अर्थशास्त्र), काग्रेस (मद्रास, अब तमिलनाडु), श्री के० नरसिम्हा अय्यर की आत्मजा, जन्म 28 मार्च, 1924, विवाह श्री जी० राजगोपालन से, 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 13-1-1965 से 2-4-1970।

स्थायी पता: 17-12, क्रास स्ट्रीट, शास्त्री नगर, मद्रास (तमिलनाडु)।

राजन, श्री पट्टियम्: वी० ए०, वी० एल०, भा० सा० द० (मार्क्सवादी) (केरल), श्री कुन्ही कुट्टी के आत्मज, जन्म 28 फरवरी, 1942, विवाह श्रीमती पद्मजा से, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1976 से 2-4-1982।

स्थायी पता डाकघर पट्टायकुन्नु, जिला कन्ननूर (केरल)।

राजनारायण, श्री वी० ए०, एलएल० वी०, जनता पार्टी (उत्तर प्रदेश), श्री अनन्त प्रसाद सिंह के आत्मज, जन्म 15 मार्च, 1917, विवाहित, 3 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1) उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1952 और 1957 और (2) राज्य सभा, 3-4-1966 से 2-4-1972 और 3-4-1974 से 21-3-1977, अध्यक्ष, समाजवादी दल, 1961, अध्यक्ष, अखिल भारतीय समाजवादी दल, 1961—64, महासचिव अखिल भारतीय संयुक्त समाजवादी दल, 1965-66, दिवगत। श्रद्धाजलि—23-2-1987।

राजभोज, श्री पाडुरंग नाथुजी: काग्रेस (महाराष्ट्र), श्री नाथुजी राजभोज के आत्मज, जन्म 15 मार्च, 1905, विवाह श्रीमती रुक्मिणी बाई से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 22-4-1957 से 2-4-1962, मराठी में 'लश्करी पेशा' नामक पुस्तक के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—23-7-1984।

राजशेखरम्, श्री पलवलास: वी० एससा० (आनर्स), काग्रेस (आई) (आन्ध्र प्रदेश), श्री सगम नायडू के आत्मज, जन्म 1 जनवरी, 1944, विवाह श्रीमती इदुमती से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1976 से 2-4-1982।

स्थायी पता: गाव तथा डाकघर नीलनगरम्, तालुक पालाकोडा, जिला श्रीकाकुलम् (आन्ध्र प्रदेश)।

राजा, श्री एच० डी०: भारतीय रिपब्लिकन पार्टी (मद्रास, अब तमिलनाडु), श्री हरीहरीयर के आत्मज, जन्म 1904 विवाह श्रीमती सरोजिनी राजा से, 3 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1958 और 3-4-1958 से 30 11-1959, सस्थापक अध्यक्ष, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, पुस्तको और लघु कहानियो के लेखक, दिवगत।  
श्रद्धाजलि—1-12-1959।

\*राजा रमन्ना. डा०. पीएच० डी० (फिशन फिजिक्स), जनता दल (उत्तर प्रदेश), श्री बी० रमन्ना के आत्मज, जन्म 28 जनवरी, 1925, विवाह श्रीमती मालेथी रमन्ना से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 23-3-1990 से अद्यपर्यन्त, रक्षा भन्नालय में केन्द्रीय राज्य मंत्री, जनवरी, 1990 से नवम्बर, 1990, (1) पद्मश्री, 1968, (2) पद्म भूषण, 1973, (3) पद्म विभूषण, 1975 और (4) अनेक वैज्ञानिक पुरस्कारों से सम्मानित।

स्थायी पता 407, ब्लॉक\*2, 9वीं क्रॉस रोड, रविन्द्रनाथ टैगोर नगर, बगलौर (कर्णाटक)।

राजू, श्री अल्लुरी सत्यनारायणः साहित्य विशागद और प्रचारक, काग्रेस (आन्ध्र प्रदेश), श्री अल्लुरी सोमराजू गल्फी के आत्मज, जन्म 26 जनवरी, 1914, विवाह श्रीमती अल्लुरी अन्नपूर्णा देवी से, 3 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) मद्रास विधान सभा, 1946—52 और (2) राज्य सभा, 19-11-1953 से 2-4-1954 और 3-4-1954 से 2-4-1960, महासचिव/अध्यक्ष, आन्ध्र प्रदेश काग्रेस समिति, 1951-52 और 1956—58, दिवगत।  
श्रद्धाजलि—4-9-1963।

\*राजू, श्री जे० एस०० वी० ए०, वी० एड०, ड० मु० क० (तमिलनाडु), श्री सोनाचलम के आत्मज, जन्म 11 नवम्बर, 1935, विवाह श्रीमती ललिता से, 3 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) तमिलनाडु विधान सभा, 1967, 1971 और 1980 से प्रारम्भ होने वाली तीन अवधियों के लिए और (2) राज्य सभा, 25-7-1989 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता: 28, अन्ना इल्लाम, वेंकटेशपुरम, पैरम्बलूर, जिला त्रिची (तमिलनाडु)।

राजू, श्री वी० वी०० सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, काग्रेस (यू) (आन्ध्र प्रदेश), श्री विस्सम राजू के आत्मज, जन्म 6 मई, 1914, विवाह श्रीमती कमला से, सदस्य, (1) हैदराबाद विधान सभा, 1952—56 और (2) आन्ध्र प्रदेश विधान सभा, 1956—59 तथा 1967—70, मंत्री, (1) हैदराबाद सरकार, 1950—53 और (2) आन्ध्र प्रदेश सरकार, 1956—59 और 1967—69, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1970 से 2-4-1976 और 3-4-1976 से 2-4-1982, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1974—76, महासचिव/उपाध्यक्ष, प्रदेश काग्रेस समिति, आन्ध्र प्रदेश, महासचिव, अखिल भारतीय काग्रेस समिति, 'हैदराबाद कास्टीट्यूशनल रिफार्मस्' नामक पुस्तक के लेखक, दिवगत।  
श्रद्धाजलि—10-12-1986।

राजेन्द्र कौर, डा० (श्रीमती): एम० ए० (दर्शनशास्त्र), जी० टी०, पीएच० डी०, शिरोमणि अकाली दल (पंजाब), मास्टर तास सिंह की आत्मजा, जन्म 10 फरवरी, 1931, विवाह विंग कमांडर कमल जीत सिंह से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1978 से 9-4-1984, दिवगत। श्रद्धाजलि—21-2-1989।



राजेन्द्रन, श्री सेडापट्टी सूर्यनारायण थेवर. ड० मु० क० (तमिलनाडु), श्री सूर्यनारायण थेवर के आत्मज, जन्म 16 दिसम्बर, 1927, विवाह श्रीमती पक्कज अम्माल से, 5 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1) मद्रास विधान सभा, 1962—67 और (2) राज्य सभा, 3-4-1970 से 2-4-1976।

स्थायी पता: 3/3, एल्डम्स रोड, 'अन्ना इल्लम' तेनमपेट्ट, मद्रास (तमिलनाडु)।

राजेन्द्र सिंह ईश्वर सिंह, श्री: वी० ए०, एलएल० वी०, कांग्रेस (आई) (मध्य प्रदेश), सरदार वहादुर ईश्वर सिंह के आत्मज, जन्म 10 अप्रैल, 1913, विवाह श्रीमती घन राजेन्द्र सिंह से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 30-6-1980 से 2-4-1982।

स्थायी पता: राजेन्द्र मार्ग, जबलपुर (मध्य प्रदेश)।

\*राठवा, श्री रामसिंह: मेट्रिक, चित्रकला में डिप्लोमा और ग्राफीय में पोस्ट डिप्लोमा, कांग्रेस (आई) (गुजरात); श्री पतलियाभाई के आत्मज, जन्म 1 जून, 1951, विवाह श्रीमती सुधाबेन रामसिंह राठवा से, 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1982 से 2-4-1988 और 3-4-1988 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता: गाव पिपलाडी, डाकघर पनवाड, तहसील छोटा उदयपुर, जिला बडोदरा (गुजरात)।

राठी, श्री कुंज बिहारी लाल: वी० ए०, एलएल० वी०, जनसघ (उत्तर प्रदेश), श्री लाल मंगल चन्द के आत्मज, जन्म 17 अगस्त, 1910, विवाह श्रीमती नर्वदा देवी से, 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1966 से 13-7-1968, मंत्री, भारतीय जनसघ, उत्तर प्रदेश, 1959—63, दिवगत। श्रद्धाञ्जलि—22-7-1968।

राणावत, श्री महेन्द्र सिंह: कांग्रेस (राजस्थान), कवर रणधीर सिंह जी के आत्मज, जन्म 31 मार्च, 1901, विवाह श्रीमती गुलाब कवर राठोडनीजी से, 2 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954, पूर्वकाल में कोटा स्टेट में मंत्री, दिवगत। श्रद्धाञ्जलि—16-11-1987।

राधाकृष्ण, श्री पुट्टापागा: एम० ए०, एलएल० वी०, तेलुगू देशम् (आन्ध्र प्रदेश), श्री पुट्टापागा वुदैया के आत्मज, जन्म 13 फरवरी, 1944, विवाह श्रीमती पी० करूणामणि से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1984 से 9-4-1990।

स्थायी पता: मकान न० 2-2-1/5, कलक्टर के कार्यालय के सामने, महबूब नगर (आन्ध्र प्रदेश)।

रामकृष्णन्, श्री आर०: एम० ए०, बी० कॉम०, अ० भा० अ० ड्र० मु० क० (तमिलनाडु), श्री के० रमास्वामी के आत्मज, जन्म 26 मार्च, 1946, विवाह श्रीमती कमला से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 30-6-1980 से 29-6-1986, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1981—84।

स्थायी पता. 'हरि' न० 14, सीताम्मा रोड, अलवारपेट, मद्रास (तमिलनाडु)।

राम चन्द्र, श्री० (हरियाणा), सदस्य, राज्य सभा, 29-11-1966 से 2-4-1968। [अन्य विवरण उपलब्ध नहीं हैं।]

स्थायी पता: मकान न० 466, सोनीपत रोड, रोहतक (हरियाणा)।

रामचन्द्रन्, श्री एम० एस०: इन्टरमीडिएट तक अध्ययन किया, कांग्रेस (आई) (तमिलनाडु), श्री एम० वी० सामाराव के आत्मज, जन्म 30 मई, 1923, विवाह श्रीमती आर० नागम्मल से, 2 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 30-6-1980 से 29-6-1986।

स्थायी पता नंबर 107, न्यू जेल रोड, मदुरै (तमिलनाडु)।

\*रामचन्द्रन्, श्री एस० के० टी०: एम० ए० (गणित) तक अध्ययन किया, कांग्रेस (आई) (तमिलनाडु), श्री एस० के० तगा रतिनास्वामी नाडार के आत्मज, जन्म 23 मार्च, 1933, विवाह श्रीमती भुवनेश्वरी से, 3 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 25-7-1989 से अद्यपर्यन्त, महासचिव, तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस समिति, 1980।

स्थायी पता: मदतुर, डाकघर गनरामनल्लु, वाया किल्लापुलियुर, तेनकाशी तालुक (तमिलनाडु)।

रामचन्द्रन्, श्री जी० विश्वभारती, शान्ति निकेतन से स्नातक, (नाम-निर्देशित), श्री के० गोविन्द पिल्लै के आत्मज, जन्म 1905, विवाह डा० (श्रीमती) टी० एस० सुन्दरम रामचन्द्रन् से, सदस्य, केरल विधान मंडल, मंत्री, केरल सरकार, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1964 से 2-4-1970, गांधीजी, शिक्षा तथा ग्रामीण विकास से संबंधित पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता निदेशक, गांधीग्राम, डाकघर गांधीग्राम, जिला मदुरै (तमिलनाडु)।

रामनाथन्, श्री वी० वी० ए०, बी० एल०, अ० भा० अ० ड्र० मु० क० (II) (तमिलनाडु), श्री वैकटचलम् पिल्लै के आत्मज, जन्म 17 मार्च, 1933, विवाह श्रीमती रघा से, 3 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1984 से 2-4-1990।

स्थायी पता: 14, रामचन्द्रन् पार्ट एक्सटेंशन, वरिद्धा चलाम (तमिलनाडु)।

राममूर्ति, श्रीमती टी० नल्लामुत्तु: एम० ए०, एल० टी० (मद्रास), बी० एससी० (लदन), टी० डी० (लदन और कैम्ब्रिज), कांग्रेस (मद्रास, अब तमिलनाडु), श्री एस० नारायणास्वामी की आत्मजा, जन्म 15 जून, 1896, विवाह श्री टी० वी० राममूर्ति से, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1956 से 2-4-1962, दिवंगत। श्रद्धाजलि—13-11-1972।

\*वर्तमान सदस्य।

**राममूर्ति, श्री दिंडीवनम् के०:** बी० ए०, बी० एल०, (नाम-निर्देशित) कांग्रेस (आई), श्री एस० बी० कन्नय्या गौडर के आत्मज, जन्म 5 अप्रैल, 1934, विवाह श्रीमती सरोजिनी देवी से, 1 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) तमिलनाडु विधान सभा, 1967—71 और (2) तमिलनाडु विधान परिषद् 1976—84, विपक्ष के नेता, तमिलनाडु विधान परिषद्, 1981—84. सदस्य, राज्य सभा, 9-5-1984 से 8-5-1990, सचिव/महासचिव, तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस कमेटी, 1967—78।

**स्थायी पता:** ए० आई० लायड्स एस्टेट, रायापेट्टाह, मद्रास (तमिलनाडु)।

**राममूर्ति, श्री पी०:** बी० एससी०, भा० सा० द० (मार्क्सवादी) (तमिलनाडु), श्री पचपकेस शास्त्री के आत्मज, जन्म 20 सितम्बर, 1908, विवाह श्रीमती अम्बा राममूर्ति से, 2 पुत्रिया, सदस्य, मद्रास विधान सभा, 1952—57, विपक्ष के नेता, मद्रास विधान सभा, 1953—57, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1960 से 2-4-1966 और 25-7-1977 से 24-7-1983, अध्यक्ष, राज्य सभा की सरकारी आश्वासनों सवधी समिति, 1982-83, सचिव, तमिलनाडु कांग्रेस समाजवादी दल, 1935—40, दिवगत। श्रद्धाजलि—16-12-1987।

**राम सहाय, श्री० वकालत, वेद्य परीक्षा, कांग्रेस (ओ) (मध्य प्रदेश); श्री ललता प्रसाद के आत्मज, जन्म 1895, विवाह श्रीमती जगरानी से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1) सविधान सभा, 1947—50 और (2) राज्य सभा, 3-4-1956 से 2-4-1962, 3-4-1962 से 2-4-1968 और 3-4-1968 से 2-4-1974, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1961 और 1970-71, अध्यक्ष, मध्य भारत विधान सभा, 1948—52, महासचिव, मध्य भारत, प्रदेश कांग्रेस समिति, 1954-55, दिवगत। श्रद्धाजलि—13-5-1988।**

**राम सिंह, सरदार. स्वतन्त्र पार्टी (उत्तर प्रदेश), सरदार इन्द्र सिंह के आत्मज, जन्म 14 जनवरी, 1923, विवाह श्रीमती मनोरजन कौर से, 3 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1964 से 20-8-1969, दिवगत। श्रद्धाजलि—21-8-1969।**

**\*राम सेवक, चौधरी:** बी० ए०, एलएल० बी, कांग्रेस (आई) (उत्तर प्रदेश), श्री लोटन राम के आत्मज, जन्म 27 फरवरी, 1927, विवाह श्रीमती चम्पा देवी से, 2 पुत्र और 5 पुत्रिया, सदस्य, लोक सभा, 1962—67, 1967—70 और 1971—77, इस्पात, खान और धातु तथा विदेशी व्यापार, पूर्ति तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन विभागों में केन्द्रीय उपमन्त्री / राज्य मंत्री, 1967—71 और 1975—77, सदस्य, राज्य सभा, 5-7-1980 से 4-7-1986 और 5-7-1986 से अद्यपर्यन्त, अध्यक्ष, राज्य सभा की अधीनस्थ विधान सवधी समिति, 1988—90, उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, 1977-78, महासचिव, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (आई), 1980।

**स्थायी पता:** 2, चन्द्र नगर, उरई, जिला—जालौन (उत्तर प्रदेश)।

रामास्वामी, श्री के० एस० वी० ए०, बी० एल०, काग्रेस (तमिलनाडु), श्री के० के० सुब्बन्ना गौडर के आत्मज, जन्म 1922, विवाह श्रीमती शरतम्बल से, सदस्य, (1) लोक सभा, 1957—62 और (2) राज्य सभा, 3-4-1962 से 2-4-1968 और 3-4-1968 से 2-4-1974, गृह, शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में केन्द्रीय उपमन्त्री, 1967—72।

स्थायी पता: डाकघर कुगालर, गोवीचेट्टीपलयम्, कोयम्बटूर जिला (तमिलनाडु)।

रामास्वामी, श्री बी० बी०. (मद्रास वर्तमान तमिलनाडु), जन्म 1896, सदस्य, (1) मद्रास विधान सभा, 1952-53, (2) मद्रास विधान परिषद्, 1954—60 और (3) राज्य सभा, 20-3-1967 से 2-4-1968, दिवगत। श्रद्धाञ्जलि—1-3-1979।

रामेश्वर सिंह, श्री० लोक दल (उत्तर प्रदेश), श्री राम नन्द सिंह के आत्मज, जन्म 1930, विवाह श्रीमती नैना देवी से, 3 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1978 से 2-4-1984।

स्थायी पता बी०-9/45, फील खाना, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)।

रामेश्या, डा० के० एल० एजी० (मद्रास), एम० एससी०, डिप्ल० एग्री० (केंटव), डी० एससी०, (नाम-निर्देशित), श्री कृष्णास्वामी अय्यर के आत्मज, जन्म 15 अप्रैल, 1892, विवाह श्रीमती जानकी अम्मल से, 5 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1968 से 2-4-1974, (1) 1956 में पद्मश्री से और (2) 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित, चावल तथा सब्जि मालों से संबंधित पुस्तकों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाञ्जलि—3-8-1988।

राय, श्री कल्पनाथ. एम० ए० (अग्रेजी), एम० ए० (समाज शास्त्र), एलएल० बी०, काग्रेस (आई) (उत्तर प्रदेश), श्री अभय नारायण राय के आत्मज, जन्म 4 जनवरी, 1941, विवाह श्रीमती रामरति देवी से (दिवगत), 1 पुत्र और 4 पुत्रिया, पुनर्विवाह श्रीमती सुधा सिंह से, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1974 से 2-4-1980, 5-7-1980 से 4-7-1986 और 5-7-1986 से 27-11-1989, ससदीय कार्य, उद्योग तथा विद्युत विभागों में केन्द्रीय उपमन्त्री/राज्य मंत्री, जनवरी, 1982 से अक्टूबर, 1984 और जून, 1988 से नवम्बर, 1989, महामन्त्री, अखिल भारतीय काग्रेस समिति, 1980—82।

स्थायी पता डाकघर और ग्राम सेमरी, जमालपुर, आजमगढ़ जिला (उत्तर प्रदेश)।

राय, श्री कल्याण बी० ए० (आनर्स), एम० ए० (सिरेकूज विश्वविद्यालय, अमरीका), सी० पी० आई० (पश्चिमी बंगाल), श्री किरण शंकर राय के आत्मज, जन्म 27 दिसम्बर, 1929, विवाह डी० (श्रीमती) पुरवी मुखर्जी से, सदस्य, राज्य सभा, 10-7-1969 से 9-7-1975, 10-7-1975 से 9-7-1981 और 3-4-1982 से 31-1-1985 दिवगत। श्रद्धाञ्जलि—31-1-1985।

राय, श्री देव प्रसाद: वी० ए० (आनर्स) (राजनीति विज्ञान), कांग्रेस (आई) (पश्चिमी बंगाल); श्री अजीत कुमार राय के आत्मज, जन्म 4 फरवरी, 1949, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1984 से 2-4-1990।

स्थायी पता: फ्लैट नं० 4, ब्लाक ई, सी० आई० टी० योजना, XXXVR क्रिस्टाफर रोड, कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)।

राय, प्रो० (डा०) निहार रंजन: एम० ए० (कलकत्ता), डी० लिट्०, और फिल० (लेडेन), पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा (लंदन), एफ० एल० ए०, एफ० आर० ए० एस०, एफ० आर० एस० ए० (ग्रेट ब्रिटेन), एफ० ए० एस०, कांग्रेस (पश्चिमी बंगाल), श्री महेन्द्र चन्द्र राय के आत्मज, जन्म 14 जनवरी, 1904, विवाह श्रीमती मोनिका देवी से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-5-1957 से 2-4-1962 और 3-4-1962 से 1-6-1965, अंग्रेजी और बंगला में अनेक पुस्तकों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाञ्जलि—31-8-1981।

राय, श्री खीरेन: कांग्रेस (पश्चिमी बंगाल), श्री सौरिन राय के आत्मज, जन्म 28 अगस्त, 1910, विवाह श्रीमती मेघमाला देवी से, सदस्य, बंगाल विधान परिषद, 1943—48, बंगाल सरकार के संसदीय सचिव, 1944-45, सदस्य, (1) पश्चिमी बंगाल विधान सभा, 1952—57, (2) लोक सभा, 1957—59 और (3) राज्य सभा, 3-4-1960 से 2-4-1966 और 3-4-1966 से 2-4-1972, बंगला, हिन्दी, अंग्रेजी और जर्मन भाषा में पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता: 5, सौरिन राय रोड, बेहला, कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)।

राय, श्री मनोरजन: वी० एससी०, वी० एल०, भा० सा० द० (मा०) (पश्चिमी बंगाल), श्री अश्विनी कुमार राय के आत्मज, जन्म 1909, विवाह श्रीमती सावित्री राय से, 1 पुत्री, सदस्य, (1) पश्चिमी बंगाल विधान सभा और (2) राज्य सभा, 10-7-1969 से 9-7-1975।

स्थायी पता: 18, गरचा फर्स्ट लेन, कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)।

\*राय, श्री रत्न बहादुर: भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) (पश्चिमी बंगाल), श्री दल बहादुर राय के आत्मज, जन्म 6 मार्च, 1948, विवाह श्रीमती नीलम राय से, 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 23-3-1989 से 2-4-1990 और 3-4-1990 से अद्यपर्यन्त, नेपाली भाषा में कुछ पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता: रगमूक टी ऐस्टेट, चन्द्र मान घुग, डाकघर सोनदा, जिला दार्जिलिंग (पश्चिमी बंगाल)।

राय, श्री रवि: वी० ए० (आनर्स), एलएल० वी०, जनता पार्टी (उड़ीसा), श्री घनश्याम राय के आत्मज, जन्म 26 नवम्बर, 1926, विवाह डा० (श्रीमती) सरस्वती स्वेन से, सदस्य, (1) लोक सभा, 1967—71 और (2) राज्य सभा, 3-4-1974 से 2-4-1980, केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, 1979-80, महासचिव, (1) भारतीय समाजवादी पार्टी, 1960-61 और 1973 और (2) अखिल भारतीय जनता पार्टी, 1977—79, अध्यक्ष, लोक सभा, दिसम्बर, 1989 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता: कल्याणी नगर, कटक (उड़ीसा)।

राय, श्री राम प्रसन्नः वी० ए०, कांग्रेस (पश्चिमी बंगाल), श्री रामकिंकर राय के आत्मज, जन्म 20 जुलाई, 1918, विवाह श्रीमती मिनती राय से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1962 से 2-4-1968, दिवगत। श्रद्धाञ्जलि—22-4-1974।

राय, श्री सत्येन्द्र प्रसाद कांग्रेस (पश्चिमी बंगाल), श्री तारिणी प्रसाद राय के आत्मज, जन्म फरवरी, 1904, विवाह श्रीमती माया राय से, 7 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956, 3-4-1956 से 2-4-1962 और 5-8-1964 से 2-4-1970, दिवगत। श्रद्धाञ्जलि—6-11-1987।

रायका, श्री सागर एम० ए०, एलएल० वी०, कांग्रेस (आई) (गुजरात), श्री कल्याण भाई रायका के आत्मज, जन्म 9 नवम्बर, 1952, विवाह श्रीमती नीला रायका से, 2 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 27-1-1986 से 2-4-1988।

स्थायी पता: 238, सत्यग्रह लेन, नवर 12, सेट्टीलिव रोड, जोधपुर टेकोवा, अहमदाबाद (गुजरात)।

राय, श्री आर० सन्धा शिव० वी० एससी०, कांग्रेस (आई) (आंध्र प्रदेश), श्री वेंकट रंगा राव के आत्मज, जन्म 7 जून, 1943, विवाह श्रीमती लीला कुमारी से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1982 से 2-4-1988।

स्थायी पता: चौथी लाइन, लक्ष्मी पुरम, गुन्दूर (आंध्र प्रदेश)।

राय, डा० ए० सुब्बा एल० आई० एम०, साम्यवादी दल (केरल), डा० ए० कृष्णैया के आत्मज, जन्म 16 अक्टूबर, 1919, विवाह श्रीमती ए० काशाम्मा से, 5 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1958 से 2-4-1964।

स्थायी पता मजेश्वर, जिला कैन्नोर (केरल)।

राय, श्री एस० वी० कृष्णामूर्ति वी० एससी०, एलएल० वी०, कांग्रेस (मैसूर, अब कर्णाटक), श्री एस० वाडीराजा चार के आत्मज, जन्म 15 नवम्बर, 1902, विवाह श्रीमती श्यमला चाई से, 1 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) मैसूर प्रतिनिधि सभा, 1945—49 और (2) सविधान सभा, 1947—50, भारत की अत कालीन ससद में सभापति के पेनल में सदस्य, 1950—52, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956 और 3-4-1956 से 1-3-1962, उपसभापति, राज्य सभा, 31-5-1952 से 1-3-1962, अध्यक्ष, राज्य सभा की विशेषाधिकार समिति, 1958—62, कन्नड और अंग्रेजी में पुस्तको के लेखक, दिवगत। श्रद्धाञ्जलि—18-11-1968।

राय, श्री कटरगुडु श्रीनिवाम वी० कॉम०, निर्दलीय (आन्ध्र प्रदेश), श्री के० गंगैया के आत्मज, जन्म 16 दिसम्बर, 1916, विवाह श्रीमती के० वेकटलक्षम्मा से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1970 से 2-4-1976।

स्थायी पता सूर्यरावपेट, विजयवाडा (आन्ध्र प्रदेश)।

राव, डा० के० एल० नरसिम्हा: एल० एम० पी०, काग्रेस (आन्ध्र प्रदेश), श्री के० लिंगामूर्ति शास्त्री के आत्मज, जन्म 1899, विवाह श्रीमती वेंकटा रामन्ना से, 2 पुत्र और 4 पुत्रियां. सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1960 से 2-4-1965।

स्थायी पता: इन्नेस्पेटा, रजमुट्टरी (आन्ध्र प्रदेश)।

राव, श्री के० वी० आर० एस० वालासुब्बा: वी० ए०, काग्रेस (आई), श्री काम्मुला मणिकयाला राव के आत्मज, जन्म. 16 जुलाई, 1939, विवाह श्रीमती के० वी० लक्ष्मी से, 1 पुत्री, सदस्य, (1) आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद्, 1980-81 और (2) राज्य सभा, 20-3-1981 से 9-4-1984।

स्थायी पता: काम्मुलावारी स्ट्रीट, एलुरु, पश्चिम गोदावरी (आन्ध्र प्रदेश)।

राव, श्री कोटामराजु रामा: वी० ए०, काग्रेस (मद्रास, अब तमिलनाडु), श्री कोटामराजु नारायण राव के आत्मज, जन्म: 9 नवम्बर, 1896, विवाह श्रीमती सारसवेणी से, 4 पुत्र और 4 पुत्रियां, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954, दिवंगत। श्रद्धाजलि—10-3-1961।

\*राव, श्री गोपाल राव: मैट्रिक, तेलुगू देशम् (आन्ध्र प्रदेश), श्री राव सत्यनारायण स्वामी के आत्मज, जन्म 14 जनवरी, 1937, विवाह श्रीमती कमला कुमारी से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1) आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद्, 1984-85 और (2) राज्य सभा, 3-4-1986 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता: 12, लेडी माघवन रोड, महालिगापुरम्, मद्रास (तमिलनाडु)।

राव, श्री टी० भास्कर: वी० ए०, निर्दलीय (मद्रास, अब तमिलनाडु), श्री टी० कृष्णास्वामी नायडु के आत्मज, जन्म 10 मई, 1896, विवाह श्रीमती टी० नारासम्मा से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1960, दिवंगत। श्रद्धाजलि—21-7-1975।

राव, श्री नारला वेंकटेश्वर: वी० ए०, काग्रेस (आन्ध्र प्रदेश), श्री लक्ष्मणराव के आत्मज, जन्म 1 दिसम्बर, 1908, विवाह श्रीमती सुलोचना देवी से, 3 पुत्र तथा 5 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1958 से 2-4-1964 और 3-4-1964 से 2-4-1970, अग्नेजी और तेलुगू में पुस्तकों के लेखक, दिवंगत। श्रद्धाजलि—13-3-1985।

राव, श्री वी० एस० वेंकट: काग्रेस (हैदराबाद, अब आन्ध्र प्रदेश); श्री वी० सायन्ना के आत्मज, जन्म 11 दिसम्बर, 1898, विवाह श्रीमती नलिनी सावित्री देवी से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, मंत्री, हैदराबाद राज्य, 1947-48, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 4-11-1953; दिवंगत। श्रद्धाजलि—23-11-1953।

राव, श्री वी० रामकृष्णः बी० ए०, एलएल० बी०, डी० लिट्० (सम्मानार्थ), एलएल० डी० (सम्मानार्थ), कांग्रेस (आन्ध्र प्रदेश), श्री नरसिंह राव के आत्मज, जन्म 14 मार्च, 1899, विवाह श्रीमती अनन्तलक्ष्मी देवी से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, हैदराबाद राज्य विधान सभा, मंत्री और मुख्य मंत्री, पुराना हैदराबाद राज्य, 1950—56, सदस्य, राज्य सभा, 21-6-1962 से 2-4-1966, राज्यपाल, (1) केरल, 1956—60 और (2) उत्तर प्रदेश, 1960—62 दिवंगत। श्रद्धाजलि—20-11-1967।

राव, प्रो० वी० रामचन्द्राः डी० एससी० (सम्मानार्थ), एफ० एन० ए०, एफ० ए० एससी०, एफ० एन० ए० एससी०, कांग्रेस (आई) (आन्ध्र प्रदेश), श्री वी० सत्यनारायण के आत्मज, जन्म 21 नवम्बर, 1922, विवाह श्रीमती वी० सुशीला देवी से, 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1982 से 2-4-1988।

स्थायी पता: हरनिवास, री० वी० एम० कम्पाउड, विशाखापत्तनम (आन्ध्र प्रदेश)।

राव, श्री वी० शिवाः एम० ए०, कांग्रेस (मैसूर, अब कर्णाटक), डा० वी० रघुवेंद्र राव के आत्मज, जन्म 26 फरवरी, 1891, विवाह श्रीमती किट्टी वरसटेटिंग से, सदस्य, (1) सविधान सभा, (2) अन्त कालीन ससद, 1946—51, (3) लोक-सभा, 1952—57 और (4) राज्य सभा, 25-4-1957 से 2-4-1960, कुछ पुस्तकों के लेखक, दिवंगत। श्रद्धाजलि—5-1-1976।

\*राव, श्री मोतरू हनुमत्. इन्टरमीडिएट, भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) (आन्ध्र प्रदेश), श्री लक्ष्मीनारायण के आत्मज, जन्म 1917, विवाह श्रीमती उदयम से, 2 पुत्र, सदस्य, (1) भद्रास विधान सभा और आन्ध्र राज्य विधान सभा, 1952—55, (2) आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद, 1978—84 और (3) राज्य सभा, 3-4-1988 से अद्यपर्यन्त, सचिव, भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) की आन्ध्र प्रदेश राज्य समिति, 1964—82, कुछ पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता सम्पादक, प्रजाशक्ति दैनिक, विजयवाडा (आन्ध्र प्रदेश)।

राव, श्री चल्ला शशि भूषणः बी० ए०, एलएल० बी०, तेलुगू देशम् (आन्ध्र प्रदेश), श्री चल्ला सूर्यनारायण के आत्मज, जन्म 10 मार्च, 1929, विवाह श्रीमती वाई० दमयन्ती से, 2 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1984 से 9-4-1990।

स्थायी पता पार्वतीपुरम, जिला—विजयानगरम् (आन्ध्र प्रदेश)।

राव, श्रीमती रत्नाबाई श्रीनिवासः एम० ए०, कांग्रेस (आन्ध्र प्रदेश), श्री वी० कृष्ण राव के आत्मज, जन्म 8 जुलाई, 1915, विवाह श्री आर० श्रीनिवास राव से, 2 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1972 से 9-4-1978।

स्थायी पता द्वारा श्री आर० श्रीनिवास राव, 2-1-212, आफोसर्स रोड, चित्तूर (आन्ध्र प्रदेश)।



रेड्डी, श्री एन० श्रीरामः वी० एससी० (कृषि), कांग्रेस (मैसूर वर्तमान कर्नाटक), श्री रगे गौडा के आत्मज, जन्म 3 अगस्त, 1912, विवाह श्रीमती मिल्लम्मा से, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1960 से 2-4-1966 और 3-4-1966 से 2-4-1972।

स्थायी पता: 28, माधव नगर, वगलौर।

रेड्डी, श्री एम० गोविन्दा० एम० ए०, वी० टी०, एलएल० वी०, कांग्रेस (मैसूर वर्तमान कर्नाटक), श्री एम० सन्नप्पा रेड्डी के आत्मज जन्म. 10 अगस्त, 1907, अविवाहित, सदस्य, (1) मैसूर सविधान सभा, (2) मैसूर विधान सभा, 1947—49 और (3) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956, 3-4-1956 से 2-4-1962 और 3-4-1962 से 2-4-1968, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1957-58 और 1962—64, कन्नड भाषा में लघु कहानियों और नाटकों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—17-11-1980।

रेड्डी, डा० एम० चेन्नाः एम० वी० वी० एस०, कांग्रेस (आन्ध्र प्रदेश), श्री एम० लक्ष्मा रेड्डी के आत्मज, जन्म 13 जनवरी, 1919, विवाह श्रीमती एम० सावित्री देवी से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1) भारत की अन्त कालीन ससद, 1950-51, (2) हैदराबाद विधान सभा, 1951—56 और (3) आन्ध्र प्रदेश विधान सभा, 1956—62, 1962—67 और 1967 में चौथे आम चुनावों में फिर से निर्वाचित किये गये, हैदराबाद राज्य के मंत्री, 1952—56, आन्ध्र प्रदेश सरकार में मंत्री, 1962—67, सदस्य, राज्य सभा, 27-3-1967 से 2-4-1968 और 3-4-1968 से 26-11-1968, इस्पात, खान और खनिज मंत्रालयों में केंद्रीय मंत्री, 1967-68।

स्थायी पता: विजय विला, विजापुरी, लालगुडा, सिकन्दराबाद (आन्ध्र प्रदेश)।

रेड्डी, श्री एम० श्रीनिवासः विधि-स्नातक, कांग्रेस (आन्ध्र प्रदेश), श्री मोसाली अन्ना रेड्डी के आत्मज, जन्म 27 फरवरी 1927, विवाह श्रीमती सुजाताम्मा से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1968 से 2-4-1974।

स्थायी पता: 3-4-842, बरकतपुर, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)।

रेड्डी, श्री एम० चेन्ना० वी० ए०, एलएल० वी०, कांग्रेस (आन्ध्र प्रदेश), श्री शायी रेड्डी के आत्मज, जन्म 1919, विवाह श्रीमती रगनायकम्मा से, 2 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1958 और 3-4-1958 से 2-4-1964, महासचिव, हैदराबाद प्रदेश कांग्रेस समिति, 1954—56।

स्थायी पता: 3-4-872/1, बरकतपुर, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)।



रेड्डी, श्री जनार्दनः बी० ए०, बी० एड०, कांग्रेस (आन्ध्र प्रदेश), श्री सुब्बरामा रेड्डी के आत्मज, जन्म 20 फरवरी, 1934, विवाह श्रीमती राज्यलक्ष्मीनम्मा से, 4 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1972 से 9-4-1978।

स्थायी पता: वाकड, जिला नेल्लोर (आन्ध्र प्रदेश)।

\*रेड्डी, डा० जी० विजय मोहन. एम० बी० वी० एस०, डी० पी० एच०, डी० ई० पी० डी० (प्राग), तेलुगू देशम् (आन्ध्र प्रदेश), श्री वेकट सोमना के आत्मज, जन्म 6 अप्रैल, 1925, विवाह श्रीमती अनन्तम्मा से, 3 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1986 से अद्यपर्यन्त, 'ताम्रपत्र' से सम्मानित।

स्थायी पता: मकान नं० 64, मेहदी पटनम कालोनी, हैदराबाद-28 (आन्ध्र प्रदेश)।

रेड्डी, श्री जे० सी० नागी: कांग्रेस (ओ) (आन्ध्र प्रदेश), श्री जे० रगा रेड्डी के आत्मज, जन्म 1909, विवाह श्रीमती नाग लक्ष्मीनम्मा से, 2 पुत्र और 4 पुत्रिया, सदस्य, (1) आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद, 1958—60 और (2) राज्य सभा, 3-4-1960 से 16-9-1964 और 3-4-1966 से 2-4-1972।

स्थायी पता: ताडपत्री, अनन्तपुर जिला (आन्ध्र प्रदेश)।

\*रेड्डी, श्री टी० चन्द्रशेखर. इन्टरमीडिएट, कांग्रेस (आई) (आंध्र प्रदेश), श्री टी० वावू रेड्डी के आत्मज, जन्म 13 जुलाई, 1932, विवाह श्रीमती टी० उर्मिला रेड्डी से, 2 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 20-3-1981 से 9-4-1984, 10-4-1984 से 9-4-1990 और 10-4-1990 से अद्यपर्यन्त, अध्यक्ष, आवास समिति, राज्य सभा, 1984—86।

स्थायी पता 6-3-898, सोमाजी गुडा, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)।

रेड्डी, डा० नीलम सजीवः डी० लिट् (मानद), कांग्रेस (आन्ध्र प्रदेश), श्री चिन्नप्पा रेड्डी के आत्मज, जन्म 19 मई, 1913, विवाह श्रीमती नागरलम्मा से, 1 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) भेसूर विधान सभा, 1946 और (2) सविधान सभा, 1947, मंत्री, मद्रास-सरकार, 1949-51, उप मुख्य मंत्री, आन्ध्र प्रदेश, 1953, मुख्य मंत्री, आन्ध्र प्रदेश, 1956 और 1962—64, सदस्य, राज्य सभा 22-8-1952 से 15-9-1953, 20-11-1964 से 2-4-1966 और 3-4-1966 से 24-2-1967, इस्पात और खान तथा परिवहन और विमानन, नौवहन और पर्यटन मंत्रालयो में केन्द्रीय मंत्री, 1964-67, आन्ध्र प्रांतीय कांग्रेस के दस वर्षों तक सचिव, अध्यक्ष, आन्ध्र प्रदेश कांग्रेस समिति, 1951, सचिव, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1959—62, अध्यक्ष, लोक सभा, 1967—69 और 26 मार्च से 13 जुलाई, 1977, भारत के राष्ट्रपति, जुलाई, 1977 से जुलाई, 1982।

स्थायी पता: नागविहार, लक्ष्मी नगर, अनन्तपुर (आन्ध्र प्रदेश)।

**रेड्डी, श्री पी० बाबुल एम० ए०, एलएल० बी०, जनता पार्टी (आन्ध्र प्रदेश), श्री पिप्पी रेड्डी के आत्मज, जन्म 24 सितम्बर, 1922, विवाह श्रीमती पी० सरस्वताम्मा से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1982 से 2-4-1988, अध्यक्ष, जनता पार्टी, आन्ध्र प्रदेश।**

**स्थायी पता. बरकतपुर, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)।**

**रेड्डी, श्री बी० सत्यनारायणः बी० ए०, एलएल० बी०, तेलुगू देशम् (आन्ध्र प्रदेश), श्री बी० नरसिन्हा रेड्डी के आत्मज, जन्म 21 अगस्त, 1927, अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1978 से 9-4-1984 और 10-4-1984 से 11-2-1990, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1988-90, महामंत्री, (1) समाजवादी पार्टी और (2) जनता पार्टी, आन्ध्र प्रदेश, राष्ट्रीय मंत्री, लोक दल।**

**स्थायी पता: 4-3-338, बैंक स्ट्रीट, गुजराती विद्यामंदिर लेन, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)।**

**रेड्डी, डा० ब्रजवाडा गोपालः विश्वभारती शांति निकेतन के स्नातक, डी० लिट्० (मानद), कांग्रेस (आन्ध्र प्रदेश), श्री बी० पट्टाभि रामि रेड्डी के आत्मज, जन्म 5 अगस्त, 1907, विवाह श्रीमती बी० लक्ष्मी कान्तम्मा से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, मद्रास विधान सभा, 1937 और 1946, मद्रास सरकार में मंत्री, 1937 और 1947, सदन के नेता, 1948, सदस्य, आन्ध्र प्रदेश विधान सभा, मुख्य मंत्री, आन्ध्र प्रदेश, 1955-56, आन्ध्र प्रदेश सरकार में मंत्री, 1956—58, सदस्य, राज्य सभा, 18-8-1958 से 2-4-1960 और 3-4-1960 से 27-2-1962, आर्थिक कार्य विभाग में केन्द्रीय मंत्री, 1958, अध्यक्ष, आन्ध्र प्रदेश कांग्रेस समिति, 1953।**

**स्थायी पता. बुचिरेड्डी पलम, नेल्लूर जिला (आन्ध्र प्रदेश)।**

**रेड्डी, श्री मुल्क गोविन्दः बी० ए०, एलएल० बी, कांग्रेस (आई) (कर्नाटक), श्री मुल्क ओवन्ना के आत्मज, जन्म 1916, सदस्य, (1) मैसूर प्रतिनिधि सभा, 1945—49, (2) मैसूर विधान सभा, 1952—57 और (3) राज्य सभा, 3-4-1958 से 2-4-1964, 3-4-1964 से 2-4-1970, 3-4-1970 से 2-4-1976 और 3-4-1976 से 2-4-1982, अध्यक्ष, राज्य सभा की अधीनस्थ विधान सन्वन्धी समिति, 1976—78।**

**स्थायी पता. 1046-I, मेन रोड, IV ब्लॉक, राजाजी नगर, बंगलौर (कर्नाटक)।**

**रेड्डी, श्री चंरुल्लाः भारतीय साम्यवादी दल (आन्ध्र प्रदेश), श्री हनुमाया बडुम के आत्मज, जन्म 1908, विवाह श्रीमती कान्ता देवी से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1) लोक सभा, 1952-57, (2) आन्ध्र प्रदेश विधान सभा, 1958-62 और (3) राज्य सभा, 3-4-1964 से 2-4-1970, दिवगत। श्रद्धांजलि—19-2-1979।**

**रेड्डी, श्रीमती यशोदा बी० ए०, बी० एल०, कांग्रेस (संगठन) (आन्ध्र प्रदेश), श्री जी० नागी रेड्डी की आत्मजा, जन्म 5 अगस्त, 1925, विवाह श्री डी० रंगा रामानुजम से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1) लोक सभा, 1962-67 और (2) राज्य सभा, 3-4-1956 से 27-2-1962 और 23-3-1967 से 2-4-1972, दिवगत। श्रद्धांजलि—18-2-1983।**

रेड्डी, श्री सी० गोपाल कृष्णमूर्ति: मेरिन इंजीनियर, समाजवादी दल (मैसूर, अब कर्णाटक), श्री सी० एस० वी० रेड्डी के आत्मज, जन्म 12 जनवरी, 1921, विवाह श्रीमती विमला से, 2 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954; अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी, मैसूर राज्य।

स्थायी पता: चट्टमाची, चित्तूर जिला, मद्रास (तमिलनाडु)।

रेफाय, श्री ए० के०: वी० ए०, मुस्लिम लीग (तमिलनाडु), श्री एम० एन० अब्दुल रहमान साहिब के आत्मज, जन्म 18 जनवरी, 1924, विवाह श्रीमती अमीना बीवी से, 5 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1972 से 2-4-1978, तमिल भाषा में कई पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता: 2, सेकिण्ड स्ट्रीट, सेत कालोनी एमोर, मद्रास (तमिलनाडु)।

रोशन लाल, श्री: काग्रेस (आई) (हिमाचल प्रदेश), श्री गणेशू राम के आत्मज, जन्म 18 अप्रैल, 1910, विवाह श्रीमती श्रीपदी देवी से, 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) 'पेप्सू' विधान सभा और (2) पंजाब विधान सभा, उपमन्त्री, (1) 'पेप्सू'-सरकार, 1951-52 और (2) पंजाब सरकार, 1956-57, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1970 से 2-4-1976, 3-4-1976 से 2-4-1982 और 3-4-1982 से 2-4-1988।

स्थायी पता: डाकघर सनावर, शिमला हिस्स (हिमाचल प्रदेश)।

रोहतगी, डा० जवाहरलाल: एल० एस० एस० (नेद), एफ० सी० पी० एस०, काग्रेस (उत्तर प्रदेश), लाला प्यारेलाल के आत्मज, जन्म 16 फरवरी, 1887, विवाह श्रीमती स्वरूपवती से, 3 पुत्र और 4 पुत्रिया, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1936, 1940—42 और 1947—57, उन्नत प्रदेश सरकार में विभिन्न मंत्रालयों में उपमन्त्री और राज्य मंत्री, 1957—62, सदस्य, राज्य सभा, 19-4-1962 से 2-4-1964, दिवंगत। श्रद्धाजलि—25-3-1974।

रोहतगी, श्रीमती सुशीला: एम० ए० काग्रेस (आई) (उत्तर प्रदेश), पंडित कपिल देव मालवीय की आत्मजा, जन्म 21 अगस्त, 1921, विवाह श्री महेन्द्र रोहतगी से, 2 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1962—67 और (2) लोक सभा, 1967—77, वित्त, शिक्षा और सस्कृति, ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालयों में केन्द्रीय उपमन्त्री और राज्य मंत्री, 1971—77 और 1985-86, सदस्य, राज्य सभा, 28-1-1985 से 2-4-1988।

स्थायी पता: 16/78, सिविल लाइस, कानपुर (उत्तर प्रदेश)।

लड़यूवा, श्री प्रेमजी थोभनभाई: एलएल० बी०, काग्रेस (वर्द्ध, अब महाराष्ट्र), श्री थोभनभाई मिन्या लड़यूवा के आत्मज, जन्म 1 अगस्त, 1918, विवाह श्रीमती गंगावेन प्रेमजी लड़यूवा से, 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 7-8-1952 से 2-4-1954 और 3-4-1954 से 2-4-1960।

स्थायी पता: प्लॉट न० 230, कोलवाडा रेलवे स्टेशन के सामने, 2861-ए, सायन रोड, मुम्बई (महाराष्ट्र)।

लक्ष्मणन, श्री जी० ड० मु० क० (तमिलनाडु), श्री एन० गोविन्द स्वामी के आत्मज, जन्म 12 फरवरी, 1924, विवाह श्रीमती सुलोचना से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1974 से 8-1-1980, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1978-79।

स्थायी पता 40, मुरुगप्पा मुदाली स्ट्रीट, मद्रास (तमिलनाडु)।

लक्ष्मण सिंहजी बहादुर, महामहिम राधे-राधा महारावल सर· डूंगरपुर के जी० सी० आई० ई०, के० सी० एस० आई०, निर्दलीय (राजस्थान), महामहिम राधे-राधा महारावल सर विजय सिंहजी बहादुर, के० सी० आई० ई० के आत्मज, जन्म 7 मार्च, 1908, विवाहित, 3 पुत्र और 4 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1958।

स्थायी पता उदय विलास, डूंगरपुर (राजस्थान)।

लक्ष्मन्ना, प्रो० सी० एम० ए० (समाजशास्त्र), डी० पी० ए० (लोक प्रशासन), डी० एफ० ए० (कृतीति और विदेश कार्य), पीएच० डी० (समाजशास्त्र), तेलुगू देशम् (आंध्र प्रदेश); श्री मी० पपन्ना के आत्मज, जन्म 18 फरवरी, 1935, विवाह श्रीमती ममता लक्ष्मन्ना से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1984 से 9-4-1990, अंग्रेजी में पुस्तको और समाजशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र पर बहुत से लेखो के लेखक।

स्थायी पता 'मधुलिका', 9, न्यू फाउण्ड लैंड कालोनी, हव्शीगुडा, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)।

लक्ष्मी नारायण, श्री मैट्रिक, काग्रेस (आई) (दिल्ली), श्री हरि सिंह के आत्मज, जन्म 16 सितम्बर, 1927, विवाह श्रीमती कस्तुरी देवी से, 3 पुत्र तथा 5 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 21-11-1983 से 20-11-1989।

स्थायी पता. 402, बाग कडे खान, दिल्ली।

लाखनपाल, श्रीमती चन्द्रावती एम० ए०, बी० टी०, काग्रेस (उत्तर प्रदेश), पंडित जय नारायण शुक्ल की आत्मजा, जन्म 29 दिसम्बर, 1904, विवाह प्रो० सत्य व्रत से, 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956 और 3-4-1956 से 2-4-1962, कुछ पुस्तको की लेखिका, दिवंगत। श्रद्धाञ्जलि—31-3-1969।

लाखन सिंह, श्री० एम० ए०, एलएल० बी०, भा० ज० पा० (उत्तर प्रदेश), श्री शिव लाल के आत्मज, जन्म 12 मई, 1934, विवाह श्रीमती कान्ता से, 2 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1978 से 2-4-1984, उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश।

स्थायी पता रामपुर रोड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल (उत्तर प्रदेश)।

\*लाठर, श्री महेन्द्र सिंह: वी० एससी०, एलएल० वी, जनता दल (एस) (हरियाणा), श्री लाल सिंह लाठर के आत्मज, जन्म 15 दिसम्बर, 1932, विवाह श्रीमती चन्दर लाठर से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1) लोक सभा, 1978-79 और (2) राज्य सभा, 3-4-1988 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता रणधीर लेन, करनाल (हरियाणा)।

लाल, श्री कैलाश बिहारी वी० ए०, वी० एल०, कांग्रेस (बिहार), बाबू अवध बिहारी लाल के आत्मज, जन्म 20 सितंबर, 1895, विवाह श्रीमती राम किशोरी देवी से, 1 पुत्र और 4 पुत्रिया, सदस्य, (1) बिहार तथा उड़ीसा विधान परिषद्, 1927—30, (2) केन्द्रीय विधान सभा, 1935—45 और (3) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954 तथा 3-4-1954 से 19-3-1960, 'हिन्दू नेशन' के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—6-4-1960।

लाल, प्रोफेसर मुकुट बिहारी: एम० ए०, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (उत्तर प्रदेश), श्री माखन लाल के आत्मज, जन्म 24 मई, 1901, मदस्य, (1) उत्तर प्रदेश विधान परिषद्, 1952—54 और (2) राज्य सभा, 3-4-1960 से 2-4-1966, अध्यक्ष, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, उत्तर प्रदेश, 1957-58, दिवगत। श्रद्धाजलि—24-3-1981।

लालबुअडिया, श्री कांग्रेस (मिजोरम), श्री कफनना के आत्मज, जन्म 1919, विवाह श्रीमती रुअलथनचिग से, 3 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) असम विधान सभा, 1952—57, 1962—67 और 1970—72 और (2) राज्य सभा, 17-7-1972 से 16-7-1978।

स्थायी पता. थाकथिग बाजार, ऐजल (मिजोरम)।

लाल साविया, श्री इन्टरमीडिएट आर्ट्स, कांग्रेस (आई) (मिजोरम), स्वर्गीय श्री होएडाला के आत्मज, जन्म 3 नवम्बर, 1919, विवाह श्रीमती रोथुआमी से, 1 पुत्र और 5 पुत्रिया, मदस्य, राज्य सभा, 17-7-1978 से 16-7-1984।

स्थायी पता: जरकातवेग, ऐजल (मिजोरम)।

लावजी लाखमशी, श्री: वी० ए०, एलएल० वी०, कांग्रेस (बम्बई, वर्तमान महाराष्ट्र); श्री लाखमशी देवकरण ठाकर के आत्मज, जन्म 10 अक्टूबर, 1910, विवाह श्रीमती माणिक से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 24-9-1952 से 2-4-1954 और 3-4-1954 से 2-4-1960, दिवगत। श्रद्धाजलि—31-7-1972।

लाहने, श्री मोतीराम उदयभानजी जनता पार्टी (महाराष्ट्र), सदस्य, राज्य सभा, 14-12-1978 से 2-4-1980, [अन्य विवरण उपलब्ध नहीं है।]

स्थायी पता अलासी प्लॉट, अकोला (महाराष्ट्र)।

लाहोती, श्री पूर्णमल एस० कांग्रेस (हैदराबाद, अब आंध्र प्रदेश), श्री सूरजमल डी० लाहोती के आत्मज, विवाह श्रीमती कस्तोर बाई से, 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 11-2-1954, दिवंगत। श्रद्धाजलि—15-2-1954।

लिगम, श्री एन० एम० बी० ए०, कांग्रेस (मद्रास, वर्तमान तमिलनाडु), श्री एन० के० माधा गौदर के आत्मज, जन्म 28 फरवरी, 1912, विवाह श्रीमती चित्रामल से, 3 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) लोक सभा, 1952—57 और (2) राज्य सभा, 3-4-1958 से 2-4-1964, दिवंगत। श्रद्धाजलि—12-12-1972।

लिमये, श्री श्रीपद कृष्ण बी० ए०, लाल निशान ऑर्गेनाइजेशन (महाराष्ट्र), श्री कृष्ण गोविन्द लिमये के आत्मज, जन्म 8 दिसम्बर, 1909, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1960 से 2-4-1966।

स्थायी पता. 11/ए, हाजी मूसा पत्रवालिया टेरस, क्लब बेंक रोड, भायखला, मुम्बई (महाराष्ट्र)।

लीला देन्नी, श्रीमती भूषण (हिन्दी), मैट्रिक, कांग्रेस (हिमाचल प्रदेश), श्री जवाहर लाल की आत्मजा, जन्म 21 मार्च, 1919, विवाह श्री सोहन लाल से, 3 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-12-1956 से 2-4-1962।

स्थायी पता गणपति रोड, मडी (हिमाचल प्रदेश)।

\*लेन्का, श्री काहनू चरण० एम० ए० (राजनीतिशास्त्र) एलएल० बी०, कांग्रेस (आई) (उड़ीसा), श्री लक्ष्मण लेन्का के आत्मज, जन्म 2 मार्च, 1939, विवाह श्रीमती विजया लक्ष्मी लेन्का से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, उड़ीसा विधान सभा, 1971—73, 1974—77 और 1980, उड़ीसा सरकार में मंत्री, 1974—76, 1976—77 और 1980—81, सदस्य, राज्य सभा 3-4-1988 से अध्यक्ष, महासचिव, उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस समिति, 1971—74 और 1977—80, अध्यक्ष, उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस (आई) समिति, 1988।

स्थायी पता 240/1110, एयरोड्रोम एरिया, यूनिट-I, भुवनेश्वर (उड़ीसा)।

लेपचा, श्री सगडोपाल नवी कक्षा तक अध्ययन किया, सी० पी० आई० (मार्क्सवादी) (पश्चिम बंगाल), श्री पासग लेपचा के आत्मज, जन्म 6 मई, 1936, विवाह श्रीमती जैसरी तामग से, 2 पुत्र और 5 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 11-3-1980 से 2-4-1984।

स्थायी पता सिगतोम टी एस्टेट, डाकघर नार्थ प्वाइंट, जिला दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल)।



\* लेजर, श्री डेविड. वी० ए० (आनर्स), एलएल० वी०, असम गण परिषद् (असम), श्री डेनिस लैजर के आत्मज, जन्म 10 जनवरी, 1951, विवाह श्रीमती मेरी रत्ना लेजर से, 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 15-6-1989 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता - डाकघर वारपेटा रोड, जिला वारपेटा (असम)।

लोकेश चन्द्र, डा० एम० ए०, डी० लिट्०, (नाम-निर्देशित) कांग्रेस (आई), डा० रघुवीर के आत्मज, जन्म 11 अप्रैल, 1927, विवाह डा० (श्रीमती) शाखा रानी से, 2 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1974 से 2-4-1980 और 3-4-1980 से 2-4-1986, अनेक पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता - जे-22, हाँज खास एन्कलेव, नई दिल्ली।

\* लोथा, श्री ख्योमो. वी० ए०, कांग्रेस (आई) (नागालैंड); श्री रोमोमो लोथा के आत्मज, जन्म 2 मई, 1940, विवाह श्रीमती खीने लोथा से, 3 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1974 से 2-4-1980 आर 8-6-1989 से अद्यपर्यन्त, महामंत्री, नागालैंड नेशनलिस्ट आर्गेनाइजेशन, 1967—69, अध्यक्ष, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, 1975-76, उपाध्यक्ष/अध्यक्ष, नागालैंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी (आई), 1980—89।

स्थायी पता. काँटज 'मराथा' नागा बाजार, कोहिमा (नागालैंड)।

लोहानी, श्री आई० टी० काग्रेम (गुजरात), लेफ्टिनेट कर्नल, पालनपुर के महाराज नवाब सर ताले मोहम्मद खान क आत्मज, जन्म 8 जून, 1917, विवाह पालनपुर की महारानी मकबूल जहाँ बेगम से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 13-8-1960 से 2-4-1964।

स्थायी पता पलेस, पालनपुर (गुजरात)।

वज्र, श्री सिकन्दर अली. वी० ए०, कांग्रेस (महाराष्ट्र), सेयद अब्दुल गफूर के आत्मज, जन्म 12 फरवरी, 1913, विवाह श्रीमती जुवेदा खानुम से, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1972 से 2-4-1978, पद्मश्री से सम्मानित, उर्दू में गैरो-शाायरी की पुस्तकों के लेखक, दिवंगत। श्रद्धाजलि—25-7-1983।

वडुतला, श्री टी० के० सी० प्राचीन भाषाओं में स्नातक, प्रबोध (हिन्दी), कांग्रेस (आई) (केरल), श्री कन्दन के आत्मज, जन्म 23 दिसम्बर, 1921, विवाह श्रीमती जानकी वडुतल से, 3 पुत्र आर 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1986 से 1-7-1988, अनेक उपन्यासों, लघु कथाओं, निबंधों और जीवनियों के लेखक, दिवंगत। श्रद्धाजलि—27-7-1988।

घरदराज, श्री जी० अश्विन भागवत अत्रा ट्रेडिड मुन्नेर क्यमम (तमिलनाडु), श्री पी० एम० मो० शर्मा नायडू के आत्मज, जन्म 1 नवम्बर, 1936, विवाह श्रीमती श्रीवल्ल्मी से, 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा 25-7-1983 से 24-7-1989, दिवंगत। श्रद्धाजलि—27-12-1993।

वरियावा, डा० दारा होरमसजी • एफ० सी० पी० एस०, एम० बी० बी० एस०, काग्रेस (वम्बई, वर्तमान महाराष्ट्र), श्री होरमसजी फरदूनजी वरियावा के आत्मज, जन्म 5 जुलाई, 1897, विवाह श्रीमती पीलू नवरोजी कल्याणवाला से, 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954 और 3-4-1954 से 2-4-1960, दिवगत। श्रद्धाजलि—25-8-1961।

वरेरकर, श्री भार्गवराम विठ्ठल मामा (नाम-निर्देशित), श्री विठ्ठल चालकृष्ण वरेरकर के आत्मज, जन्म 27 अप्रैल, 1883, विवाह श्रीमती शाता बाई से, 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1956 से 2-4-1962 और 3-4-1962 से 23-9-1964, 1959 से पद्म भूषण से सम्मानित, मराठी में नाटको, उपन्यासो, लघु कहानियो आदि की अनेक पुस्तको के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—24-9-1964।

वर्मा, प्रो० एलेग्जेडर एम० ए०, बी० एल०, निर्दलीय (मेघालय), स्वर्गीय यू० रोम सिंग वालार पिह के आत्मज, जन्म 26 मार्च, 1929, विवाह प्रो० (श्रीमती) जूडिथ खार्शिंग से, 3 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, मेघालय विधान सभा, 1972—78, अध्यक्ष, (1) याचिका समिति, 1972—74 और (2) अधीनस्थ विधान सवधी समिति, 1975-76, मेघालय विधान सभा, सदस्य, राज्य सभा, 13-4-1978 से 12-4-1984, महामंत्री/उपाध्यक्ष, स्वतन्त्र पार्टी (असम), 1959—71।

स्थायी पता माल्की, शिलांग-1 (मेघालय)।

\*वर्मा, श्री अशोक नाथ बी० ए०, एलएल० बी०, जनता दल (एस) (उत्तर प्रदेश), आचार्य नरेन्द्र देव के आत्मज, जन्म 21 अक्तूबर, 1921, विवाह श्रीमती शकुन्तला वर्मा से, 4 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 5-7-1986 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता कोठी बलदेव निवास, आचार्य नरेन्द्र देव रोड, फेजाबाद (उत्तर प्रदेश)।

\*वर्मा, श्री कपिल बी० ए०, काग्रेस (आई) (उत्तर प्रदेश), श्री दीप नारायण वर्मा के आत्मज, जन्म 21 मार्च, 1928, विवाह श्रीमती मिसला मिश्र से, सदस्य, राज्य सभा, 24-1-1985 से 4-7-1986 और 5-7-1986 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता 1, मोरा बाई मार्ग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।

वर्मा, श्री केशो प्रसाद (मध्य प्रदेश), सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1960 से 22-12-1960। [अन्य विवरण उपलब्ध नहीं है]

स्थायी पता फफादोह बाई, रायपुर (मध्य प्रदेश)।

वर्मा, श्रीमती नारायणी देवी काग्रेस (राजस्थान), श्री राम सहाय भटनागर की आत्मजा, जन्म 1902, विवाह श्री माणिक्य लाल वर्मा से, 1 पुत्र और 5 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1970 से 2-4-1976, दिवगत। श्रद्धाजलि—28-3-1977।

वर्मा, श्री निरजन बी० ए०, एलएल० बी०, जनसघ (मध्य प्रदेश), श्री शकरलाल वर्मा के आत्मज, जन्म अक्टूबर, 1914, विवाह श्रीमती चन्द्र कला देवी से, 3 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, मध्य भारत/मध्य प्रदेश विधान सभा, 1952—57, विपक्ष के नेता, मध्य प्रदेश विधान सभा, 1957 तक, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1966 से 2-4-1972, उपाध्यक्ष, जनसघ मध्य प्रदेश।

स्थायी पता . एडवोकेट, विदिशा (मध्य प्रदेश)।

वर्मा, श्री बी० बी० : बार-एंट-लॉ, काग्रेस (बिहार), श्री अदेय प्रसाद वर्मा के आत्मज, जन्म 26 फरवरी, 1892, विवाहित, 3 पुत्रियाँ, सदस्य, (1) केन्द्रीय विधान सभा, 1934—39 और 1946-47, (2) अत कालीन ससद, 1950—52, (3) लोक सभा, 1952—57 और 1957—61 और (4) राज्य सभा, 3-4-1962 से 2-4-1968, महासचिव, बिहार प्रदेश काग्रेस समिति, 1937—39, दिवगत। श्रद्धाजलि—30-4-1974।

वर्मा, श्री भगवती चरण : बी० ए०, एलएल० बी०, (नाम-निर्देशित), श्री देवी चरण के आत्मज, जन्म 30 अगस्त, 1903, विवाह श्रीमती नन्दिता वर्मा से, 4 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 14-4-1978 से 5-10-1981, अनेक उपन्यासों, नाटकों, कविताओं आदि के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—23-11-1981।

वर्मा, श्री महादेव प्रसाद . एम० ए०, बी० टी०, जनता पार्टी (उत्तर प्रदेश), चौधरी रावपाल के आत्मज, जन्म 10 मई, 1906, विवाह श्रीमती सुन्दरी देवी से, 3 पुत्र, सदस्य, (1) उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1962-67 और (2) राज्य सभा, 3-4-1974 से 2-4-1980, कार्यवाहक अध्यक्ष, भारतीय क्रान्ति दल, उत्तर प्रदेश, हिन्दी में "हमारा सन्देश" नामक पुस्तक के लेखक।

स्थायी पता . देव निवास, कटरा गोसाईगंज, जिला फैजाबाद (उत्तर प्रदेश)।

वर्मा, श्री मान सिंह : बी० ए०, साहित्य रत्न, टी० डिप्लोमा, जनसघ (उत्तर प्रदेश), श्री डाल चन्द साध के आत्मज, जन्म 10 फरवरी, 1912, विवाह श्रीमती सावित्री देवी वर्मा से, 5 पुत्र और 2 पुत्रिया, मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, 1967-68, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1968 से 2-4-1974, मयुक्त सचिव/सचिव/उपाध्यक्ष, जनसघ उत्तर प्रदेश, 1952—56 और 1972-73।

स्थायी पता . प्रेम निवास, एफ/3, जवाहर क्वार्टर, सिविल लाइन्स, मेरठ (उत्तर प्रदेश)।

\*वर्मा, श्रीमती वीणा एम० ए० (समाज शास्त्र), कांग्रेस (आई) (मध्य प्रदेश), श्री पी० एन० रघुजादा की आत्मजा, जन्म 1 सितम्बर, 1941, विवाह श्री श्रीकांत वर्मा से, 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 26-6-1986 से 2-4-1988 और 3-4-1988 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता तिलक नगर, विलासपुर (मध्य प्रदेश)।

वर्मा, श्री वीरेन्द्र वी० ए०, एलएल० वी०, जनता दल (उत्तर प्रदेश), चौ० रघुवीर सिंह के आत्मज, जन्म 18 सितम्बर, 1916, विवाह श्रीमती रामेश्वरी देवी से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1952—62, 1967-68 और 1969—77, मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, 1959-60, 1970-71 और 1975—77, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1984 से 2-4-1990 और 3-4-1990 से 14-6-1990।

स्थायी पता : डाकघर शामली, जिला मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश)।

वर्मा, श्री श्रीकांत एम० ए० (हिन्दी साहित्य), कांग्रेस (आई) (मध्य प्रदेश), श्री राज किशोर वर्मा के आत्मज, जन्म 18 सितम्बर, 1931, विवाह श्रीमती वीणा वर्मा से, 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1976 से 2-4-1982 और 3-4-1982 से 25-5-1986, लघु कथाओं, कविताओं, उपन्यासों आदि अनेक पुस्तकों के लेखक, दिवंगत। श्रद्धाजलि—17-7-1986।

वर्मा, श्री सी० एल० कांग्रेस (हिमाचल प्रदेश), ठाकुर हरिदास के आत्मज, जन्म 1910, विवाह श्रीमती सालो देवी से, 4 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1958 और 3-4-1964 से 2-4-1970, दिवंगत। श्रद्धाजलि—19-2-1973।

वलीउल्लाह, श्री मोहम्मद वी० ए०, एलएल० वी०, कांग्रेस (मैसूर, अब कर्णाटक), मोहम्मद इब्राहीम साहेब के आत्मज, जन्म 1899, विवाह श्रीमती हजेबुन्निसा बेगम से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) मैसूर सविधान सभा, 1948—50, (2) मैसूर विधान सभा, 1950—52 और (3) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1958 और 3-4-1958 से 17-12-1960, दिवंगत। श्रद्धाजलि—19-12-1960।

वलीउल्लाह, श्री रऊफ एम० ए०, साहित्य सुधाकर, कांग्रेस (आई) (गुजरात), मोहम्मद भाई के आत्मज, जन्म 14 जनवरी, 1945, विवाह श्रीमती विजया से, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1984 से 9-4-1990।

स्थायी पता 1196, कडौदा पोल, पचपति, कालूपुर, अहमदाबाद (गुजरात)।

वल्लभराव, श्री जयन्ती बेकटचेला कामेश्वर एम० ए०, साम्यवादी दल (आन्ध्र प्रदेश), श्री जगन्नाथराव के आत्मज, जन्म 9 दिसम्बर, 1919, विवाह डा० जे० वी० लक्ष्मी से, 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1954 से 2-4-1960।

स्थायी पता . श्रोफ़ खाना स्ट्रीट, विजयनगरम् (आन्ध्र प्रदेश)।

वशिष्ठ, कुमारी शान्ता . एम० ए०, एलएल० बी०, एम० ए० (सामाजिक कार्य) (शिकागो), कांग्रेस (ओ) (दिल्ली), श्री लक्ष्मी दत्त वशिष्ठ की आत्मजा, जन्म 20 जून, 1924, सदस्य, दिल्ली राज्य विधान सभा, 1952—56, दिल्ली राज्य के मुख्य मंत्री की ससदीय सचिव, 1952-53, उप मंत्री, दिल्ली राज्य, 1953-54, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1960 से 2-4-1966 और 3-4-1966 से 2-4-1972।

स्थायी पता बी-125, सर्वोदय एन्वलेव, नई दिल्ली।

वसावडा, श्री शाम प्रसाद रूपशंकर : बी० ए०, (आनर्स), एम० ए०, कांग्रेस (ओ) (गुजरात), श्री रूपशंकर वसावडा के आत्मज, जन्म 26 फरवरी, 1903, विवाह श्रीमती अनसूया वेन एस० वसावडा से, 4 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) बम्बई विधान सभा, 1946—57 और (2) राज्य सभा, 30-8-1968 से 2-4-1970 और 3-4-1970 से 20-11-1972, 'पद्म भूषण' से सम्मानित, दिवगत। श्रद्धाजलि—21-11-1972।

वाघेला, श्री शंकर सिंह : एम० ए० (अर्थशास्त्र), राष्ट्र भाषा हिन्दी परिचय, भारतीय जनता पार्टी (गुजरात), श्री लक्ष्मण सिंह वाघेला के आत्मज, जन्म 21 जुलाई, 1940, विवाह श्रीमती गुलाब कुवरवा से, 3 पुत्र, सदस्य, (1) लोक सभा, 1977—79 और (2) राज्य सभा, 10-4-1984 से 27-11-1989, महासचिव, (1) जनसघ, गुजरात, 1971—77 और (2) भारतीय जनता पार्टी, गुजरात, 1980।

स्थायी पता . 23, विट्ठल पार्क सोसाइटी, मेहसाणा (गुजरात)।

\*वाजपेयी, श्री अटल बिहारी : एम० ए०, भारतीय जनता पार्टी (मध्य प्रदेश), प० कृष्ण विहारी वाजपेयी के आत्मज, जन्म 25 दिसम्बर, 1926, अविवाहित, सदस्य, लोक सभा, 1957—62 और 1967—84, अध्यक्ष, लोक लेखा समिति, लोक सभा, 1969—70, केन्द्रीय विदेश मंत्री, 1977—79, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1962 से 25-2-1967 और 30-6-1986 से अद्यपर्यन्त, अध्यक्ष, (1) सरकारी आश्वासनो सवधी समिति, राज्य सभा, 1966-67 और (2) याचिका समिति, राज्य सभा, 1990 से अद्यपर्यन्त, भाषणों और कविताओं के सकलन सवधी पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता . शिंदे की छावनी, ग्वालियर (मध्य प्रदेश)।

वाडिया, प्रो० अर्देशिर रत्नजी . बी० ए० (वर्क और कैंटव), वार-एट-लॉ, (नाम-निर्देशित), श्री रत्नजी वाडिया के आत्मज, जन्म 4 जून, 1888, विवाह श्रीमती तहमीना होमजी पोस्तवाला से, 2 पुत्र, सदस्य, (1) मैसूर विधान परिषद, 1930-31 और 1942-43 और (2) राज्य सभा, 3-4-1954 से 2-4-1960 और 3-4-1960 से 2-4-1966, 1961 में 'पद्म भूषण' से सम्मानित, अनेक पुस्तकों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—15-11-1971।

चासन, श्री एस० एस० कांग्रेस (मद्रास, अब तमिलनाडु), श्री एन० सुब्रह्मण्य अय्यर के आत्मज, जन्म 10 मार्च, 1903, विवाह श्रीमती पट्टम्माल से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1964 से 28-8-1969, दिवंगत। श्रद्धाजलि—28-8-1969।

विकल, श्री रामचन्द्र इटरमीडिएट (हिन्दी में विशेष योग्यता), विद्यावाचस्पति (डी० लिट्) (मानद), कांग्रेस (आई) (उत्तर प्रदेश), चौधरी पतगम सिंह के आत्मज, जन्म 8 नवम्बर, 1916, विवाह श्रीमती हस कुमारी से, 5 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1952—71, उत्तर प्रदेश विधान सभा में विपक्ष के नेता, 1967, उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्षों की तालिका में सदस्य, 1969-70, मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, 1969-70, अध्यक्ष, आंध्रसदन समिति, उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1970-71, सदस्य, (1) पाचवीं लोक सभा और (2) राज्य सभा, 3-4-1984 से 2-4-1990।

स्थायी पता के० बी० 41, कवि नगर, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)।

विजय भूषण देवशरण, श्री . सीनियर कैम्ब्रिज, निर्दलीय (मध्य प्रदेश), राजा देव शरण सिंह के आत्मज, जन्म 11 जनवरी, 1926, विवाह श्रीमती जया कुमारी देवी से, 2 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य (1) मध्य प्रदेश विधान सभा, 1952-62, (2) लोक सभा, 1962-67 और (3) राज्य सभा, 3-4-1970 से 2-4-1976, दिवंगत। श्रद्धाजलि—4-10-1982।

विजयवर्गीय, श्री गोपीकृष्ण कांग्रेस (मध्य प्रदेश), श्री बालमुकुन्द विजयवर्गीय के आत्मज, जन्म जनवरी, 1905, विवाह श्रीमती रामेश्वरी देवी से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) मन्त्रिपरिषद् सभा, 1947—50 और (2) खालियर विधान मंडल, 1948, वाणिज्य मंत्री, खालियर राज्य, 1948, सदस्य, पूर्व काल में मध्य भारत विधान मंडल, 1948—50, मध्य भारत के मुख्य मंत्री, 1949-50, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1954 से 2-4-1960 और 3-4-1960 से 2-4-1966, अध्यक्ष, (1) खालियर राज्य कांग्रेस, 1938 और 1941—43 और (2) मध्य भारत प्रदेश कांग्रेस समिति, 1949 और 1951-52, दिवंगत। श्रद्धाजलि—19-3-1984।

विजय सिंह, श्री बी० ए०, एलएल० बी०, कांग्रेस (राजस्थान), ठाकुर खागर सिंहजी के आत्मज, जन्म 1919, विवाह श्रीमती उष्य कुमारी शेखावत से, 3 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1954 से 2-4-1960 और 3-4-1960 से 13-5-1964, दिवंगत। श्रद्धाजलि—27-5-1964।

विजया राजे, कुँवरनी . जनता पार्टी (बिहार), महामहिम कर्नल महाराजा सर उदयजी राव पौर की आत्मजा, जन्म 16 सितम्बर, 1919, विवाह लेफ्टिनेंट डा० राजकुमार वसन्त नारायण सिंह से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 20-3-1957।

स्थायी पता . राज बगला, डाकघर और जिला हजारीबाग (बिहार)।

\*विदुतलै विरुम्मी, श्री एस० वी० ए०, द्रविड मुनेत्र कपगम (तमिलनाडु), श्री शकरन् पिल्ले के आत्मज, जन्म 22 फरवरी, 1939, विवाह श्रीमती एस० वी० नित्यकल्याणी से, सदस्य, राज्य सभा, 15-3-1989 से 24-7-1989 और 25-7-1989 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता : 1/57, तमिलनाडु हाउसिंग यूनिट, थॉमस पार्क, रेस कॉर्म रोड, कोयम्बटूर (तमिलनाडु)।

\*विनसेट, श्री एम० वी० ए०, वी० एल०, सी० एस० डव्ल्यू० (सयुक्त राज्य अमरीका), अखिल भारतीय अन्ना दर० मु० क० (तमिलनाडु), श्री जी० माइकल के आत्मज, जन्म 5 अप्रैल, 1949, विवाह श्रीमती सरोज विनसेट से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, तमिलनाडु विधान सभा, 1977—84, तमिलनाडु सरकार में वित्त मंत्री के ससदीय सचिव, 1978—80, सदस्य, राज्य सभा, 30-6-1986 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता . क० पी० रोड, नगरकोइल, जिला कन्याकुमारी (तमिलनाडु)।

विल्ललन, श्री तिल्लई. एम० ए०, वी० एल०, ड्र० मु० क० (तमिलनाडु), श्री रामकृष्णन् के आत्मज, जन्म 4 अप्रैल, 1928, विवाह श्रीमती दयानिधि विल्ललन से, 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1968 से 2-4-1974, तमिल और अग्रेजी भाषा में अनेक उपन्यासों के लेखक।

स्थायी पता मीनाक्षी इल्लम, 134, बाजार स्ट्रीट, चिदम्बरम् (तमिलनाडु)।

वित्सन, श्री तरगट्टरी जॉन मोजेज़ : वी० ए०, एलएल० वी०, कांग्रेस (आन्ध्र प्रदेश), श्री तरगट्टरी मोजेज़ के आत्मज, जन्म 20 मार्च, 1922, विवाह श्रीमती इदिरा से, 3 पुत्र, सदस्य, (1) मविधान सभा, 1946—50, (2) मद्रास विधान सभा, 1946—52, (3) मद्रास विधान परिषद, 1952-53 और (4) राज्य सभा, 7-7-1955 से 2-4-1958।

स्थायी पता : गन बगला, गुट्टर (आन्ध्र प्रदेश)।

विश्वाम, श्री चारु चन्द्र . एम० ए०, एलएल० वी०, कांग्रेस (पश्चिमी बंगाल), श्री आशुतोष विश्वाम के आत्मज, जन्म 21 अप्रैल, 1888, विवाह श्रीमती सुहासिनी विश्वाम से, 6 पुत्रिया, सदस्य, (1) केन्द्रीय विधान सभा, 1930—37 और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954 और 3-4-1954 से 2-4-1960, केन्द्रीय विदेश राज्य मंत्री, 1950 से मई 1952 और केन्द्रीय मंत्री, विधि और अल्पमध्यक कार्य, मई 1952 से अप्रैल 1957, सदन के नेता, राज्य सभा, फरवरी, 1953 से नवम्बर, 1954, अध्यक्ष, राज्य सभा की विशेषाधिकार समिति, 1953—57, दिवंगत। श्रद्धाजलि—12-12-1960।

विश्वामराय, श्री राधाकृष्ण : कांग्रेस (उड़ीसा), विवाहित, 2 पुत्र, ससदीय सचिव, उड़ीसा सरकार, 1937, मंत्री, लोको निर्माण विभाग और जनजातीय विकास, उड़ीसा सरकार, 1946—48, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 1-4-1957।

स्थायी पता : गाव नुआपुट, डाङ्गर जयपुर, जिला कोयपुट (उड़ीसा)।

\*वीरप्पन, श्री के० के० . वी० ए०, वी० एल०, ड० मु० क० (तमिलनाडु), श्री करुप्पानन के आत्मज, जन्म 12 अगस्त, 1945, विवाह श्रीमती शिवाकामी वीरप्पन से, 2 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1990 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता 32, करुप्पानन स्ट्रीट, एस० पी० पुडुर नमकल, जिला सेलम (तमिलनाडु)।

वेकटरासयण, श्री पिदाह : राष्ट्र भाषा परीक्षा उत्तीर्ण की, प्र० सो० पा० (आंध्र प्रदेश), श्री चलमय्या के आत्मज, जन्म 17 सितम्बर, 1907, विवाह श्रीमती सुशीला राघवरत्नम्मा से, सदस्य, (1) मद्रास विधान सभा, 1946—52 और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1958।

स्थायी पता . "सनशाइन" जवाहर स्ट्रीट, काकिनाडा (आंध्र प्रदेश)।

वेकटप्पा, श्री जे० . वी० एससी०, प्र० सो० पा० (मैसूर, अब कर्णाटक); श्री जे० नरनप्पा के आत्मज, जन्म 15 मई, 1928, विवाह श्रीमती चौडम्मा से, 3 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) मैसूर विधान सभा, 1957—62 और (2) राज्य सभा, 3-4-1962 से 2-4-1968।

स्थायी पता . सिदलाघट्टा टाउन, कोलार जिला (कर्णाटक)।

वेंकटरामन, श्री एम० आर० वी० ए०, वी० एल०, भा० सा० द० (मार्क्सवादी) (तमिलनाडु), श्री एम० आर० रामास्वामी शिवन के आत्मज, जन्म 20 अगस्त, 1906, विधुर, 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1968 से 2-4-1974, मंत्री, तमिलनाडु राज्य समिति, भा० सा० द०, 1943—48 और 1953—62, दिवगत। श्रद्धाजलि—25-7-1983।

वेकटरामन, श्री एस० . काग्रेस (मद्रास, अब तमिलनाडु), श्री सुब्रह्मण्य अय्यर के आत्मज, जन्म 8 जनवरी, 1903, विवाह श्रीमती वलम्बल से, 1 पुत्र और 4 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956 और 3-4-1956 से 2-4-1962, मंत्री, तमिलनाडु काग्रेस समिति, 1946-52, दिवगत। श्रद्धाजलि—17-11-1980।

\*वेंकटरामन, श्री दिण्डीवनम् जी० : वी० ए०, वी० एल०, ड० मु० क० (तमिलनाडु), श्री वी० गोपाल गौडर के आत्मज, जन्म 2 फरवरी, 1931, विवाह श्रीमती वी० वसन्ता से, 3 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 25-7-1989 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता 19, जयपुरम कालोनी, दिण्डीवनम्, दक्षिणी अर्काट जिला (तमिलनाडु)।

वेकटरामन, श्री विल्लुरी . एम० ए०, स्वतंत्र पार्टी (आंध्र प्रदेश), श्री जोगी नायडू के आत्मज, जन्म 15 मई, 1923, विवाह श्रीमती माणिक्यम से, 3 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 30-11-1953 से 2-4-1956 और 3-4-1956 से 2-4-1962, दिवगत। श्रद्धाजलि—4-8-1978।



वेंकटराव, श्री चडलवाडा : मेकेनिकल तथा आटोमोवाइल इंजीनियरी में डिप्लोमा, कांग्रेस (आई) (आंध्र प्रदेश), श्री नंदैया के आत्मज, जन्म 11 मार्च, 1931, विवाह श्रीमती सुगुणा देवी से, 2 पुत्र और 4 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1978 से 5-1-1981, दिवंगत। श्रद्धाजलि—16-2-1981।

वेंका, श्री वी० : इन्टरमीडिएट, ट्र० मु० क० (तमिलनाडु), श्री वीरस्वामी के आत्मज, जन्म 11 जुलाई, 1935, विवाह श्रीमती वी० रत्नबाई से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) तमिलनाडु विधान परिषद, 1970-76 और (2) राज्य सभा, 3-4-1978 से 2-4-1984, दिवंगत। श्रद्धाजलि—22-2-1988

वैद्य, श्री कन्हैयालाल डी० . काग्रेस (मध्य भारत, अब मध्य प्रदेश), श्री दौलतराम वैद्य के आत्मज, जन्म 1908, विवाह श्रीमती रूपकुवर बाई वैद्य से, 1 पुत्र और 4 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956, दिवंगत। श्रद्धाजलि—18-12-1974।

वेरो, श्री मेल्लुप्पा : कांग्रेस (नागालैण्ड), श्री पोसवुये के आत्मज जन्म 1934, विवाह श्रीमती केरेले से, सदस्य, राज्य सभा, 18-3-1964 से 2-4-1968 और 3-4-1968 से 2-4-1974।

स्थायी पता : फेकटाउन, जिला कोहिमा, (नागालैण्ड)।

वैशपायन, श्री एस० के० . एम० एससी० (भौतिकी), कांग्रेस (आई) (महाराष्ट्र), श्री कृष्णराव एम० वैशपायन के आत्मज, जन्म 14 मई, 1916, विवाह श्रीमती प्रतिभा एस० वैशपायन से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) महाराष्ट्र विधान परिषद, 1970-76 और (2) राज्य सभा, 3-4-1964 से 2-4-1970 और 3-4-1976 से 24-8-1981, दिवंगत। श्रद्धाजलि—25-8-1981।

वोरा, श्री मोती लाल : कांग्रेस (आई); (मध्य प्रदेश), श्री मोहन लाल वोरा के आत्मज, जन्म 20 दिसम्बर, 1928, विवाह श्रीमती शान्ति देवी वोरा से, 2 पुत्र और 4 पुत्रिया, सदस्य, मध्य प्रदेश विधान सभा, 1972-85, मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री/मन्त्री, 1981 और 1982-84, मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश, 1985-88, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1988 से 8-3-1989, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा नागर विमानन मंत्रालयों में केंद्रीय मंत्री, 1988-89, अध्यक्ष, मध्य प्रदेश कांग्रेस (आई), समिति, 1984-85।

स्थायी पता . 33, मोहन नगर, दुर्ग (मध्य प्रदेश)।

व्यास, डा० एम० आर० : डाक्टर (रजनीतिशास्त्र), वी० एससी० (अर्थशास्त्र) लन्दन, कांग्रेस (महाराष्ट्र), श्री एन० डी० व्यास के आत्मज, जन्म 24 जून, 1919, विवाह श्रीमती मजुला व्यास से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1972 से 2-4-1978, उपाध्यक्ष, चम्पई प्रदेश कांग्रेस समिति, जर्मन भाषा में भारतीय राष्ट्रीय इतिहास की पुस्तक के लेखक, दिवंगत। श्रद्धाजलि—23-2-1987।

व्यास, श्री कृष्ण कान्त • कांग्रेस (मध्य भारत, अब मध्य प्रदेश), श्री वृजलाल व्यास के आत्मज, जन्म 30 अगस्त, 1910, विवाह श्रीमती लीलावती व्यास से, 4 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) अनन्तिम ससद, 1950—52 और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956, दिवगत। श्रद्धाजलि—12-11-1973।

व्यास, श्री जयनारायण • मैट्रिक, कांग्रेस (राजस्थान), पंडित सेवारामजी व्यास के आत्मज, जन्म 18 फरवरी, 1899, विवाह श्रीमती गौरजा देवी से, 1 पुत्र और 3 पुत्रिया, मुख्य मंत्री, (1) पूर्वकाल में जोधपुर राज्य, 1948-49 और (2) राजस्थान, 1951—54, सदस्य, (1) सविधान सभा/अनन्तिम ससद, अप्रैल, 1951 तक और (2) राज्य सभा, 20-4-1957 से 2-4-1960 और 3-4-1960 से 14-3-1963, कुछ पुस्तकों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—15-3-1963।

व्यास, श्री रमेश चन्द्र कांग्रेस (राजस्थान), श्री छीतर लाल जी के आत्मज, विवाह श्रीमती रमादेवी से, 2 पुत्र और 4 पुत्रिया, सदस्य, (1) लोक सभा, 1957-58 और (2) राज्य सभा, 3-4-1962 से 22-2-1967, अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर सघ कांग्रेस, राजस्थान, दिवगत। श्रद्धाजलि—17-2-1975।

शर्मा, श्री अजित कुमार एम० ए० (राजनीति विज्ञान), समाजवादी दल (असम), श्री चेतुघर शर्मा के आत्मज, जन्म 21 अप्रैल, 1922, विवाह श्रीमती करुणामयी शर्मा से, 2 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1978 से 9-4-1984, मंत्री, समाजवादी दल, असम, 1950—52 और 1955—77।

स्थायी पता सुवागपुर, गुवाहाटी (असम)।

शर्मा, श्री अनन्त प्रसाद : कांग्रेस (आई) (बिहार), श्री राम नरेश शर्मा के आत्मज, जन्म 25 दिसम्बर, 1919, विवाह श्रीमती ताणदेवी से, 2 पुत्र और 4 पुत्रिया, सदस्य, (1) लोक सभा, 1962—67 और 1971—77 और (2) राज्य सभा, 3-4-1968 से 11-3-1971, 10-4-1978 से 19-2-1983 और 22-8-1984 से 2-4-1988, उद्योग और नागरिक पूर्ति, नौवहन और परिवहन, पर्यटन और विमानन तथा संचार मंत्रालयों में केन्द्रीय मंत्री, 1974—77 और 1980—83, राज्यपाल, (1) पंजाब, फरवरी से अक्टूबर, 1983 और (2) पश्चिमी बंगाल, अक्टूबर, 1983 से अगस्त, 1984, अध्यक्ष, बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति, दिवगत। श्रद्धाजलि—2-11-1988।

शर्मा, डा० एच० पी० . एम० एससी०, ए० एम० और पीएच० डी०, कांग्रेस (आई) (राजस्थान), पंडित उमराव लाल शर्मा के आत्मज, जन्म 20 नवम्बर, 1921, विवाह श्रीमती शान्ता रानी शर्मा से, 3 पुत्र, सदस्य, (1) राजस्थान विधान सभा, 1962—71, (2) लोक सभा, 1971—77 और (3) राज्य सभा, 2-7-1985 से 2-4-1988।

स्थायी पता : डाकघर खैरथल, जिला अलवर (राजस्थान)।

\*शर्मा, श्री कृष्ण लाल . वी० ए०, भारतीय जनता पार्टी (हिमाचल प्रदेश), श्री राम नारायण के आत्मज, जन्म 1 नवम्बर, 1925, अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1990 से अद्यपर्यन्त, भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय सचिव/महासचिव, 1980—90।

स्थायी पता . कुमार हाउस, शाकली, शिमला (हिमाचल प्रदेश)।

शर्मा, श्री किशन लाल : विशारद, काग्रेस (आई) (राजस्थान), श्री नानालाल के आत्मज, जन्म 1912, विवाह श्रीमती चन्द्रिका देवी से, 4 पुत्र और 6 पुत्रिया, सदस्य, (1) राजस्थान विधान सभा, 1957—62 और 1967—72 और (2) राज्य सभा, 3-4-1974 से 2-4-1980, महासचिव, राजस्थान प्रदेश काग्रेस समिति, 1959—73।

स्थायी पता : नई हवेली, नाथद्वारा, उदयपुर (राजस्थान)।

\*शर्मा, श्री चन्दन : एम० ए०, काग्रेस (आई) (हिमाचल प्रदेश), श्री शिवराम शर्मा के आत्मज, जन्म 10 जून, 1948, विवाह श्रीमती कस्तूरा देवी से, 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1986 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता . ग्राम कडो (देतवार), डाकघर कडो भटनोल, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हिमाचल प्रदेश)।

शर्मा, श्री पूर्ण चन्द्र . वी० ए०, वी० एल०, काग्रेस (असम), श्री विष्णु चन्द्र शर्मा के आत्मज, जन्म 7 अक्टूबर, 1900, विवाह श्रीमती मोक्षदा देवी से, 4 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) असम विधान सभा, 1937—52 और (2) राज्य सभा, 3-4-1956 से 2-4-1962, दिवगत। श्रद्धाजलि—12-8-1986।

शर्मा, पंडित बालकृष्ण : काग्रेस (उत्तर प्रदेश), पंडित जमनादास शर्मा के आत्मज, जन्म 8 दिसम्बर, 1897, विवाह श्रीमती सरला शर्मा से, 1 पुत्री, सदस्य, (1) केन्द्रीय विधान सभा, (2) सविधान सभा, (3) अन्त कालीन ससद, (4) लोक सभा, 1952—56 और (5) राज्य सभा, 13-12-1956 से 29-4-1960, दिवगत। श्रद्धाजलि—29-4-1960।

शर्मा, श्री बृज बिहारी एम० ए०, एलएल० वी०, काग्रेस (उत्तर प्रदेश), राय मुक्ति नाथ शर्मा के आत्मज, जन्म 23 सितम्बर, 1897, विवाह श्रीमती मनराजी देवी से, 2 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954 और 3-4-1954 से 2-4-1960, दिवगत। श्रद्धाजलि—22-12-1978।

\*वर्तमान सदस्य।

शर्मा, श्री भगवत दयाल . एम० ए०, कांग्रेस (ओ) (हरियाणा), पंडित मुरारी लाल के आत्मज, जन्म 26 जनवरी, 1918, विवाह श्रीमती सावित्री देवी से, 3 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, पंजाब विधान सभा, 1962—66, मंत्री, पंजाब सरकार, 1962—66, सदस्य, हरियाणा विधान सभा, 1966-67, मुख्यमंत्री, हरियाणा, नवम्बर, 1966 से मार्च, 1967, सदस्य, राज्य सभा, 2-8-1968 से 1-8-1974, अध्यक्ष, (1) पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति, 1963 और 1964—66 और (2) हरियाणा प्रदेश कांग्रेस समिति, 1966।

स्थायी पता - 17-सी, नार्थ वेस्ट एवेन्यू रोड, पंजाबी बाग, नई दिल्ली।

शर्मा, श्री माधोराम : बी० ए०, एम० डी० (होम्यो), कांग्रेस (पंजाब), पंडित बुध राम के आत्मज, जन्म 23 अप्रैल, 1913, विवाह श्रीमती जीओ देवी से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1) पंजाब विधान परिषद, 1952—54 और (2) राज्य सभा, 3-4-1958 से 2-4-1964, महासचिव, पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति, 1952, दिवगत। श्रद्धाजलि—18-8-1980।

शर्मा, श्री योगेन्द्र : बी० ए०, भा० सा० द० (बिहार), श्री गया प्रसाद शर्मा के आत्मज; जन्म 20 अगस्त, 1915, विवाह श्रीमती गीता शर्मा से, 4 पुत्र, सदस्य, (1) लोक सभा, 1967—70 और (2) राज्य सभा, 10-4-1972 से 9-4-1978 और 10-4-1978 से 9-4-1984, मंत्री, (1) भा०सा०द० की बिहार राज्य समिति, 1956—62 और (2) भा०सा०द० की राष्ट्रीय परिषद, 1962—78, दिवगत। श्रद्धाजलि—15-3-1990।

शर्मा, श्री लैमथूम ललित मधोब : संस्कृत और हिन्दी पंडित, कांग्रेस (मणिपुर), श्री विन्दु मधोब शास्त्री के आत्मज, जन्म अप्रैल, 1893, विवाह, (1) श्रीमती कृतमाला देवी और (2) श्रीमती जसोमती देवी से, 3 पुत्र और 6 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 1-12-1956 से 2-4-1960 और 3-4-1960 से 2-11-1964, अध्यक्ष, मणिपुर राज्य कांग्रेस, दिवगत। श्रद्धाजलि—16-11-1964।

\*शर्मा, श्री सतीश कुमार हायर सेक्रेटरी, कांग्रेस (आई) (मध्य प्रदेश), श्री बी० आर० शर्मा के आत्मज, जन्म - 11 अक्टूबर, 1947, विवाह श्रीमती स्टेरै शर्मा से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 30-6-1986 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता - ई-315, ग्रेटर कैलाश, पार्ट-II नई दिल्ली।

शम्भू प्रसाद, श्री एस० स्नातक (विश्व भारती), कांग्रेस (आन्ध्र प्रदेश), श्री एस० शिवान्नाहम के आत्मज, जन्म. 26 जनवरी, 1911, विवाह श्रीमती एस० कामाक्षिमा से, 2 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956, दिवगत। श्रद्धाजलि—31-7-1972।

शहाबुद्दीन, श्री सैयद . एम० एससी०, बी० एल०, जनता पार्टी (बिहार), श्री सैयद निजामुद्दीन के आत्मज, जन्म 4 नवम्बर, 1935, विवाह श्रीमती शाहेर चानो (मजीद) से, 1 पुत्र और 5 पुत्रिया, भारतीय विदेश सेवा, 1958—78, अल्जीरिया और मारीटानिया मे भारत के राजदूत, 1973—75, सदस्य, राज्य सभा, 25-7-1979 से 9-4-1984।

स्थायी पता कहकशा हाउस, मोहल्ला करीमगज, गया (बिहार)।

शान्ति देवी, श्रीमती : उत्तर प्रदेश, सदस्य, राय सभा, 27-4-1961 से 2-4-1962। [अन्य विवरण उपलब्ध नहीं हैं।]

स्थायी पता : मोहल्ला कटरा बुलाकीदास, डाकघर जसवत नगर, जिला इटावा (उत्तर प्रदेश)।

शान्ति भूषण, श्री : बी० एससी०, एलएल० बी०, जनता पार्टी (उत्तर प्रदेश), श्री विश्व मित्र के आत्मज, जन्म 11 नवम्बर, 1925, विवाह श्रीमती कुमुद भूषण से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश, 1969-70, सदस्य, राज्य सभा, 14-7-1977 से 2-4-1980, केन्द्रीय विधि, न्याय और कम्पनी मामलो के मंत्री, 1977—79।

स्थायी पता : बी० 16 सेक्टर 14-ए, नोएडा (उत्तर प्रदेश)।

शामनाड, श्री हमीद अली : बी० ए०, बी० एल०, मुस्लिम लीग (केरल), श्री अब्दुल खादर शामनाड के आत्मज, जन्म 23 जनवरी, 1929, विवाह श्रीमती उम हलीम से, 3 पुत्रिया. सदस्य, (1) केरल विधान सभा, 1960—64 और (2) राज्य सभा, 5-2-1970 से 21-4-1973 और 22-4-1973 से 21-4-1979, महासचिव, मुस्लिम लीग, केरल।

स्थायी पता : एडवोकेट, सी—व्यू, कासरगोड (केरल)।

शारिक, श्री शरीफुद्दीन : एम०ए०, बी० एड, डी० टी०, एच० यू०, एलएल० बी० (अलीगढ़), नेशनल काफ्रेंस (जम्मू और कश्मीर), श्री एम० अब्दुल गनी के आत्मज, जन्म 3 मार्च, 1939, विवाह श्रीमती सरवर बेगम से, 1 पुत्र और 4 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 2-4-1980 से 10-11-1984।

स्थायी पता . चोगुल रोड हडवारा, जिला, कुपवारा (जम्मू और कश्मीर)।

शाल, श्री गुलाम मोहिउद्दीन . बी० ए०, एलएल० बी०, नेशनल काफ्रेंस (जम्मू और कश्मीर), ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल्लाह शाल के आत्मज, जन्म 7 अक्टूबर, 1926, विवाह श्रीमती ताजुन्निसा बेगम से, 3 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 16-4-1980 से 15-4-1986, कश्मीर समस्या पर एक पुस्तक के लेखक।

स्थायी पता : शाल विला, काजी वाग, अनन्तनाग (जम्मू और कश्मीर)।

शास्त्री, पंडित अलगूराय : कांग्रेस (उत्तर प्रदेश), श्री द्वारिका राय के आत्मज, जन्म 29 जनवरी, 1900, विवाह श्रीमती परमेश्वरी देवी से, 1 पुत्री, सदस्य, (1) उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1937—52, (2) सविधान सभा और (3) राज्य सभा, 13-12-1956 से 24-4-1958, सचिव, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति, 1930—33, महामंत्री/अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कांग्रेस समिति, 1950—55, ऋग्वेद पर पुस्तक लिखी, दिवगत। श्रद्धाजलि—18-3-1967।

शास्त्री, श्री प्रकाश वीर . विद्या भास्कर, शास्त्री, एम०ए०, जन सभ (उत्तर प्रदेश), श्री दलीप सिंह के आत्मज, जन्म 30 दिसम्बर, 1923, विवाह श्रीमती यशोज से, 2 पुत्र, सदस्य, (1) लोक सभा, 1958—70 और (2) राज्य सभा, 3-4-1974 से 23-11-1977, महासचिव, भारतीय क्रान्ति दल, कुछ पुस्तकों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—23-11-1977।

शास्त्री, श्री ब्रह्मदेव राम : जनता पार्टी (बिहार), सदस्य, राज्य सभा 25-7-1979 से 2-4-1980 [अन्य विवरण उपलब्ध नहीं है]।

स्थायी पता : ग्राम ढका चैनपुर, डाकघर ढका, जिला पूर्वी चम्पारन (बिहार)।

शास्त्री, श्री भोला पासवान . स्नातक (शास्त्री, काशी विद्यापीठ), कांग्रेस (यू) (बिहार), श्री घूसर पासवान के आत्मज, जन्म 1914, विवाह श्रीमती देवकी देवी से, सदस्य, बिहार विधान सभा, ससदीय सचिव/मंत्री, बिहार सरकार, 1946—51 और 1952—63, तीन बार बिहार के मुख्य मंत्री रहे, सदस्य, राज्य सभा, 31-5-1972 से 2-4-1976 और 3-4-1976 से 2-4-1982, केन्द्रीय मंत्री, निर्माण, आवास और शहरी विकास, 1973-74, राज्य सभा में विपक्ष के नेता, फरवरी-मार्च, 1978, अध्यक्ष, भारत सरकार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, दिवगत। श्रद्धाजलि—17-1-1985।

शास्त्री, श्री लाल बहादुर . (काशी विद्यापीठ), कांग्रेस (उत्तर प्रदेश), श्री शारदा प्रसाद के आत्मज, जन्म 1905, विवाह श्रीमती ललिता शास्त्री से, 4 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1937—52, उत्तर प्रदेश सरकार में ससदीय सचिव/मंत्री, 1946—51, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954 और 3-4-1954 से 13-3-1957, केन्द्रीय रेल और परिवहन मंत्री, वाद में भारत के प्रधान मंत्री, 9-6-1964 से 11-1-1966, मंत्री, उत्तर प्रदेश कांग्रेस समिति, महामंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, 1951, दिवगत। श्रद्धाजलि—14-2-1966।

शाह, श्री कोडारदास कालीदास : बी० ए०, एलएल० बी०, कांग्रेस (महाराष्ट्र), श्री कालीदास विचारदाम शाह के आत्मज, जन्म 15 अक्टूबर, 1908, विवाह श्रीमती मधुवेन के शाह से, 2 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) वम्बई विधान सभा, 1952 और (2) राज्य सभा, 3-4-1960 से 2-4-1966 और 3-4-1966 से 22-5-1971. सूचना और प्रसारण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, निर्माण आवास और शहरी विकास मंत्रालयों में केन्द्रीय मंत्री, 1967—71, सदन के नेता, राज्य सभा, नवम्बर, 1969 से अगस्त, 1971, अनेक वर्षों तक वम्बई प्रदेश कांग्रेस समिति के महासचिव/उपाध्यक्ष/अध्यक्ष रहे, महासचिव, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, 1962-63, दिवगत। श्रद्धाजलि—14-3-1986।

शाह, श्री भोगीलाल मगनलाल • कांग्रेस (सौराष्ट्र, अब गुजरात), श्री मगनलाल वीरचन्द शाह के आत्मज, जन्म 23 जनवरी, 1887, विवाह श्रीमती चचलवेन से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1) पूर्वकाल में भावनगर राज्य विधान सभा, 1945 और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956, दिवगत, 15-12-1976।

शाह, श्री मणिलाल चतुरभाई • एम० ए०, एलएल० बी०, कांग्रेस (बम्बई, अब महाराष्ट्र), श्री चतुरभाई अनूपचन्द शाह के आत्मज, जन्म 30 अक्टूबर, 1894, विवाह श्रीमती सरस्वती से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) सविधान सभा, 1946—49, (2) अनन्तिम ससद, 1950—52 और (3) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956 और 3-4-1956 से 9-1-1960, वित्त मंत्रालय में केन्द्रीय उपमन्त्री/राज्य मन्त्री, 1954—57, दिवगत। श्रद्धाजलि— 8-2-1960।

शाह, श्री मणिक लाल चुन्नीलाल : बी० ए०, एलएल० बी०, कांग्रेस (गुजरात), श्री चुन्नीलाल शाह के आत्मज, जन्म दिसम्बर, 1896, विवाह श्रीमती तारा वेन से, 3 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, पूर्वकाल में बम्बई विधान सभा, 1946—57, मन्त्री, पूर्वकाल में बम्बई राज्य, 1957—60, मन्त्री, गुजरात सरकार, 1960—62, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1962 से 2-4-1968।

स्थायी पता . गुलवाई टीकरी, अहमदाबाद (गुजरात)।

शाह, श्री मेघजीभाई पेंठराज : कांग्रेस (बम्बई, अब महाराष्ट्र), श्री पेंठराजभाई शाह के आत्मज, जन्म 1904, विवाह श्रीमती मणिवेन शाह से, 2 पुत्र और 5 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1956 से 26-7-1957।

स्थायी पता . 'मेघदूत' केन्द्रीय जेल रोड, जामनगर (गुजरात)।

शाह, श्री मनुभाई . बी० एससी० (रसायन-शास्त्र), बी० एससी० (टैक०), कांग्रेस (गुजरात), श्री मनसुखलाल मणिकलाल शाह के आत्मज, जन्म 1 नवम्बर, 1915, विवाह श्रीमती विद्यावेन शाह से, 3 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, पूर्व काल में सौराष्ट्र विधान सभा, 1948—56, मन्त्री, सौराष्ट्र-सरकार, 1948—56, सदस्य, (1) राज्य सभा, 3-4-1956 से 12-3-1957 और 3-4-1970 से 2-4-1976 और (2) लोक सभा, 1957—62 और 1962—67, औद्योगिक विकास, भारी उद्योग, वाणिज्य, उद्योग और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालयों में केन्द्रीय मन्त्री, 1956—67।

स्थायी पता . लाल बगला, जामनगर (गुजरात)।

\*शाह, श्री वीरेन जे० : ए० एम० पी० (हरवर्ड) (यू० एस० ए०), भारतीय जनता पार्टी (महापट्ट), श्री जीवन लाल मोर्नाचन्द के आत्मज, जन्म 12 मई, 1926, विवाह श्रीमती अजना शाह से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) लोक सभा, 1967—70 और (2) राज्य सभा, 14-8-1975 से 13-8-1981 और 3-4-1993 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता 6-ए सुनीता, वी० जी० खेर मार्ग, चम्बई (महापट्ट)।

शाही, श्री जागेश्वर प्रसाद • एम० ए०, एलएल० बी०, विशारद, संस्कृत में मध्यमा, लोकदल (उत्तर प्रदेश), श्री बालेश्वर प्रसाद शाही के आत्मज, जन्म 20 नवम्बर, 1921, विवाह श्रीमती सुशीला शाही से, 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1970 से 2-4-1976 और 3-4-1976 से 2-4-1982, अध्यक्ष, राज्य सभा की सरकारी आधासनो सम्वन्धी समिति, 1980—82।

स्थायी पता. ग्राम और डाक घर बेलघाट, जिला गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)।

शाहेदुल्ला, श्री सैयद : बी० ए० (आनर्स) (अर्थशास्त्र), भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) (पश्चिमी बंगाल), श्री सैयद हमीदुल्ला के आत्मज, जन्म 24 मार्च, 1913, विवाह श्रीमती रबिया बेगम से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1) पश्चिमी बंगाल विधान परिषद और विधान सभा तथा (2) राज्य सभा, 3-4-1978 से 2-4-1984, बंगला में कुछ पुस्तकों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाञ्जलि—21-2-1991।

शिल्ला, श्री शोवालेस के० : एम० ए०, एलएल० बी०, आल पार्टी हिल लीडर्स कान्फ्रेंस (मेघालय), श्री नेवेल शैल्लाम के आत्मज, जन्म 3 अक्टूबर, 1939, विवाह श्रीमती कॉन्स्टीरियल शिल्ला से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 13-4-1972 से 12-4-1978।

स्थायी पता • पनालियर, जोवाई (मेघालय)।

शिवप्रकाशम्, श्री एस० • डिप्लोमा ऑफ इंडियाने ऑफ ब्रावेट, ड्र० मु० क० (पाडिचेरी), श्री पणमुगवेल के आत्मज, जन्म 23 अक्टूबर, 1908, विवाह श्रीमती जगदम्बाल से, 2 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 7-8-1969 से 6-8-1975, तमिल में कुछ पुस्तकों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाञ्जलि—11-10-1989।



\*शिव शाकर, श्री पी० वी० ए० (आनर्स) अग्रेजी, श्रेष्ठता सहित, एलएल० बी०, कांग्रेस (आई) (गुजरात), श्री पी० वाशिह के आत्मज, जन्म 10 अगस्त, 1929, विवाह श्रीमती पी० लक्ष्मी चाई से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, न्यायाधीश, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, अक्टूबर, 1974 से जून, 1975, सदस्य, (1) लोक सभा, 1979-80 और 1980—84 और (2) राज्य सभा, 10-5-1985 से 13-8-1987 और 14-8-1987 से अद्यपर्यन्त, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य, पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक, ऊर्जा, वाणिज्य, खाद्य और नागरिक पूर्ति, विदेश, योजना तथा मानव ससाधन विकास मंत्रालयो मे केन्द्रीय मंत्री, 1980—84 और 1986—89, सभा के नेता, राज्य सभा, जुलाई, 1988 से नवम्बर, 1989, विपक्ष के नेता, राज्य सभा, दिसम्बर, 1989 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता : 3-6-105 'श्री सदन' हिमायत नगर, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)।

\*शिवाजी, डा० येलासनचिल्ली : एम० बी० ए०, तेलुगु देशम् (आंध्र प्रदेश), श्री राधा कृष्ण के आत्मज, जन्म 28 जुलाई, 1947, विवाह डा० हेमा से, 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1988 से अद्यपर्यन्त, मंत्री, लोक दल, आन्ध्र प्रदेश, 1989 मे जॉन देल्वी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित, कुछ पुस्तको के लेखक।

स्थायी पता : डाकघर—वृन्दावन गार्डन्स, गुट्टर (आन्ध्र प्रदेश)।

शिशिर कुमार, श्री : प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (विहार), सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1964 से 2-4-1970 और 3-4-1970 से 2-4-1976। [अन्य विवरण उपलब्ध नहीं हे]।

स्थायी पता : 129, हाई काकड बाग कॉलोनी, पटना (विहार)।

शुक्ला, श्री केशवप्रसाद : बी० ए०, एलएल० बी०, कांग्रेस (आई) (मध्य प्रदेश), श्री रघुनाथ प्रसाद शुक्ला के आत्मज, जन्म 14 मार्च, 1922, विवाह, श्रीमती प्रेमवती शुक्ला से, 3 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1982 से 2-4-1988।

स्थायी पता : उपरहती, डाकघर—उपरहती, रीवा (मध्य प्रदेश)।

शुक्ला, श्री चक्रपाणि . कांग्रेस (मध्य प्रदेश), श्री जगन्नाथ प्रसाद शुक्ला के आत्मज, जन्म 2 अप्रैल, 1916, विवाह श्रीमती कृष्णा कुमारी शुक्ला से, 4 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) मध्य प्रदेश विधान सभा, 1957—62 और 1962—67 और (2) राज्य सभा, 8-2-1966 से 2-4-1970 और 3-4-1970 से 2-4-1976।

स्थायी पता : चालोदा बाजार, रायपुर (मध्य प्रदेश)।

शुक्ला, श्री महावीर प्रसाद वी० ए०, एलएल० वी०, काग्रम (उत्तर प्रदेश), प० झुलारू राम शुक्ला के आत्मज, जन्म 5 अप्रैल, 1908, विवाह श्रीमती कृष्णा प्यारि देवी से, 2 पुत्र आर 4 पुत्रिया, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1952—62, उपमन्त्री, उत्तर प्रदेश सरकार, 1959-60, सदस्य, राज्य सभा, 1०-4-19०2 म 2-4-19०५ 3-4-1964 से 2-4-1970 और 3-4-1970 से 2-4-1976, सचिव/महामन्त्रि, उत्तर प्रदेश कांग्रेस समिति, 1955—58 और 1961—63।

स्थायी पता गाव गयपुर, डाकघर-माद्रा मकुन्दपुर, जिला इलाहबाद (उत्तर प्रदेश)।

शेख, श्री अब्दुल रहमान लोक दल (उत्तर प्रदेश), श्री अब्दुल ममद शेख के आत्मज, जन्म 1934, विवाह श्रीमती फातिमा बेगम से, 3 पुत्र आर 2 पुत्रिया, सदस्य, जम्मू आर कश्मीर विधान सभा, जम्मू और कश्मीर विधान सभा के उपाध्यक्षों के पेनल में सदस्य, 1972-73, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1978 में 2-4-1984, अध्यक्ष, (1) जम्मू आर कश्मीर राज्य जनसच, 1972-73 आर (2) जम्मू आर कश्मीर, भारतीय लोक दल, 1974—77, कार्यवाहक अध्यक्ष, लोक दल, 1975-76, महासचिव, लोक दल।

स्थायी पता • 108, वी०सी० वजारत रोड, जम्मू तवी (जम्मू आर कश्मीर)।

शेख, श्री घास मोहिउद्दीन वी० ए०, काग्रम (आई) (आन्ध्र प्रदेश), श्री दस्तगीर साहब शेख के आत्मज, जन्म 1 फरवरी, 1934, विवाह श्रीमती बेगम अशरफ से, 4 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1978 से 9-4-1984।

स्थायी पता • 4/88, माँस्क स्ट्रीट, गुड्डर, जिला नेल्लोर (आन्ध्र प्रदेश)।

शेखावत, श्री भरो सिंह जनसच (मध्य प्रदेश), सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1974 से 5-12-1977 [अन्य विवरण उपलब्ध नहीं है।]

स्थायी पता • द्वारा भारतीय जनसच प्रादेशिक कार्यालय, मोमवार, भोपाल (मध्य प्रदेश)।

शेखर, श्री एन० सी० • इन्टरमीडिएट, साम्यवादी दल (केरल), श्री वी० नारायण पिल्ल के आत्मज, जन्म जून, 1906, विवाह श्रीमती इदायथ जानकी से, 4 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1954 से 2-4-1960, दिवंगत। श्रद्धाजलि—5-12-1986।

शेखवलकर, श्री नारायणराव कृष्णराव वी० एससी०, एलएल० वी०, जनसच (मध्य प्रदेश), श्री कृष्णराव महदव के आत्मज, जन्म 7 अगस्त, 1923, विवाह श्रीमती विमल शेखवलकर से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1968 में 2-4-1974, महामन्त्रि आर अध्यक्ष, जनसच, मध्य प्रदेश।

स्थायी पता कृष्ण-कृपा, विवेकानंद मार्ग, लखन, कार्यालय (मध्य प्रदेश)।

शेड्डी, श्री वी० पी० वासप्पा : कांग्रेस (पूर्वत मेसूर वर्तमान कर्णाटक), श्री वी० पुप्पन्ना शेड्डी के आत्मज, जन्म 2 फरवरी, 1901, विवाह श्रीमती अन्नपूर्णा देवी से, 3 पुत्र और 5 पुत्रिया, उपाध्यक्ष, मेसूर प्रतिनिधि सभा, 1948, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1958 और 3-4-1958 से 2-4-1964।

स्थायी पता कॉफी प्लान्टर, चेलीगोडिगे एस्टेट, डाकघर अल्दूर, जिला चिकमगलूर (कर्णाटक)।

शेरखान, श्री एम० . कांग्रेस (ओ) (पूर्वत मेसूर वर्तमान कर्णाटक), श्री थाफजुल हुसन खा के आत्मज, जन्म 10 दिसम्बर, 1922, विवाह श्रीमती अशरफुलत्रिसा वेगम से, 4 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 9-3-1961 से 2-4-1964, 3-4-1964 से 2-4-1970 तथा 3-4-1970 से 2-4-1972, दिवगत। श्रद्धाजलि—20-12-1989।

शेरवानी, श्री मुस्तफा रशीद वी० एससी०, कांग्रेस (उत्तर प्रदेश), श्री निसार अहमद शेरवानी के आत्मज, जन्म 12 जुलाई, 1921, विवाह श्रीमती तारा कादर से, 3 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1960 से 2-4-1966, 3-4-1966 से 2-4-1972 और 5-7-1980 से 8-4-1981, दिवगत। श्रद्धाजलि—20-4-1981।

श्यामकुमारी देवी, श्रीमती कांग्रेस (मध्य प्रदेश), श्री लाल मंगल सिंह की आत्मजा, जन्म 1910, विवाह ठाकुर दलगजन सिंह जूदेव से, सदस्य, (1) मध्य प्रदेश विधान सभा, 1952—57 और 1957—62, (2) लोक सभा, 1963—67 और (3) राज्य सभा, 3-4-1968 से 2-4-1974 और 3-4-1974 से 2-4-1980, दिवगत। श्रद्धाजलि—23-7-1984।

\*श्रीधरन्, श्री अरगिल . इटरमीडिएट, जनता दल (केरल), श्री ए० गोपालन के आत्मज, जन्म 29 मार्च, 1923, विवाह श्रीमती नलिनी से, सदस्य, (1) चौथी लोक सभा और (2) गज्य सभा, 2-7-1988 से अद्यपर्यन्त, केन्द्रीय वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री, अप्रैल, 1990 से नवम्बर, 1990, महामंत्री, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, केरल, 1958—62, अध्यक्ष, समाजवादी दल, 1961—71, अध्यक्ष, जनता पार्टी, केरल, 1982—84 और 1986—88।

स्थायी पता . अरगिल हाउस, कालीकट (केरल)।

श्रीनिवासन, श्री टी० के० ड्र० मु० क० (तमिलनाडु), श्री एन० कोटाडापाणि के आत्मज, जन्म 14 नवम्बर, 1922, विवाह श्रीमती सरस्वती से, 3 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1970 से 2-4-1976, एक उपन्यास और लघु कहानियों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—13-10-1989।

श्रीनिवासन, श्री थॉमस : एम० ए०, एल टी०, कांग्रेस (मद्रास अब तमिलनाडु), श्री देवाचिले थाथेर के आत्मज, जन्म 25 जनवरी, 1904, विवाह श्रीमती मार्था से, 3 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1960 से 17-4-1963, इतिहास पर पुस्तकों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—22-4-1963।

श्रीमाली, डा० के० एल० . एम० ए० (दर्शन शास्त्र), एम०ए० (प्रयोगात्मक मनोविज्ञान), पीएच० डी० (कोलम्बिया), कांग्रेस (राजस्थान), श्री रतन लाल श्रीमाली के आत्मज, जन्म 30 दिसम्बर, 1909, विवाह श्रीमती गंगावाई श्रीमाली से, 2 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956 और 3-4-1956 से 1-3-1962, ससदीय सचिव/केन्द्रीय शिक्षा मंत्री, 1953—58, शिक्षा सवधी विषयों पर पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता . विद्या भवन, उदयपुर (राजस्थान)।

श्रीवास्तव, डा० जे० पी० . डी० एससी० (आगरा), डी० लिट्० (लखनऊ), एम०एससी० टेक०, (विक्ट०), ए० एम० एस० टी०, कांग्रेस (उत्तर प्रदेश), मुशी जानकी प्रसाद श्रीवास्तव के आत्मज, जन्म 16 अगस्त, 1889, विवाह श्रीमती कैलाश श्रीवास्तव से, 2 पुत्र और 5 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 14-12-1954, मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, 1931—36 और 1937, दिवगत। श्रद्धाजलि—15-12-1954।

सकटा प्रसाद, डा० स्नातक, कांग्रेस (आई) (उत्तर प्रदेश), श्री चुन्नू लाल के आत्मज, जन्म 28 मार्च, 1928, विवाह श्रीमती शियो रानी से, 2 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) लोक सभा, 1967—77 और (2) राज्य सभा, 3-4-1982 से 29-12-1984।

स्थायी पता . ग्राम और डाकघर अखियारपुर, जिला सीतापुर (उत्तर प्रदेश)।

सजीवैया, श्री डी० वी० ए०, वी० एल०, कांग्रेस (आंध्र प्रदेश), श्री डी० मुनेया के आत्मज, जन्म 14 फरवरी, 1921, विवाह श्रीमती कृष्णावैणि सजीवैया से, सदस्य, (1) अत कालीन ससद, 1950—52, (2) मद्रास विधान सभा, 1952 और (3) आंध्र प्रदेश विधान सभा, 1952—64, मद्रास और आंध्र प्रदेश की सरकारों में मंत्री, 1952—60, मुख्य मंत्री, आंध्र प्रदेश, 1960—62, सदस्य, राज्य सभा 3-4-1964 से 2-4-1970 और 3-4-1970 से 7-5-1972, श्रम और रोजगार तथा उद्योग मंत्रालयों में केन्द्रीय मंत्री, 1964—67 और 1970-71, अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1962—64, दिवगत। श्रद्धाजलि—8-5-1972।

सतानम, श्री के० एम० ए०, वी० एल०, कांग्रेस (मद्रास अब तमिलनाडु), श्री कस्तूरी रंगा के आत्मज, जन्म 14 जुलाई, 1895, विवाह श्रीमती सुन्दरम से, 4 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1) केन्द्रीय विधान सभा, 1937—42, (2) सविधान सभा, 1946—50 और (3) अत कालीन ससद, 1950—52, केन्द्रीय रेल राज्य मंत्री, 1949—52, उपगज्यपाल, विध्य प्रदेश, 1956-57, अध्यक्ष, वित्त आयोग, 1956-57, सदस्य, राज्य सभा, 18-4-1960 से 2-4-1962 और 17-4-1962 से 2-4-1964, अनेक पुस्तकों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—11-3-1980।

सतोख सिंह, सरदार . एम० एससी० (आनर्स), कांग्रेस (दिल्ली), भाई मुकुन्द लाल के आत्मज, जन्म 7 अक्टूबर, 1922, विवाह श्रीमती निर्मलजीत कौर से, 1 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 16-4-1962 से 15-4-1968।

स्थायी पता 76-डी, मालवा मार्ग, डिप्लोमेटिक एनक्लेव, नई दिल्ली।

सईद अहमद, श्री . वी० ए०, एलएल० वी०, कांग्रेस (मध्य प्रदेश), श्री सईद इसहाक के आत्मज, जन्म 1896, अविवाहित, सदस्य, (1) लोक सभा, 1952—54 और (2) राज्य सभा, 3-4-1962 से 2-4-1968 और 3-4-1968 से 2-4-1974, दिवगत। श्रद्धाजलि—23-2-1987।

सईद, मुफ्ती मोहम्मद एम० ए०, एलएल० वी०, कांग्रेस (आई) (जम्मू और कश्मीर), मुफ्ती गुलाम मोहम्मद के आत्मज, जन्म 12 जनवरी, 1936, विवाह वेगम गुलशन नजीर से, 1 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) जम्मू और कश्मीर विधान सभा, 1962—72 तथा 1985-86, तथा (2) जम्मू और कश्मीर विधान परिषद्, 1972—77, उपमन्त्री और मंत्री, जम्मू और कश्मीर सरकार, 1967—70 और 1972—75, सदस्य, राज्य सभा, 22-10-1986 से 28-7-1989, केंद्रीय पर्यटन मंत्री, 1986-87, अध्यक्ष, जम्मू और कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति, 1975—87।

स्थायी पता - विजवेहा, जिला अनन्त नाग (जम्मू और कश्मीर)।

सईद, मुहम्मद, डा० वी० ए० . एम० ए०, एलएल० वी०, पीएच० डी० (लदन), वार-एट-लॉ, कांग्रेस (केरल), श्री अब्दुल अजीज के आत्मज, जन्म 29 मई, 1923, विवाह श्रीमती सारा वीवी मे, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 22-4-1973 से 21-3-1977, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालयों में केंद्रीय राज्य मंत्री, 1975—77, कुछ पुस्तकों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—13-3-1985।

\*सकी, श्री टी० ए० मोहम्मद वी० ए०, वी० एल०, डी० एम० के० (तमिलनाडु), श्री मोहम्मद अनीफ के आत्मज, जन्म 1 जुलाई, 1942, विवाह श्रीमती मुनव्वरजहा से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1990 से अद्यपर्यंत।

स्थायी पता 12 / 1, इन्फेन्ट्री रोड, वेल्लोर, नॉर्थ अरकोट, अम्बेडकर डिस्ट्रिक्ट (तमिलनाडु)।

सकसेना, श्री मोहन लाल वी० एससी०, एलएल० वी०, (नाम-निर्देशित), श्री तेज कृष्ण के आत्मज जन्म 26 अक्टूबर, 1896, विवाह श्रीमती शकुन्तला से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1) उत्तर प्रदेश विधान परिषद्, 1924—26, (2) केंद्रीय विधान सभा, 1935—47, (3) सविधान सभा, (4) अन्तःकालीन मसद, 1950—52, (5) लोक सभा, 1952—57 और (6) राज्य सभा, 22-11-1959 से 2-4-1964, केंद्रीय पुनर्वास मंत्री, 1948—50, सचिव / अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कांग्रेस समिति, 1929—35 और 1937—39, कुछ पुस्तकों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—16-8-1965।

सकमेना, श्री हर प्रसाद स्नातक, कांग्रेस (उत्तर प्रदेश), श्री तुलसी राम के आत्मज, जन्म जुलाई, 1885, विवाह श्रीमती जगत रानी सकमेना से, 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956 और 3-4-1956 से 2-4-1962, 'वावू' (एक उर्दू व्यंग्य) के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—8-11-1962।

\*वर्तमान सदस्य।

सखलेचा, श्री वीरेन्द्र कुमार . वी० ए०, एलएल० वी०, जनसभ (मध्य प्रदेश), श्री केशरामलाली सखलेचा के आत्मज, जन्म 4 मार्च, 1930, विवाह श्रीमती चेतन कुमारी से, 3 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, मध्य प्रदेश विधान सभा, 1957—72, विपक्ष के नेता, मध्य प्रदेश विधान सभा, अध्यक्ष, लोक लेखा समिति, मध्य प्रदेश विधान सभा, तीन वषों के लिए, उप-मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश, दो बार, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1972 से 26-6-1977।

स्थायी पता चोली घाटी, जावद, जिला-मदसार (मध्य प्रदेश)।

सच्चिदानन्द, श्री आयुर्वेद वाचस्पति, कांग्रेस (यू) (कर्णाटक), श्री टी०एस० अनन्तमूर्ति के आत्मज, जन्म 30 जुलाई, 1929, अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1978 से 9-4-1984।

स्थायी पता . 406-ए, II ए-क्रास, तीसरा ब्लॉक कोरामगल, बंगलौर (कर्णाटक)।

सत्यधी, श्रीमती नन्दिनी . एम० ए०, कांग्रेस (उड्डोसा), श्री कालिन्दी चरण पाणिग्रही की आत्मजा, जन्म 19 जून, 1931, विवाह श्री देवेन्द्र सत्यधी से, 2 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1962 से 2-4-1968 और 3-4-1968 से 29-11-1972, सूचना आर प्रसारण मंत्रालय में केन्द्रीय उपमंत्री और राज्य मंत्री रही, 1966—72, उड्डिया में लघु कथाओं और निबंधों की लेखिका।

स्थायी पता पोठापुर, कटक (उड्डोसा)।

सत्यचरण, श्री एम० ए०, वी० टी०, कांग्रेस (उत्तर प्रदेश), श्री बश बहादुर लाल के आत्मज, जन्म 5 जुलाई, 1907, विवाह श्रीमती पद्मावती देवी से, 3 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1960 से 13-8-1963, कुछ पुस्तकों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाञ्जलि—14-8-1963।

सत्यनारायण, श्री भोतुरी (नाम-निर्देशित), जन्म 1902, विवाह श्रीमती सूर्यकाता देवी से, 3 पुत्र और 4 पुत्रिया, सदस्य, (1) सविधान सभा, 1948—50, (2) अत कालीन ससद, 1950—52, (3) मद्रास विधान परिषद, 1952—54 और (4) राज्य सभा, 3-4-1954 से 2-4-1960 तथा 3-4-1960 से 2-4-1966, 1958 में पद्मश्री से सम्मानित।

स्थायी पता "सूर्यानीकुज", 7, फर्स्ट क्रैसेट रोड, गाधीनगर, अड्यार, मद्रास (तमिलनाडु)।

सत्यनारायण, श्री वेणीगल्ल - इटरमंडिएट, कांग्रेस (आंध्र प्रदेश), श्री वीरैया वेणीगल्ल के आत्मज, जन्म 5 अक्टूबर, 1918, विवाह श्रीमती नागेश्वरम्मा से, 1 पुत्र और 6 पुत्रिया, सदस्य, आंध्र प्रदेश विधान परिषद, 1958—70, आंध्र प्रदेश सरकार के मंत्री, 1967—69, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1970 से 2-4-1976 तथा 3-4-1976 से 20-10-1980, दिवगत। श्रद्धाञ्जलि—17-11-1980।

सत्यव्रत सिद्धान्तालकार, प्रो० सिद्धान्तालकार (स्नातक), विद्या मार्तण्ड (डाक्टोरेट), (नाम-निर्देशित), प० वालक राम लखनपाल के आत्मज, जन्म 5 मार्च, 1898, विवाह श्रीमती चद्रावती लखनपाल से, 1 पुत्र, कुलपति, गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय, सदस्य, राज्य सभा, 25-11-1964 से 2-4-1968, शिक्षा और समाजशास्त्र पर अनेक पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता : द्वारा गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय, डाकघर-गुरुकुल कागडी, जिला, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश)।

\*सत्या बहिन, श्रीमती . एम० ए० (समाजशास्त्र), काग्रेस (आई) (उत्तर प्रदेश), श्री बलदेव प्रसाद की आत्मजा, जन्म 5 जनवरी, 1944, विवाह श्री चन्द्रप्रकाश नायक से, 5 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1988 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता : लक्ष्मण सदन, लालपुर, सिविल लाइन्स, एटा (उत्तर प्रदेश)।

\*सनदी, प्रो० आई० जी० . एम० ए०, राष्ट्र भाषा 'प्रवीण', काग्रेस (आई) (कर्णाटक), श्री जी० एच० सनदी के आत्मज, जन्म 18 फरवरी, 1939, विवाह श्रीमती जेवुत्रिसा वेगम सनदी से, 4 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) कर्णाटक विधान सभा, 1972—78 और (2) राज्य सभा, 10-4-1990 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता : कविराज मार्ग, विश्वेवर नगर, हुबली (कर्णाटक)।

समू, श्री प्रकाश नारायण . एम० ए०, एलएल० बी०, एलएल० डी० (सम्मानार्थ), वार-एट-लॉ, काग्रेस (उत्तर प्रदेश), राइट ऑनरेबल सर तेज वहादुर समू के आत्मज, जन्म 11 फरवरी, 1894, विवाह श्रीमती जनक दुलारी चाक से, 3 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य परिषद्, 1934—47 और इसके अध्यक्षों के पैनल में, 1941-42, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1956 से 2-4-1962 और 3-4-1962 से 2-4-1968, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1958-59, अध्यक्ष, लिबरल पार्टी, 1938-39, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, 1947—54, विधि और सविधान विषयक पुस्तकों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—29-4-1969।

सरदार सिंह, श्री : एम० ए० (कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय), वार-एट-लॉ, निर्दलीय (राजस्थान), राजा वहादुर अमर सिंह के आत्मज, जन्म 16 मार्च, 1920, विवाह राजकुमारी भुवन राज्य लक्ष्मी से, सदस्य, (1) जयपुर विधान परिषद्, 1945, (2) सविधान सभा, 1947—50, (3) अत कालीन ससद, 1950—52 और (4) राज्य सभा, 3-4-1952 से 16-9-1956, दिवगत। श्रद्धाजलि—23-2-19९७।

सरदेसाई, श्री श्रीनिवास गणेश . बी० काम०, भारतीय साम्यवादी दल (महाराष्ट्र), श्री गणेश सखाराम सरदेसाई के आत्मज, जन्म 3 मार्च, 1907, विवाह श्रीमती गार्गी भाटवडेकर से, 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1970 से 2-4-1976, कुछ पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता . 497, रूप राज, सरदार पटेल रोड, वम्बई (महाराष्ट्र)।

सरिंग, श्री लेनार्ड सोलोमन . आई० एससी०, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, काग्रेस (आई) (सिक्किम), जॉन मिगमा सरिंग के आत्मज, जन्म 12 फरवरी, 1942, विवाह श्रीमती ल्यरमित मेरी लेप्चा से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 20-10-1975 से 19-10-1981 और 20-10-1981 से 19-10-1987, उपाध्यक्ष/अध्यक्ष, सिक्किम प्रदेश काग्रेस (आई) समिति।

स्थायी पता सिगडिक वस्ती, डाकघर मनगन, उत्तरी सिक्किम (सिक्किम)।

सरूप सिंह, डा० वी० ए० (आनर्स), एम० ए०, पीएच० डी०, लोक दल (हरियाणा), चौधरी गोरधन सिंह के आत्मज, जन्म 9 जनवरी, 1917, विवाह श्रीमती सुशीला देवी से, 2 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1978 से 9-4-1984, कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय, 1971—74, अध्यक्ष, समाजवादी दल, दिल्ली, 1951।

स्थायी पता - गाव और डाकघर साधी, रोहतक (हरियाणा)।

सरौगी, श्री पन्नालाल वी० ए०, वी० एल०, काग्रेस (पश्चिमी बंगाल), श्री महादेवलाल सरौगी के आत्मज, जन्म 14 जुलाई, 1921, विवाह श्रीमती सत्यवती से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) पश्चिमी बंगाल विधान परिषद, 1952—62 और (2) राज्य सभा, 3-4-1962 से 6-8-1963, दिवंगत। श्रद्धाजलि—13-8-1963।

सर्वटे, श्री विनायक सीताराम वी० ए०, एलएल० वी०, काग्रेस (मध्य प्रदेश), श्री सीताराम विष्णु सर्वटे के आत्मज, जन्म 2 अप्रैल, 1884, विवाह श्रीमती सरस्वती से, 3 पुत्र और 4 पुत्रिया, सदस्य, विधायी निकाय, पूर्वकाल में इन्दौर राज्य, इन्दौर राज्य में मंत्री, 1947-48, सदस्य, (1) सविधान सभा, 1949-50, (2) अत कालीन ससद, 1950—52 और (3) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1958, हिन्दी और मराठी में पुस्तकों के लेखक, दिवंगत। श्रद्धाजलि—13-3-1972।

सर्वटे, श्री विष्णु विनायक वी० एससी०, एलएल० वी०, काग्रेस (मध्य प्रदेश), श्री विनायक सीताराम सर्वटे के आत्मज, जन्म 25 अगस्त, 1906, विवाह श्रीमती आशावती सर्वटे से, 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) विधान परिषद, पूर्वकाल में होलकर राज्य, 1944—48 और (2) पूर्वकाल में मध्य भारत विधान सभा, 1948—52, उपाध्यक्ष, मध्य भारत विधान सभा, 1952—56, अध्यक्ष, मध्य भारत विधान सभा की प्राक्कलन समिति, 1953—56, उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश विधान सभा, 1956-57, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1958 से 2-4-1964।

स्थायी पता 62, जेल रोड, इन्दौर (मध्य प्रदेश)।

\*सलारिया, श्री शब्बीर अहमद : एम० ए०, एलएल० वी०, नेशनल कान्फ्रेंस (जम्मू और कश्मीर), चौधरी फिरोजुद्दीन सलारिया के आत्मज, जन्म 25 दिसम्बर, 1934, विवाह श्रीमती जुबैदा से, 3 पुत्र और 2 पुत्रिया, महा-अधिवक्ता, जम्मू और कश्मीर, 1981—84, सदस्य, राज्य सभा, 27-9-1989 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता दि विक्टरी, 201, दलपट्टिया, जम्मू (जम्मू और कश्मीर)।



सलीम, श्री मुहम्मद यूनुस वी० ए०, एलएल० वी०; कांग्रेस (आन्ध्र प्रदेश), श्री मोहम्मद युसूफ के आत्मज, जन्म 26 सितम्बर, 1912, विवाह श्रीमती साजिदा खातून से, 1 पुत्र और 4 पुत्रिया, सदस्य, लोक सभा, 1967—71, विधि और रेल मंत्रालयों के केंद्रीय उपमन्त्री, 1967—71, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1974 से 2-4-1980।

स्थायी पता . टूप बाजार, हेदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)।

सविता बहिन, श्रीमती हिन्दी में आनर्स उपाधि, साहित्य ग्ल, माहित्य अलंकार, सिद्धान्त शास्त्री, कांग्रेस (दिल्ली), स्वामी सत्यव्रती की आत्मजा, जन्म 23 जनवरी, 1919, विवाह डा० उलफत राय से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1) पञ्जाब विधान परिषद् और उमकी आवास तथा सुख-सुविधा समिति की अध्यक्ष, 1962—66 तथा (2) राज्य सभा, 3-4-1972 से 2-4-1978, पद्मश्री से सम्मानित, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति की महा-सचिव।

स्थायी पता के० फ्लेट, सागर अपार्टमेंट्स, 6, तिलक मार्ग, नई दिल्ली।

\*सहाय, श्री दयानन्द : एम० काम०, कांग्रेस (आई) (बिहार), श्री गिरिजा नन्द सहाय के आत्मज, जन्म 15 नवम्बर, 1932, विवाह श्रीमती सुरशीला सहाय से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1978 से 9-4-1984 और 3-4-1988 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता . अनुग्रहपुरी कालोनी, गया (बिहार)।

सागमा, श्री एमनसिंह एम० : कांग्रेस (असम), श्री साजग सागमा के आत्मज, जन्म 17 मार्च, 1913, विवाह श्रीमती सरोजिनी आर० माराक से, 3 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, असम विधान सभा, 1952—56 और 1962, असम सरकार में मंत्री, 1962—66, सदस्य, राज्य सभा, 4-5-1967 से 2-4-1970 और 3-4-1970 से 2-4-1976।

स्थायी पता . अपर चादीनरी, डाकघर तूरा, गारो हिल्स (असम)।

सादिल, श्री घासीराम. उड़ीसा, सदस्य, राज्य सभा, 5-5-1959 से 2-4-1960। [अन्य विवरण उपलब्ध नहीं है।]

स्थायी पता . ग्राम कैनपुर, डाकघर भालडा, जिला मयूरभंज (उड़ीसा)।

साठे, श्रीमती तारा रामचन्द्र: वी० ए०, मान्यसरी शिक्षा पद्धति में डिप्लोमा, कांग्रेस (महाराष्ट्र), श्री यशवन्त विष्णु रानाडे की आत्मजा, जन्म 29 मार्च, 1913, विवाह श्री रामचन्द्र कृष्ण रानाडे से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1962 से 2-4-1968, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1965—67।

स्थायी पता "जवाहर", 870/3, शिवाजी नगर, भडारकर इन्स्टीट्यूट रोड, पुणे (महाराष्ट्र)।

सादिक अली, श्री स्नातक, कांग्रेस (राजस्थान), श्री ताहिर अली के आत्मज, जन्म 1910, विवाह श्रीमती शान्ति से, सदस्य, (1) अन्त कालीन ससद, 1950—52 और (2) राज्य सभा, 4-11-1958 से 2-4-1964 और 3-4-1964 से 2-4-1970, महासचिव, अ०भा०का० समिति, 1958—62, 1966—67 और 1968, कुछ पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता द्वारा काठेवाली की बिल्डिंग, हाथीपोल के बाहर, उदयपुर (राजस्थान)।

सान्याल, श्री शशाकशेखर एम०ए०, एलएल०बी०, भारतीय साम्यवादी दल (माक्सवादी) (पश्चिमी बंगाल), श्री भवतारण सान्याल के आत्मज जन्म 11 जून, 1901, विवाह श्रीमती ऊषारानी सान्याल से, 1 पुत्र और 5 पुत्रिया, सदस्य, (1) बंगाल विधान सभा, 1937—45, (2) केन्द्रीय विधान सभा, 1946—47, (3) पश्चिमी बंगाल विधान परिषद, 1958—66 और (4) राज्य सभा, 3-4-1970 से 2-4-1976। दिवंगत। श्रद्धाजलि—27-12-1990।

\*सामन्तराय, श्री प्रभात कुमार वी०ए० (आनर्स), एम०ए०, एलएल०बी०, जनता दल (उड़ीसा), श्री सूर्यमणि सामन्तराय के आत्मज, जन्म 22 अप्रैल, 1950, विवाह श्रीमती प्रतिभा मन्जरी महन्ती से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1990 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता गाव तथा डाकघर शासनिपाडा, वरास्ता मरशर्द्द, जिला कटक (उड़ीसा)।

सामी, श्री वी० पी० एम० इण्टरमीडिएट, ड्र० मु० क० (पाडिचेरी), श्री वी० पुगवनम् के आत्मज, जन्म 12 अप्रैल, 1930, विवाह, श्रीमती इन्दिरा से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 28-7-1977 से 27-7-1983।

स्थायी पता न० 70, डा० अम्बेडकर स्ट्रीट, थर्ड क्रॉस, वेकट नगर एक्सटेशन (पाडिचेरी)।

साम्बशिवम्, श्री एरा एस०एस०एल०सी, अ० भा० अ० ड्र० मु० क० (तमिलनाडु), श्री एरा मामूर्ति के आत्मज जन्म 12 अक्टूबर, 1924, विवाह (1) श्रीमती वेकालक्ष्मी से और (2) श्रीमती एस०जे० शान्ति से, 2 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) तमिलनाडु विधान परिषद, 1968—78 और (2) राज्य सभा, 25-7-1983 से 24-7-1989।

स्थायी पता 11, अगराहरम स्ट्रीट, कुर्रिजिपाडी, जिला दक्षिण अर्काट (तमिलनाडु)।

\*सारग, श्री कैलाश नारायण एम० ए०, एलएल० बी०, भारतीय जनता पार्टी (मध्य प्रदेश), श्री जगन्नाथ प्रसाद सारग के आत्मज, जन्म 1 जनवरी, 1935, विवाह श्रीमती प्रसून सारग से, 2 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1990 से अद्यपर्यन्त, महासचिव, (1) जनता पार्टी, 1978—80 और (2) भारतीय जनता पार्टी, 1980—85।

स्थायी पता 90/8, शीश महल, भोपाल (मध्य प्रदेश)।

सालस्कर, डा० वी० एच० : काग्रेस (आई) (महाराष्ट्र); सदस्य, राज्य सभा, 30-11-1981 से 2-4-1982।  
[अन्य विवरण उपलब्ध नहीं है।]

स्थायी पता . लेडी लक्ष्मीबाई जगमोहनदास मार्ग, एम० एच० न० 69ए, मनीषा, बम्बई (महाराष्ट्र)।

सालिग राम, डा० : काग्रेस (पंजाब/हिमाचल प्रदेश), श्री पुरुषोत्तम राम के आत्मज, जन्म 15 अगस्त, 1909, विवाह श्रीमती विद्या देवी से, 4 पुत्र और 4 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1966 से 19-3-1972, दिवगत।  
श्रद्धाजलि—4-11-1986।

सालिम अली, श्री : डी० एससी०(सम्मानार्थ), (नाम-निर्देशित), डा० सालिम मोइजुद्दीन अली के आत्मज, जन्म 12 नवम्बर, 1896, सदस्य, राज्य सभा, 4-9-1985 से 20-6-1987, (1) पद्म भूषण से सम्मानित, 1958, (2) पद्म विभूषण से सम्मानित, 1976 और (3) कई अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता, पक्षी-विज्ञान पर पुस्तकों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—27-7-1987।

\*साल्वे, श्री एन० के० पी० : वी० काम०, एफ० सी० ए०, काग्रेस (आई) (महाराष्ट्र), श्री पी० के० साल्वे के आत्मज, जन्म 18 मार्च, 1921, विवाह डा० (श्रीमती) अम्बृति साल्वे से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, लोक सभा, 1967—77, अध्यक्ष, (1) करगंधान विधि संशोधन विधेयक, 1973 सम्बन्धी प्रवर समिति और (2) लोक सभा की विशेषाधिकार समिति, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1978 से 2-4-1984, 3-4-1984 से 2-4-1990 और 3-4-1990 से अद्यपर्यन्त, सूचना और प्रसारण, इस्पात और खान तथा ससदीय कार्य मंत्रालयों में केन्द्रीय राज्य मंत्री, 1982—84, अध्यक्ष, नवा वित्त आयोग, कुछ पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता : माउंट रोड, नागपुर (महाराष्ट्र)।

सावकर, श्री वी० एस० . काग्रेस (महाराष्ट्र), श्री शेषराव सावकर के आत्मज, जन्म 12 अगस्त, 1902, विवाह श्रीमती सुलोचना बाई से, 2 पुत्र और 5 पुत्रिया, सदस्य, (1) हेदरावाद विधान परिषद्, 1957-58 और (2) राज्य सभा, 28-6-1960 से 2-4-1966 तथा 3-4-1966 से 2-4-1972, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश काग्रेस समिति, 1960, दिवगत।  
श्रद्धाजलि—13-6-1977।

साहा, श्री सूरज मल : वी० ए०, वी० एल०, जन काग्रेस (उड़ीसा), श्री भगीरथ साहा के आत्मज, जन्म 20 जनवरी, 1918, विवाह श्रीमती नानू देवी साहा से, 4 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1970 से 13-9-1971, दिवगत। श्रद्धाजलि—15-11-1971।

साहू, श्री वैकुण्ठ नाथ • इटरमोडिएट (कला), उड़ीसा उच्च न्यायालय से अभिवक्ता परीक्षा उत्तीर्ण की, कांग्रेस (आई) (उड़ीसा), श्री दैदारि साहू के आत्मज, जन्म 15 अगस्त, 1930, विवाह श्रीमती सुवरत्नामणि माहू से, 1 पुत्र और 4 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 7-10-1938 से 2-4-1990।

स्थायी पता गाव पवित्रडिहा, डाकघर कियोझागढ, जिला क्रियोझर (उड़ीसा)।

\*साहू, श्री रजनी रजन • बी० ए०, बी० एल०, कांग्रेस (आई) (बिहार), श्री एम० पी० माहू के आत्मज, जन्म 15 नवम्बर, 1934, विवाह श्रीमती विमलेश गुप्ता से, 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1984 से 9-4-1990 और 10-4-1990 से अद्यपर्यन्त, अध्यक्ष, राज्य सभा की याचिका समिति, 1988—90।

स्थायी पता : साहू टैंक, पुरानी बाजार, मुजफ्फरपुर (बिहार)।

\*साहू, श्री सन्तोष कुमार बी० ए०, एलएल० बी०, कांग्रेस (आई) (उड़ीसा), श्री कमल लोचन साहू के आत्मज, जन्म 15 दिसम्बर, 1935, विवाह श्रीमती बमन्ती कुमारी साहू से, 3 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, उड़ीसा विधान सभा, 1961 और 1967, उपमन्त्री, उड़ीसा सरकार, 1962—67, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1976 से 2-4-1982, 3-4-1982 से 2-4-1988 और 3-4-1988 से अद्यपर्यन्त, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1984—86, महासचिव, उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस समिति, 1962—68 और 1974—76।

स्थायी पता . 5, सत्यनगर, भुवनेश्वर (उड़ीसा)।

सिंह, श्री अजीत : बी० एससी०, बी० टेक० (आनर्स), एम० एस०; जनता दल (उत्तर प्रदेश), चौधरी चरण मिह के आत्मज, जन्म 12 फरवरी, 1939, विवाह श्रीमती राधिका मिह से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 5-7-1986 से 27-11-1989, अध्यक्ष, (1) लोक दल (अ), मार्च, 1987 से मई, 1988 और (2) जनता पार्टी, मई, 1988 से मार्च, 1989, महासचिव, जनता दल।

स्थायी पता • शिव विलास, कचहरी रोड, नानकचंद कालेज के सामने, मेरठ (उत्तर प्रदेश)।

सिंह, राजा अजीत प्रताप : भारतीय जनसंघ (उत्तर प्रदेश), राजा बहादुर राजा प्रताप चन्द्र मिह के आत्मज, जन्म . 14 जनवरी, 1917, विवाह रानी लक्ष्मी देवी से, 4 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, (1) उत्तर प्रदेश विधान सभा 1947—52 और (2) राज्य सभा, 3-4-1958 से 28-2-1962।

स्थायी पता 9, रणा प्रताप मार्ग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।

सिंह, केएन अवधेश प्रताप वी० ए०, एलएल० वी०, कांग्रेस (मध्य प्रदेश), श्री लाल चन्द्र शेखर सिंह के आत्मज, जन्म अक्टूबर, 1888, विवाह श्रीमती महाराज कुमारी से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, (1) सविधान सभा, (2) अत कालीन ससद और (3) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954 और 3-4-1954 से 2-4-1960, पूर्वकाल में रीवा रियासत के प्रधान मंत्री, 1948, मुख्य मंत्री, पूर्वकाल में विध्य प्रदेश, 1948-49, दिवगत। श्रद्धाजलि—16-6-1967।

सिंह, श्री आर० के० जयचन्द्र . एम० ए०, एलएल० वी०, कांग्रेस (आई) (मणिपुर), श्री आर० के० वीरचन्द्र सिंह के आत्मज, जन्म 28 फरवरी, 1942, विवाह श्रीमती सरोजिनी देवी से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1984 से 12-7-1988, युवा कार्य और खेल तथा रसायन और पेट्रो रसायन मंत्रालयो में केन्द्रीय राज्य मंत्री, 1984—88।

स्थायी पता : सगोलवद रोड, विजय गोविन्द, इम्फाल (मणिपुर)।

सिंह, श्री आर० के० दोरेन्द्र . एम० ए०, एलएल० वी०, कांग्रेस (आई) (मणिपुर), श्री आर० के० तोम्बिसाना सिंह के आत्मज, जन्म 3 सितम्बर, 1934, विवाह श्रीमती शान्तादेवी से, 3 पुत्र और 2 पुत्रिया, अध्यक्ष, मणिपुर विधान सभा, 1961—65, सदस्य, मणिपुर विधान सभा, 1974—88, मुख्य मंत्री, मणिपुर, 1974—77 और 1980, सदस्य, राज्य सभा, 20-9-1988 से 12-3-1990, महामंत्री, समाजवादी पार्टी, मणिपुर, 1964—66, अध्यक्ष, मणिपुर कांग्रेस (आई), 1978—80।

स्थायी पता : मोइराग खोम, इम्फाल (मणिपुर)।

सिंह, श्री इन्दर : कांग्रेस (उत्तर प्रदेश), सरदार देव सिंह के आत्मज, जन्म 2 अप्रैल, 1890, विवाह (1) सरदारनी दया कौर और (2) सरदारनी महेन्द्र कौर से, 6 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) पंजाब विधान सभा, 1946—51, (2) उत्तर प्रदेश विधान परिषद्, 1956—58 और (3) राज्य सभा, 3-4-1970 से 2-4-1976, 'साल्वेज आफ स्केप' के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—15-11-1983।

सिंह, श्री इन्द्रदीप : एम० ए० (अर्थशास्त्र), भारतीय साम्यवादी दल (बिहार), श्री रघुवीर सिंह के आत्मज, जन्म 1 जुलाई, 1914, विवाह श्रीमती शांति देवी से, 3 पुत्र, सदस्य, बिहार विधान परिषद्, 1964—74, बिहार सरकार के मंत्री, 1967-68, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1974 से 2-4-1980 तथा 7-7-1980 से 6-7-1986, सचिव, बिहार राज्य परिषद्, भारतीय साम्यवादी दल, 1962—67।

स्थायी पता (1) ग्राम और डाकघर शकारा, जिला सिवान (बिहार) और (2) अजय भवन, लगाटोली, पटना (बिहार)।

सिंह, श्री इरेगवम तम्मोक • एम० ए०, कांग्रेस (मणिपुर), श्री इरेगवम अमर सिंह के आत्मज, जन्म 1 अप्रैल, 1938, विवाह (1) श्रीमती टम्पावलीमा देवी से और (2) श्रीमती (डा०) इवेटोम्बी देवी से, 3 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, मणिपुर विधान सभा, अध्यक्ष, लोक लेखा समिति, मणिपुर विधान सभा, सदस्य, राज्य सभा, 18-6-1974 से 9-4-1978, महामंत्री, मणिपुर पीपुल्स पार्टी, 1973, सयुक्त मंत्री, (1) राष्ट्रवादी समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी, 1966—68 और (2) राष्ट्रवादी पार्टी, 1969-70, ससदीय सचिव, सयुक्त विधायक दल।

स्थायी पता • विगामाखा, इम्फाल (मणिपुर)।

सिंह, ठाकुर कामाख्या प्रसाद : मैट्रिक तक अध्ययन, कांग्रेस (आई) (बिहार), ठाकुर रूद्रेश्वरी प्रसाद सिंह के आत्मज, जन्म 4 जुलाई, 1925, विवाह श्रीमती कमलादेवी से, 2 पुत्र और 4 पुत्रिया, सदस्य, (1) बिहार विधान सभा, 1969—71, 1972—76 और 1980—83 और (2) राज्य सभा, 10-4-1984 से 9-4-1990।

स्थायी पता ककवार, बाका, भागलपुर (बिहार)।

\*सिंह, श्री के० एन० एम० कॉम, एलएल० बी०, कांग्रेस (आई) (उत्तर प्रदेश), ठाकुर रामफल सिंह के आत्मज, जन्म 1928, विवाह श्रीमती सोनाराजी देवी से, 3 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, लोक सभा, 1970, 1971—77 और 1984—89, केन्द्रीय उपमंत्री, (1) ससदीय कार्य, 1971—74 और (2) कृषि और सिंचाई, 1974—77 में, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1990 से अद्यपर्यन्त, महासचिव, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (आई), 1988—90।

स्थायी पता . सिविल लाइन्स, सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश)।

सिंह, बाबू गोपीनाथ . बी० ए० (आनर्स), कांग्रेस (उत्तर प्रदेश), श्री एम० भगवन्तराय साहेब के आत्मज, जन्म 15 अप्रैल, 1901, विवाह, श्रीमती कृष्णा देवी से, सदस्य, (1) अन्त कालीन ससद और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954 और 3-4-1954 से 2-4-1960, कुछ पुस्तकों के लेखक, दिवंगत। श्रद्धाञ्जलि—24-7-1967।

सिंह, श्री घनश्याम : बी० एससी० (भाग-I), कांग्रेस (आई) (उत्तर प्रदेश), श्री मोती सिंह के आत्मज, जन्म 21 जनवरी, 1940, विवाह श्रीमती रामादेवी से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1982 से 2-4-1988, महामंत्री, उत्तर प्रदेश कांग्रेस समिति (आई), 1981—83।

स्थायी पता : गाव सोफा, डाकघर दयाल नगर, तहसील खेर, जिला अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)।

सिंह, श्रीमती जहानारा जयपाल . माटेसरी अध्यापन में डिप्लोमा (कोलम्बो), कांग्रेस (बिहार), श्री टी० सी० एस० जयराम की आत्मजा, जन्म 31 मई, 1923, विवाह, श्री जयपाल सिंह से, 3 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1958 से 2-4-1964, 3-4-1964 से 2-4-1970 और 10-4-1972 से 9-4-1978, परिवहन और नागर विमानन, पर्यटन, शिक्षा और युवा सेवा मन्त्रालयों में केन्द्रीय उपमंत्री, 1966—70।

स्थायी पता . सुओमटोली, रांची (बिहार)।

सिंह, श्री जे० के० पी० एन० : कांग्रेस (आई) (बिहार), श्री राज किशोर प्रसाद नारायण सिंह के आत्मज, जन्म 7 मार्च, 1919, विवाह रानी चन्द्र प्रभा सिंह से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1962 से 2-4-1968 और 10-4-1978 से 9-4-1984, महामंत्री, (1) बिहार राज्य जनता पार्टी, 1955—60 और (2) स्वतंत्र पार्टी, बिहार राज्य।

स्थायी पता मकसूदपुर राज पैलेस, गया (बिहार)।

सिंह, श्री जांगोम तोम्पोक . योग वेदान्त का अध्ययन किया, कांग्रेस (आई) (मणिपुर), श्री लिकलाई सिंह के आत्मज, जन्म 1913 में, विवाह श्रीमती खुराई लीमा देवी से, 4 पुत्र और 4 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1954 से 2-4-1956 और 10-4-1978 से 9-4-1984, दिवंगत। श्रद्धाजलि—23-8-1985।

\*सिंह, श्री डब्ल्यू० कुलवृद्धि० एम० ए०, एलएल० बी०, जनता दल (मणिपुर), श्री डब्ल्यू जोन् सिंह के आत्मज, जन्म 25 जून, 1926, विवाह श्रीमती जम्पक देवी से, 3 पुत्र तथा 4 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा 13-6-1990 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता. वागखरी, अपागपल्ली रोड, इम्फाल (मणिपुर)।

सिंह, श्री डी० पी० एम० ए०, वार एट लॉ, कांग्रेस (बिहार), श्री केदार नाथ सिंह के आत्मज, जन्म 4 अप्रैल, 1922, विवाह श्रीमती त्रिपुर सुन्दरी से, 1 पुत्र और 4 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 17-6-1971 से 2-4-1972 तथा 10-4-1972 से 9-4-1978, दिवंगत। श्रद्धाजलि—21-3-1988।

सिंह, श्री त्रिभुवन नारायण : शास्त्री, (काशी विद्यापीठ, वाराणसी के स्नातक), कांग्रेस (स०) (उत्तर प्रदेश), श्री प्रसिद्ध नारायण सिंह के आत्मज, जन्म 8 अगस्त, 1904, विवाह श्रीमती सुशीला देवी से, 2 पुत्र और 4 पुत्रिया, सदस्य, (1) अनतिम ससद और (2) लोक सभा, 1952—57 और 1957, अध्यक्ष, लोक लेखा समिति, 1957-58, सदस्य, राज्य सभा, 8-1-1965 से 2-4-1970 और 3-4-1970 से 2-4-1976, उद्योग और पूर्ति तथा लौह और इस्पात मंत्रालयो मे केन्द्रीय मंत्री, 1964—67, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री, लगभग छ मास तक, दिवंगत। श्रद्धाजलि—5-8-1982।

\*सिंह, श्री दिग्विजय : एम० ए०, एम० फिल०, जनता दल (एस) (बिहार), श्री कुमार सुरेन्द्र सिंह के आत्मज, जन्म 14 नवम्बर, 1955, विवाह श्रीमती पुतुल कुमारी से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1990 से अद्यपर्यन्त, केन्द्रीय उपमन्त्री, वित्त एवम् विदेश मंत्रालय, नवम्बर, 1990 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता . लाल कोठी, गिधौर, मुगेर (बिहार)।

सिंह, श्री देवेन्द्र प्रसाद वी० ए०, वी० एल०, पी० एस० पी० (बिहार), श्री मुकुटधारी सिंह के आत्मज, जन्म जून, 1913, विवाह श्रीमती शांति सिंह से, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1958 से 2-4-1964।

स्थायी पता कोसी नूक, बक रोड, पटना (बिहार)।

\*सिंह, श्रीमती प्रतिभा वी० ए० (आनर्स), कांग्रेस (आई) (बिहार), श्री सी० पी० एन० सिंह की आत्मजा, जन्म 7 जुलाई, 1929, विवाह कुंवर प्रेम राज सिंह से, 1 पुत्र, सदस्य, (1) बिहार विधान सभा, 1962 से 1969 और (2) राज्य सभा, 31-12-1970 से 2-4-1976, 3-4-1976 से 2-4-1982, 3-4-1982 से 2-4-1988 और 3-4-1988 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता . (1) ग्राम सुरसद, जिला सीतामढ़ी (बिहार) और (2) न्यू डाक बगला रोड, पटना (बिहार)।

सिंह, श्री विन्देश्वरी प्रसाद वी० ए०, वी० एल०, कांग्रेस (बिहार), श्री धनुषधारी सिंह के आत्मज, जन्म 8 सितम्बर, 1915, विवाह श्रीमती सत्यभामा देवी से, 1 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 17-6-1971 से 2-4-1974।

स्थायी पता लालजीटोला, पटना (बिहार)।

सिंह, ठाकुर भानु प्रताप चॉफ्स कालेज डिप्लोमा, कांग्रेस (मध्य प्रदेश), ठाकुर गिरि राज सिंह के आत्मज, जन्म 9 नवम्बर, 1907, विवाह श्रीमती रुक्मिणी कुमारी देवी से, 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) अत कालीन ससद ओर (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954, 3-4-1954 से 2-4-1960 और 3-4-1960 से 2-4-1966, दिवंगत। श्रद्धाञ्जलि—25-7-1983।

सिंह, श्री भानु प्रताप एम० एससी० (अकगणित), निर्दलीय (उत्तर प्रदेश), डा० एम० वी० सिंह के आत्मज, जन्म 10 अगस्त, 1917, विवाह श्रीमती सरोज देवी से, 1 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1962—67 और 1969—74 और (2) राज्य सभा, 3-4-1976 से 2-4-1982, कृषि और सिंचाई तथा ग्रामीण निर्माण मंत्रालयो मे केन्द्रीय राज्य मंत्री, 1977—79, महासचिव, भारतीय लोक दल, 1976, कृषि सवधी पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता सोहना कृषि फार्म, डाकघर सोहना, जिला बस्ती (उत्तर प्रदेश)।



सिंह, श्री भीष्म नारायण : बी० ए०, काग्रेस (आई) (बिहार), श्री राधा प्रसाद सिंह के आत्मज, जन्म 13 जुलाई, 1933, विवाह श्रीमती राम कुमारी देवी से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, बिहार विधान सभा, 1967—69, 1969—72 और 1972—76, बिहार सरकार में राज्य मंत्री, 1971 और 1972—74, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1976 से 2-4-1982 और 3-4-1982 से 15-4-1984, ससदीय कार्य, निर्माण और आवास तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में केन्द्रीय मंत्री, जनवरी से अक्टूबर, 1980।

स्थायी पता : (1) डाकघर उदयगढ़, थाना छत्तरपुर, जिला पालामऊ (बिहार) और (2) हमीदगंज, डाकघर डाल्टनगंज, जिला पालामऊ (बिहार)।

सिंह, श्री महेन्द्र बहादुर : कैम्ब्रिज प्रमाणपत्र, काग्रेस (मध्य प्रदेश), श्री लाल बहादुर सिंह के आत्मज, जन्म 31 दिसम्बर, 1925, विवाह श्रीमती शोम कुमारी देवी से, 1 पुत्री; सदस्य, (1) मध्य प्रदेश विधान सभा, 1962—71 और (2) राज्य सभा, 10-4-1972 से 9-4-1978।

स्थायी पता • डाकघर सरायपल्ली, तहसील महासमुद, जिला रायपुर (मध्य प्रदेश)।

सिंह, श्री राजेन्द्र प्रताप . एम० ए०, काग्रेस (बिहार), राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह के आत्मज, जन्म 15 अगस्त, 1915, विवाह श्रीमती शारदा सिंह से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954, 3-4-1954 से 2-4-1960, 3-4-1960 से 2-4-1966 और 3-4-1966 से 2-4-1972, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1957-58, 1961 में पद्म विभूषण से सम्मानित।

स्थायी पता : के-81, हौज खास, नई दिल्ली।

\*सिंह, श्री राम अवधेश • एम० ए०, बी० एल०, लोक दल (बिहार), श्री मन राखन सिंह के आत्मज, जन्म 18 जून, 1937, विवाह श्रीमती श्यामादेवी से, 4 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1) बिहार विधान सभा, 1961-62, (2) लोक सभा, 1977—79 और (3) राज्य सभा, 7-7-1986 में अद्यपर्यन्त, हिन्दी में पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता • 335, एम० आई० जी०, लोहिया नगर, पटना (बिहार)।

सिंह, श्री राम कृपाल बी० ए०, एलएल० बी०, काग्रेस (उत्तर प्रदेश), लाला प्रहलाद मिश्र के आत्मज, जन्म जुलाई, 1892, विवाह श्रीमती चन्द्रवती देवी से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1) उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1948—52 और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956 और 3-4-1956 से 14-3-1961, दिवंगत। श्रद्धाञ्जलि—14-3-1961।

**सिंह, डा० राम कृपाल** . एम० ए० (अग्रेजी), एम० ए० (प्राकृत जैन), पीएच० डी०, जनता पार्टी (बिहार), श्री सूर्यदेव सिंह के आत्मज, जन्म अप्रैल, 1934, विवाह श्रीमती मुदुला सिंह से, 3 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, बिहार विधान परिषद, 1968—74, बिहार सरकार में मंत्री, 1971, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1974 से 2-4-1980, श्रम और ससदीय कार्य मंत्रालय के केन्द्रीय राज्य मंत्री, 1977—79।

**स्थायी पता** 62/20, कालकाजी एक्सटेशन, नई दिल्ली।

\***सिंह, डा० रुद्र प्रताप** . एम० ए०, पीएच० डी० (हिन्दी साहित्य), कांग्रेस (आई) (उत्तर प्रदेश), राजा उमा प्रताप सिंह के आत्मज, जन्म 12 मई, 1936, विवाह श्रीमती रुद्र कुमारी सिंह से, 1 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1962—67, (2) उत्तर प्रदेश विधान परिषद, 1967—71, (3) लोक सभा, 1971—77 और (4) राज्य सभा, 5-7-1980 से 4-7-1986 और 5-7-1986 से अद्यपर्यन्त।

**स्थायी पता** गाव और डाकघर जमोन, जिला सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश)।

\***सिंह, श्री विश्वजित पृथ्वीजित** इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट, कांग्रेस (आई) (महाराष्ट्र), केंपन कवर पृथ्वीजित सिंह के आत्मज, जन्म 29 अक्टूबर, 1946, विवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1982 से 2-4-1988 और 3-4-1988 से अद्यपर्यन्त।

**स्थायी पता** 11-क, मेहरीना नेपीयन सी रोड, बम्बई (महाराष्ट्र)।

**सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप** बी० ए०, बी० एससी०, एलएल० बी०, निर्दलीय (उत्तर प्रदेश), श्री राजा बहादुर राम गोपाल सिंह के आत्मज, जन्म 25 जून, 1931, विवाह श्रीमती सीता कुमारी से, 2 पुत्र, सदस्य, (1) उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1969—71 और 1981—83 और (2) उत्तर प्रदेश विधान परिषद, 1980-81, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश, 1980—82, सदस्य, (1) लोक सभा, 1971—74 और 1980 और (2) राज्य सभा, 23-7-1983 से 2-4-1988, वाणिज्य, पूर्ति, वित्त और रक्षा मंत्रालयों में केन्द्रीय उप मंत्री/राज्य मंत्री/मंत्री, 1974—77 और 1983—87, सभा के नेता, राज्य सभा, दिसम्बर, 1984 से अप्रैल, 1987, बाद में भारत के प्रधान मंत्री, दिसम्बर, 1989 से नवम्बर, 1990।

**स्थायी पता** 4, अशोक रोड, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)।

**सिंह, डा० बी० बी०** एम० ए०, पीएच० डी०, डी० लिट्, कांग्रेस (उत्तर प्रदेश), श्री जग बहादुर सिंह के आत्मज, जन्म 1 अक्टूबर, 1924, विवाह डा० (श्रीमती) श्यामा सिंह से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1972 से 2-4-1978, अर्थशास्त्र पर अनेक पुस्तकों के लेखक, दिवंगत। श्रद्धाजलि—21-7-1978।

सिंह, श्री वीर बहादुर : एम० ए०, डी० लिट्० (मानद), कांग्रेस (आई) (उत्तर प्रदेश), श्री रघुनन्दन सिंह के आत्मज, जन्म 18 फरवरी, 1935, विवाहित, 3 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1967, 1969, 1974, 1980 तथा 1985, उत्तर प्रदेश सरकार में विभिन्न विभागों के मंत्री, 1970—1976 और 1980—85, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री, 1985—88, सदस्य, राज्य सभा, 22-11-1988 से 30-5-1989; केन्द्रीय संचार मंत्री, 1988-89, महासचिव, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, दिवंगत। श्रद्धाजलि—18-7-1989।

सिंह, श्री वीर भद्र प्रताप : एम० ए० (राजनीति विज्ञान), एलएल० बी०, कांग्रेस (आई) (उत्तर प्रदेश), श्री रामधनी सिंह के आत्मज, जन्म 1 अक्टूबर, 1931, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1984 से 2-4-1990, भारत की 'बन्दी प्रत्यक्षीकरण' विधि संबंधी एक पुस्तक के लेखक।

स्थायी पता : मौहल्ला ब्रह्मस्थान, डाकघर सदर, जिला आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश)।

\*सिंह, श्री शंकर दयाल : एम० ए०, जनता दल (बिहार), श्री कामता प्रसाद सिंह के आत्मज, जन्म 27 दिसम्बर, 1937, विवाह श्रीमती कानन बाला सिंह से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, (1) लोक सभा, 1971—77 और (2) राज्य सभा, 10-4-1990 से अद्यपर्यन्त, हिन्दी में अनेक पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता : कान्ता सदन, बोरिंग रोड, पटना (बिहार)।

सिंह, राजा शंकर प्रताप : इटरमीडिएट, कांग्रेस (मध्य प्रदेश), राजा रणधीर सिंह के आत्मज, जन्म 7 जनवरी, 1922, विवाह रानी इन्द्राकुमारी से, 1 पुत्र, सदस्य, (1) मध्य प्रदेश विधान सभा, 1952—57 और (2) राज्य सभा, 3-4-1966 से 2-4-1972, दिवंगत। श्रद्धाजलि—4-5-1979।

सिंह, श्री शिव नन्दन बी० ए०, एलएल० बी०, जनता पार्टी (उत्तर प्रदेश), श्री प्रताप सिंह के आत्मज, जन्म 1927, विवाह श्रीमती चन्द्रावती से, 3 पुत्र और 2 पुत्रिया; सदस्य, राज्य सभा, 20-3-1978 से 2-4-1980, दिवंगत। श्रद्धाजलि—29-4-1985।

सिंह, श्री शिव स्वरूप : (उत्तर प्रदेश), जन्म 1907, सदस्य, (1) उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1952—57 और (2) राज्य सभा, 31-12-1970 से 2-4-1972, [अन्य विवरण उपलब्ध नहीं हैं] दिवंगत। श्रद्धाजलि—17-1-1985।

\*सिंह, डा० सजय : एम० ए०, पीएच० डी०, जनता दल (एस) (उत्तर प्रदेश), राजा रणजय सिंह के आत्मज, जन्म 25 सितम्बर, 1951, विवाह श्रीमती गरिमा सिंह से, 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1980—89, राज्य मंत्री/मन्त्री, उत्तर प्रदेश सरकार, 1982—87, सदस्य, राज्य सभा, 13-7-1990 से अद्यपर्यन्त, केन्द्रीय संचार राज्य मंत्री, नवम्बर, 1990 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता. 19, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।

सिंह, श्री सवाई मान निर्दलीय (राजस्थान), महाराजा सवाई माधो सिंह के आत्मज, जन्म 21 अगस्त, 1911, विवाह राजकुमारी गायत्री देवी से 4 पुत्र और 1 पुत्री, धृतपूर्व जयपुर राज्य के शासक, अक्टूबर, 1922 से मार्च, 1949, राजप्रमुख, राजस्थान, मार्च, 1949 से अक्टूबर, 1956, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1962 से 8-11-1965, दिवंगत। श्रद्धाजलि—27-7-1970।

सिंह, श्री सिनाम कृष्णमोहन एम० ए०, बी० एल०, कांग्रेस (मणिपुर), श्री सिनाम तोम्बा सिंह के आत्मज, जन्म 10 नवम्बर, 1903, विवाह श्रीमती इवेम्हल देवी से, 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 13-1-1965 से 2-4-1966 और 3-4-1966 से 2-4-1972, महात्मा गांधी के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर मणिपुरी भाषा में एक पुस्तक के लेखक।

स्थायी पता: केसामथाग लैसम लौरक, इम्फाल (मणिपुर)।

सिधिया, श्रीमती विजया राजे भारतीय जनता पार्टी (मध्य प्रदेश) ठाकुर महेन्द्र सिंह जी की आत्मजा, जन्म 12 अक्टूबर, 1919, विवाह खालियर के महामहिम महाराजा मर जीवाजी राव सिधिया से, 1 पुत्र और 3 पुत्रियां, सदस्य, (1) लोक सभा, 1957—62, 1962—67 तथा 1971—77, (2) मध्य प्रदेश विधान सभा, 1967—71 और (3) राज्य सभा, 10-4-1978 से 9-4-1984 और 10-4-1984 से 27-11-1989, उपाध्याय, (1) जन सच, 1973 और (2) भारतीय जनता पार्टी।

स्थायी पता: जीजा आशीष, जय विलास परिसर, खालियर (मध्य प्रदेश)।

\*सिद्दीकी, श्री अब्दुल समद बी० ए०, जनता दल (कर्णाटक), श्री वशीर अहमद सिद्दीकी के आत्मज, जन्म 5 फरवरी, 1939, विवाह श्रीमती सईदा नय्यर सुल्ताना से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रियां, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1988 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता 51/ए, अरब मोहल्ला, गयचूर (कर्णाटक)।

सिद्दीकी, श्री शमीम अहमद मैट्रिक, कांग्रेस (आई) (दिल्ली), श्री रफीक अहमद सिद्दीकी के आत्मज, जन्म 10 दिसम्बर, 1940, सदस्य, राज्य सभा, 21-11-1983 से 20-11-1989।

स्थायी पता 5245, वल्लीमाराण, दिल्ली।

सिद्धलिंगया, श्री टी० बी०ए०, बी० एल०, कांग्रेस (मैसूर अब कर्णाटक), श्री टोटप्पा के आत्मज, जन्म 1898, विवाह श्रीमती पर्वतम्मा से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1) मैसूर प्रतिनिधि सभा, 1929—45 और (2) मैसूर विधान परिषद्, 1947—50, मंत्री, मैसूर सरकार, 1950 और 1952-53, सदस्य, (1) सविधान सभा और (2) राज्य सभा, 3-5-1967 से 2-4-1970, अध्यक्ष, मैसूर राज्य कांग्रेस, 1947—50, दिवंगत। श्रद्धाजलि—23-7-1984।

\*वर्तमान सदस्य।

सिद्धू, डा० एम० एम० एस०. एम० वी० वी० एस०, जनता पार्टी (उत्तर प्रदेश), डा० यू० एम० सिद्धू के आत्मज, जन्म 8 जून, 1915, विवाह श्रीमती हर्ग्वम कुमारी से, 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1962 से 2-4-1968, 18-7-1977 से 2-4-1978 और 3-4-1978 से 2-4-1984, वी० सी० राय, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित, 1982।

स्थायी पता सिद्धू निवास, चारवाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।

सिन्हा, श्री अवधेश्वर प्रसाद वी० ए०, कांग्रेस (बिहार), श्री धनुषधारी प्रसाद सिन्हा के आत्मज, जन्म जून, 1907, विवाहित, सदस्य, (1) अनतिम ससद, (2) लोक सभा, 1952—56 और (3) राज्य सभा, 10-12-1956 से 2-4-1958, 3-4-1958 से 2-4-1964, 3-4-1964 से 2-4-1970 और 3-4-1970 से 2-4-1976, अध्यक्ष, आवास समिति, राज्य सभा, 1972—74, दिवगत। श्रद्धाजलि—3-5-1989।

\*सिन्हा, श्रीमती कमला एम० ए०, एम० एड०, जनता दल (बिहार), श्री केदारेश्वर मुखर्जी की आत्मजा, जन्म 30 सितम्बर, 1932, विवाह श्री बसावन सिन्हा से, 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) बिहार विधान परिषद, 1972—84 और (2) राज्य सभा, 19-4-1990 से अद्यपर्यन्त, उपाध्यक्ष, जनता पार्टी बिहार, 1986—88, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, एच० एम० एस०, 1987—90 और 1990।

स्थायी पता एम-3/32, एस० के० पुरी, पटना (बिहार)।

सिन्हा, श्री कृष्ण मोहन प्यारे . वी० ए० (आनर्स) और विधि शास्त्र अतिम वर्ष तक अध्ययन किया, कांग्रेस (बिहार), श्री द्रुद बहादुर सिन्हा के आत्मज, जन्म जनवरी, 1902, विवाह श्रीमती राजपति देवी से, 4 पुत्र, सदस्य, (1) बिहार विधान सभा, 1953—56 और (2) राज्य सभा, 10-12-1956 से 2-4-1958, दिवगत। श्रद्धाजलि—22-2-1978।

सिन्हा, श्री गंगा शरण (नाम-निर्देशित), श्री राम प्रसाद सिन्हा के आत्मज, जन्म 1905, विवाह श्रीमती चन्द्रमणि देवी से, 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा (निर्वाचित), 3-4-1956 से 2-4-1962, 3-4-1962 से 2-4-1968 और (नाम-निर्देशित) 3-4-1968 से 2-4-1974, अध्यक्ष, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, 1956—59, दिवगत। श्रद्धाजलि—22-8-1988।

सिन्हा, श्री ब्रज किशोर प्रसाद : एम० ए०, वी० एल०, कांग्रेस (बिहार), श्री इन्द्रदेव नारायण सिन्हा के आत्मज, जन्म 21 जनवरी, 1909, विवाह श्रीमती शिव किशोरी सिन्हा से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1) अनतिम ससद और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1958, 3-4-1958 से 2-4-1964 और 3-4-1964 से 2-4-1970, महासचिव, बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति, 1941—49।

स्थायी पता : गाव और डाकघर शिवतार, जिला गया (बिहार)।

सिन्हा, श्री महेश्वर प्रसाद नारायण : प्रजा समाजवादी दल (बिहार), श्री सरयू प्रसाद नारायण सिन्हा के आत्मज, जन्म 19 दिसम्बर, 1896, विवाह श्रीमती पार्वती देवी से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1) बिहार विधान परिषद्, 1920 से 1952 के बीच और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956।

स्थायी पता : रिवर व्यू, डाकघर हाजीपुर, जिला मुजफ्फरपुर (बिहार)।

\*सिन्हा, श्री यशवत . एम० ए० (राजनीति विज्ञान), जनता दल (एस०) (बिहार), श्री विपिन बिहारी सरन के आत्मज, जन्म 6 नवम्बर, 1937, विवाह श्रीमती नीलिमा सिन्हा से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, 1960 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए 1984 में स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ले ली, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1988 से अद्यपर्यन्त, केन्द्रीय वित्त मंत्री, नवम्बर, 1990 से अद्यपर्यन्त, राज्य सभा में सदन के नेता, दिसम्बर, 1990 से अद्यपर्यन्त, महामंत्री, जनता पार्टी, 1986—88, फ्रैंकफर्ट, पश्चिमी जर्मनी में भारत के कौंसिल जनरल, महामंत्री, जनता दल।

स्थायी पता . रोड न० 6, राजेन्द्र नगर, पटना (बिहार)।

सिन्हा, श्री राजेश्वर प्रसाद नारायण . बी० ए० (आनर्स), कांग्रेस (बिहार), श्री सरयू प्रसाद नारायण सिन्हा के आत्मज, जन्म 29 दिसम्बर, 1906, विवाह श्रीमती रामकिशोरी देवी से, 2 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) बिहार विधान परिषद्, 1930—37, (2) बिहार विधान सभा, 1937—52 और (3) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1958, 12-10-1959 से 2-4-1960 तथा 3-4-1960 से 2-4-1966 अध्यक्ष, आवास समिति, राज्य सभा, 1954—58, अनेक पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता क्लब रोड, मुजफ्फरपुर (बिहार)।

सिन्हा, श्री राम बहादुर स्नातक (बिहार विद्यापीठ), कांग्रेस (बिहार), श्री शीतल प्रसाद सिन्हा के आत्मज, जन्म 30 जुलाई, 1910, विवाह श्रीमती राधा देवी से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1958, 3-4-1958 से 2-4-1964 तथा 3-4-1964 से 2-4-1970, दिवगत। श्रद्धाञ्जलि—5-1-1976।

सिन्हा, श्री रेवती कान्त : इटरमीडिएट और विशारद (हिन्दी विश्वविद्यालय, प्रयाग), सयुक्त समाजवादी दल (बिहार), श्री रजनी कान्त सिन्हा के आत्मज, जन्म 3 अगस्त, 1928, विवाह श्रीमती विद्यावती सिन्हा से, 4 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 7-4-1967 से 2-4-1970, दिवगत। श्रद्धाञ्जलि—9-7-1979।

सितलवाड, श्री एम० सी० : बी० ए०, एलएल० बी०, (नाम-निर्देशित), श्री चिंमनलाल सितलवाड के आत्मज, जन्म 12 नवम्बर, 1884, विवाह श्रीमती विमला गोरी से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1966 से 2-4-1972, अध्यक्ष, राज्य सभा की विशेषाधिकार समिति, 1969-70, भारत के एटर्नी-जनरल, 1950—62, अध्यक्ष, विधि आयोग, 1955—58, पद्म विभूषण से अलंकृत, 1957, विधि विषय की पुस्तकों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाञ्जलि—2-8-1974।

सिलचेश, डा० सी० : एम० बी० वी० एस०, कांग्रेस (आई) (मिजोरम), श्री सी० हुकुआमा के आत्मज, जन्म 6 मई, 1935, विवाह श्रीमती लल्लामजुआलि से, 3 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 17-7-1984 से 28-11-1989।

स्थायी पता : तुईखुअतलाग, आइजॉल (मिजोरम)।

सिसोदिया, श्री सवाई सिंह : एम० ए० (राजनीति विज्ञान) और साहित्य रत्न, कांग्रेस (आई) (मध्य प्रदेश), ठाकुर मोहब्बत सिंह के आत्मज, जन्म 19 नवम्बर, 1919, विवाह श्रीमती कचन देवी से, 3 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) पूर्व काल में मध्य भारत विधान सभा, 1952—56 और (2) मध्य प्रदेश विधान सभा, 1956-57, मध्य भारत/मध्य प्रदेश सरकार के उपमन्त्री रहे, 1952—57, सदस्य, राज्य सभा, 28-4-1969 से 2-4-1970, 3-4-1970 से 2-4-1976 तथा 3-4-1976 से 2-4-1982, अध्यक्ष, आवास समिति, राज्य सभा, अप्रैल-अक्टूबर, 1980, वित्त मंत्रालय में केन्द्रीय राज्य मंत्री, 1980, महामन्त्री, मध्य प्रदेश कांग्रेस समिति, 1964—71।

स्थायी पता : 309, पदमा टावर-1, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली।

सीता देवी, श्रीमती : मध्यमा और विशारद, कांग्रेस (पंजाब), आचार्य राम देव की आत्मजा, जन्म . 10 मई, 1910, विवाह श्री छवील दास से, 1 पुत्र और 4 पुत्रिया, सदस्य, (1) पंजाब विधान सभा, 1946—57, (2) पंजाब विधान परिषद्, 1964—70 और (3) राज्य सभा, 10-4-1972 से 22-3-1974, दिवगत। श्रद्धाजलि—22-3-1974।

सीता युद्धवीर, श्रीमती : स्नातक, कांग्रेस (आन्ध्र प्रदेश), श्री अमर चन्द महता की आत्मजा, जन्म 9 नवम्बर, 1922, विवाह श्री युद्धवीर से, 2 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1958 से 2-4-1964 और 3-4-1964 से 2-4-1970।

स्थायी पता : द्वारा 'डेली निलाप' मुकरमजाही रोड, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)।

सीतारमैया, डा० पट्टाभि : बी० ए०, एम० बी० और सी० एम० (मद्रास), डी० लिट०, (आंध्र प्रदेश), कांग्रेस (मद्रास अब तमिलनाडु), श्री सुब्रह्मण्यम के आत्मज, जन्म 24 नवम्बर, 1880, विवाह श्रीमती वी० राजेश्वरम्मा से, 2 पुत्र, सदस्य, (1) सविधान सभा और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-7-1952, अध्यक्ष, राज्य सभा की विशेषाधिकार समिति, 1952-53, अध्यक्ष, (1) आन्ध्र-प्रांतीय कांग्रेस समिति, 1937—39 और (2) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1948—50, अनेक पुस्तकों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—17-12-1959।

सीताराम सिंह, श्री : भारतीय लोक दल (बिहार); श्री दशरथ सिंह के आत्मज, जन्म मई, 1919, विवाह श्रीमती अशरफ़ी देवी से, 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1970 से 2-4-1976, अध्यक्ष, सयुक्त समाजवादी दल, बिहार, 1968।

स्थायी पता : कुशहर खास, डाकघर महुआ, मुजफ्फरपुर (बिहार)।

सुकुल, श्री पशुपति नाथ . एम० ए० (अंग्रेजी साहित्य), कांग्रेस (आई) (उत्तर प्रदेश), डा० शंकर नाथ सुकुल के आत्मज; जन्म 11 फरवरी, 1932, विवाह श्रीमती कल्याणी सुकुल से, 4 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 5-7-1980 से 2-4-1984 और 3-4-1984 से 2-4-1990, अध्यक्ष, (1) पशु चिकित्सा विधेयक, 1981 सम्बन्धी ससद की सयुक्त समिति, (2) राज्य सभा की याचिका समिति, 1984—86 और (3) भारतीय चिकित्सा परिषद् (सशोधन) विधेयक, 1987 सम्बन्धी ससद की सयुक्त समिति, हिन्दी में कविताओं, लघु कहानियों और लेखों के लेखक।

स्थायी पता • डी-2, बटलर पैलेस कालोनी, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।

सुखदेव प्रसाद, श्री : इटरमीडिएट, साहित्य रत्न, आचार्य—भाग 1, आला काबलियत, कांग्रेस (आई) (उत्तर प्रदेश), श्री रामजी के आत्मज, जन्म 20 मार्च, 1921, विवाह, (1) श्रीमती तेतारी देवी और (2) श्रीमती सजनी देवी से, 6 पुत्र और 5 पुत्रियां, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1952—57, हरिजन और समाज कल्याण मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, 1985, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1966 से 2-4-1972, 3-4-1972 से 2-4-1978 और 3-4-1982 से 16-2-1988, इस्पत और खान मंत्रालय में केन्द्रीय उपमन्त्री, 1973—77, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कांग्रेस (आई) समिति, 1982—85।

स्थायी पता ग्राम पीपरपती, डाकघर पीपरपती तिवारी, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)।

सुजान सिंह, श्री एम० एससी० (कृषि), कांग्रेस (आई) (हरियाणा), श्री सुन्दर सिंह के आत्मज, जन्म 15 फरवरी, 1922, विवाह श्रीमती रजिन्दर कौर से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 13-7-1977 से 9-4-1978 और 10-4-1978 से 31-12-1982, उपाध्यक्ष, राज्य जनता पार्टी, हरियाणा।

स्थायी पता रविन्द्र एस्टेट, सुजान सिंह पार्क, सोनीपत (हरियाणा)।

सुन्दरम, श्री के० इटरमीडिएट (कला), वस्त्र प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा, बोल्टन (यू० के०), स्वतंत्र पार्टी (तमिलनाडु), श्री जी० कुप्पूस्वामी नायडु के आत्मज, जन्म 29 मई, 1914, विवाह श्रीमती एम० तायल अम्माल से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1966 से 2-4-1972।

स्थायी पता : 'रस कोडलु' सर्किट हाऊस रोड, कोयम्बटूर (तमिलनाडु)।

सुन्दरैया, श्री पी० : साम्यवादी दल (मद्रास अब तमिलनाडु), श्री० पी० वेंकटरामरीड्डी के आत्मज, जन्म 1 मई, 1913, विवाह श्रीमती लीला सुन्दरैया से, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 21-3-1955, दिवंगत। श्रद्धाञ्जलि—20-5-1985।



**सुपाकर, श्री श्रद्धाकर :** एम० ए०, बी० एल०, साहित्याचार्य, कांग्रेस (उड़ीसा), श्री जनार्दन सुपाकर के आत्मज, जन्म . 23 अप्रैल, 1915, विवाह श्रीमती तपस्विनी सुपाकर से, 4 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, उड़ीसा विधान सभा, 1949—57, अध्यक्ष, लोक लेखा समिति, 1952—55, विपक्ष के नेता, उड़ीसा विधान सभा, 1952—56, सदस्य, (1) लोक सभा, 1957—62 और (2) राज्य सभा, 27-9-1965 से 26-2-1967, अनेक पुस्तकों के लेखक।

**स्थायी पता :** झारूआपारा, सम्बलपुर (उड़ीसा)।

**सुब्बैया, श्री जे० एच० :** बी० ए० (उस्मानिया), अनुसूचित जाति महासघ (हैदराबाद अब आन्ध्र प्रदेश), श्री जकाथि हूसना के आत्मज, जन्म 1911, विवाह श्रीमती सरोजिनी से, 1 पुत्र और 5 पुत्रिया, सदस्य, (1) अन्त कालीन ससद और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954, अध्यक्ष, अनुसूचित जाति महासघ, दिवगत। श्रद्धाजलि—21-1-1963।

**सुब्रयन, डा० पी० :** एम० ए०, बी० सी० (ऑक्सफोर्ड), एलएल० बी० (लदन), एल० एल० डी० (डबलिन), बार-एट-ला, कांग्रेस (मद्रास अब तमिलनाडु), श्री एस० परमशिवन के आत्मज, जन्म 11 सितम्बर, 1889, विवाह श्रीमती राधाबाई कुडमुल से, 3 पुत्र और 1 पुत्री, मुख्य मंत्री, मद्रास, 1927—30, मंत्री, मद्रास सरकार, 1937—39 और 1947-48, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1954 से 4-3-1957, इंडोनेशिया में भारत के राजदूत, 1949—51, दिवगत। श्रद्धाजलि—8-11-1962।

**सुभानी, श्री उस्मान :** कांग्रेस (हैदराबाद अब आंध्र प्रदेश), हाजी यूसुफ के आत्मज, जन्म 8 दिसम्बर, 1895, विवाह श्रीमती खतोजा से, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954, सचिव/ अध्यक्ष, बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस समिति, 1922—24 और 1930, दिवगत। श्रद्धाजलि—9-2-1959।

**सुमत प्रसाद, श्री:** बी० ए०, कांग्रेस (उत्तर प्रदेश), श्री होशियार सिंह के आत्मज, जन्म 1892, विवाहित, 1 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1) उत्तर प्रदेश विधान परिषद, 1946—52 और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954 और 3-4-1954 से 12-3-1957।

**स्थायी पता :** अवूपुर स्ट्रीट, मुजफ्फर नगर (उत्तर प्रदेश)।

**सुरजीत, श्री हरकिशन सिंह :** मैट्रिक, भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) (पंजाब), श्री हरनाम सिंह वसी के आत्मज, जन्म 23 मार्च, 1916, विवाह श्रीमती प्रीतम कौर से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, (1) पंजाब विधान सभा, 1953—57 और 1967—69 और (2) राज्य सभा, 10-4-1978 से 9-4-1984, कश्मीर की समस्या से संबंधित पुस्तक के लेखक।

**स्थायी पता :** गाव और डाकघर बुदाला, जालंधर (पंजाब)।

सुरेन्द्र मोहन, श्री : एम० ए०, जनता पार्टी (उत्तर प्रदेश), श्री रत्नी राम के आत्मज, जन्म 4 दिसम्बर, 1926, विवाह श्रीमती मजू से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1978 से 2-4-1984, महामंत्री, (1) समाजवादी दल, 1976-77 और (2) जनता पार्टी, 1977 और 1979—81, संयुक्त मंत्री, (1) प्रजा समाजवादी दल, 1965—71 और (2) समाजवादी दल, 1971-72।

स्थायी पता जीवनी मंडी, आगरा (उत्तर प्रदेश)।

सुरेन्द्र राम, श्री वी० एम० काग्रेस (मद्रास अब तमिलनाडु), श्री वी० आई० मुनीषस्वामी पिल्लै के आत्मज, जन्म 12 मार्च, 1921, विवाह श्रीमती वी० डी० तुलसी बाई से, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1958।

स्थायी पता 'माउन्टेन व्यू', ऊटकमड (तमिलनाडु)।

\*सुरेन्द्र सिंह, श्री . एम० ए०, एल एल० बी०, काग्रेस (आई) (हरियाणा), श्री वसी लाल के आत्मज, जन्म 25 जुलाई, 1946, विवाह श्रीमती किरण से, 1 पुत्री, सदस्य, हरियाणा विधान सभा, 1977—86, मंत्री, हरियाणा सरकार 1982-83, सदस्य, राज्य सभा, 2-8-1986 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता 187 विजय नगर कालोनी, भिवानी (हरियाणा)।

सुलतान सिंह, श्री काग्रेस (आई) (हरियाणा), चौधरी टेक चन्द के आत्मज, जन्म 1924, विवाह श्रीमती धन कौर से, 2 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) पंजाब विधान परिषद, 10 वर्षों के लिये और (2) राज्य सभा, 31-3-1970 से 1-8-1974, 2-8-1974 से 1-8-1980 और 2-8-1980 से 1-8-1986, अध्यक्ष, आवास समिति राज्य सभा, 1980—82, महामंत्री/उपाध्यक्ष/अध्यक्ष, हरियाणा प्रदेश काग्रेस समिति, अनेक वर्षों के लिए।

स्थायी पता . ग्राम निजामपुर माजरा, डाकघर फरमाना, तहसील और जिला सोनीपत (हरियाणा)।

सुल्तान, श्रीमती मैमूना . वी० ए०, वी० टी०, काग्रेस (आई) (मध्य प्रदेश), श्री मोहम्मद असगर अन्सारी की आत्मजा, जन्म 11 अक्टूबर, 1932, विवाह श्री मोहम्मद मुजतब खा से, 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) लोक सभा, 1957—62 और 1962—67 और (2) राज्य सभा, 3-4-1974 से 2-4-1980 और 30-6-1980 से 29-6-1986।

स्थायी पता . फतेहगढ़, भोपाल (मध्य प्रदेश)।

\*सुपमा स्वराज, श्रीमती . वी० ए०, एलएल० बी०, भारतीय जनता पार्टी (हरियाणा), श्री हरदेव शर्मा की आत्मजा, जन्म 14 फरवरी, 1952, विवाह श्री स्वराज कौशल से, 1 पुत्री, हरियाणा सरकार में मंत्री, 1977-78 और 1988-89, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1990 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता . 182, बी० सी० बाजार, अन्वाला छावनी (हरियाणा)।

**सूर, श्री मृगांक मोहन :** बी० एससी०, निर्दलीय (पश्चिमी बंगाल), श्री सरत चन्द्र सूर के आत्मज, जन्म 3 मार्च, 1899, विवाह श्रीमती कमला प्रभा सूर से, 3 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 13-9-1954 से 2-4-1960, 3-4-1960 से 2-4-1966 और 3-4-1966 से 2-4-1972, दिवगत। श्रद्धाजलि—15-11-1983।

**सूरज प्रसाद, श्री बी० ए०, बी० एल०,** श्रम सामाजिक कल्याण में डिप्लोमा, भारतीय साम्यवादी दल (बिहार), श्री मेहतो के आत्मज, जन्म 2 जनवरी, 1925, विवाह श्रीमती रजवशी देवी से, 3 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) बिहार विधान सभा, 1962—67, (2) बिहार विधान परिषद्, 1974—80 और (3) राज्य सभा, 3-4-1968 से 2-4-1974 और 3-4-1982 से 2-4-1988।

**स्थायी पता :** ग्राम शिवपुर, डाकघर केसर, जिला शाहाबाद (बिहार)।

**सूर्यनारायण, श्री कोम्मारेड्डी :** कांग्रेस (आंध्र प्रदेश), श्री के० ब्रह्मिया गारु के आत्मज, जन्म 8 मार्च, 1907, विवाह श्रीमती कृष्णावेणि से, 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1958, अध्यक्ष, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, आंध्र प्रदेश।

**स्थायी पता :** अशोक नगर, इलुरी, जिला पश्चिमी गोदावरी (आंध्र प्रदेश)।

**सेजियन, श्री एरा :** एम० ए०, जनता पार्टी (तमिलनाडु), श्री वी० एस० राजगोपाल के आत्मज, जन्म 28 अप्रैल, 1923, विवाह डा० (श्रीमती) प्रेमा सेजियन से, सदस्य, लोक सभा, 1962—67, 1967—70 और 1971—77, लोक सभा की सभापति तालिका के सदस्य, 1971—73, अध्यक्ष, (1) लोक लेखा समिति, 1971—73 और (2) लोक सभा की सभा पटल पर रखे गये पत्रो सम्बन्धी समिति, 1975—77, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1978 से 2-4-1984, अध्यक्ष, राज्य सभा की सभा पटल पर रखे गये पत्रो सम्बन्धी समिति, 1982—84, लघु-कहानियो, एकाकी नाटको आदि की पुस्तको के लेखक।

**स्थायी पता :** 8, लक्ष्मी टाकीज रोड, मद्रास (तमिलनाडु)।

**सेठ, श्री इब्राहिम सुलेमान :** बी० ए०, मुस्लिम लीग (केरल), श्री सुलेमान इब्राहिम सेठ के आत्मज, जन्म 3 नवम्बर, 1922, विवाह श्रीमती मरियम वाई उर्फ यासमीन से, 2 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1960 से 2-4-1966, सचिव/उपाध्यक्ष, मुस्लिम लीग, केरल, 1958—62।

**स्थायी पता :** कान्वेंट रोड, एर्नाकुलम (केरल)।

**सेठ, श्री सलाय मोहम्मद :** निर्दलीय (केरल), श्री इब्राहिम सेठ के आत्मज, जन्म 17 जनवरी, 1932, विवाह श्रीमती जुलेखा वाई से, 1 पुत्र और 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1964 से 2-4-1970।

**स्थायी पता :** मत्तनचेरी, कोचीन (केरल)।

सेठी, श्री प्रकाश चन्द्र : बी० ए०, एलएल० बी०, कांग्रेस (मध्य प्रदेश), श्री भवरलाल सेठी के आत्मज, जन्म 19 अक्टूबर, 1920, विवाहित, 5 पुत्रिया, सदस्य, (1) राज्य सभा, 2-2-1961 से 2-4-1964, 3-4-1964 से 20-2-1967 तथा 3-4-1976 से 7-1-1980 और (2) लोक सभा, 1967—71 तथा 1971-72, केन्द्र सरकार में इस्पात और भारी उद्योग, खान और धातु, वित्त, रक्षा, पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक और निर्माण और आवास मंत्रालयों में उपमन्त्री/राज्य मन्त्री/मन्त्री, 1962—66, 1967—71 और 1975—77।

स्थायी पता • अनूप भवन, माधव नगर, उज्जैन (मध्य प्रदेश)।

\*सेन, श्री अशोक कुमार बी० ए० (ऑनर्स), एम० ए० (अर्थशास्त्र), एम० एससी०, वैरिस्टर-एट-लॉ, जनता दल (एस) (पश्चिमी बंगाल), श्री अक्षय कुमार सेन के आत्मज, जन्म 10 अक्टूबर, 1913, विवाह श्रीमती अजना सेन से, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, लोक सभा, 1957—62, 1962—67, 1967—70, 1971—77, 1980—84 और 1984—89, विधि, डाक व तार तथा समाज सुरक्षा विभागों के केन्द्रीय राज्य मन्त्री/मन्त्री, 1957—66 तथा 1984—87, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1990 से अद्यपर्यन्त, केन्द्रीय इस्पात और खान मन्त्री, नवम्बर, 1990 से अद्यपर्यन्त, वाणिज्यिक कानून पुस्तिका के लेखक।

स्थायी पता . 13, लाउडन स्ट्रीट, कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)।

\*सेन, श्री आशीष बी० कॉम०, भारतीय साम्यवादी दल (मा०) (पश्चिमी बंगाल), श्री अजीत कृष्ण सेन के आत्मज, जन्म 1 नवम्बर, 1922, विवाह, श्रीमती अर्चना सेन से, 1 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1988 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता • एफ/13, सुपर मार्किट (तृतीय तल), कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)।

सेन, डा० त्रिगुण • बी० ई० (मेकेनिकल), इंजीनियरिंग में डाक्टरेट की उपाधि, कांग्रेस (त्रिपुरा), श्री गोलखनाथ सेन के आत्मज, जन्म 24 दिसम्बर, 1905, विवाहित, 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 27-4-1967 से 2-4-1968 और 3-4-1968 से 2-4-1974, शिक्षा, पेट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मंत्रालयों में केन्द्रीय मन्त्री, 1967—70, 'पद्म-भूषण' से सम्मानित, 1965।

स्थायी पता इयोडिची हाउसिंग सोसायटी, कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)।

\*सेन, श्री सुकोमल • एम० ए० (अग्रेजी), रूसी भाषा और साहित्य में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, भारतीय साम्यवादी दल (मा०) (पश्चिमी बंगाल), श्री सुकुमार सेन के आत्मज, जन्म 16 जून, 1934, विवाह श्रीमती रोमा सेन से, 2 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1982 से 2-4-1988 और 3-4-1988 से अद्यपर्यन्त, अध्यक्ष, (1) राज्य सभा की सरकारी आश्वासनों सबधी समिति, 1988-90 और (2) राज्य सभा की अधीनस्थ विधान सबधी समिति, 1990, अग्रेजी और बंगला भाषा में पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता • 200, सतोषपुर एवेन्यू, कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)।

सेनगुप्ता, श्री द्विजेन्द्रलाल : एम० ए० (प्राचीन भारतीय इतिहास और सस्कृति), एम० ए० (कॉमर्स), बी० एल०, निर्दलीय (पश्चिमी बंगाल), श्री हेमन्तलाल सेनगुप्ता के आत्मज, जन्म 10 सितम्बर, 1916, विवाह श्रीमती सध्यारानी सेनगुप्ता से, 2 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) पश्चिमी बंगाल विधान परिषद्, 1960—64 और (2) राज्य सभा, 3-4-1964 से 2-4-1970 और 3-4-1970 से 2-4-1976 ।

स्थायी पता : 14, गिरीश चन्द्र बोस रोड, एन्टल्ली, कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल) ।

सेयस्ठियन, श्री के० सी० : बी० ए०, केरल कांग्रेस (केरल); श्री के० सी० चाको के आत्मज, जन्म 2 नवम्बर, 1920, अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 22-4-1979 से 21-4-1985, दिवगत। श्रद्धाञ्जलि—21-7-1986 ।

सेम्युल, श्री मुदुमाला हेनरी : कांग्रेस (आंध्र प्रदेश), श्री मुदुमाला इसाक के आत्मज, जन्म 21 जून, 1912, विवाह श्रीमती डी० बी० सेम्युल से, 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 18-4-1957 से 2-4-1958, 3-4-1958 से 2-4-1964 और 3-4-1968 से 16-2-1972, दिवगत। श्रद्धाञ्जलि—13-3-1972 ।

सेमा, श्री होकिशे : बी० ए०, कांग्रेस (आई) (नागालैंड), श्री सुकीये सेमा के आत्मज, जन्म 6 मार्च, 1921, विवाह श्रीमती शितोली सेमा से, 5 पुत्र और 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) नागालैंड राज्य विधान सभा की अंतरिम सस्था, 1961—63 और (2) नागालैंड विधान सभा, 1964—69, मंत्री, नागालैंड सरकार, मुख्य मंत्री, नागालैंड, 1969—74, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1986 से 4-5-1987, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, 1983—86, अध्यक्ष, (1) नागालैंड राष्ट्रवादी सगठन, 1974—76 और (2) नागालैंड कांग्रेस समिति, 1976—79, नागालैंड पर एक पुस्तक के लेखक ।

स्थायी पता : सेमातिला, दीनापुर (नागालैंड) ।

\*सैकिया, डा० नगेन : एम० ए०, पीएच० डी०, असम गण परिषद् (असम), श्री उमाराम सैकिया के आत्मज, जन्म 11 फरवरी, 1941, विवाह श्रीमती लायण्य सैकिया से, 2 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1986 से अद्यपर्यन्त, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1990-91, लघु-कहानियों, नाटको, निबंधों, जीवनियों से संचित अनेक पुस्तकों के लेखक ।

स्थायी पता : "आश्रय" जीवन फुक्न नगर, डिब्रूगढ़ (असम) ।

सैयद, डा० महमूद : पीएच० डी०, बार-एट-लॉ, कांग्रेस (बिहार); श्री मोहम्मद ऊमर के आत्मज, जन्म 1889, विवाह श्रीमती आर० फातिमा से, 3 पुत्र और 3 पुत्रिया, मंत्री, बिहार सरकार, 1937 और 1946—52, सदस्य, लोक सभा, 1952—61, विदेश मंत्रालय में केन्द्रीय राज्य मंत्री, 1954—57, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1962 से 2-4-1968, महासचिव, राष्ट्रीय कांग्रेस, 1929—36, दिवगत। श्रद्धाञ्जलि 15-11-1971 ।

सैयद हुसैन, श्री : वी० ए०, एलएल० वी०, मुफती (फारसी तथा अरबी में आनर्स), काग्रेस (जम्मू और कश्मीर), हाजी सैयद अहमदुल्ला के आत्मज, जन्म 16 जुलाई, 1922, विवाह श्रीमती फरखुन्दाह बेगम से, 4 पुत्रिया, सदस्य, (1) जम्मू और कश्मीर विधान सभा, 1957—62, (2) जम्मू और कश्मीर विधान परिषद, 1962 और (3) राज्य सभा, 16-4-1968 से 5-3-1974।

स्थायी पता • डाकघर खडवाल, अनतनाग, कश्मीर (जम्मू और कश्मीर)।

सोखे, डा० साहिब सिंह . वी० एससी०, एम० ए०, एम० डी०, एफ० ए० एस०, एफ० एन० आई०, (नाम-निर्देशित), सरदार ज्वाला सिंह सोखे के आत्मज, जन्म • 15 दिसम्बर, 1887, विवाह श्रीमती लीला राय से, सहायक महानिदेशक, विश्व स्वास्थ्य सगठन, 1950—52, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956, दिवगत। श्रद्धाजलि—15-11-1971।

सोनी, श्रीमती अम्बिका • वी० ए० (आनर्स), स्पेनी भाषा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, फ्रामीसी भाषा में डिप्लोमा, काग्रेस (पजाब), श्री नकुल सेन की आत्मजा, जन्म 13 नवम्बर, 1941, विवाह श्री उदय सी० सोनी से, 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 30-3-1976 से 2-4-1980।

स्थायी पता • 7, फ्रेंड्स कालोनी, नई दिल्ली।

\*सोमपाल, श्री • एम० ए०, एलएल० वी०, जनता दल (उत्तर प्रदेश), श्री रघुवीर सिंह शास्त्री के आत्मज, जन्म 20 जनवरी, 1942, विवाह श्रीमती राधा से, 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 23-3-1990 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता : ग्राम तथा डाकखाना काकोर कला, खण्ड छपरौली, जिला मेरठ (उत्तर प्रदेश)।

सोमसुन्दरम, श्री जी० पी० • ड० मु० क० (तमिलनाडु), श्री पेरीअन्ना गौडर के आत्मज, जन्म 27 नवम्बर, 1889, विवाह श्रीमती मीनाक्षी अम्माल से, 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1966 से 25-6-1971, अध्यक्ष, द्रविड कपगम, सचिव, ड० मु० क०, दिवगत। श्रद्धाजलि—19-7-1971।

\*सोलकी, श्री गोपाल सिंह जी० . एम० ए०, एलएल० वी०, भारतीय जनता पार्टी (गुजरात), श्री गुलाबसिंह भवनसिंह के आत्मज, जन्म 1 मई, 1939, विवाह श्रीमती मीनाक्षी से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1990 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता 'मीनाक्षी' 7, कृष्णा नगर, प्रभा रोड, गोधरा, जिला पंच महल (गुजरात)।

\*सोलंकी, श्री माधव सिंह : बी० ए० (आनर्स), एलएल० बी०, काग्रेस (आई) (गुजरात), श्री फूलसिंह जी के आत्मज, जन्म 29 जुलाई, 1927, विवाह श्रीमती विमला बहन से, 3 पुत्र और 2 पुत्रियाँ, सदस्य, (1) बम्बई विधान सभा, 1957—60 और (2) गुजरात विधान सभा, 1960—68, मुख्यमंत्री, गुजरात, 1976, 1980—85 और 1990, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1988 से अद्यपर्यन्त, केन्द्रीय योजना मंत्री, जून, 1988 से नवम्बर, 1989, अध्यक्ष, गुजरात प्रदेश काग्रेस समिति (तीन बार)।

स्थायी पता : ए/4, अर्चना फ्लैट्स, नवरगपुर, अहमदाबाद (गुजरात)।

सोलोमन, श्री पी० ए० : साम्यवादी दल (केरल), श्री एन्ड्रयूज के आत्मज, जन्म 31 जुलाई, 1917, विवाह श्रीमती ऐमिनी (मेरी) से, 2 पुत्रियाँ, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1958 से 2-4-1964।

स्थायी पता : डाकघर कोट्टारकार (केरल)।

स्वर्ण सिंह, सरदार : बी० एससी० (आनर्स), एम० एससी० (भौतिक शास्त्र), एलएल० बी०, काग्रेस (पंजाब), सरदार प्रताप सिंह के आत्मज, जन्म 19 अगस्त, 1907, विवाह श्रीमती चरणजीत कौर से, 4 पुत्रियाँ, सदस्य, पंजाब विधान सभा, 1946—52, मंत्री, पंजाब सरकार, 1946—52, सदस्य, राज्य सभा, 7-10-1952 से 18-3-1957, केन्द्रीय मंत्री, निर्माण, आवास और पूर्ति, 1952—57।

स्थायी पता : सिविल लाइन्स, जालन्धर शहर (पंजाब)।

खू, श्री स्वातो : स्नातक, (नाम-निर्देशित) काग्रेस (आई), श्री गोहखू खू के आत्मज, जन्म 3 अप्रैल, 1924, विवाह श्रीमती होतौली खू से, 4 पुत्र और 3 पुत्रियाँ, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1974 से 2-4-1980 और 3-4-1980 से 2-4-1986।

स्थायी पता : सातखा टाउन, जिला जुनहेवोतु (नागालैण्ड)।

स्वामी, श्री एन० आर० एम० : बी० ए०, बी० एल०, काग्रेस (मद्रास, अब तमिलनाडु), श्री बी० रजु नायकर के आत्मज, जन्म 19 जून, 1908, विवाह श्रीमती दयानिधि अम्माल से, 4 पुत्र, सदस्य, (1) लोक सभा, 1952—57 और 1957—62 और (2) राज्य सभा, 3-4-1966 से 2-4-1972।

स्थायी पता : एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, रेलवे स्टेशन रोड, रानीपेट, जिला उत्तरी अर्काट (तमिलनाडु)।

\*स्वामी, श्री सुब्रह्मण्यम : पीएच० डी० (अर्थशास्त्र), जनता पार्टी (उत्तर प्रदेश), श्री सीताराम सुब्रह्मण्यम के आत्मज, जन्म 15 सितम्बर, 1939, विवाह श्रीमती रोक्सना से, 2 पुत्रियाँ, सदस्य, (1) लोक सभा, 1977—79 और 1980—84 और (2) राज्य सभा, 3-4-1974 से 15-11-1976 और 3-4-1988 से अद्यपर्यन्त, चाणिज्य तथा विधि और न्याय मंत्रालयों में केन्द्रीय मंत्री, नवम्बर, 1990 से अद्यपर्यन्त, आर्थिक विषयों पर पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता : एन-226, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली।

\*स्वामीनाथन, श्री जी० : वी० फार्मा०, अखिल भारतीय अन्ना द्रविड मुनेत्र कषगम (तमिलनाडु), श्री आर० गोपाल मुदलियार के आत्मज, जन्म 19 दिसम्बर, 1931, विवाह श्रीमती विजया लक्ष्मी से, 1 पुत्री, सदस्य, तमिलनाडु विधान परिषद, 1968—86, अध्यक्ष, विशेषाधिकार और आवास समितिया, तमिलनाडु विधान परिषद, उपाध्यक्ष, तमिलनाडु विधान परिषद, 1978—80 और 1984—86, सदस्य, राज्य सभा, 30-6-1986 से अद्यपर्यन्त, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1986-87 और 1987-88।

स्थायी पता : न० 2, रजय्या नगर, तजावूर (तमिलनाडु)।

स्वामीनाथन, श्री वी० वी० : वी० एससी०, वी० एल०, अखिल भारतीय अन्ना द्रविड मुनेत्र कषगम (तमिलनाडु), श्री वेलायुतम के आत्मज, जन्म 15 फरवरी, 1927, विवाह श्रीमती रानी से, 3 पुत्र और 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1972 से 2-4-1978 और 3-4-1978 से 19-6-1980।

स्थायी पता : एफ - 33, रामकृष्ण नगर, मडावली, मद्रास (तमिलनाडु)।

\*स्वेल, श्री जी० जी० : एम० ए०, हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (मेघालय), श्री जी० होरू के आत्मज, जन्म 5 अगस्त, 1924, विवाह श्रीमती लाजोपथिया स्वेल से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, लोक सभा, 1962—67, 1967—71, 1971—77 और 1984—89, उपाध्यक्ष, लोक सभा, 1967—71, नर्वे और बर्मा में भारत के राजदूत, 1977—84, सदस्य, राज्य सभा, 13-4-1990 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता : डेमरिंग हाउस, अपर नागथिम्मई, शिलांग (मेघालय)।

\*हंसपाल, श्री हरवेन्द्र सिंह : वी० एससी०, कांग्रेस (आई) (पंजाब), सरदार ज्ञान सिंह हंसपाल के आत्मज, जन्म 4 मई, 1938, विवाह श्रीमती चरणजीत कौर से, 2 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 5-7-1980 से 4-7-1986 और 5-7-1986 से अद्यपर्यन्त, अध्यक्ष, आवास समिति, राज्य सभा, 1988—90, सिख इतिहास पर पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता : श्री भैनी साहेव, जिला लुधियाना (पंजाब)।

हसराम, रायजादा बार-एट-लॉ, कांग्रेस (पंजाब); लाला सालिग राम के आत्मज, जन्म जुलाई, 1869, विवाह श्रीमती लाल देवी से, 5 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, (1) पंजाब विधान परिषद तथा विधान सभा के लिए चार बार और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 29-8-1952 तथा 17-3-1953 से 2-4-1958, दिवंगत। श्रद्धांजलि—18-8-1958।

हक, श्री (मौलाना) असरारूल : आलिम फाजिल, कांग्रेस (आई) (राजस्थान), मौलाना सैयद शाह सिबघतुल्ला के आत्मज, जन्म 15 जून, 1924, विवाह श्रीमती कुन्दसिया बेगम से, 2 पुत्र तथा 5 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 5-7-1980 से 4-7-1986, उर्दू काव्य पर एक पुस्तक के लेखक।

स्थायी पता : 'हक' मेन्शन, पाटन पोल, कोटा (राजस्थान)।



हकीम अली, ख्वाजा : जम्मू और कश्मीर, सदस्य, राज्य सभा, 22-8-1961 से 2-4-1962। [अन्य ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।]

स्थायी पता : बुरजला, श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर)।

हनीफ, श्री मोहम्मद : कांग्रेस (उड़ीसा), शेख अब्दुल दयान के आत्मज, जन्म जनवरी, 1900, विवाह श्रीमती हिदायतुन्निसा बेगम से, 3 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, अन्त कालीन ससद, 1950—52, उपाध्यक्ष, उड़ीसा विधान सभा, 1952—57, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1966 से 6-10-1967, दिवंगत। श्रद्धाजलि—20-11-1967।

\*हनुमनतप्पा, श्री हेच० · बी० ए०, बी० एल०, आर० बी० वी०, कांग्रेस (आई) (कर्णाटक), श्री हेच० महालिंगप्पा के आत्मज, जन्म 13 मई, 1932, विवाह श्रीमती कोटरम्मा से, 3 पुत्र तथा 4 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1982 से 2-4-1988 और 3-4-1988 से अद्यपर्यन्त, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1986—89, महासचिव, कर्णाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (आई), 1979—81 और 1983।

स्थायी पता : साधना, 119, नेहरू नगर, चित्रदुर्गा (कर्णाटक)।

हबीबुल्लाह, श्रीमती हामिदा : बी० ए० (आनर्स), कांग्रेस (आई) (उत्तर प्रदेश), नवाब नजीर यार जग की आत्मजा, जन्म 20 नवंबर, 1916, विवाह मेजर जनरल ई० हबीबुल्लाह से, 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1969—74, समाज, हरिजन कल्याण, राष्ट्रीय एकता, नागरिक सुरक्षा तथा पर्यटन राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, मई, 1971 से जनवरी, 1973, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1976 से 2-4-1982।

स्थायी पता : 11, महात्मा गांधी मार्ग, हजरतगज, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।

\*हरमोहन सिंह, चौधरी : मिडल हाई स्कूल, जनता दल (एस) (उत्तर प्रदेश), श्री घनीराम सिंह के आत्मज, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान परिषद, 1970 और 1976, अध्यक्ष, आश्वासन समिति, उत्तर प्रदेश विधान परिषद, दो बार, सदस्य, (1) उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1982 और (2) राज्य सभा, 3-4-1990 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता : 127/52, डब्ल्यू आई० ब्लाक, साकेत नगर, कानपुर (उत्तर प्रदेश)।

हरिदास, श्री सी० : अध्ययन बी० ए० तक, कांग्रेस (आई) (केरल), श्री के० जी० हरिदास मेनन के आत्मज, जन्म 15 जुलाई, 1940, विवाह श्रीमती के० वसती से, 3 पुत्रिया, सदस्य, (1) केरल विधान सभा, जनवरी से मार्च, 1980 और (2) राज्य सभा, 3-4-1980 से 2-4-1986।

स्थायी पता : "स्वप्न", डाकघर पोन्नानी, जिला मालप्पुरम (केरल)।

\*हरिप्रसाद, श्री वी० के० वी० काम०, कांग्रेस (आई) (कर्णाटक), श्री ए० केमैया के आत्मज, अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1990 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता न० 2-5, टेम्पल स्ट्रीट, मल्लेश्वरम, बगलौर (कर्णाटक)।

\*हरि सिंह, चौधरी एम० ए०, एलएल० वी०, पत्रकारिता में डिप्लोमा, कांग्रेस (आई) (उत्तर प्रदेश), श्री मुरलीधर के आत्मज, जन्म 16 दिसम्बर, 1929, विवाह श्रीमती करूणा से, 2 पुत्र तथा 5 पुत्रिया, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1967 और 1980—85, मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, 1980—85, सदस्य, (1) लोक सभा, 1971—77 और (2) राज्य सभा, 3-4-1988 से अद्यपर्यन्त, महासचिव, उत्तर प्रदेश कांग्रेस समिति (आई)।

स्थायी पता 220, सिविल लाइन्स, वुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश)।

हवानूर, श्री एल० जी० कांग्रेस (आई) (कर्णाटक), सदस्य, राज्य सभा, 13-7-1977 से 9-4-1978।  
[अन्य व्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।]

स्थायी पता बाल्मीकी निवास, बगलौर (कर्णाटक)।

हासदा, श्री फणोन्द्र नाथ . एम० एससी०, वी० एड०, कांग्रेस (यू) (पश्चिमी बंगाल), श्री श्याम चरण हासदा के आत्मज, जन्म 4 मार्च, 1944, विवाह श्रीमती कल्याणी हासदा से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1976 से 2-4-1982।

स्थायी पता . ग्राम तथा डाकघर कोदापुर, जिला मिदनापुर (पश्चिमी बंगाल)।

हाथी, श्री जय सुख लाल : बम्बई विश्वविद्यालय से विधि की परीक्षा उत्तीर्ण की, कांग्रेस (गुजरात), श्री लालशकर हाथी के आत्मज, जन्म 19 जनवरी, 1909, विवाह श्रीमती पद्मावती से, 4 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, (1) सविधान सभा, 1946—47, (2) अन्त कालीन ससद्, (3) लोक सभा, 1957—62 और (4) राज्य सभा, 3-4-1952 से 12-3-1957, 3-4-1962 से 2-4-1968 और 3-4-1968 से 2-4-1974, सिंचाई और विद्युत, आपूर्ति, गृह, रक्षा, श्रम और पुनर्वास के विभिन्न सविभागों के केन्द्रीय उपमन्त्री, राज्य मंत्री तथा मंत्री, 1952—69, राज्य सभा के नेता, 1967—69, 'प्लेस ऑफ इंडियन स्टेट्स इन फेडरेशन' के लेखक, दिवंगत। श्रद्धाजलि—18-2-1982।

हार्डिकर, डा० नारायण सुब्बाराव एम० सी० पी० एस०, लोक स्वास्थ्य में एम० एस० (मिशिगन), कांग्रेस (मैसूर, अब कर्णाटक), श्री सुब्बाराव के आत्मज, जन्म 7 मई, 1890, अविवाहित, सदस्य, राज्य सभा, 7-8-1952 से 2-4-1956 और 3-4-1956 से 2-4-1962, महासचिव, कर्णाटक प्रदेश कांग्रेस समिति, 1921—22 और 1939—40, 'पदम विभूषण' से सम्मानित, 1958, कुछ पुस्तकों के लेखक, दिवंगत। श्रद्धाजलि—5-1-1976।

\*हाशमी, श्री शमीम : एम० ए०, बी० एल०, कांग्रेस (आई) (बिहार), श्री एस० एम० कमरुद्दीन के आत्मज, जन्म 16 जनवरी, 1940, विवाह श्रीमती नसीमा शमीम हाशमी से, 4 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, (1) बिहार विधान सभा, 1980—85 और (2) राज्य सभा, 3-4-1988 से 28-7-1989 और 25-9-1989 से अद्यपर्यन्त, अध्यक्ष, भारतीय लोक दल, महासचिव, जनता पार्टी, बिहार, 1977—80, लोक दल, बिहार, 1980—86 और लोक दल राष्ट्रीय स्तर पर।

स्थायी पता : ए-1, मोतीहारी, जिला पूर्वी चम्पारन (बिहार)।

हाशमी, श्री सैयद अहमद : मुमताज-उल-मोहम्मदसीन फाजिल-ए-देववन्द और मौलवी फाजिल (पजाब-विश्वविद्यालय), जनवादी (उत्तर प्रदेश), श्री सैयद मोहम्मद शफी के आत्मज, जन्म 19 दिसम्बर, 1933; विवाह श्रीमती अर्शिया हाशमी से, 2 पुत्र तथा 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1974 से 2-4-1980 और 5-7-1980 से 4-7-1986, उर्दू में पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता : 1508, जमीयत विल्डिंग, गली कासिम जान, वल्लीमारन, दिल्ली।

\*हाशिम, श्री एम० एम० : इन्टर, कांग्रेस (आई) (आन्ध्र प्रदेश), श्री एम० ए० जावेद के आत्मज, जन्म 19 अक्टूबर, 1921, विवाह श्रीमती खुशीदि वेगम से, 2 पुत्र तथा 4 पुत्रिया, सदस्य, आंध्र प्रदेश विधान सभा, 1962—67, 1967—71 और 1978—80, मंत्री, आंध्र प्रदेश सरकार, 1978—83, सदस्य, (1) लोक सभा, 1971—76 और 1977-78 तथा (2) राज्य सभा, 10-4-1990 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता : 11 3 835, मल्लेपल्ली, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)।

\*हिफेई, श्री . इन्टरमीडिएट, कांग्रेस (आई) (मिजोरम), जतिया (एल) और रोचई (एल) के आत्मज, जन्म अगस्त, 1937, विवाह श्रीमती सेथली से, 3 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, मिजोरम विधान सभा, 1972, 1984, 1988 और 1989, राज्य मंत्री, मिजोरम सरकार, 1984, उपाध्यक्ष, मिजोरम विधान सभा, 1973—77, अध्यक्ष, मिजोरम विधान सभा, 1989, सदस्य, राज्य सभा, 17-7-1990 से अद्यपर्यन्त।

स्थायी पता . चपुइ, जिला छिमतुइपुइ, मार्फत, डी० सी० सेहा, जिला, छिमतुइपुइ (मिजोरम)।

हिमतसिंगका, श्री पी० डी० वी० ए०, वी० एल० (अटॉर्नी-एट-लॉ), कांग्रेस (पश्चिमी बंगाल), श्री रामसिखदास हिमतसिंगका के आत्मज, जन्म 16 अगस्त, 1899, विवाह श्रीमती स्वाति देवी हिमतसिंगका से, 1 पुत्र, सदस्य, (1) बंगाल विधान परिषद्, 1927—30, (2) बंगाल विधान सभा, 1937—39, (3) असम विधान सभा, 1946—48, (4) पश्चिमी बंगाल विधान सभा, फरवरी—जून, 1948, (5) सविधान सभा, 1948—50, (6) अत-कालीन ससद, 1950-51 और (7) राज्य सभा, 3-4-1956 से 1-3-1962।

स्थायी पता : 6, ओल्ड पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)।

हिम्मत सिंह, श्री एम० ए० (ऑक्सफोर्ड), कांग्रेस (गुजरात), श्री तख्त सिंहजी के आत्मज, जन्म 30 मई, 1914, विवाह श्रीमती हसेन्द्र कुमारी से, 1 पुत्री, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1972 से 9-4-1978।

स्थायी पता "एक्जोनिया", डाकघर मन्सा, मेहसाना (गुजरात)।

हीराचन्द, श्री डी० मैट्रिक, अ० भा० अ० ड्र० मु० क० (तमिलनाडु), श्री एम० सी० धर्मचन्द गोलचा के आत्मज, जन्म 4 मई, 1941, विवाह श्रीमती सुशीला देवी गोलचा से, 3 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 30-6-1980 से 29-6-1986।

स्थायी पता 10, कृष्णपिल्ले स्ट्रीट, टिंडीवनम् (तमिलनाडु)।

\*हुसैन, श्री एम० एफ० डाक्टरेट की मानद उपाधि से विभूषित, (नाम-निर्देशित), श्री फिदा हुसैन के आत्मज, जन्म 15 सितम्बर, 1915, विवाह श्रीमती फाजिला हुसैन से, 4 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 12-5-1986 से अद्यपर्यन्त, (1) 1968 में "पद्मश्री", (2) 1973 में "पद्म भूषण" तथा फिल्मों और चित्रों के लिये अनेक राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित, कुछ पुस्तकों के लेखक।

स्थायी पता 11, जौलीमेकर अपार्टमेंट्स 3, 119, कफ परेड, मुम्बई (महाराष्ट्र)।

हेसमैन, श्रीमती मोना वी० ए० (ऑनर्स) (लंदन), कांग्रेस (मद्रास, अब तमिलनाडु), लेफ्टिनेंट कर्नल आर० के० मित्र की आत्मजा, जन्म 25 अगस्त, 1899, विवाह डा० एच० एस० हेंसमैन से, 1 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, (1) मद्रास विधान परिषद्, 1937—52 और (2) राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956।

स्थायी पता 19, विक्टोरिया क्रीसेंट, एमोर, मद्रास (तमिलनाडु)।

हेगजर, श्री जॉय भद्रा वी० ए० (आनर्स), कांग्रेस (असम), श्री मेशोराम हेगजर के आत्मज, जन्म 2 अप्रैल, 1914, विवाह श्रीमती निरुपमा से, 3 पुत्र तथा 1 पुत्री, सदस्य, असम विधान सभा, 1952—57, ससदीय सचिव, असम सरकार, 1955—56, उपमन्त्री, असम सरकार, 1956-57, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1958 से 17-3-1962, दिवगत। श्रद्धाजलि—23-7-1973।

हेगडे, श्री के० एस० : एम० ए०, वी० एल, काग्रेस (मद्रास, अब तमिलनाडु), श्री कावडूर सुब्बैय्या हेगडे के आत्मज, जन्म 9 जून, 1910, विवाह श्रीमती मीनाक्षी एस० हेगडे से, 3 पुत्र 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1954 और 3-4-1954 से 21-8-1957, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1953-54, अध्यक्ष, लोकसभा, 1977—80, कुछ पुस्तकों के लेखक, दिवगत। श्रद्धाजलि—28-5-1990।

हेगडे, श्री रामकृष्ण : एम० ए०, एलएल० बी०, जनता पार्टी (कर्णाटक), श्री महाबलेश्वर हेगडे के आत्मज, जन्म 29 अगस्त, 1927, विवाह श्रीमती शकुन्तला हेगडे से, 1 पुत्र तथा 2 पुत्रिया, सदस्य, कर्णाटक विधान सभा, 1957—71, कर्णाटक सरकार में उपमन्त्री तथा मंत्री, 1957-58, 1962—65 और 1965—71, सदस्य, कर्णाटक विधान परिषद् 1972—78, कर्णाटक विधान परिषद् में विपक्ष के नेता, 1972—77, सदस्य, राज्य सभा, 10-4-1978 से 23-5-1983, उपाध्यक्ष, (1) कर्णाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (सगठन), 1967—77 और (2) कर्णाटक जनता पार्टी, 1977, महासचिव, (1) कर्णाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी, 1958—62 और (2) अखिल भारतीय जनता पार्टी, 1977—89।

स्थायी पता : 'कृतिका', 229, राजमहल विलास एक्सटेशन, बगलौर (कर्णाटक)।

हेन्दिक, श्री विजय कृष्ण . एम० ए०, कांग्रेस (आई) (असम), श्री कृष्णकान्त हेन्दिक के आत्मज, जन्म 1 दिसम्बर, 1933, विवाह श्रीमती स्वरूप रानी हेन्दिक से, 3 पुत्रिया, सदस्य, असम विधान सभा, अध्यक्ष, प्राक्कलन समिति, असम विधान सभा, 1974—77, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1980 से 2-4-1986।

स्थायी पता : कुशल कौवर पथ, जोरहाट (असम)।

\*हेपतुल्ला, डा० (श्रीमती) नजमा : एम० एससी० (प्राणि विज्ञान), पीएच० डी० (हृदय संरचना), कांग्रेस (आई) (महाराष्ट्र), श्री सैयद यूसुफ अली की आत्मजा, जन्म 13 अप्रैल, 1940, विवाह श्री अकबर हेपतुल्ला से, 3 पुत्रिया, सदस्य, राज्य सभा, 5-7-1980 से 4-7-1986 और 5-7-1986 से अद्यपर्यन्त, उपसभाध्यक्ष, राज्य सभा, 1982—84, उप-सभापति, राज्य सभा, जनवरी, 1985 से जनवरी, 1986 और नवम्बर, 1988 से अद्यपर्यन्त, अध्यक्ष, राज्य सभा की विशेषाधिकार समिति, 1985-86 और 1988 से अद्यपर्यन्त, महासचिव, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (आई) 1986—88, विज्ञान, राजनीतिक मसलों तथा महिलाओं की प्रगति और समस्याओं से संबंधित अनेक शोध-पत्रों और "इंडियाज प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कटीन्यूइटी एंड चेज" नामक पुस्तक की लेखिका।

स्थायी पता . हेपतुल्ला पार्क, 2, हसनाबाद रोड, साताक्रुज (पश्चिमी), मुम्बई (महाराष्ट्र)।

हेमरोम, श्री सुन्दर मोहन . वी० एससी०, कांग्रेस (उड़ीसा), श्री फातू माझी हेमरोम के आत्मज, जन्म 1 अक्टूबर, 1919, विवाह श्रीमती सरोजवाला हेमरोम से, 1 पुत्र, सदस्य, राज्य सभा, 3-4-1952 से 2-4-1956।

स्थायी पता : ग्राम तराना, डाकघर-बहल्दा रोड स्टेशन, जिला-मयूरभंज (उड़ीसा)।

---

---

वर्णानुक्रम सूची

---

---

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 27 | आनन्द, श्री एम०                    |
| 27 | आनन्द शर्मा, श्री                  |
| 26 | आनन्द, श्री जगजीत सिंह             |
| 26 | आनन्द चन्द, श्री                   |
| 26 | आनन्द, श्री कविम अली               |
| 26 | आनन्द अली, श्री                    |
| 26 | आनंदी, श्री हरिम रजा इलाहाबादी     |
| 26 | आदिशैष्या, डा० मालकम सत्यनाथन      |
| 25 | आदित्य, श्री                       |
| 25 | आडवकर, श्रीमती सुशीला शंकर         |
| 25 | आडवणी, श्री लाल कृष्ण              |
| 25 | आजाद, श्री गुलाम नबी               |
| 25 | आजमी, मौलाना अबुदुल्का खान         |
| 24 | आर्षी, सरदार चंद्रजी सभाजी राव     |
| 24 | आर्षी, श्री एस० सी०                |
| अ  |                                    |
| 24 | अहलवालिया, श्री सुरजीत सिंह        |
| 24 | अहमद हुसैन, काली                   |
| 24 | अहमद अली, मिर्जा                   |
| 24 | अहमद, श्री फखरुद्दीन अली           |
| 24 | अहमद, डा० जैड० ए०                  |
| 23 | अहमद, डा० अबार                     |
| 23 | अहमद, श्री अनसारीदीन               |
| 23 | अस्थाना, श्री लीला धर              |
| 23 | अस्थाना, श्री क० बी०               |
| 23 | अहिनी कुमर, श्री                   |
| 23 | अली, श्री सैयद रहमत                |
| 22 | अली, श्री सरदार अमजद               |
| 22 | अलादी अरुण उर्फ बी० अरुणाचलम, श्री |
| 22 | अरीडा, सरदार जगजीत सिंह            |
| 22 | अरीडा, श्री अर्जुन                 |
| 22 | अरुहल, श्रीमती कविमणी देवी         |
| 22 | अरुण सिंह, श्री                    |
| 21 | अय्यर, श्री एन० रामाकृष्णा         |
| 21 | अय्यर, श्री अलादी कृष्णास्वामी     |
| 21 | अय्यर स्वामीनाथन, श्रीमती          |
| 21 | अमना राजा, श्रीमती सी०             |
| 21 | अम्बेडकर, डा० बी० आर०              |
| 21 | अम्बेडकर, श्री प्रकाश पशवत         |
| 20 | अमीलख चन्द, श्री                   |

|    |                            |
|----|----------------------------|
| 33 | कर्पूर, श्री एच० एल०       |
| 33 | कर्पूर, श्री गिरिधर किरोर  |
| 33 | कर्पूर, श्री जसपत राय      |
| 33 | कर्पूर, श्री पृथ्वीराज     |
| 33 | कर्पूर, श्री यशपाल         |
| 33 | कबीर, श्री हृमार्          |
| 34 | कमलनाथन, श्री एम०          |
| 34 | कमलनाथामा, श्री टी० बी०    |
| 34 | करवीर सिंह, श्री           |
| 34 | करमारकर, श्री डी० पी०      |
| 34 | करवीर, श्री एच० चड्ढा      |
| 35 | करीमुद्दीन, काली सैफर      |
| 35 | करबया, श्री कौन्सिलमण सी०  |
| 35 | कलमाडी, श्री सुरेश         |
| 35 | कलवला, श्री प्रभाकर राव    |
| 35 | कलानिया, श्री इब्राहिम     |
| 35 | कल्याण चद, श्री            |
| 36 | कल्याणसिन्हर, श्री एम०     |
| 36 | कल्याणसिन्हर, श्री कबी     |
| 36 | काली, श्री यशिन            |
| 36 | काकोडकर, श्री पृथ्वीराज    |
| 36 | काकिर्या, श्री बी० बी०     |
| 36 | काठजू, श्री पी० एन०        |
| 36 | काण, डा० पी० बी०           |
| 37 | कादरशाह, श्री एम०          |
| 37 | कामला सिंह, श्री           |
| 37 | कामेश्वर सिंह, श्री        |
| 37 | कामेश्वर सिंह, श्री        |
| 37 | कापडे, श्री० नरेश मकरराव   |
| 38 | कार, श्री गजान रावल        |
| 38 | कार, श्री नारायण           |
| 38 | कालदास, डा० बापू           |
| 38 | कालिदा, श्री सुबनेश्वर     |
| 38 | कालिकर, श्री काकासाहेब     |
| 38 | कासलीवाल, श्री नरेश चन्द्र |
| 39 | कासिम, सैफद मीर            |
| 39 | कासिम, श्री मुसका सि       |
| 39 | किरवडे, श्रीमती अनिस       |

क





|                            | पृष्ठ |
|----------------------------|-------|
| वासुमतारी, श्री अमृत लाल   | 136   |
| वासुमतारी, श्री धरनीधर     | 136   |
| विन्दुमती देवी, श्रीमती    | 136   |
| विरला, श्री कृष्ण कुमार    | 136   |
| विष्ट, श्री जशौद सिंह      | 137   |
| विसि, श्री प्रमथ नाथ       | 137   |
| विस्वास, श्री देवव्रत      | 137   |
| वीड, श्री इन्द्र भूपण      | 137   |
| वुध सिंह, सरदार            | 137   |
| वूरगोहाइ, श्री भद्रेश्वर   | 137   |
| वेकल "उत्साही", श्री       | 138   |
| वेनीवाल, श्रीमती विद्या    | 138   |
| वेवी, श्री एम० ए०          | 138   |
| वेरवा, श्री जमनालाल        | 138   |
| वेहरिग, श्री वी० डी०       | 138   |
| वोदरा, श्री थियोडोर        | 138   |
| वोवडे, श्री शकरराव वाजीराव | 139   |
| वोस, डा० अतीन्द्र नाथ      | 139   |
| वोस, श्रीमती प्रतिमा       | 139   |
| वोस, प्रो० सत्येन्द्रनाथ   | 139   |

भ

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| भजदेव, श्री प्रफुल्ल चन्द्र    | 139 |
| भडारे, श्री मुरलीधर चन्द्रकात  | 139 |
| भगत, श्री गणपत हीरालाल         | 139 |
| भगवती, श्री वी० सी०            | 140 |
| भगवान दीन, श्री                | 140 |
| भजन लाल, श्री                  | 140 |
| भट्ट, श्रीमती ईला रमेश         | 140 |
| भट्ट, श्री जितेन्द्रभाई लाभशकर | 140 |
| भट्ट, श्री नन्द किशोर          | 141 |
| भट्ट, श्री नानाभाई             | 141 |
| भट्टाचार्य, श्रीमती इला        | 141 |
| भट्टाचार्य, श्री कमलेन्दु      | 141 |
| भट्टाचार्य, श्री जी० सी०       | 141 |
| भट्टाचार्य, श्री नेपालदेव      | 141 |
| भट्टाचार्य, प्रो० सोरीन्द्र    | 142 |
| भण्डारी, श्री सुन्दर सिंह      | 142 |
| भदौरिया, श्रीमती सरला          | 142 |
| भद्रम, श्री एम० वी०            | 142 |
| भाटिया, श्री मदन               | 142 |

|  | पृष्ठ |
|--|-------|
| मसूद, श्री रशीद                            | 149   |
| महतो, श्री वन्धु                           | 149   |
| महन्त, श्री सुशील चन्द                     | 149   |
| महन्ती, श्री घनन्जय                        | 149   |
| महन्ती, श्री भैरव चन्द्र                   | 150   |
| महन्ती, श्री विनय कुमार                    | 150   |
| महन्ती, श्री शारदा                         | 150   |
| महन्ती, श्री सुभाष                         | 150   |
| महन्ती, श्री सुरेन्द्र                     | 150   |
| महाजन, श्री प्रमोद                         | 150   |
| महापात्र, श्री वसुदेव                      | 151   |
| महापात्र, श्री भगीरथी                      | 151   |
| महापात्र, श्री लक्ष्मण                     | 151   |
| महापात्र, डा० श्याम सुन्दर                 | 151   |
| महावीर प्रसाद, डा०                         | 151   |
| महावीर, डा० भाई                            | 151   |
| महिडा, श्री हरिसिंह भगुवावा                | 152   |
| महिदा, श्री यू० एन०                        | 152   |
| महिषी, डा० (श्रीमती) सरोजिनी               | 152   |
| महेन्द्र कौर, श्रीमती                      | 152   |
| महेन्द्र प्रसाद, श्री                      | 152   |
| महेश शरण, श्री                             | 153   |
| महेश्वरप्पा, श्री के० जी०                  | 153   |
| माझी, श्री घनेश्वर                         | 153   |
| माझी, श्री पृथ्वी                          | 153   |
| माझी, श्री सी० पी०                         | 153   |
| माथुर, श्री जगदीश प्रसाद                   | 153   |
| माथुर, श्री जगदीश प्रसाद                   | 154   |
| माथुर, श्री मनमोहन                         | 154   |
| माथुर, श्री हरीश चन्द्र                    | 154   |
| माधवन, श्री एस०                            | 154   |
| माधवन, श्री के० के०                        | 154   |
| मान. लेफ्टीनेन्ट कर्नल सरदार जोगिन्दर सिंह | 154   |
| मान, श्री भूपेन्द्र सिंह                   | 155   |
| माने (पाटिल), श्री मारुति दन्यानु          | 155   |
| मान, श्री मुणसोली                          | 155   |
| मारुस्वामी, श्री एस० एस०                   | 155   |
| मालवीय, श्री रतनलाल किशोरीलाल              | 155   |
| मालवीय, श्री राधाकिशन                      | 155   |
| मालवीय, श्री सत्य प्रकाश                   | 156   |
| मालवीय, श्री हर्य देव                      | 156   |

|                                     | पृष्ठ |
|-------------------------------------|-------|
| मुखर्जी, श्री प्रणव कुमार           | 163   |
| मुखर्जी, श्री वी० के०               | 163   |
| मुखर्जी, श्री समर                   | 163   |
| मुखोपाध्याय, श्रीमती पुरवी          | 164   |
| मुत्तु, डा० (श्रीमती) सत्यवाणी      | 164   |
| मुदलियार, डा० ए० रामास्वामी         | 164   |
| मुबारकशाह, खाजा                     | 164   |
| मुयरी लाल, डा०                      | 164   |
| मुयहरि, श्री गोडे                   | 164   |
| मुल्ला, श्री आनन्द नारायण           | 165   |
| मुल्ला, श्री सुरेश नारायण           | 165   |
| मुसाफिर, श्री गुरुमुख सिंह          | 165   |
| मूपनार, श्री जी० के०                | 165   |
| मेनन, प्रो० एम० जी० के०             | 165   |
| मेनन, श्री के० माधव                 | 166   |
| मेनन, श्री बालचन्द्र                | 166   |
| मेनन, श्रीमती लक्ष्मी एन०           | 166   |
| मेनन, श्रीमती लीला दामोदर           | 166   |
| मेनन, श्री विश्वनाथ                 | 166   |
| मेनन, श्री वी० के० कृष्णा           | 167   |
| मेनन, श्री सी० अच्युत               | 167   |
| मेनोन, श्री को० प० सुब्रह्मण्य      | 167   |
| मेहता, श्री अशोक                    | 167   |
| मेहता, श्री ओम                      | 167   |
| मेहता, श्री किशोर                   | 168   |
| मेहता, श्री चिमनभाई                 | 168   |
| मेहता, श्रीमती पुष्याबेन जनार्दनराय | 168   |
| मेहता, डा० महिपतराय एम०             | 168   |
| मेहरोत्रा, श्री प्रकाश              | 168   |
| मैती, कुमारी आभा                    | 168   |
| मैती, श्री निकुञ्ज विहारी           | 169   |
| मैथेन, श्री जोसेफ                   | 169   |
| मोइदीन, श्री एम० जे० जमाल           | 169   |
| मोदी, श्री जादवजी केशवजी            | 169   |
| मोदी, श्री पीलू                     | 169   |
| मोमिन, श्री गुलाम हैदर वली मोहम्मद  | 169   |
| मोरारका, श्री कमल                   | 170   |
| मोरारका, श्री राधेश्याम आर०         | 170   |
| मोसेस, श्री एम०                     | 170   |
| मोहता, श्री गोपालदास बुलाकीदासजी    | 170   |
| मोहता, श्री महेन्द्र कुमार          | 170   |

|   | पृष्ठ |
|---|-------|
| रत्नस्वामी, श्री एम०                        | 177   |
| रथ, श्री अभिमन्यु                           | 177   |
| रथ, श्री वैद्यनाथ                           | 177   |
| रफीक आलम, श्री                              | 178   |
| रमेश बाबू, श्री एस० वी०                     | 178   |
| रमोल, श्री शिवानन्द                         | 178   |
| रविशंकर, प०                                 | 178   |
| रहमतुल्ला, श्री के० मुहम्मद                 | 178   |
| रहमतुल्ला, श्री मोहम्मद                     | 179   |
| रहमान, श्री मोहम्मद खलीलुर                  | 179   |
| राउत, श्री राजाराम बालकृष्ण                 | 179   |
| राउतराय, श्री नीलमणि                        | 179   |
| राजगम, श्री एन०                             | 179   |
| राजगोपाल, श्री एम०                          | 179   |
| राजगोपालन, श्री जी०                         | 180   |
| राजगोपालन, श्रीमती जी० ललिता                | 180   |
| राजन, श्री पट्टियम्                         | 180   |
| राजनारायण, श्री                             | 180   |
| राजभोज, श्री पाडुरग नाथुजी                  | 180   |
| राजशेखरम्, श्री पलवलास                      | 180   |
| राजा, श्री एच० डी०                          | 181   |
| राजा, रमन्ना, डा०                           | 181   |
| राजू, श्री अल्लुरी सत्यनारायण               | 181   |
| राजू, श्री जे० एस०                          | 181   |
| राजू, श्री वी० वी०                          | 181   |
| राजेन्द्र कौर, डा० (श्रीमती)                | 181   |
| राजेन्द्रन, श्री सेडापट्टी सूर्यनारायण थेवर | 182   |
| राजेन्द्र सिंह ईश्वर सिंह, श्री             | 182   |
| राठवा, श्री रामसिंह                         | 182   |
| राठी, श्री कुंज विहारी लाल                  | 182   |
| रणायत, श्री महेन्द्र सिंह                   | 182   |
| राधाकृष्ण, श्री पुट्टापागा                  | 182   |
| रामकृष्णन, श्री आर०                         | 183   |
| रामचन्द्र, श्री                             | 183   |
| रामचन्द्रन, श्री एम० एस०                    | 183   |
| रामचन्द्रन, श्री एस० के० टी०                | 183   |
| रामचन्द्रन, श्री जी०                        | 183   |
| रामनाथन्, श्री वी०                          | 183   |
| राममूर्ति, श्रीमती टी० नल्लामुत्तु          | 183   |
| राममूर्ति, श्री दिंडीवनम के०                | 184   |
| राममूर्ति, श्री पी०                         | 184   |

|                                      | पृष्ठ |
|--------------------------------------|-------|
| रिजक राम, श्री                       | 191   |
| रुक्मणिबाई, श्रीमती                  | 191   |
| रेड्डी, श्री अददुरू बलरामी           | 191   |
| रेड्डी, श्री आदिनारायण               | 191   |
| रेड्डी, श्री आर० नरसिम्हा            | 191   |
| रेड्डी, डा० एन० तुलसी                | 191   |
| रेड्डी, श्री एन० नरोत्तम             | 191   |
| रेड्डी, श्री एन० श्रीराम             | 192   |
| रेड्डी, श्री एम० गोविन्दा            | 192   |
| रेड्डी, डा० एम० चेन्ना               | 192   |
| रेड्डी, श्री एम० श्रीनिवास           | 192   |
| रेड्डी, श्री एस० चेन्ना              | 192   |
| रेड्डी, श्री एस० जयपाल               | 193   |
| रेड्डी, श्री कामू वेंगल              | 193   |
| रेड्डी, श्री के० ब्रह्मानन्द         | 193   |
| रेड्डी, श्री के० वी० रघुनाथ          | 193   |
| रेड्डी, श्री क्यासनवल्ल्ली चेंगलराया | 193   |
| रेड्डी, श्री गड्डम नारायण            | 193   |
| रेड्डी, श्री जनार्दन                 | 194   |
| रेड्डी, डा० जी० विजय मोहन            | 194   |
| रेड्डी, श्री जे० सी० नागी            | 194   |
| रेड्डी, श्री टी० चन्द्रशेखर          | 194   |
| रेड्डी, डा० नीलम सजीव                | 194   |
| रेड्डी, श्री पी० बाबुल               | 195   |
| रेड्डी, श्री वी० सत्यनारायण          | 195   |
| रेड्डी, डा० बेजवाडा गोपाल            | 195   |
| रेड्डी, श्री मुल्क गोविन्द           | 195   |
| रेड्डी, श्री यल्ला                   | 195   |
| रेड्डी, श्रीमती यशोदा                | 195   |
| रेड्डी, श्री सी० गोपाल कृष्णमूर्ति   | 196   |
| रेफाय, श्री ए० के०                   | 196   |
| रोशन लाल, श्री                       | 196   |
| रोहतगी, डा० जवाहरलाल                 | 196   |
| रोहतगी, श्रीमती सुशीला               | 196   |

ल

|  |     |
|--|-----|
| लइयूवा, श्री प्रेमजी धोभनभाई                         | 196 |
| लक्ष्मणन, श्री जी०                                   | 197 |
| लक्ष्मण सिंहजी बहादुर, महामहिम राये-राया महरावल 'सर' | 197 |
| लक्ष्मन्ना, प्रो० सी०                                | 197 |
| लक्ष्मी नारायण, श्री                                 | 197 |

वर्गानुक्रम सूची

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| लाखनपाल, श्रीमती चन्द्रावती  | 197 |
| लाखन मिर्, श्री              | 197 |
| लाड, श्री महेंद्र सिंह       | 198 |
| लाल, श्री केलारा विहारी      | 198 |
| लाल, प्रो० मुखट विहारी       | 198 |
| लालयुअइया, श्री              | 199 |
| लाल साविया, श्री             | 199 |
| लावजी लाखमश्री, श्री         | 199 |
| लाहरे, श्री मोतोराम उदयभानजी | 199 |
| लाहोती, श्री पूर्णमल एम०     | 199 |
| लिगम, श्री ए० एम०            | 199 |
| लिमये, श्री श्रीपद कृष्ण     | 200 |
| लोला देवी, श्रीमती           | 200 |
| लेन्का, श्री काहनू चरण       | 200 |
| लेपचा, श्री सगडोपाल          | 200 |
| लेजर, श्री डेविड             | 200 |
| लोकेश चन्द्र, डा०            |     |
| लोथा, श्री खोमो              |     |
| लोहानी, श्री आई० टी०         |     |

व

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| वज्र, श्री सिकन्दर अली              | 200 |
| वडुतला श्री टी० के० सो०             | 200 |
| वरदराज, श्री जी०                    | 201 |
| वरियावा, डा० दारु होरमसजी           | 201 |
| वरेकर, श्री भार्गवराम विठ्ठल (मामा) | 201 |
| वर्मा, प्रो० एलैंगजेड               | 202 |
| वर्मा, श्री अशोक नाथ                | 202 |
| वर्मा, श्री कपिल                    | 202 |
| वर्मा, श्री केशो प्रसाद             | 202 |
| वर्मा, श्रीमती नारयणी देवी          | 202 |
| वर्मा, श्री निरजन                   | 202 |
| वर्मा, श्री वी० वी०                 | 203 |
| वर्मा श्री भगवती चरण                | 203 |
| वर्मा, श्री महादेव प्रसाद           | 203 |
| वर्मा, श्री मान सिंह                | 203 |
| वर्मा, श्रीमती वीणा                 | 203 |
| वर्मा, श्री वीरेंद्र                |     |
| वर्मा, श्री श्रीकान्त               |     |
| वर्मा श्री सी० एल०                  |     |
| जलीउल्लाह, श्री मोहम्मद             |     |

वर्णानुक्रम सूची

|  | पृष्ठ |
|--|-------|
| वलीउल्लाह, श्री रऊफ                      | 205   |
| वल्लभराव, श्री जयन्ती वेंकटचेला कामेश्वर | 203   |
| वशिष्ठ, कुमारी शान्ता                    | 204   |
| वसावड़ा, श्री शाम प्रसाद रुपशकर          | 204   |
| वाघेला, श्री शकर सिंह                    | 204   |
| वाजपेयी, श्री अटल बिहारी                 | 204   |
| वाडिया, प्रो० अर्देशिर रत्नजी            | 204   |
| वासन, श्री एस० एस०                       | 205   |
| विकल, श्री रामचन्द्र                     | 205   |
| विजय भूषण देवशरण, श्री                   | 205   |
| विजयवर्गीय, श्री गोपीकृष्ण               | 205   |
| विजय सिंह, श्री                          | 205   |
| विजया राजे, कुवरनी                       | 205   |
| विडुतलै विरूम्पी, श्री एस०               | 206   |
| विनसेंट, श्री एम०                        | 206   |
| विल्ललन, श्री तिल्लई                     | 206   |
| वित्सन, श्री तरगट्टूरी जॉन मोजेज         | 206   |
| विश्वास, श्री चारु चन्द्र                | 206   |
| विश्वासराय, श्री राधाकृष्ण               | 206   |
| वीरप्पन, श्री के० के०                    | 207   |
| वेंकटनायण, श्री पिदाह                    | 207   |
| वेंकटप्पा, श्री जे०                      | 207   |
| वेंकटरामन, श्री एम० आर०                  | 207   |
| वेंकटरामन, श्री एस०                      | 207   |
| वेंकटरामन, श्री दिण्डीवनम् जी०           | 207   |
| वेंकटरामन, श्री विल्लुरी                 | 207   |
| वेंकटराव, श्री चडलवाडा                   | 208   |
| वेंका, श्री वी०                          | 208   |
| वैद्य, श्री कन्हैया लाल डी०              | 208   |
| वेरो, श्री मेल्लुप्रा                    | 208   |
| वैशापायन, श्री एस० के०                   | 208   |
| वोरा, श्री मोती लाल                      | 208   |
| व्यास, डा० एम० आर०                       | 208   |
| व्यास, श्री कृष्ण कात                    | 209   |
| व्यास, श्री जयनारायण                     | 209   |
| व्यास, श्री रमेश चन्द्र                  | 209   |
| श  |       |
| शर्मा, श्री अजित कुमार                   | 209   |
| शर्मा, श्री अनन्त प्रसाद                 | 209   |
| शर्मा, डा० एच० पी०                       | 209   |



वर्णानुक्रम सूची

|                              | पृष्ठ |
|------------------------------|-------|
| शर्मा, श्री कृष्णलाल         | 210   |
| शर्मा, श्री किशनलाल          | 210   |
| शर्मा, श्री चन्दन            | 210   |
| शर्मा, श्री पूर्ण चन्द्र     | 210   |
| शर्मा, पंडित बालकृष्ण        | 210   |
| शर्मा, श्री वृज विहारी       | 211   |
| शर्मा, श्री भगवत दयाल        | 211   |
| शर्मा, श्री माधोराम          | 211   |
| शर्मा, श्री योगेन्द्र        | 211   |
| शर्मा, श्री लैमयूम ललित मघोव | 212   |
| शर्मा, श्री सतीश कुमार       | 212   |
| शम्भू प्रसाद, श्री एस०       | 212   |
| शाहबुद्दीन, श्री सैयद        | 212   |
| शान्ति देवी, श्रीमती         | 212   |
| शान्ति भूषण, श्री            | 213   |
| शामनाड, श्री हमीद अली        | 213   |
| शारिक, श्री शरीफुद्दीन       | 213   |
| शाल, श्री गुलाम मोहिउद्दीन   | 213   |
| शास्त्री, पंडित अलमूरुय      | 213   |
| शास्त्री, श्री प्रकाश वीर    | 213   |
| शास्त्री, श्री ब्रह्मदेव राम | 214   |
| शास्त्री, श्री भोला पासवान   | 214   |
| शास्त्री, श्री लाल बहादुर    | 214   |
| शाह, श्री कोठारदास कालीदास   | 214   |
| शाह, श्री भोगीलाल मगनलाल     | 214   |
| शाह, श्री मणिलाल चतुरभाई     | 215   |
| शाह, श्री मणिक लाल चुन्नीलाल | 215   |
| शाह, श्री मेघवीभाई पैठरज     | 215   |
| शाह, श्री मनुभाई             | 215   |
| शाह, श्री वीरन जे०           | 215   |
| शाही, श्री नागेश्वर प्रसाद   | 216   |
| शाहेदुल्ला, श्री सैयद        | 216   |
| शिल्ला, श्री शोबालेस के०     | 216   |
| शिवप्रकाशम्, श्री एस०        | 216   |
| शिव शंकर, श्री पो०           | 216   |
| शिवाजी, डा० वेलामनचिली       | 217   |
| शिशिर कुमार, श्री            | 217   |
| शुक्ला, श्री केशव प्रसाद     | 217   |
| शुक्ला, श्री चक्रपाणि        | 217   |
| शुक्ला, श्री महावीर प्रसाद   | 217   |
| शेख, श्री अब्दुल रहमान       | 217   |

|                                  | पृष्ठ |
|----------------------------------|-------|
| शेख, श्री चौस मोहिउदीन           | 217   |
| शेखावत, श्री भैरो सिंह           | 217   |
| शेखर, श्री एन० सी०               | 217   |
| शेखवलकर, श्री नारायणराव कृष्णराव | 217   |
| शेट्टी, श्री वी० पी० वासप्पा     | 218   |
| शेरखान, श्री एम०                 | 218   |
| शेरवानी, श्री मुस्तफा रशीद       | 218   |
| श्यामकुमारी देवी, श्रीमती        | 218   |
| श्रीधरन, श्री अरगिल              | 218   |
| श्रीनिवासन, श्री टी० के०         | 218   |
| श्रीनिवासन, श्री थॉमस            | 218   |
| श्रीमाली, डा० के० एल०            | 219   |
| श्रीवास्तव, डा० जे० पी०          | 219   |
| <b>स</b>                         |       |
| सकटाप्रसाद, डा०                  | 219   |
| सजीवैया, श्री डी०                | 219   |
| सतानम, श्री के०                  | 219   |
| सतोख सिंह, सरदार                 | 219   |
| सईद अहमद, श्री                   | 220   |
| सईद, मुफ्ती मोहम्मद              | 220   |
| सईद मुहम्मद, डा० वी० ए०          | 220   |
| सक्की, श्री टी० ए० मोहम्मद       | 220   |
| सकसेना, श्री मोहन लाल            | 220   |
| सकसेना, श्री हरप्रसाद            | 220   |
| सखलेचा, श्री वीरन्द्र कुमार      | 221   |
| सच्चिदानन्द, श्री                | 221   |
| सत्यथी, श्रीमती नन्दिनी          | 221   |
| सत्यचरण, श्री                    | 221   |
| सत्यनारायण, श्री मोतुरी          | 221   |
| सत्यनारायण, श्री वेणीगल्ल        | 221   |
| सत्यव्रत सिद्धान्तालकार, प्रो०   | 222   |
| सत्या वहिन, श्रीमती              | 222   |
| मनदी, प्रो० आर्इ० जी०            | 222   |
| सभू, श्री प्रकाश नारायण          | 222   |
| सरदार मिह, श्री                  | 222   |
| सरदेसाई, श्री श्रीनिवास गणेश     | 222   |
| सरिंग, श्री लेनार्ड मोलोमन       | 223   |
| सरूप सिंह, डा०                   | 223   |
| सरुगी, श्री पत्रालाल             | 223   |
| सर्वट, श्री विनायक सीताराम       | 223   |

|                              | पृष्ठ |
|------------------------------|-------|
| सक्टे, श्री विष्णु विनायक    | 223   |
| सलारिया, श्री शम्भूर अहमद    | 223   |
| सलीम, श्री मुहम्मद यूसुफ     | 224   |
| सविता बहिन, श्रीमती          | 224   |
| सहाय, श्री दयानन्द           | 224   |
| सागमा, श्री एमनमिह एम०       | 224   |
| साडिल, श्री घासीराम          | 224   |
| साठे, श्रीमती तारा रामचन्द्र | 224   |
| सादिक अली, श्री              | 225   |
| सान्याल, श्री शशाक शेखर      | 225   |
| सामन्तराय, श्री प्रभात कुमार | 225   |
| सामी, श्री वी० पी० एम०       | 225   |
| साम्बशिवम, श्री एरा          | 225   |
| सारण, श्री कलाश नारायण       | 225   |
| सालस्कर डा० वी० एच०          | 226   |
| सालिगराम, डा०                | 226   |
| सालिम अली, श्री              | 226   |
| सात्वे, श्री एन० के० पी०     | 226   |
| सावकर, श्री वी० एम०          | 226   |
| साहा, श्री सूरज मल           | 226   |
| साहू, श्री वेंकुठ नाथ        | 227   |
| साहू, श्री रजनी रजन          | 227   |
| साहू, श्री सन्तोष कुमार      | 227   |
| सिंह, श्री अजीत              | 227   |
| सिंह, राजा अजीत प्रताप       | 227   |
| सिंह, कैरेन अवधेश प्रताप     | 228   |
| सिंह, श्री आर० के० जयचन्द्र  | 228   |
| सिंह, श्री आर० के० दौरेन्द्र | 228   |
| सिंह, श्री इन्दर             | 228   |
| सिंह, श्री इन्द्रदीप         | 228   |
| सिंह, श्री इरेगवम तम्पोक     | 229   |
| सिंह, ठाकुर कामाख्या प्रसाद  | 229   |
| सिंह, श्री के० एन०           | 229   |
| सिंह, वायू गोपीनाथ           | 229   |
| सिंह, श्री घनश्याम           | 229   |
| सिंह, श्रीमती जहानारा जयपाल  | 229   |
| सिंह, श्री जे० के० पी० एन०   | 230   |
| सिंह, श्री आगोम तौम्पोक      | 230   |
| सिंह, श्री डब्ल्यू० कुलविधु  | 230   |
| सिंह, श्री डी० पी०           | 230   |
| सिंह, श्री त्रिभुवन नारायण   | 230   |

|                                | पृष्ठ |
|--------------------------------|-------|
| सोखे, डा० साहिब सिंह           | 245   |
| सोनी, श्रीमती अम्बिका          | 245   |
| सोमपाल, श्री                   | 245   |
| सोमसुन्दरम, श्री जी० पी०       | 245   |
| सोलकी, श्री गोपाल सिंह जी०     | 245   |
| सोलकी, श्री माधव सिंह          | 246   |
| सोलोमन, श्री पी० ए०            | 246   |
| स्वर्ण सिंह, सरदार             | 246   |
| स्वू, श्री स्कातो              | 246   |
| स्वामी, श्री एन० आर० एम०       | 246   |
| स्वामी, श्री सुब्रह्मण्यम      | 246   |
| स्वामीनाथन, श्री जी०           | 247   |
| स्वामीनाथन, श्री वी० वी०       | 247   |
| स्वेल, श्री जी० जी०            | 247   |
| ह                              |       |
| हसपाल, श्री हरवेन्द्र सिंह     | 247   |
| हसरज, रायजादा                  | 247   |
| हक, श्री (मौलाना) असरारुल      | 247   |
| हकीम अली, ख्वाजा               | 248   |
| हनीफ, श्री मोहम्मद             | 248   |
| हनुमनतप्पा, श्री हेच०          | 248   |
| हबीबुल्लह, श्रीमती हामिदा      | 248   |
| हरमोहन सिंह, चौधरी             | 248   |
| हरिदास, श्री सी०               | 248   |
| हरिप्रसाद, श्री वी० के०        | 249   |
| हरि सिंह, चौधरी                | 249   |
| हवानूर, श्री एल० जी०           | 249   |
| हासदा, श्री फणोन्द्र नाथ       | 249   |
| हाथी, श्री जय सुख लाल          | 249   |
| हार्डिकर, डा० नारायण सुब्बाराव | 249   |
| हाशमी, श्री शमीम               | 250   |
| हाशमी, श्री सैयद अहमद          | 250   |
| हाशिम, श्री एम० एम०            | 250   |
| हिफेई, श्री                    | 250   |
| हिमतसिग्का, श्री पी० डी०       | 251   |
| हिम्मत सिंह, श्री              | 251   |
| हीराचद, श्री डी०               | 251   |
| हुसैन, श्री एम० एफ०            | 251   |
| हंसमैन, श्रीमती मोना           | 251   |
| हेगजर, श्री जॉय भद्रा          | 251   |